



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

वीरवार, 30 सितम्बर, 2021/08 आश्विन, 1943

हिमाचल प्रदेश सरकार

निर्वाचन विभाग

38-एस.डी.ए. कॉम्प्लैक्स, कसुम्पटी, शिमला-171009

अधिसूचना

दिनांक: 28 सितम्बर, 2021

संख्या 3-12/2021-ई0एल0एन0.—संख्या 3-12/2021-ई.एल.एन.-1260 भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2021/रा0 दल अनु0-III, दिनांक 23 सितम्बर, 2021 तदनुसार 1 आश्विन, 1943 (शक) जो कि निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन

आयोग की अधिसूचना संख्या 56/2019/रा0 दल अनु0-III, दिनांक 15 मार्च, 2019 व समय-समय पर यथा संशोधित उपरोक्त अधिसूचना के अतिक्रमण के सम्बन्ध में है, को अंग्रेजी रूपान्तर सहित जनसाधारण की सूचना हेतु प्रकाशित किया जाता है।

आदेश से,

सी0 पॉलरासू,
मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड,
नई दिल्ली-110001

संख्या : 56/2021/रा0दल अनु0-III

तारीख : 23 सितम्बर 2021
1 अश्विन 1943 (शक)

अधिसूचना

यतः भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में जारी, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दलों, रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दलों और मुक्त प्रतीकों की सूची को विनिर्दिष्ट करने वाली, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी अधि-सूचना संख्या 56/2019/रा0द0अनु0-III, तारीख 15 मार्च, 2019 को अद्यतन करने का निर्णय लिया है;

2. अतः अब निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के पैरा 17 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र में, असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उपखण्ड (iii) में प्रकाशित तारीख 15 मार्च, 2019 की, समय-समय पर यथा संशोधित, अपनी उपर्युक्त अधिसूचना संख्या 56/2019/रा0द0अनु0-III के अतिक्रमण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है:-

- (क) सारणी-I में, राष्ट्रीय दल और उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक और उनके मुख्यालयों के डाक-पते;
- (ख) सारणी-II में, राज्यीय दल राज्य या वे राज्य जहाँ ये राज्यीय दल हैं और ऐसे राज्य या राज्यों में उनके लिए क्रमशः आरक्षित प्रतीक और उनके मुख्यालयों के डाक-पते;
- (ग) सारणी-III में, रजिस्ट्रीकृत अमान्यताप्राप्त राजनैतिक दल और उनके मुख्यालयों के डाक-पते; और
- (घ) सारणी-IV में, मुक्त प्रतीक

सारणी-1**राष्ट्रीय दल**

क्रम सं.	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण	30-बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता-700026, पश्चिम बंगाल
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम राज्य को छोड़कर जहाँ इनके अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची से कोई एक प्रतीक चुनना पड़ेगा)	4, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली-110001
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	6-ए, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली - 110002
4.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	बाल और हँसिया	अजय भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-110002
5.	कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया (माक्सिसिस्ट)	हथौड़ा, हँसिया और सितारा	ए. के. गोपालन भवन, 27-29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्किट), नई दिल्ली-110001
6.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली-110011
7.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी	बंगला नं.-1, कैनिंग लेन, (रवि शंकर शुक्ला लेन), फिरोजशाह रोड के पास, नई दिल्ली-110001
8.	नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	प्लॉट नं० 90ए, लाचाउमिरी जिला, पूर्वी खासी हिल्स जिला, शिलांग-793001

सारणी-॥

राज्यीय दल

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित प्रतीक	पता
1	2	3	4	5
1	आन्ध्र प्रदेश	1. तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	मकान नं. 8-2-220/110/1/3, रोड नं. 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश-500034
		2. तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन0 टी0 आर0 भवन, रोड नं0-2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033, (आन्ध्र प्रदेश)
		3. युवाजना श्रमिका रायथु काँग्रेस पार्टी	छत का पंखा	मकान नं. 8-2- 269/एस/98, सागर सोसाईटी रोड नं. 2, हैदराबाद-500034 आन्ध्र प्रदेश
2	अरुणाचल प्रदेश	1. पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश	मक्का	के. रिन्गु कॉम्प्लेक्स, जी- एक्सटेंशन रोड, नहारलगुन-791110 अरुणाचल प्रदेश
		2. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003
		3. जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली-110001
3.	असम	1. ऑल इण्डिया यूनायटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट	ताला और चाबी	नं. 3, फ्रेन्ड्स पथ, हातिगांव, गुवाहाटी-781038 (असम)
		2. असम गण परिषद्	हाथी	गोपीनाथ बोरदोलाई रोड, गुवाहाटी-781001 (असम)
		3. बोडोलैण्ड पीपल्स फ्रंट	नांगोल	मुख्य कार्यालय कोकराझार, बी.टी.सी., पो. ऑ. कोकराझार, असम पिन-783370
		4. युनाईटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल	ट्रैक्टर चलाता किसान	जे.डी.रोड, वार्ड नं. 4, पोस्ट-कोकराझार, जिला- कोकराझार, बीटीएडी, असम-783370

4.	बिहार	1. जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली-110001
		2. लोक जन शक्ति पार्टी	बंगला	12, जनपथ, नई दिल्ली-110011
		3. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी.पी.हाऊस रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
		4. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	“छत का पंखा”	मौजा - ढक्कनपुरा, मोहल्ला- मोहनपुर पुनाईचक, नियर हडताली मोड, बोरिंग कैनाल रोड पटना-800001, बिहार
		5. कम्यूनिष्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट - लेनिनिस्ट) (लिबरेशन)	तीन सितारों वाला झंडा	यू-90, शक्करपुर, दिल्ली - 110092
5.	छत्तीसगढ़	जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे)	वर्ग में हल जोतता किसान	श्री बालाजी काम्प्लेक्स, गाँधी मैदान के पास खमतराईरायपुर छत्तीसगढ़ - 492001
6.	गोवा	1. महाराष्ट्रवादी गोमांतक	शेर	फ्लैट नं०.102, ब्लॉक- ड्युक्ल हेवेन, एस०टी०- इनेज़, पणजी- 403001
		2. गोवा फॉरवर्ड पार्टी	नारियल	शीश महल, दूसरी मंजिल, कार्यालय 4, कोंबा, मरगाँव, गोवा - 403601
7.	हरियाणा	1. इंडियन नेशनल लोक दल	चश्मा	नं.80, सेक्टर - 9, चण्डीगढ़ - 160009
		2. जननायक जनता पार्टी	चाबी	एस.सी.ओ. 20, दूसरा तल, जिला व्यापार केन्द्र, हुडा मार्किट, सेक्टर- 56, गुरुग्राम, हरियाणा- 122001

8.	जम्मू व कश्मीर	1. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल काँफ्रेंस	हल	1) शेर-ए-कश्मीर भवन रेजीडेंसी रोड, जम्मू, (जम्मू व कश्मीर)-180001 2) नवाई सुब्ह कम्पलेक्स, जीरो ब्रिज, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर)-190001
		2. जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल पेंथर्स पार्टी	साईकिल	17, वी. पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
		3. जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	स्याही की दवात और कलम	2-इम्पोरियन लेन, रेसीडेन्सी रोड, श्रीनगर-190001
9.	झारखण्ड	1. आजसु पार्टी	केला	एच-59, हरमु हाउसिंग कॉलनी, पी.एस. – अरगोड़ा, पोOहरमु, राँची, झारखण्ड-834002
		2. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर-कमान	बैरियातू रोड, राँची-834008 (झारखण्ड)
		3. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13 वी. पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
10.	कर्नाटक	1. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003
11.	केरल	1. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई कृषक महिला	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली-110003
		2. केरल काँग्रेस (एम)	दो पत्तियाँ	स्टेट कमेटी ऑफिस, फायर स्टेशन के पास, कोट्टायम, (केरल)-686001
		3. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग	सीढ़ी	कायदे मिल्लत मंजिल, 36 मारियाकयार लेब्बाई स्ट्रीट, चेन्नई-600001, तमिलनाडु

		4. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा एवं बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट (मुजफ्फर अहमद सारनी), कोलकाता-700016, पश्चिम बंगाल
12.	महाराष्ट्र	1. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	रेलवे इंजन	कृष्ण कुंज, एम. बी. राउत रोड, शिवाजी पार्क, मुंबई-400028, महाराष्ट्र
		2. शिवसेना	तीर-कमान	शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-400028 (महाराष्ट्र)
13.	मणिपुर	1. नागा पीपुल्स फ्रन्ट	मुर्गा	पोस्ट बॉक नं. 565, कोहिमा-797001, नागालैण्ड
		2. पीपुल्स डेमोक्रेटिक अलाइन्स	मुकुट	रागैलांग, इम्फाल-795001, मणिपुर
14.	मेघालय	1. यूनायटेड डेमोक्रेटिक पार्टी	ड्रम	मावलाइ नोनगलाम, शिलांग-793002 (मेघालय)
		2. हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	शेर	केन्चस ट्रेस, लाबान, शिलांग-739004 मेघालय
		3. पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	मोमबतियाँ	एच.न.-7/63, लचुमिरे शिलांग, मेघालय-793001
15.	मिजोरम	1. मिजो नेशनल फ्रंट	सितारा	जनरल हेडक्वार्टर्स-जरकावत आइजॉल (मिजोरम)-796001
		2. मिजोरम पीपुल्स काँफ्रेंस	बिजली का बल्ब	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजॉल-796001, (मिजोरम)
		3. जोरम नेशनलिस्ट पार्टी	सूर्य (किरण रहित)	जनरल हेडक्वार्टर्स, ट्रेजरी स्कायर, आइजाल-796001 (मिजोरम)
16.	नागालैंड	1. नागा पीपुल्स फ्रंट	मुर्गा	पोस्ट बॉक्स नं. 565, कोहिमा-797001 (नागालैंड)

		2. नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी	ग्लोब	मकान नं 155(1), वार्ड नं.4, चुमुकेदीमा, दीमापुर, नागालैंड - 797103
17.	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली	आम आदमी पार्टी	झाड़ू	206, राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली - 110002
18	ओड़िशा	बीजू जनता दल	शंख	नवीन निवास, एरोडम गेट, भुवनेश्वर-751009 (उड़ीसा)
19	पुडुचेरी	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	दो पतियाँ	275, अब्बी अक्वाई षणमुगम सलाई, रोयापेट्टह, चेन्नई-600014, (तमिलनाडु)
		2. ऑल इंडिया एन. आर. काँग्रेस	जग	65/6, ईस्ट कोस्ट रोड, बन्नावती पेट्रोल पंप के बगल में, पक्कामुदयानपेट, पुडुचेरी-605008
		3.द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम', 268-269, अन्ना सलाई, तेनमपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु)
		4.पट्टालि मक्कल काँची	आम	63, नाट्टू मुथू नाइकेन स्ट्रीट, वनीया तेयनामपेट, चेन्नई-600018, तमिलनाडु
20.	पंजाब	1. शिरोमणि अकाली दल	तराजू	बिल्डिंग ने. 6, सैक्टर 28 बी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़-160028
		2.आम आदमी पार्टी	झाड़ू	206, राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग, नई दिल्ली - 110002
21.	राजस्थान	राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक पार्टी	बोतल	प्लॉट नं. 26-27, आउट ऑफ खसरा 170/151, तेजा कॉलोनी, निकट शीतला माता मंदिर, मानसर, जिला- नागौर, राजस्थान- 341001
22.	सिक्किम	1. सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट	छाता	अपर देवराती, गंगटोक पूर्व सिक्किम-737101

		2. सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा	टेबल लैंप	काँनवाय ग्राउंड पो0ऑ0-टैडोंग गंगटोक पूर्व सिक्किम सिक्किम-737102
23.	तमिलनाडु	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	दो पत्तियाँ	275, अच्चाई षण्मुगम सलाई, रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014 (तमिलनाडु)
		2. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम' 268-269, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई-600018 (तमिलनाडु)
		3. देसिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम	नगाड़ा	125/7, जवाहरलाल नेहरू सलाई (100 फीट रोड) कोयमबेडु चेन्नई-600107, तमिलनाडु
24.	तेलंगाना	1. ऑल इंडिया मजलिस-ए-इतेहादुल मुस्लिमीन	पतंग	दारुस्सलाम बोर्ड, हैदराबाद (तेलंगाना)- 500001
		2. तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	मकान नं-8-2-220/110/1/3, रोड नं 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, तेलंगाना
		3. तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस, एन.टी.आर. भवन, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500033 (आंध्र प्रदेश)
		4. युवाजना श्रमिका रायथू कांग्रेस पार्टी	छत का पंखा	मकान नं-8-2-269/S98, सागर सोसाइटी, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034, आंध्र प्रदेश
25.	त्रिपुरा	इंडिजिनियस पिपुल्स फ्रन्ट ऑफ त्रिपुरा	दाव	ओल्ड काली बाड़ी रोड, कृष्णानगर, अगरतला-799001. त्रिपुरा
26.	उत्तर प्रदेश	1. राष्ट्रीय लोक दल	हैंड पम्प	406, वी.पी.हाउस, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली-110001
		2. समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन, नई दिल्ली-110001

27.	पश्चिम बंगाल	1. ऑल इण्डिया फॉरवर्ड ब्लॉक	शेर	नेताजी भवन, T-2235/2, अशोक नगर, फैज़ रोड, करोल बाग, नई दिल्ली – 110005
		2.रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी	फावड़ा और बेलचा	37, रिपन स्ट्रीट, (मुजफ्फर अहमद सरनी) कोलकाता- 700016, (पश्चिम बंगाल)

सारणी-III**रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त दल**

क्रम सं.	रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल	मुख्यालय का पता
1	आदर्श भारत निर्माण दल	ग्राम- भैणी भैरों, तहसील- महम, जिला- रोहतक, हरियाणा- 124112
2	आदर्श जनता सेवा पार्टी	रणजीत हाउस, डिडवाड़ा रोड, सालवन, जिला – करनाल, हरियाणा
3	आदर्श जनहित पार्टी	हाथी वाली गली म0 नं0 – 22, वार्ड नं0 -9, आसफाबाद, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश – 283203
4	आदर्श मिथिला पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ठहरा गोपालपुर, वाया दिघरा, जिला – समस्तीपुर, बिहार – 848115
5	आदर्श संग्राम पार्टी	डी/एस- 1252, सेक्टर- डी, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012.
6	आदर्शवादी काँग्रेस पार्टी	ई0 डब्ल्यू0 एस0 -04, कौशलपुरी कालोनी, फेस-2, निकट पानी टंकी, ग्रामसभा-गद्दोपुर, विकास खण्ड-मसौधा, तहसील-सदर, जिला-फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
7	आधी आबादी पार्टी	डी-1385/7, डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
8	आदी भारत पार्टी	116, बोपल हॉट एण्ड होम, इंसाईड सनसिटी, बोपल, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
9	आदिजन मुक्ति सेना	प्रथम तल, 21 दुर्गेश विहार, जे. के. रोड, भोपाल (मध्य प्रदेश)।
10	आदिम समाज पार्टी	म0 नं0 – 84, ग्राम – मवैया कलां, पोस्ट – नारीबारी, शंकरगढ़, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
11	आदिवासी सेना पार्टी	ग्राम व पोस्ट-रूपवेल, (निशाल,फलिया), ता0 वनसदा, जिला-नवसरी- 396 321, गुजरात ।
12	आजाद भारत पार्टी (डेमोक्रेटिक)	ग्राम+पोस्ट – बेहटा बुजुर्ग, वि0 ख0 – भीतरगांव, जिला – कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
13	आम आदमी मुक्ति मोर्चा	4, यू.एफ्. बाबर प्लेस, टोडरमल रोड, बंगाली मार्केट के पास, नई दिल्ली-110001.

14	आम आदमी संघर्ष पार्टी (एस)	डी- 489, गली नं.- 7, मुकन्दपुर एक्स्टेंशन, पार्ट- 1, नई दिल्ली- 110042
15	आम अधिकार मोर्चा	मनोज मंडल, आदर्श नगर, चेठारिया पीर, वार्ड नं.- 15, पोस्ट ऑफिस व थाना- कहलगांव, जिला- भागलपुर, बिहार- 813203
16	आम भारत पार्टी	अरविंद कुमार दिक्षित नं.3, तीसरी मंजिल, दूतीय विल्डिंग, अम्बिका कम्पलेक्स, दामोदर रिया, तालुका-इंदर, जिला- साबरकांठा गुजरात- 383430.
17	आम भारतीय पार्टी	103-रेडियो कॉलोनी, इंदौर, मध्य प्रदेश-452001
18	आम दल	प्लाट/भवन नं0 - 191, बुद्धा एन्कलेव, लोहिया नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
19	आम हिन्दुस्तानी पार्टी	गांव- भगौती दूबे का भिस्वाँ, पोस्ट- चौरी चौरा, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273201.
20	आम जन मजदूर पार्टी	भदपर चौराहा, भदपर, तहसील- लहरपुर, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश।
21	आम जन नीति पार्टी	वार्ड नं. 8, सेक्टर नं. 12एल, जी.जी.एस.पब्लिक स्कूल के पास, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान- 335512
22	आम जन पार्टी (सेक्यूलर)	मीना वाटिका, माँ दुर्गानगर, ग्राम- चकसकरा, पोस्ट- चन्द्रालय, थाना- हाजीपुर सदर, जिला- वैशाली बिहार ।
23	आम जनता पार्टी	ग्राम-जीगीना, डाकघर - मंझरिया विक्रम, जिला-बस्ती, उत्तर प्रदेश
24	आम जनता पार्टी (सर्वजन हिताय)	243-244, द्वितीय तल, राधा चैम्बर्स, प्लॉट नं0 - 9, जी - ब्लॉक, कम्यूनिटी सेंटर, विकासपुरी, दिल्ली - 18
25	आम जनक्रान्ति पार्टी	ग्राम व पोस्ट - भगीपुर, शिकोहाबाद रोड, मॉडर्न इंगलिश स्कूल के पास, जिला - एटा, उत्तर प्रदेश - 207001
26	आम जनमत पार्टी	एच.आई.जी.फ्लैट नं0 7 एच.एफ.-25, बहादुरपुर हाउसिंग कॉलोनी, पटना, बिहार- 800026
27	आम जनशक्ति पार्टी	डब्ल्यू0जेड0-जे-62, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059
28	आम जनता पार्टी (इंडिया)	रानीपुरवा प्राइमरी स्कूल के पीछे, जानकी नगर, पोस्ट- बस स्टाप, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश ।
29	आम जनता पार्टी डेमोक्रेटिक	हाऊस नं. 1403, बेला, वार्ड नं. 4, ग्राम पंचायत बेला, तहसील- उमरेड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 441115
30	आम जनता पार्टी राष्ट्रीय	फ्लैट नं0 - 804, 8वाँ तल्ला, घरौंदा कम्पलेक्स, जगदेव पथ मोड़, बेली रोड, पटना, बिहार - 800014
31	आम लोक पार्टी युनाइटेड	मकान सं.328, गली नं.4, नेताजी पार्क हैबोवाल कलां, लुधियाना, पंजाब- 141001
32	आम नागरिक पार्टी	ग्राम - बौल्ला मजूरपुर, पोस्ट - कीरतपुर निमाना, ब्लॉक - गौण्डा, तहसील - इगलास, जिला - अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।
33	आम नागरिक युवा पार्टी	ग्राम- नल्हड़, डाकखाना - नल्हड़, तहसील व जिला- नूह, हरियाणा- 122107
34	आमजन एकता पार्टी	मोहल्ला-मुंशीपुरा, तहसील के पास-कस्बा-नकुड़, तहसील और थाना-

		नकुड़, जिला-सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247342
35	अनैथिनथिया जनानायका पथुकप्पु कजागम	1/47बी, जे.एस.एम. कैथेडल रोड, इट्टेरी, जिला- तिरुनेलवेली तमिलनाडु- 627007
36	आप और हम पार्टी	वार्ड नं. 24, मकान नं. 714/647, मोहल्ला- बसन्ती गली, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार
37	आप सबकी अपनी पार्टी	विनायका हाईट मेन रोड पर, तारबहार, वार्ड नं. 15, बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495001
38	आपका गणतंत्र पार्टी	वेंकट वार्ड -13, गली नंबर 2, शास्त्री कॉलोनी, कटनी, मध्य प्रदेश-483501
39	आपका हमारा पार्टी	ग्राम-महुडर, पोस्ट - रेवाली, जिला - हजारीबाग, झारखण्ड-825301
40	आपकी अपनी अधिकार पार्टी	मकान सं० - 381/5, नई पर्वतिया कॉलोनी, सारन स्कूल रोड, महादेव चौक, गांव - सारन, एन.आई.टी. फरीदाबाद, हरियाणा ।
41	आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स)	खसरा नं. 19/26, नियर अमृत विहार, मेन रोड बुराडी, बुराडी, नई दिल्ली- 110084
42	अपना पंजाब पार्टी	मकान नं० - 2442, फेज -II, सेक्टर - 65, एस.ए.एस. नगर, मोहाली, पंजाब ।
43	अपनी सरकार पार्टी	6/शान्तिकुंज सोसायटी, गायत्री मंदिर के सामने, नेशनल हाईवे, कलोल, जिला- गाँधीनगर, गुजरात-382721
44	आपनी डेमोक्रेटिक पार्टी	धानी अमरुद के बाग वाली, धौलपुर रोड, ग्राम- भोडिया खेडा, तहसील व जिला- फतेहाबाद, हरियाणा-125050
45	आपसी सहयोग पार्टी	ई-737, ई-ब्लॉक, जे.जे. कॉलोनी, मंगोलपुरी, दिल्ली-110083
46	आरक्षण विरोधी पार्टी	डीटी-146, तिरखा कॉलोनी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004, हरियाणा ।
47	आर्थिक समानता पार्टी	189, बी ब्लॉक, गली नं० 4/6, करावल नगर, दिल्ली-110094.
48	आर्थिक विकास पार्टी	नील कण्ठ धाम मठ जिन्दा नागा समाधि, ग्राम- किन्तुखेड़ी, पोस्ट- झारडा, तहसील- मल्हारगढ़, जिला- मंदसौर, मध्य प्रदेश- 458553
49	आर्थिक व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	मकान संख्या - 166, गाँव- तेजा का पूरा, अब्दुलपुर खास, पोस्ट- हरिसेन गंज, मऊ, आइमा, थाना- सोराऊं, तहसील- सोराऊं, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 226020
50	आस पंजाब पार्टी	1901, 1902, चौक शक्ति नगर, अमृतसर, पंजाब-143001
51	आसरा लोकमंच पार्टी	म्हाडा कॉलोनी, गाला क्र.683, गट क्र.74, देवलाई, ता. व जि. औरंगाबाद, महाराष्ट्र - 431001
52	आवाम अधिकार जागरण पार्टी	ग्राम - सरोखनपुर, निकट सरकारी अस्पताल (CHC), पोस्ट - बदलापुर, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222125
53	आजाद समाज पार्टी (कांशी राम)	मकान नं० 180, गली नं० 3/22, (खसरा नंबर-265), गोकुल पुर गांव, हक्का शाहदरा दिल्ली-110094
54	आजादी का अंतिम आंदोलन दल	एम. आई. जी. डी.- 27, शैलेन्द्र नगर, रायपुर-492001 छत्तीसगढ़ ।
55	अभय समाज पार्टी	ग्राम - अन्धया, पोस्ट - हरपुर तिवारी, तहसील - सदर महाराजगंज, जिला - महाराजगंज, उत्तर प्रदेश ।

56	अभिनव राजस्थान पार्टी	सी-14, गांधी नगर, मेड़ता सिटी, जिला- नागौर, राजस्थान- 341510
57	अ-चिक नैशनल काँग्रेस (डेमोक्रेटिक)।	डाकोपगरे (ऑफिस ऑफ इंसपेक्टर ऑफ स्कूल के सामने) तुरा, वेस्अ गारो हिल्स, मेघालय-794101
58	एक्शन पार्टी	गाँव व पोस्ट- मैंगलगंज, मेन मार्केट, निकट हरिचरणेश्वर महादेव मंदिर, ब्लॉक- पसगवां, जनपद- लखीमपुर(खीरी), उत्तर प्रदेश।
59	एक्शन पार्टी फॉर पीपुल्स प्रोग्रेस	नं. 13/7, ऐश्वर्या बिल्डिंग, शॉप नं.- 11, तीसरा क्रॉस स्ट्रीट, ट्रस्टपुरम, कोडामबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600024
60	आदर्श जन शक्ति पार्टी	हाउस नं० 10204, अरेई वाली गली, मान आटो स्टैण्ड, दुर्गा पुरी, हाई बोवाल कलान, लुधियाना, पंजाब ।
61	आदर्श जनकल्याण दल	ग्राम-चन्दुआरा,पोस्ट-जट डुमरी,थाना-पुनपुन,जिला-पटना,बिहार-804453
62	आदर्श जनता पार्टी	ग्राम – कुढी, पोस्ट - कटनाहर्षा, आदर्श नगर, शिकोहाबाद, जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283135
63	आदर्श लोक दल	आबू नगर, पुलिस थाना फतेहपुर सिटी के सामने, जिला-फतेहपुर, (उत्तर प्रदेश) ।
64	आदर्श मानवतावादी पार्टी	डी.एस./919, सेक्टर-सी, सीतापुर रोड योजना, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
65	आदर्श न्याय रक्षक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मातौल, तहसील-खरगापुर, जिला- टीकमगढ़, मध्य प्रदेश- 472115
66	आदर्श पोलिटिकल पार्टी	405, कुन्दन भवन कोमर्शियल काम्पलैक्स, आजादपुर, दिल्ली-110033.
67	आदर्श राष्ट्रीय विकास पार्टी	मकान नं० 1369, सुरक्षा-1, सैक्टर-4, ई०एल०डी०सी०ओ० रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
68	आदर्श समाज पार्टी	बी-505, कमला नगर आगरा, उत्तर प्रदेश ।
69	आदर्श व्यवस्था पार्टी	सुगही वार्ड नं. 12, गांव- बंजरिया, टाउन एरिया सलेमपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश -274509
70	आदर्शवादी दल	जवाहर रोड, खुर्जा-203136, जिला-बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) ।
71	आदर्शवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं. 81, मोहल्ला- चित्रसाई,नियर अशोक इंटर कालेज के पास, सदर जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222001
72	अधिकार पार्टी	234,खिड़की अलीबेग, रेकाबगंज, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224001 ।
73	अधिकार विकास पार्टी	शिवाला छाया मकान नं० – 10/571, अरुण नगर, अल्प आय वर्ग समिति, वार्ड नं० – 10, तहसील – हुजूर, जिला - रीवा, मध्य प्रदेश ।
74	आधुनिक भारत पार्टी	299ए, नानकारी आई.आई.टी, कानपुर महानगर, कानपुर उत्तर प्रदेश-208016
75	आधुनिक विकासवादी पार्टी	डी-1/425, सेक्टर – एच,एल०डी०ए० कॉलोनी कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
76	आदिम भारतीय दल	बेलदार भवन, कूरी बाजार मार्ग, (बलूआ) कूरी बाजार, जिला-गोरखपुर-273404. उत्तर प्रदेश ।
77	आदिवासी जन कल्याण	द्वारा दक्षिण गुजरात गामित समाज सेवा ट्रस्ट पानवाडी, गुजरात ट्रेडर्स

	पार्टी	के पास, व्यारा, जिला-तापी, गुजरात-394650 ।
78	अद्वैत ईशावास्यम् काँग्रेस	गुरुआईन वाडी आश्रम, रीवा नाका, मैहर, जिला-सतना, मध्य प्रदेश ।
79	अगर जन पार्टी	वी-949, अग्रवाल वाली गली, मेन कृष्णा गली के पास, मौजपुर दिल्ली-110053.
80	अगिला इंडिया मक्कल कझगम	नं 3, द्वितीय क्रॉस, वल्लालर नगर, पेथूचेटीपेट, लॉस्पेट पोस्ट, पुडुचेरी-605008
81	अहिला इण्डिया धायगा मक्कल मुन्नैतरा काँची	नं0 1/407, अय्यर कॉलोनी, थानाक्कनकुलम, तिरुनगर, मदुरै, तमिलनाडु - 625006
82	अहिंसा सोशलिस्ट पार्टी	डी0 नं0 - 5/125, वेस्ट पालापट्टी, पोस्ट - सेलप्पमपट्टी, तालुक व जिला - नामक्कल, तमिलनाडु - 637019
83	अहिंसा दल	सिकरवार सदन, एल-1/108,109 सैक्टर-बी, प्रियदर्शनी कॉलोनी, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
84	अहिंसा समाज पार्टी	प्रियदर्शनी कॉलोनी, वृद्धा आश्रम के पास, वार्ड नं0 - 47, छिंदवाडा, तहसील व जिला - छिंदवाडा, मध्य प्रदेश- 480001
85	अहिंसावादी जनता पार्टी	एन.टी.पी.सी. मुख्य गेट के पास, नौफरी, ग्राम-लोधई, शमशाबाद रोड, आगरा, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश
86	ऐहरा नेशनल पार्टी	1/24, एस.एफ. के एम टी भवन, गली नं0 2, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
87	एम पॉलिटिकल पार्टी	543, बाबासाहेब आंबेडकर सोसायटी, रूम नं0 - 179, सीईएन नं0 - 301, कैंप्टन प्रकाश पट्टे मार्ग, कफ परेड, कोलाबा, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400005
88	एम्स पार्टी	आजाद चौक, पिपराही बाजार, पोस्ट-पिपराही, जिला-शिवहर, बिहार-843334 ।
89	अजेय भारत पार्टी	ए-14, मोहन एस्टेट्स, मथुरा रोड, नई दिल्ली ।
90	अखंड भारत महासंघ सर्वहारा क्रांतिकारी पार्टी	सनफूल, कोटा-1, (राजस्थान) ।
91	अकाली दल (1920)	296, सैक्टर - 10 - ए, चण्डीगढ़-160010 ।
92	अखण्ड भारत चेतना दल	प्लॉट क्रमांक- 9, खसरा नं. 144/2, साई कॉलोनी, भाईजान रिक्षे वाले के पीछे, न्यू कॉलोनी, गढ़ा, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482003
93	अखंड भारत जनप्रिय पार्टी	गणेश शर्मा,रोड नं0-3,बजरंगपुरी,भगत सिंह पथ,गुलजारबाग,पटना बिहार-800007
94	अखंड भारत नेशनल पार्टी	22-3-947/33/ए/1/1 मेगा सिटी नं. 125, पुरानी हवेली, सेटविन ऑफिस के सामने, हैदराबाद - 500002, आन्ध्र प्रदेश ।
95	अखण्ड भारत पार्टी	47 - रुकमिणी विहार, मण्डी समिति के सामने,बाई पास, मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
96	अखंड भारत समाज पार्टी	ई-14, फर्स्ट फ्लोर, डी.डी.ए.मिनी मार्किट, सुल्तानपुरी, दिल्ली-110086
97	अखण्ड भारत सम्राज्य पार्टी	एफ-305, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, अकबरपुर,भोपाल, मध्य प्रदेश-462042

98	अखण्ड भारत स्वतंत्र पार्टी	ग्राम- पटनी, पोस्ट व थाना- चिकलाना, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश।
99	अखंड भारत विकास पार्टी	प्लॉट नं० – 100, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247001
100	अखण्ड भारतीय आवाज	ए-54 मानेक नगर सी. एच० एस० लिमिटेड, एम०जी० रोड कान्डीवाली (पश्चिम), मुम्बई – 400067, महाराष्ट्र।
101	अखण्ड भारतीय कवच पार्टी	बी-33, अशोक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
102	अखंड भारतीय युवा पार्टी	421/6, ब्लॉक –बी, लक्ष्मी विहार, बुरारी, नई दिल्ली- 110005.
103	अखण्ड देशम पार्टी	6, द्वारिकापुरी, सैक्टर – 8, इन्दिरा नगर, लखनऊ – 226016 (उत्तर प्रदेश)
104	अखण्ड हिन्द पार्टी	बी-13, रफीक कम्पाउन्ड, किशन नगर, पश्चिम द्रुतगति मार्ग, दहीसर (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र 400068
105	अखण्ड झारखण्ड पीपुल्स फ्रंट	ग्राम व पो. आ. – गिद्धौर, जिला-जमुई, बिहार-811305.
106	अखण्ड मानव पार्टी	मकान नं.सी-20, नीलबड़ बालाजी नगर, फेस-1, तहसील-हुजूर, जिला- भोपाल, मध्य प्रदेश-462044
107	अखण्ड राष्ट्रवादी पार्टी	7/5/67/2, विकास नगर, सेक्टर - 7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226002 ।
108	अखंड राष्ट्रीय रक्षक पार्टी	बी-267, श्री जीवराज पार्क, नारायण नगर के पास, पोस्ट-खोडयार नगर, अहमदाबाद गुजरात- 382352
109	अखण्ड समाज पार्टी	2/45, बालु अड्डा, संजय गांधी नगर, पाग नारायण रोड, थाना- हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
110	अखण्ड समता पार्टी	फ्लैट नं. आर- 202, टैरा ग्रीन्स, अलवर बाईपास भिवाड़ी, तहसील- तिजारा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301019
111	अखिल भारत हिन्दू महासभा	मंदिर मार्ग, नई दिल्ली- 110001.
112	अखिल भारत समग्र क्रान्ति पार्टी	राजेन्द्र पाण्डे का घर, डा० सलीम अहमद की गली के सामने, कटरा, बस्ती, जिला-बस्ती, पिन कोड सं० 272001, उत्तर प्रदेश ।
113	अखिल भारतीय अमन कमेटी	1/9986, वैस्ट गोरख पार्क, शाहदरा, दिल्ली-110032.
114	अखिल भारतीय अशोक सेना	117/0/117, गीता नगर, कानपुर-208025, (उत्तर प्रदेश) ।
115	अखिल भारतीय अत्यंत पिछड़ा संघर्ष मोर्चा पार्टी	ट्रांसफार्मर लेन, उत्तरी नवादा, आरा, जिला-भोजपुर, बिहार-802301.
116	अखिल भारतीय आजाद लोकहित काँग्रेस पार्टी	खाडी मौहल्ला, खटीकों का चौक, भिवानी, हरियाणा ।
117	अखिल भारतीय आजाद पार्टी	फौव्वारा तिराहा, नई सडक, शहजादपुर, जनपद – अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
118	अखिल भारतीय काँग्रेस दल (अम्बेडकर)	च-1, कुम्भा नगर, हाऊसिंग बोर्ड, चितौड़गढ़-312001 (राजस्थान) ।

119	अखिल भारतीय दलित उत्थान पार्टी	ए-201/2, गली नं 01, विकास मार्ग, शक्करपुर, दिल्ली-110092.
120	अखिल भारतीय देश भक्त मोर्चा	पुरन्दरपुर, जी.पी.ओ.पटना, (बिहार) ।
121	अखिल भारतीय गरीब पार्टी	गाँव-कुराना, पोस्ट-सिम्मावाली, जिला-गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
122	अखिल भारतीय गोरखालीग	महावीर बिल्डिंग, लाडेन्ला रोड, दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।
123	अखिल भारतीय हिन्दू क्रांति पार्टी	कृष्णा भवन,सेमरिया चौक, सतना,मध्य प्रदेश ।
124	अखिल भारतीय जन संघ	टी-14, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -2, नई दिल्ली-110020.
125	अखिल भारतीय जनशक्ति पार्टी	2538,हडसन लाईन,जी.टी.बी.नगर,दिल्ली-110009
126	अखिल भारतीय किसान मजदूर मोर्चा	श्री महात्मा गाँधी विचार केन्द्र, उलदान, झाँसी (उत्तर प्रदेश) ।
127	अखिल भारतीय क्रान्ति दल	7 प्रेम कॉलनी, प्रगति पथ, प्रथम तल, कल्याण नगर, हनुमान मन्दिर के पीछे,टोंक रोड, जयपुर-302011, राजस्थान ।
128	अखिल भारतीय लोकतंत्र पार्टी	गाँव और पोस्ट-दत्तावाली,जिला-मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
129	अखिल भारतीय मानव अधिकार दल	1602, डी.डी.ए. जनता फ्लैट्स, जी.टी.बी. एन्क्लेव, दिल्ली-110093.
130	अखिल भारतीय मानव सेवा दल	ए-74, सेक्टर-12, नोएडा (उत्तर प्रदेश) ।
131	अखिल भारतीय मानवता पक्ष	मानवता भवन पेन्ट्री (कोके), तहसील-सिन्देवाही, जिला-चन्द्रपुर, महाराष्ट्र ।
132	अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (सेक्यूलर)	खारी कुआं मुगलपुरा प्रथम, मुरादाबाद-244001, (उ. प्र.)
133	अखिल भारतीय राजार्या सभा	आदर्श गुरुकुल शाही, जिला-पीलीभीत- 262001, (उत्तर प्रदेश) ।
134	अखिल भारतीय राम राज्य परिषद् (प्रेम बल्लभ व्यास)	श्री कृष्ण बोध धाम, 7, शंकराचार्य मार्ग, सिविल लाईन्स,दिल्ली-110054
135	अखिल भारतीय रिवोल्युशनरी शोषित समाज दल	वैशाली नगर, सिद्धेश्वर वेस, स्था0 और0 पो0लादुर, जिला-लादुर - 413512 (महाराष्ट्र) ।
136	अखिल भारतीय समाजवादी काँग्रेस	सी-31, हौज खास, अगस्त क्रान्ति मार्ग, नई दिल्ली-110016.
137	अखिल भारतीय संघर्ष दल	नंगली भट्टा, फतेहगढ़, चुडियाँ रोड, अमृतसर-143001 पंजाब ।
138	अखिल भारतीय सेना	ओम कला निकेतन संकल्प, को. ओप. हाउसिंग सोसायटी, आनन्दगार, विखोरिली पार्क साइट (पश्चिम), मुम्बई - 400079 (महाराष्ट्र) ।

139	अखिल भारतीय शिवसेना राष्ट्रवादी	अखिल भारतीय शिवसेना भवन, गुड मंडी, लुधियाना (पंजाब) ।
140	अखिल भारतीय सोशलिस्ट पार्टी	3 सर्कुलर रोड, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-211001
141	अखिल भारतीय आमजन पार्टी	मुकाम, पोस्ट-लाड़पुरा, गाँव-गगवाना, जिला-अजमेर, राजस्थान-305023.
142	अखिल भारतीय आपकी अपनी पार्टी	एफ - 2, ग्राउंड फ्लोर, राजेन्द्रा पार्क, नांगलोई, नई दिल्ली- 110041
143	अखिल भारतीय आरक्षित समाज पार्टी	392बी, सेक्टर- बी, सर्वधर्म कॉलोनी, कालोर रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश-462042
144	अखिल भारतीय अपना दल	1372, गणेश नगर, मालिक मऊ आइमा, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश-229010
145	अखिल भारतीय एकता पार्टी	जाधववाड़ी रोड, हनुमान चौक, तहसील व जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501
146	अखिल भारतीय गोंडवाना पार्टी	263, राहुल नगर, कोलार रोड, भोपाल - 462003, मध्य प्रदेश ।
147	अखिल भारतीय जन मोर्चा	मकान संख्या- 960, प्रताप नगर, भानपुर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462037.
148	अखिल भारतीय जनादेश पार्टी	मकान सं.43, ग्राम-देल्हुआ नजदीक बेरुआरबारी, मेन रोड, सुखपुरा, बांसडीह रोड, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277301
149	अखिल भारतीय जनता सहारा पार्टी	7/96-97, विकास नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
150	अखिल भारतीय जनहित पार्टी	पोस्ट - साजणी, तालुक - हातकणंगले, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416115
151	अखिल भारतीय जनसत्ता पार्टी	60, चौधराना, पोस्ट- जायस, जिला- अमेठी, उत्तर प्रदेश- 229305
152	अखिल भारतीय झारखण्ड पार्टी	गांव-किनुडीह, पोस्ट-करनडीह, जमशेदपुर-831002, जिला-पूर्वी सिंहभूम, झारखण्ड ।
153	अखिल भारतीय कल्याण पार्टी	मो0 मिर्दहान दक्षिणी, पोस्ट- दरियाबाद, जनपद- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश-225403
154	अखिल भारतीय किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-फरीदपुर, तहसील-तिगांव, जिला-फरीदाबाद, हरियाणा-121101
155	अखिल भारतीय क्रांति सेना पक्ष	महाराणा प्रताप चौक में दुकान नंबर 01, ओ.पी.पी., भगत सिंह स्कूल के सामने बजाज नगर, वालुज एम.इ.डी.सी., जिला-औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431001
156	अखिल भारतीय लोक दल	ए - 1, मेन रोड, गोकल पुरी, नियर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, शनि साई मन्दिर, दिल्ली - 110094
157	अखिल भारतीय लोकाधिकार	शॉप नं0 - 9, बी विंग, भुराज ऐनक्लेव, समर्थ वाडी, मान खुर्द स्टेशन

	पार्टी	रोड, मुम्बई, महाराष्ट्र-400088.
158	अखिल भारतीय लोकतान्त्रिक काँग्रेस	एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
159	अखिल भारतीय मानवाधिकार विचार मंच पार्टी	बलिया(जिलेबियामोड़), सुलतानगंज देवघर रोड, पो0 – मंझली मटिहानी, भाया – बेलहर, जिला – बांका,बिहार।
160	अखिल भारतीय मिथिला पार्टी	विलास राय कॉम्प्लेक्स, सीतामढ़ी रोड,एन.एच.-77, निकट एस.एस.बी. हैड क्वार्टर्स, रुसुलपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार – 842004 ।
161	अखिल भारतीय नागरिक सेवा संघ	प्लॉट नं0 98, रतन लाल नगर, कानपुर - 208022, उत्तर प्रदेश ।
162	अखिल भारतीय नैतिक पार्टी	मो0 कन्हईपुरवा, निकट बिलग्राम चुंगी, जनपद - हरदोई, उत्तर प्रदेश – 241001
163	अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिकटिया, पोस्ट- लंगरी, थाना- हाटा, जिला- कुशीनगर उत्तर प्रदेश- 274203
164	अखिल भारतीय परिवार पार्टी	ए-37,पाकेट-11,भूतल,जसोला जनता फ्लैट,नईदिल्ली- 110025.
165	अखिल भारतीय राष्ट्रीय परिवार पार्टी	बी-19/70-4, ड्योढियाबीर, भैलपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
166	अखिल भारतीय सर्वधर्म समाज पार्टी	72, बजरंग नगर, रोड क्र: 6, मानेवाडा रोड, पोस्ट- पार्वतीनगर, नागपुर,महाराष्ट्र- 440027
167	अखिल भारतीय सर्वजन हित पार्टी	448/986,मल्लाही टोला-1,नागरिया,लखनऊ,उत्तर प्रदेश - 226003
168	अखिल भारतीय सवर्ण पार्टी	177/क्यू/94, एल0 आई0 सी0 सोसाइटी, शारदा नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश – 208024
169	अखिल भारतीय सुधार पार्टी	मकान सं0 2389, प्रथम तल, हडसन लेन, किंग्सवे कैप, दिल्ली - 110009
170	अखिल भारतीय स्वराज दल	मकान न0 22/178, मांझखोर रमेडी तरौस चौराहा, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश ।
171	अखिल भारतीय विकास काँग्रेस पार्टी	एस-7, विकासदीप बेसमेन्ट, स्टेशन रोड, लखनऊ-226001 उत्तर प्रदेश ।
172	अखिल हिन्द फारवर्ड ब्लॉक (क्रांतिकारी)	वार्ड संख्या - 36, होल्डिंग संख्या - 711/499, रेलवे हंडर रोड, उपाध्याय लेन, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुआँ, पटना, बिहार – 800003
173	अखिल जन विकास दल	50 ए / 1ए, नाहरपुर, राव एस. के. शॉपिंग कॉम्प्लैक्स,सैक्टर – 7, रोहिणी, दिल्ली-85.
174	अखिल राष्ट्रवादी पार्टी	मोहारवती सिसोदिया भवन, नजदीक डाक बंगला, नाद्री गेट, कासगंज, जिला एटा (उत्तर प्रदेश) ।
175	अखिल भारतीय रयथा पार्टी	नं0 127, श्रवनाबेलागुला टाउन, बैंगलुरु मेन रोड, चन्नारायापटना तालुक, जिला-हसन, कर्नाटक-573135

176	अखिल इण्डिया जनानयाका मक्कल काची (डॉ इसाक)	नं० 171, कानन नगर, वींटरपेट, अराकोनम, जिला-वेलौर, तमिलनाडु ।
177	अखिल केरला त्रिणमूल पार्टी	मकान नं० 161, स्वातिनगर, इटकोट देशम, पल्लिचल विल्लेज, नेमौम पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम केरल - 695020
178	अखिला विजया पार्टी	डी.591,5 वीं मंजिल, हबडाउन मार्केट, गीता मंदिर, बस स्टोप, अहमदाबाद, गुजरात- 380022
179	अखिलेन्द्रा महादेसम	डोर नं० 2-9-53, नवाबपेट, मेडक - 502110, मेडक डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
180	अकिला इण्डिया वल्लालार पेरावई	43, पिल्लायार कोल स्ट्रीट, वीरा रागवपुरम, चेन्नई-600 077, तमिलनाडु ।
181	अकिला इन्धिया मक्कल मरुमलार्ची कझकम	144/82, मरीअम्मन कोविल स्ट्रीट ठुवाकुदी-पोस्ट, थिरुवरुम्बुर तालुक त्रिचिरापल्ली जिला, तमिलनाडु- 620015
182	अल-हिन्द पार्टी	बी-2/40, सफदरजंग एन्कलेव, नई दिल्ली - 110029 ।
183	ऑल इंडिया अम्बेडकर मक्कल मुन्नेत्र कडगम	104, वालाजा रोड, तीसरी मंजिल, अरीवु मनी आरंगम, ट्रिप्लीकेन, चेन्नई, तमिलनाडु.-600002
184	ऑल इंडिया अथिथानार मकल काची	एच. ओ. 24, थंगम कॉलोनी, अन्नागार वीट, चेन्नई -40, तमिलनाडु
185	ऑल इंडिया आजाद कांग्रेस पार्टी	म० नं० 5-9-30/सी, मेडिशन हाऊस, बशीर बाग, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
186	ऑल इंडिया बाबू जगजीवन राम बाबा साहेब नेशनल काँग्रेस	सी-22, बेसमेंट, चिराग एनकलेव, नई दिल्ली-110048
187	ऑल इण्डिया बहुजन सम्मान पार्टी	107, टीकरी कलाँ, नई दिल्ली-110041
188	ऑल इंडिया बी० सी० ओ० बी० सी० पार्टी	म० नं० 1-109/18, रामदास नगर, कपड़ा, ई.सि.आई. एल., रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश-500062
189	ऑल इण्डिया भारती जग पार्टी	लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास, ग्रेन मार्किट, मनसा- 151505, पंजाब
190	ऑल इंडिया क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक एण्ड बैकवर्ड पीपुल्स पार्टी	ब्लाक ए-1, फ्लैट-2, कोलकता - 700054, (पश्चिम बंगाल)
191	ऑल इण्डिया दलित वेलफेयर काँग्रेस	फ्लैट नं० 44, सेक्टर बी-4, नरेला, दिल्ली
192	ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी	एम०-77, सेक्टर-9ए, साकेत नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश-462024
193	ऑल इंडिया डिसेबल्ड पार्टी	प्लॉट नंबर 57, भगवान श्री शेषस्थिरी नगर, मालापट्टी रोड, डॉन बॉस्को कॉलेज बैकसाइड, बालकृष्णपुरम पंचायत, डिंडीगुल, तमिलनाडु- 624003.
194	ऑल इंडिया फेडरल ब्लॉक	मलेक्कुडी, इलम्बकापिल्ली पी.ओ., कूवाप्पडी, ऐरणाकूलं जिला, केरल- 683544

195	ऑल इंडिया फार्वर्ड ब्लॉक (सुभासिस्ट)	49-एम, मोतीलाल, फर्स्ट स्ट्रीट, मदुरई-625010, (तमिलनाडु)
196	ऑल इण्डिया हिन्दुस्तान कांग्रेस पार्टी	191 सी, चन्द्रनगर ए, नौ दुकान, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान - 302012
197	ऑल इंडिया जयहिंद पार्टी	डोर नं.- 22-77, भगत सिंह नगर, छठी लेन, यानमलाकुंडरू, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश- 520007
198	ऑल इंडिया जन कांग्रेस पार्टी	ए-1बी/110ए, कृष्णा अपार्टमेन्ट, एल.आई.जी फ्लेट्स, ए-1बी, पश्चिम विहार, दिल्ली-110063
199	ऑल इंडिया जन समस्यानिवारण पार्टी	वार्ड नं0 - 1, मु. पो. ता. - कलमेश्वर, जिला - नागपुर, महाराष्ट्र - 441501
200	ऑल इण्डिया जन आन्दोलन पार्टी	खादाले, पुदुंग बस्ती, रैली रोड, कालिम्पोंग खासमहल, पोस्ट व थाना - कालिम्पोंग, जिला - दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल - 734301
201	ऑल इंडिया जननायक मक्कल कझगम	नं.- 137, केसवा गार्डन, तीसरा ब्लॉक, डेमेलिएस रोड, चेन्नई, तमिलनाडु - 600012
202	ऑल इंडिया जनारक्षा पार्टी	के.नं. 1403/वी.एस-17/1404/वी.एस 18, गंगाधरपुरा, डोड्डाबल्लापुरा टाउन, बैंगलोर रूरल जिला, कर्नाटक
203	ऑल इंडिया किसान जनता पार्टी	हाउस नं0 2-221,ग्राम -जयपुरम,कुदैर मंडल,अनंतपुर,जिला - आन्ध्र प्रदेश,आन्ध्र प्रदेश- 515751
204	ऑल इण्डिया किसान मजदूर मोर्चा	गली गुज्जर सिंह वाली, बगदादी गेट के अंदर, फिरोजपुर सिटी, पंजाब- 152002
205	ऑल इण्डिया क्रान्तिकारी कांग्रेस	184/1469, मोती लाल नगर-1, गोरेगोंव (पश्चिम), मुम्बई-400104, महाराष्ट्र ।
206	ऑल इंडिया लेबर पार्टी	34/1-ए, लोवर रेन्ज, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700019
207	ऑल इण्डिया लीगल राईट्स पार्टी	डी.नं.-27,न्यु नं.-8 जे.कल्याणावायनागर कोयाल स्ट्रीट,पंडियन नगर,थीरुनगर,जिला- मदुरई तमिलनाडु- 625006.
208	ऑल इण्डिया लिबरल पार्टी	प्लॉट नं0 48, विनायक मन्दिर के पास, सेक्टर-6, एम.वी.पी. कॉलोनी, विशाखापट्टनम-530017, आन्ध्र प्रदेश
209	ऑल इंडिया लोकराज पार्टी	गांव-मेहरबान, तहसील और जिला- लुधियाना (पंजाब)
210	ऑल इण्डिया महिला डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईएमडीएफ)	मकान नं0 6-1-57/62, सचिवालय रोड, सैफाबाद, हैदराबाद-500004, आंध्र प्रदेश
211	ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी	डोर नं0 - 9-4-135/35/ए, 9-4-135/35, प्लॉट नं0 - 35, सर्वे नं0 - 206, 207, 210 199, 198, 195/2, अरुणा कॉलोनी, टोलीचौकी, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500008
212	ऑल इंडिया मजलिस-ए-इन्कलाब-ए-मिल्लत	नं. 23-1-1009/13,मोगलपुरा,हैदराबाद,तेलंगाना- 500002
213	ऑल इंडिया मक्कल नलवालवु कांची	नं. 2/259, ओन्दीबदानायकनपट्टी, पलकानुथू पोस्ट, डिंडीगुल जिला, तमिलनाडु- 624619

214	ऑल इंडिया मक्कल राज्य कझगम	प्लॉट नंबर 6-7, शेख मोहम्मद नगर, अलुंदुर, श्रीरंगम-तालुक, जिला-तिरुचिरापल्ली, तमिल नाडु-620012
215	ऑल इंडिया मानवाधिकार राजनैतिक दल	ग्राम व पोस्ट - राजापुर, थाना - चोलापुर, तहसील व जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221101 ।
216	ऑल इंडिया मांची पार्टी	फ्लैट नं० एफ-5, साई अपार्टमेन्ट, काटूरु रोड, वुय्युरु, जिला-कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश ।
217	ऑल इंडिया मजदूर पार्टी (रंगरेटा)	मकान नं० - 2453, बाग वाला खूह, जण्डियाला गुरु, जिला - अमृतसर, पंजाब
218	ऑल इंडिया एम.जी.आर. मक्कल मुन्नेत्र कझगम	फ्लैट नं.- ए-4, श्रीनिवास आर्केड, नं.- 1/2, अरुणाचलम रोड, चेन्नई, तमिलनाडु- 600093
219	ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फ्रंट	148, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-110001
220	ऑल इंडिया मूवेन्दार मुन्नानी कझगम	लेक एरिया, मेलुर रोड, मदुरई-625107, (तमिलनाडु)
221	ऑल इंडिया मुक्ति दल पार्टी	प्लॉट नं० 158/1, म० नं० 37-93/55/1, रोड नं. 3, मथुरानगर, नेरेदमेट क्रोसिंग रोड्स, सिकन्दराबाद-500094, आन्ध्र प्रदेश ।
222	ऑल इंडिया मुताहिदा कौमी महज	मकान नं० 19-2-23/एम/जे/5/ई, प्रथम तल, बहादुरपुरा, मक्का कॉलोनी, हैदराबाद-500053 आन्ध्र प्रदेश ।
223	ऑल इंडिया पार्टी फॉर द प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स	100 ए/5, 11 वां सैक्टर, 66 वी स्ट्रीट, पुनम बालम सलाई, के०के० नगर, चेन्नई-600078
224	ऑल इंडिया पसुम्पन मुन्नेत्र कझगम	47बी/2, सोर्गावासल स्ट्रीट, सी.एन.ग्रामन, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627001
225	ऑल इंडिया पट्टाली मुन्नेत्र कांची	नं० - 90, गांधी रोड, कल्लाकुरुची, विल्लुपुरम - जिला, तमिलनाडु- 606202
226	ऑल इंडिया पीपल डेवलपमेंट पार्टी	डी नं.-1/119 बी, नार्थ स्ट्रीट, अनैकुत्तम(पोस्ट) थिरुथंगल, शिवकासी, जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु- 626130.
227	आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट (रेडिकल)	बी. पी.-18, 40-फीटरोड, पटेल नगर, मुगल सराय, चन्दौली, उत्तर प्रदेश ।
228	ऑल इंडिया पिछड़ा जन समाज पार्टी	475/15 क, कदम रसूल, डालीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
229	ऑल इंडिया प्रजा पार्टी	मकान नं.- 5-1-240, द्वितीय तल, जामबाग, स्ट्रीट नं.- 17, फ्लावर मार्केट के समीप, हैदराबाद, तेलंगाना- 500095
230	आल इंडिया पुराची थलाईवर मक्कल मुन्नेत्र कझगम	डी. नं. 33, कन्नादासन मेन रोड, पहली मंजिल, एस.एस.कॉलोनी, मदुरै, तमिल नाडु-625010
231	ऑल इंडिया राजीव क्रान्तिकारी काँग्रेस	बी-58, गली नं.18, जितार नगर, नई दिल्ली- 110051

232	ऑल इंडिया रक्षा पार्टी	पोस्ट बॉक्स सं० 136, मुख्य डाक घर, करनाल-132001, हरियाणा ।
233	ऑल इण्डिया रविदास समता पार्टी	भगवत सिंह भवन सं०-10, सेक्टर-11, शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
234	ऑल इंडिया समता पार्टी	मकान नं. 23-8/3, मिलीनियम टाउनशिप शादनगर, रंगा रेड्डी जिला, फरुक्कोनगर मंडल, तेलंगाना स्टेट- 509216
235	ऑल इंडिया समुथुवा मक्खल काच्ची	2, कल्याणी नगर, कट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
236	ऑल इंडिया सत्याज्योति पार्टी	आंगाराकुडिल, 19, एक्सटेंशन, तुरैयूर, तिरुचि जिला, तमिलनाडु – 621010.
237	ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट	फुरफुरा, पोस्ट- फुरफुरा, थाना-जंगीपाड़ा, जिला-हुगली पश्चिम बंगाल- 712 706
238	ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मजहबी दल	गाँव और पो. ऑ. मजीठा, अमृतसर, (पंजाब) ।
239	ऑल इण्डिया सिंगारावेलार मुन्नेत्र कडगम्	संख्या 2/305, सिंगारावेलार नगर, नीलंगकराई, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
240	ऑल इंडिया तफसीली यूनाइटेड पार्टी	गाँव-सिमुलपुर, पो० – ठाकुर नगर, जिला-24 परगना (एन), (पश्चिम बंगाल) ।
241	ऑल इण्डिया तमिल मक्कल मुनैत्र कडगम	न० 25, वीरापांडी स्ट्रीट, पेराम्बूर, चेन्नई – 600039 तमिल नाडु ।
242	ऑल इंडिया ट्राइबस एण्ड माइनॉरिटीज फ्रंट	विंडरूश हिल एनेक्सी, शिमला-2, (हिमाचल प्रदेश) ।
243	ऑल इंडिया उलेमा कांग्रेस	नं० 20-24, जफाराबाद ग्राम, गुलबर्गा तालुक, जिला – गुलबर्गा, कर्नाटक
244	ऑल इंडिया उझावरगल उझाईप्पलरगल काची	द्वार नं०-55, प्रथम तल, सिनावर गली, तिरुप्पतूर -635601, तमिलनाडु ।
245	ऑल इंडिया वीमेन डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी	नं०-36, गणेश नगर, नियर अम्बेडकर नगर बस स्टॉप, 200 फीट रोड, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600099
246	ऑल इंडिया वीमेन यूनाइटेड पार्टी	कमरा नं० - 1, चौथी मंजिल, ए-117, शुबराती अपार्टमेंट, ओखला गाँव, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025
247	ऑल इंडिया यूथ डेवलपमेन्ट पार्टी	4/286, कालीपुरम वट्टम, वेला कुट्टई ग्राम, वनियाम्बाडी- तालुक, जिला- वेल्लोर तमिलनाडु- 635752
248	ऑल इंडियन राजीव कांग्रेस पार्टी	41/238, आलापुर हाऊस, राधाकृष्ण मंदिर लेन, नरही, हजरतगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
249	ऑल इंडियन रिपब्लिकन पार्टी	शॉप नं. 4, स्ट्रीट नं. 33, प्लॉट नं. 2814, मौजा भानापेठ, एम.जी.रोड, तहसील व जिला- चंद्रापुर, महाराष्ट्र- 442401
250	ऑल इंडियन्स पार्टी	डोर नं. 30-3-11, असम गार्डन्स, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश- 530020

251	ऑल इण्डियंस गांधी कांग्रेस	212, कालिका नगर, अंदरहल्ली, मेन रोड, बैंगलुरु-560058,कर्नाटक ।
252	ऑल जे एण्ड के किसान मजदूर पार्टी	स्टेण्डर्ड होटल, शहीद चौक, जम्मू, जम्मू और कश्मीर ।
253	ऑल जे एण्ड के पीपुल्स पैट्रियाटिक फ्रंट	जवाहर नगर, हाऊस नं०97, पुलिस स्टेशन, राघ-बाघ, श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) ।
254	आल जम्मू एण्ड कश्मीर लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	एम. पी. गली, राजबाग, श्रीनगर जम्मू एवं कश्मीर ।
255	ऑल जम्मू एण्ड कश्मीर रिपब्लिकन पार्टी	1464, मौहल्ला ख्वाजा बाजार, पावर स्टेशन के पास, अनन्तनाग, पिन कोड - 192101, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
256	ऑल पेंशनर्स पार्टी	नं०-12डी पावोडुम तोप्पू, नेल्लूरपेट, गुडियात्तम, वेल्लूर जिला, तमिलनाडु
257	ऑल पीपुल्स पार्टी	डोर नं० 1-138, पल्लेगुन्टा गांव व पोस्ट, गुराजाला रूरल मण्डल, जिला - गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश ।
258	अल्पजन समाज पार्टी	डाक बंगला मार्केट परिसर, प्रथम तल, दुकान सं०28, डाक बंगला मार्केट, पो. ऑ. - सासाराम, थाना-सासाराम, जिला - रोहतास, बिहार - 821115.
259	अमन और शांति तहरीक-ई-जम्मू और कश्मीर	जेके-ई-खडमात मरकज, के.पी.चौक, खन्नाबल, अनन्तनाग, गवर्नमेंट हाई सेकेण्डरी स्कूल के पास, जम्मू और कश्मीर- 192101
260	अमन पार्टी ऑफ इण्डिया	83, सुशीला विहार फेस - प्रथम, वार्ड नं.- 2, भूड, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ।
261	अमन समाज पार्टी	वी-1452, गली नं०-4, विजय पार्क, दिल्ली-110053
262	अम्बेडकर बहुजना समथा पार्टी	08-7, तिम्माजीपेट (ग्राम व मंडल), नागरकुर्नूल, तेलंगाना - 503001
263	अम्बेडकर जनता पार्टी	सं० 57/1 सविमाना इंटरप्राइजेज, भद्रप्पा लेआउट, कोदिगेहल्ली नगशेत्यहल्ली मेन रोड बैंगलोर- 560092, कर्नाटक।
264	अम्बेडकर क्रान्ति दल	शान्ति होम्योपैथिक स्टोर, आर्य समाज चौक, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
265	अम्बेडकर नेशनल काँग्रेस	8-3-323 अमृतपेट, क्रास रोड, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
266	अम्बेडकर नेशनल मक्कल काँची	दरवाजा नं० 53, गाँधी रोड (फोर्मली पीरन लेन), थिरुपत्तूर, जिला-वेल्लोर, पिन कोड-635601, तमिलनाडु ।
267	अम्बेडकर पीपुल्स मूवमेंट	39, सरावना स्ट्रीट, टी नगर, चेन्नई-600017. (तमिलनाडु) ।
268	अम्बेडकर पॉलिटिकल पार्टी	डी. नंबर 321/1 एस,एस मीनाक्षीपुरम,सोवदार्पति (पी.ओ.),थिरुमंगलम(टी.के.),मदुरई(डी.टी.),तमिलनाडु-625704.
269	अम्बेडकर प्रगतिशील रिपब्लिकन दल	डा०मोहिया कॉलोनी, शाहजहाँपुर, पिन-242001, (उत्तर प्रदेश) ।
270	अम्बेडकर समाज पार्टी	304, मन्दाकिनी एन्क्लेव अलकनन्दा, नई दिल्ली - 110019.
271	अम्बेडकर समाज विकास पार्टी	मकान नं.- 49, मुहल्ला- तिलक नगर, युमना नगर, तहसील- जगाधरी, जिला- युमना नगर, हरियाणा- 135003
272	अम्बेडकर सेना पार्टी	ग्राम-कबरी,रविदास मंदिर के पास,तहसील व जिला-पानीपत,हरियाणा-

		132013
273	अम्बेडकर विकास पार्टी	गांव-रोहता,इंदिरा आवास कॉलोनी,थाना-सदर बाजार,आगरा,उत्तर प्रदेश-282009
274	अम्बेडकर युग पार्टी	240/71 एफ/3, स्टैनली रोड, कमला नगर,इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
275	अम्बेडकरवादी पार्टी	136/1, डायमंड हारबर रोड, कोलकत्ता-700063. (पश्चिम बंगाल) ।
276	अम्बेडकरिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	राष्ट्रभाषा प्रचार समिती के पीछे, वर्धा - 442001, जिला-वर्धा, महाराष्ट्र ।
277	आंबेडकराईट पार्टी ऑफ इंडिया	ए.पी.आई., सेंट्रल सेक्रेटेरियट, प्लॉट न.1672, नियर बुद्धा विहार, नारा रोड, इंदारा (वारपखड), नागपूर-440014, महाराष्ट्र
278	अम्मा मक्कल मुन्नेट्र कळगम	नया न.-15,पुराना न.8,ग्रांड फ्लोर,वेस्ट कोट रोड,रोयापेट्टाह,चेन्नई-600014,तमिलनाडु
279	आमरा बंगाली	नं० 2, बल्लव स्ट्रीट, कोलकत्ता-700004, (पश्चिम बंगाल) ।
280	अनाईथिंडिया समुदया मुन्नेत्र कजगम	नं० 7/13, पूर्व माडा स्ट्रीट, थिरुवथीपुरम व पोस्ट चेर्यर तालुक - 604 407, थिरुवन्नामला, जिला-तमिल नाडु।
281	अनैतीन्डीया समुदाय मक्कल काची	80, कूलढाई वेलन लेन, मेन रोड, डिंडिगुल, तमिल नाडु - 624001
282	अनैथिन्थितया तामिझागा मुन्नेत्र कडगम	10/2, नलवर नगर, कलवीरामपालायम, भारतीयार, यूनिवर्सिटी (पोस्ट), कोयम्बटूर- 641048 (तमिलनाडु)।
283	अनैतु इंडिया मक्कल कांची	176/9, 37डी, तालुक ऑफिस रोड, पुलिस क्वार्टर के पीछे, होसर, कृष्णागिरी- जिला, तमिलनाडु- 635109
284	अनैथु मक्कल अरासियल काची	नम्बर 1/111,ईस्ट कोस्ट रोड,इन्जाबक्कम,चेन्नई,तमिलनाडु- 600115
285	अनिथु मक्कल काची	नं. 44, दूसरा तल, नारायणसामी स्ट्रीट, पुलियानतोप, पेरम्बूर बेरेक्स के पास, चेन्नई, तमिलनाडु- 600012
286	अनाईथू मक्कल मुन्नेत्र कडगम	डी नं० 199/416 (आर०एस० नं० 177-1बी), प्रथम तल, आरकोट रोड, वडापझानी, चेन्नई-600026, तमिलनाडु।
287	अनैथु मक्कल पुराची कांची	न.268, अमन कोईल स्ट्रीट, आलडी पोस्ट- विरुथाचलम्,(टीके) कडलूर (डीटी), तमिलनाडु- 606115
288	अनाइथू उलागा तमिलारगल मुनेत्रा कलगम	नं.17,एजहिल नगर,पेरुमालपुरम,पालयमकोट्टई,तिरुनेलवेली,तमिलनाडु-627007
289	अनैतुमक्कल नीति कांची	डी० नं० 11, भूतल, 8वीं स्ट्रीट एक्सटेंशन, अहिंसापुरम, सेलुर, मदुरै, तमिलनाडु - 625002
290	अनारक्षित समाज पार्टी	मकान नं० - 371, प्रथम तल, मोहल्ला - सधवाड़ा, कायमगंज, जिला - फरुखाबाद, उत्तर प्रदेश ।
291	अन्बू उदयम कच्ची	12/11, सुभाष ईलम, तेनी - गुडलूर - 625518, तमिलनाडु
292	अण्डमान एंड निकोबार जनता पार्टी	गाराचरमा गाँव, टीटीआई रोड, तहसील - पोर्ट ब्लेयर, जिला - दक्षिण अण्डमान, अण्डमान एंड निकोबार द्वीपसमूह -744103 ।
293	आन्ध्र चैतन्य पार्टी	डोर नं. 12-20-3, गुड स्ट्रीट, भीमुनिपटनम, विशाखापटनम् जिला,

		आन्ध्र प्रदेश- 531163
294	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समैक्य समिति पार्टी	मकान नं० 11-8-118/2 (ओल्ड), 11-8-99/84 (न्यू), नरसिम्हापुरी कॉलोनी, अष्टालक्ष्मी एच वाई डी - विजयवाडा हाईवे, हैदराबाद - 500035, आन्ध्र प्रदेश ।
295	आन्ध्र प्रदेश नवोदया प्रजा पार्टी	नं० 3-11, तुक्कुगुडा गांव, महेश्वरम मंडल, मनखाल पोस्ट, रंगा रेड्डी जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
296	आन्ध्र प्रदेश राष्ट्र समिति	डोर नं. 15-8-158/बी, जाकिर हुसैन नगर, 3 लैन, नंदिवेलुगु रोड, ओल्ड गुंदूर, गुंदूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522001
297	आन्ध्र राष्ट्र प्रजा समिति	ए. सी. स्टेडियम के पीछे, कोनेयापालेम गेट, दरगामित्ता, नेल्लोर - 524001. आन्ध्र प्रदेश ।
298	अंगिका समाज पार्टी	आनन्द आश्रय, पोस्ट ऑफिस- पुराना जूट मिल, शरीफगंज, वार्ड नं. 42, जिला- कटिहार, बिहार-854105
299	अन्जान आदमी पार्टी	भवन सं. 391/117ए/1, राधा नगर कालोनी, फुलवरिया रोड, दारागंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
300	अंजुमन पार्टी	मकान नं. 95, निजातपुरा, नजर अली मार्ग, कोतवाली रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश- 456006.
301	अन्ना डेमोक्रेटिक हूमन राईट्स मूवमेंट पार्टी ऑफ इंडिया	अमल भवन, थिक्कन्नामंगल, कोट्टारकाश पीओ, कोल्लम, केरल- 691506.
302	अन्ना द्राविड कङ्गम	8/1, कटचोरि रोड, तिरुतुरैपण्डि, जिला- तिरुवारूर, तमिलनाडु- 614713
303	अन्ना एम.जी.आर. जयललिता द्रविड मुन्नेत्र कङ्गम	1/213, थिरुसक्तिमुत्रम, कीलावीथी, पटेश्वरम, कुम्बकोणम् तालुक, तंजावुर जिला, साउथ इंडिया, तमिलनाडु - 612703
304	अन्ना मक्कल काचि	20सी, रेलवे स्टेशन रोड, चिन्नासलेम विलूपूरम, तमिल नाडू- 606201
305	अन्ना एमजीआर द्रविडा मक्कल कलम	नं. 150, 3rd क्रॉस स्ट्रीट, अलवरथिरुनगर, श्रीलक्ष्मी नगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600087
306	अन्ना एमजीआर द्रविड मुन्नेत्र कङ्गम	मकान नं० - 176, वार्ड नं० - 5, ईस्ट स्ट्रीट, पलोडाई कॉलोनी, अन्नाईमलाईयान्पट्टी, उत्थमापलायम - तालुक, थेनी - जिला तमिलनाडु - 625526
307	अन्ना पुरुचि थलैवर अम्मा द्रविड मुन्नेत्र कषम	नं. 1/424, थोतट्टू पाल्यम, लक्ष्मी नगर, पुलुवापट्टी (पोस्ट), तिरुपुर, तमिलनाडु, तमिलनाडु- 641602.
308	अन्ना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी	द्वार नं० 7/2-2, चीलकलाबावी स्ट्रीट, कडपा, आन्ध्र प्रदेश- 516001
309	अन्नदाता पार्टी	ग्राम- बघला, पोस्ट- दुबहा (वाया- जसरा), थाना- लालापुर, तहसील- बारा, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 212107
310	अन्नन तमिलगा राइजिंग कङ्गम	223, जीएसटी रोड, क्रोमपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600044
311	अन्नदाता कारीगर पार्टी	गनियारी बैढन, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886

312	अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्ण काँग्रेस पार्टी	ग्राम व पो० सरकड़ा विश्‍नोई, विकास खण्ड डिलारी, तह० ठाकुरद्वारा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश – 244401
313	एन्टी क्रप्शन डायनेमिक पार्टी	प्लॉट नं. 52, गणेश नगर, वेपामुपट्टु- गांव, थिरुवेल्लार, तमिलनाडु- 602024
314	एंटी रिजर्वेशन पार्टी ऑफ इंडिया	हाऊस नं० 1184, सैक्टर-21-बी, चण्डीगढ़ ।
315	अपना दल बलिहारी पार्टी	ग्राम- महाखरपुर, पोस्ट- रघवापुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272155
316	अपना अधिकार पार्टी	मसीहा ड्रग हाऊस, लाईन बाजार, पूर्णियाँ, बिहार ।
317	अपना भारतीय सनातन पार्टी	जय शेष मार्केट,ग्राम-किरतारतारा,पोस्ट-बिरशाहपुर,जिला-मिर्जापुर उत्तर प्रदेश-231001
318	अपना दल	1/2 ए. पी. सेन रोड, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
319	अपना दल (कमेरावादी)	126/17 बी.बी.एन. रोड,लालबाग,लखनऊ,उत्तर प्रदेश- 226001
320	अपना दल (सोनेलाल)	ग्राम-अटरामपुर नवाबगंज, पोस्ट- अटरामपुर, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 229412
321	अपना दल युनाईटेड पार्टी	ग्राम-सिसवाँ, पो०-कसया, थाना-कसया, जिला-कुशीनगर, उत्तरप्रदेश – 274402
322	अपना देश पार्टी	मकान नं० – 457, मेजरगंज, जिला – सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश ।
323	अपना किसान पार्टी	अमला टोला, वार्ड नं.- 30, होटल जय, न्यू मार्केट, कटिहार, बिहार- 854105
324	अपना राज फ्रंट	मकान नं. 1096, सेक्टर-7, बहादुरगढ़, हरियाणा।
325	अपना समाज पार्टी	एससीएफ-49, फेस 3बी2, मोहाली, पंजाब- 160059
326	अपनी जनता पार्टी	735/4,(1286/60),गली नं० 13,सिद्धार्थ पुरम (चौहान पुरी),नई बस्ती,लल्लापुरा,जिला-मेरठ,उत्तर प्रदेश-250002
327	अपनी जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं० 234-के,संकट मोचन भवन,ग्राम व पोस्ट-अमरपुर औन,जिला-उन्नाव,उत्तर प्रदेश- 209827
328	अपनी पार्टी (सेक्यूलर)	ग्राम- उँची दनकौर, टाउन- दनकौर, जिला- गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 203201
329	अपनी पार्टी इंडिया	एफ-4/149, द्वितीय तल, सेक्टर-16, रोहिणी, दिल्ली- 110089
330	अपनी जिन्दगी अपना दल	ए-119, भूतल, निकट एंजल मेगा मॉल, कौशाम्बी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201010
331	अप्पाअम्मा मक्कल कझकम	3/59, मारियम्मन कोविल स्ट्रीट, पोस्ट – अम्मापाल्यम्, तालुक व जिला – पेराम्बलूर,तमिलनाडु – 621101
332	अर्जक अधिकार दल	नं.128/169/26-ए,ब्लॉक-के,किदवई नगर,कानपुर,उत्तर प्रदेश-208011
333	अरूणाचल काँग्रेस	जी-एक्सटेंशन, नहरलागुन (अरूणाचल प्रदेश)
334	आर्य दल	सेन्ट्रल कैम्प ऑफिस – 775, शान्ति कॉलोनी, इटावा, उत्तर प्रदेश ।
335	आर्य सभा	7, जन्तर-मन्तर रोड, नई दिल्ली-110001.
336	आर्यावर्त पार्टी	ग्राम व पोस्ट- बरसैना, थाना – अहिरोली,जनपद – कुशीनगर, उत्तर

		प्रदेश - 274207
337	असंख्य समाज पार्टी	ए-490, गली नम्बर-22, श्याम कालोनी, बुद्ध विहार फेस-2, दिल्ली-110086.
338	आज़ाद क्रान्ति पार्टी	मकान नं. 559, ब्लॉक- जी, स्कीम नं. 40, पनकी, गंगागंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208020
339	असली भारत पार्टी	सी-48, साउथ एक्सटेंशन, पार्ट-1, नई दिल्ली- 110049
340	असली देशी पार्टी	शॉप नं.10, प्रथम तल, बी-ब्लॉक, सेन्ट्रल मार्केट, दिलशाद गार्डन, दिल्ली- 110095
341	असम गण परिषद् प्रगतिशील	प्रधान कार्यालय-जी. एस. रोड, उलूबारी, गुवाहाटी-781 007, असम ।
342	असम जन मोर्चा	वार्ड नं. 25, ग्राम- आजाद नगर, पोस्ट ऑफिस- छोटहयवर, मोजा-निज सहर, थाना व जिला- नगाँओ, असम- 782002.
343	असम संग्रामी मंच(असम)	म.न.5 ए,राजगढ़ बाई लेन न. 4,गुवाहाटी, असम-781003
344	असम दृष्टि पार्टी	दूम दूमा, पथर गांव, पोस्ट ऑफिस- हंसारा, जिला- तिनसुकिया, असम-786790.
345	असम जातिय परिषद्	मकान नं. 33 की पहली मंजिल,लैंब रोड, उजान बाजार, गुवाहाटी, पी.एस. लतासिल,पी.ओ. - उजान बाजार,जिला - कामरूप (M असम - 781001.
346	अटल जनशक्ति पार्टी	ग्राम- यरता, पोस्ट- सिकन्दरपुर, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती, उत्तर प्रदेश- 272190
347	अति पिछड़ा पार्टी	मो० बडी पहाडी, पो० सोहसराय, थाना-लहेरी, जिला-नालन्दा-803118, बिहार।
348	अति पिछड़ा वर्ग महासंघ	3/1274, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
349	अति पिछड़ा जन दल	ग्राम: रामपुर बाकली, पो० एवं जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
350	अतुल्य भारत पार्टी	91, पीली कोठी, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल के पास, हरि नगर, नई दिल्ली -110064.
351	ऑटोनोमस स्टेट डिमान्ड कमेटी	रौंगनीहंग, डिफू-782460, कारबी अंगलॉग (असम) ।
352	अवामी आमजन पार्टी	न्यू आदर्श नगर, आशापूर्णा कॉलोनी, जालोर, जिला - जालोर, राजस्थान ।
353	अवामी पार्टी	ई-11/77, न्यू कॉलोनी, हौजरानी, मालवीय नगर, नई दिल्ली -110017.
354	आवामी समता पार्टी	भवन संख्या - 631/135, पानी गांव, सेक्टर - 9, पोस्ट - इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
355	आवामी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इण्डिया	बुखारा, बखशीवाला रोड, बिजनौर-246701, (उत्तर प्रदेश) ।
356	अवामी विकास पार्टी	606/607, जफरीन चेंबर्स, शिवडी रेलवे स्टेशन के सामने, शिवडी (ईस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400015
357	अयया मुन्नेटरा काजगम	डोर नं.180/128,थिरुगनानासम्बंदर रोड,रोसकोर्स,कोयम्बटोर तमिलनाडु-

		641018
358	आजाद भारत कांग्रेस	218, द्वितीय तल, एल.एस.सी. मार्केट, ब्लॉक-ए, सम्राट इन्कलेव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034
359	आजाद भारत पार्टी (नेशनल)	गांव- 50 कुटिया रामपुर, परगना एवं तहसील- नरवाल, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209401
360	आजाद भारत पार्टी (यूनाइटेड)	डी-59/14ए/-1/ए, शिवपुरवा, रथयात्रा रोड, महमूरगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221010
361	आजाद हिन्दुस्तान पार्टी	ई ब्लॉक-265, यादव नगर, नई दिल्ली -110042
362	आजाद जनता पार्टी	208, दिल्लीन काम्पलैक्स, आकाशगंगा सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़ ।
363	आजाद मजदूर किसान पार्टी	डी-4, प्रेम नगर-पपप शनि बाजार रोड, किरारी नहर, नांगलोई, नई दिल्ली -110086.
364	आजाद पार्टी	खनुहट, विकासखंड- मोतिगरपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश- 228132
365	आजाद समाज पार्टी	ग्राम- मण्डूसरा बुजुर्ग, पो.- फतेहपुर, थाना- रानीपुर, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276402।
366	अजगु तमिल देसियम	टीआई, तीसरी मंजिल, लैंड मार्वल अपार्टमेंट 30, सदायप्पन स्ट्रीट, मंदावेली, चेन्नई तमिलनाडु - 600028
367	बी० सी० भारथा देशम् पार्टी	मकान नं० 12-13-426, गली नं० 1, तरनाका, हैदराबाद-500017 आन्ध्र प्रदेश ।
368	बी० सी० यूनाइटेड फ्रन्ट	15, सप्तगिरि नगर, रेठी बोवली, हैदराबाद-500028, आन्ध्र प्रदेश ।
369	बारथा समुथाया मुनेत्र मुन्नानी	400/12, प्रथम तल, टारुनशिप कमर्शियल कॉम्पलैक्स, कामराजर नगर, मेन रोड, अवाडी, चेन्नई-600 071, तमिलनाडु ।
370	बैकवर्ड क्लासेज डेमोक्रेटिक पार्टी, जे० एण्ड के० (बी डी पी)	पीर बाग कॉलोनी, आर्मी गेट के पीछे, सुंजवान रोड, जम्मू, जम्मू और कश्मीर-180 004.
371	बडावारा श्रमिकारा रैतारा कांग्रेस पार्टी	1/ए, पारवथी नगर मेन रोड, बेल्लारी-583103, कर्नाटक ।
372	बहादुर आदमी पार्टी	एस-11/37-38ए, चौकाघाट, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221002
373	बहुजन आन्दोलन पार्टी	शाहजीपुरा, सराजतरीन संभल, प्रथमा बैंक के पास, जिला-संभल, उत्तर प्रदेश-244302.
374	बहुजन अवाम पार्टी	मकान सं० - 52/42/ए/2, एडमास्टन रोड, ताशकन्द मार्ग, सिविल लाईन इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
375	बहुजन आजाद पार्टी	ग्राम- सगाम फंडा, पोस्ट ऑफिस व थाना- रिगा, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843327
376	बहुजन बल पार्टी	डी० एस० - 50/जी-II, एलडीए कॉलोनी, कानपुर रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
377	बहुजन भारत पार्टी	वत्सलाबाई मोहन कांबले, धारावी कुम्भरवाडा, 90 फुट रोड, वी.ओ.सी., मुंबई सिटी महाराष्ट्र- 400017

378	बहुजन द्रविड पार्टी	मकान नं० 6659, ब्लॉक नं० 9, देव नगर, कारोल बाघ, नई दिल्ली-110005
379	बहुजन एकता पार्टी (आर)	सूराज भवन, आर.डी.-136ए, धर्मपूरा एक्स. नजफगढ़, नई दिल्ली-110043
380	बहुजन गोंडवाना पार्टी	वार्ड नं. 8, राम जानकी मंदिर के पीछे, बुरहर, जिला- शहडोल, मध्य प्रदेश- 484110
381	बहुजन हसरत पार्टी	ग्राम- खरुवान्वा, पोस्ट- कुंवर पुर, तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222202
382	बहुजन किसान दल	किसान भवन, ऋषम विहार, सरकुलर रोड, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
383	बहुजन क्रान्ति पार्टी (मार्क्सवाद-अम्बेडकरवाद)	ग्राम-धन्सुआ, पो० -सेन्ट्रल जेल, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश 209601
384	बहुजन लोक दल	नादरागंज रामसागर रोड, मस्जिद गली (बडी दाहा), गया, बिहार- 823001
385	बहुजन लोकराज्य पार्टी	मैत्र निवास, तेमभुरनी रोड, कुरदुवारी ताल - मधा, जि. सोलापूर, महाराष्ट्र- 413208.
386	बहुजन लोकतांत्रिक पार्टी	जी-161, जे. जे. कॉलोनी, वजीरपुर, दिल्ली -110052.
387	बहुजन महा पार्टी	बी-245, गली नं. 2, मण्डावली, फजलपुर, निकट सद्दावना अपार्टमेन्ट, मदर डेयरी के पीछे, दिल्ली-110092 ।
388	बहुजन मजदूर पार्टी	खसरा नं. 249, ग्राम- सिक्रारी, तहसील- टूंडला, थाना- पचोखरा, जनपद/जिला- फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश- 283204
389	बहुजन मुक्ति पार्टी	फ्लैट नं० -14, आशा पुष्प विहार, सहकारी आवास समिति, सेक्टर-14, कौशाम्बी, गजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
390	बहुजन न्याय दल	596/1, न्यू पहाड़पुर, पुलिस कालोनी, थाना- गर्दनीबाग, पोस्ट- अनिसाबाद, जिला- पटना, बिहार-800002
391	बहुजन पार्टी	125/98, न्यू एल० आई० जी०, बर्रा-7, कानपुर-208027, उत्तर प्रदेश ।
392	बहुजन रयत पार्टी	198क-ई, दत्त हौ, सोसा राबाडे कॉलोनी, कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416001
393	बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच	हरदास नगर, कामठी, जिला-नागपुर, महाराष्ट्र
394	बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी	4/17, बी.डी.डी, वर्ली, मुंबई, महाराष्ट्र- 400018
395	बहुजन सदान मोर्चा	इसरी बाजार, पो०-इसरी बाजार, जिला-गिरिडिह, झारखण्ड-825107.
396	बहुजन समाज मुक्ति मोर्चा	मकान नं० - बी-198, गली नं० - 11, भूतल, भजनपुरा, दिल्ली-110053 ।
397	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर)	म.सं.-बी-33/103, मोहल्ला-शहरियान, कपूरथला, पंजाब
398	बहुजन समाज पार्टी (अम्बेडकर-फुलै)	म०न० वी-25, सन्ध्या वेनस अपार्टमेन्ट, एस. पी. नगर, मोउला-अली, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश ।
399	बहुजन समाज विकास पार्टी	20-बी.डी. एस. कमर्शियल मार्केट, ग्रा०-सदरपुर, सेक्टर-45, पो० ऑफिस अरुण विहार, सेक्टर-37, नोएडा, जनपद-गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।

400	बहुजन समाजवादी पार्टी (बाबा साहेब)	53-54, प्रथम तल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साऊथ पटेल नगर, मैट्रो पिलर नं० 190 के सामने, नई दिल्ली -110008.
401	बहुजन सम्यक पार्टी (मिशन)	83क/1, रिठौरा, बरेली, उत्तर प्रदेश- 243122
402	बहुजन संघर्ष दल	पडाव पुलिस स्टेशन के सामने लक्ष्मणपुरा, पोस्ट ऑफिस-लशकर, (गवालियर) मध्य प्रदेश ।
403	बहुजन संघर्ष पार्टी (कांशीराम)	बहुजन भवन, खब्बाशपुर, पोस्ट-मलिकपुर, जिला - रोपड़, पंजाब ।
404	बहुजन सेना	124ए/जी-1, सेक्टर- 6, वैशाली, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201012
405	बहुजन सेवा पार्टी	899, फूलबाग कॉलोनी, कुर्सी रोड, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226021
406	बहुजन शक्ति	माइन्स रेस्क्यू स्टेशन कैम्पस, पोस्ट-धनसार, जिला-धनबाद, झारखण्ड ।
407	बहुजन सुरक्षा दल	1/7, जी. एच. बोर्ड, हरदासनगर, ओल्ड बापूनगर, अहमदाबाद-380024, गुजरात ।
408	बहुजन उदय मंच	ग्राम-चालकपुर, पोस्ट-जमीन रसूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
409	बहुजन उत्थान पार्टी (जी)	ग्राम- लोनापुर, मजरा-विलाई खेड़ा, निकट पूर्व माध्यमिक विद्यालय लोनापुर, पोस्ट- लौलाई, तहसील/परगना - सदर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
410	बहुजन विजय पार्टी	98/5, पोस्ट ऑफिस गली, ग्राम- खुटभार, पोस्ट व तहसील- खजनी, जिला- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273212
411	बहुजन विकास अघाडी	ए-301, आरती अपार्टमेंट, वरतक रोड, विरार (पश्चिम) तालुक-चसाई, जिला-थाणे, महाराष्ट्र-401303.
412	बहुजना देशम पार्टी	डोर नं. 4/32, गदामीदा हरिजना वाडा, सिंगारेड्डी पल्ली, पेनागलुर मंडल, वाई.एस.आर., कडप्पा जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516127
413	बहुजन लेफ्ट पार्टी	मकान नं. 6-73, एससी वाडा, पेड्डालिंगापुर गांव, मंडल इल्लंथाकुन्ता, जिला- राजन्ना सिर्सिल्ला, तेलंगाना स्टेट- 505405
414	बहुजना राज्यम पार्टी (फुले अंबेडकर)	मकान नं.- 4-33-163, वेंकटेश्वरा नगर, कुकटपल्ली, पाईप लाइन जगतगिरीगुट्टा, बालानगर मंडल, जिला- मेडचल, हैदराबाद, तेलंगाना- 500037
415	बहुजन राष्ट्र समिति	प्लॉट नं० - 34/2, ललितानगर, वेस्ट मारेडपल्ली, सिकंदराबाद, तेलंगाना - 500026
416	बज्जिकांचल विकास पार्टी	सहजानंद नगर, भगवानपुर, एन.एच.-28, मुजफ्फरपुर-842002, बिहार ।
417	बलीराजा पार्टी	प्लॉट नं. 1, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पृथ्वीराज नगर, बेलतरोडी रोड, नागपुर, महाराष्ट्र-440034
418	बाम पार्टी	538के/780, त्रिवेणी नगर-II, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
419	बंचित स्वराज पार्टी	सं० 117, डॉ. बी. आर. अम्बेडकर रोड, पोस्ट ऑफिस एवं पुलिस स्टेशन-नलहाटी, जिला- वीरभूमि- 737220, पश्चिम बंगाल ।

420	बंग भारत पार्टी	ग्राम घनश्यामपुर,पोस्ट-पुरंदरपुर,थाना-कांदी,जिला-मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल- 742140
421	बंगाली नवनिर्माण सेना	सी/ओ सुप्रिया दास, चेंगकुरी रोड, ईस्टर्न बाइलेन, पोस्ट-अम्बकापट्टी,थाना- सिलचर सदर,जिला-कछार असम- 788004.
422	बंगला बिकाशवादी कांग्रेस	युसुफगंज, अफाक नगर, गोलघर-चबूतरा हाऊस के पास, पोस्ट व थाना - इस्लामपुर, जिला - उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल - 733202
423	बारक वैली टेरीटोरी डिमांड कमेटी	स्वराज भवन, सिलेहर रोड, पोO ऑQ थाना और जिला-करीमगंज, पिन-788711, असम ।
424	बेगमपुरा सांझा फ्रंट	193, न्यू रसीला नगर, बस्ती दनिश्मंदन जालंधर, पंजाब ।
425	बेगलुरु नव निर्माण पार्टी	101,ब्रिगेड पैरामाउट,5,ओल्ड मंद्रास रोड,सी.वी.रमन नगर,बेगलुरु - 560093
426	बेरोजगार आदमी अधिकार पार्टी	डी-2/329, शिव दुर्गा विहार, लक्कड़पुर, फरीदाबाद, हरियाणा ।
427	बेस्ट क्लास पार्टी	मकान नंO 94, मुहल्ला एलवल, सदर-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276001
428	भारत महाशक्ति पार्टी	11ए, डी.डी.ए फ्लैट्स, प्रियदर्शिनी विहार, लक्ष्मी नगर दिल्ली 110092.
429	भारतीय जनशक्ति कांग्रेस	डोर नं. 4-148/ए, पणियूर रोड, उच्छिला, उडुपि - जिला, कर्नाटक- 574117
430	भागीदारी क्रान्ति दल	ग्राम व पोस्ट मवई पड़ियाना, ब्लॉक - सरोजनी नगर, तहसील व जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश -226008
431	भागीदारी पार्टी(पी)	30/5बी/4,दक्षिण लोकपुर,नैनी,जिला-प्रयागराज,उत्तर प्रदेश- 211008
432	भापसे पार्टी	ग्राम - मस्सा (खं), तहसील - कलम, जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413507 ।
433	भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल	भवन संख्या - ए-1061, सेक्टर- आई, एल.डी.ए. कॉलोनी, कानपुर रोड, पोस्ट- एल.डी.ए. कॉलोनी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226012
434	भारत (इन्टिग्रेटिड) रक्षक पार्टी	मकान संO - बी-98, मेयफिल्ड गार्डन, सेक्टर - 50,गुरुग्राम,हरियाणा- 122018 ।
435	भारत अभ्युदय पार्टी	6-6-35, अनुसूया निलयम, कवाडीगुडा मेन रोड, कवाडीगुडा, सिकन्द्राबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500380
436	भारत बचाओ पार्टी ऑफ इण्डिया	एस-528, ग्रेटर कैलाश पार्टी-1, नई दिल्ली -110048.
437	भारत भविष्य पार्टी	मकान संO-94 स, ग्राम - मुगीसपुर, थाना - तारून,पोस्ट - चन्द्रिकागंज, जिला - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश 224141
438	भारत भूमि पार्टी	मकान नं. 48, ग्राम- खपरी (टांडपारा), पोस्ट- पकरिया, तहसील - पामगढ़, थाना- मुलमुला, जिला- जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ -495553
439	भारत भ्रष्टाचार मिटाओ पार्टी	मकान संख्या - नया नंO 4, भू-तल, बेगम विहार, ब्लॉक-ए, खसरा नंO-16/19, गाँव-बेगमपुर, नजदीक-भैरो मंदिर,दिल्ली-110086 ।
440	भारत दल	भारत सेवाधाम अरण्यक, क्रान्तिदीप मौराना, नूरपुर, जिला-बिजनौर (उत्तर प्रदेश) ।

441	भारत देशम् पार्टी	मकान सं. 8-3-270/1, नेहरू नगर, नवी लाईन, मेन रोड, गुंटुर-522 001, आन्ध्र प्रदेश ।
442	भारत देशभक्त संगठन	19/460, इंदिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226016
443	भारत गौरव पार्टी (इण्डिया)	13/543, सेक्टर-13, इंदिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
444	भारत जागो जनता पार्टी	न्यू मार्केट, सहारा इंडिया बैंक बिल्डिंग, हाई स्कूल पारा, कटिहार, पटना, बिहार- 854105
445	भारत जन आधार पार्टी	फ्लैट नं.4, कुर्ला अमर सीएचएस सोसायटी, जनसेवा पेट्रोल पम्प के सामने, काले मार्ग, कमानी कुर्ला(पूर्व), महाराष्ट्र-400070
446	भारत जन जागरण दल	वार्ड नं. 5, नारा परसौन, भैरोगंज, पश्चिम चंपारण बिहार-845108
447	भारत जन पार्टी	324, कैलाश नगर, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
448	भारत जन शक्ति पार्टी	मकान नं. 15/281, शक्ति नगर, शुक्ला नगर, जिला- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209861
449	भारत जनसंग्राम पार्टी	मकान नं0 – 366, अहिल्या, न्यू शांगनी नगर, पोस्ट- एच.वी.पी.एम. अमरावती, महाराष्ट्र-444605 ।
450	भारत जनता दल (तुंगलक)	ग्राम- निरमानी, डाक- निरमाना, ब्लॉक- बघरा, थाना- शाहपुर, जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश
451	भारत का किसान मजदूर पार्टी	ग्राम-बलियाँ (नयन नगर) पोस्ट – बलियाँ, महाराजगंज, सिवान, बिहार – 8415061 ।
452	भारत कल्याण पार्टी	ग्राम पंचायत – मेवली, तहसील - खैरागढ़, जिला – आगरा, उत्तर प्रदेश- 283115 ।
453	भारत कौमी दल	ग्राम –लाठरदेवा हूण, पो0 झबरेडा, जिला– हरिद्वार, उत्तराखण्ड ।
454	भारत की लोक जिम्मेदार पार्टी	3/250, विश्वास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010(उत्तर प्रदेश) ।
455	भारत क्रान्ति रक्षक पार्टी	बरकतपुर, पोस्ट-बडागाँव, जिला – कौशाम्बी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
456	भारत लेबर प्रजा पार्टी	4-25, सीतानगर कॉलोनी, सोमुलागुदेम (पी), पलवन्चा (एम), खम्माम जिला-507115 आन्ध्र प्रदेश ।
457	भारत लोक सेवक पार्टी	दुकान नं. 16, डी-ब्लॉक मार्केट, पुष्पांजली इन्क्लेव, पीतमपुरा, नई दिल्ली- 110034
458	भारत महापरिवार पार्टी	1286, ग्राउंड फ्लोर, डी.डी.ए.मार्केट, न्यू मीना बाजार, सीमापुरी, दिल्ली- 110095
459	भारत मंगलम परिषद्	जमो बाजार, हास्पीटल चौक, पो0 आ0 जमो बाजार, जिला सिवान, बिहार ।
460	भारत माता पार्टी	ग्राम व पोस्ट – कटका, जिला – मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश
461	भारत माता सपूत पार्टी	ग्राम- डेहरिया दयाराम, पोस्ट- लोहरा खास, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221303
462	भारत नव निर्माण पार्टी	ए-2, नितेश विला, विवेकानन्द कालोनी, नया खेड़ा, अम्बाबाड़ी, जयपुर – 23, राजस्थान ।
463	भारत नवनिर्माण वोटर सेना	1255-एफ, बसन्त विहार, कानपुर-208021, उत्तर प्रदेश ।

464	भारत निर्माण पार्टी	हाई स्कूल रोड, पो0 त्रिवेणीगंज, जिला-सुपौल - 852139, बिहार ।
465	भारत न्याय दल	एन0 एच0-58, दिल्ली बाई पास रोड, गोपाल विहार, म0 नं0-48, मेरठ, उत्तर प्रदेश।
466	भारत परिवार पार्टी	भारत हृदय आश्रम, मौ0 कड़छ जवालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड-249407
467	भारत पीपुल्स सेना	प्लॉट सं. 6-4-787, फुले नगर, सोमनाथपुर रोड, तालुक- उदगीर, जिला- लातूर महाराष्ट्र ।
468	भारत प्रभात पार्टी	105, प्रथम तल ए.जी.सी.आर. एन्क्लेव, कड़कड़मा कोर्ट के पास, दिल्ली-110092
469	भारत पुनर्निर्माण दल	के.जे. - 116, कवि नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
470	भारत रक्षक पार्टी (डेमोक्रेटिक)	गांव पोस्ट पक्का सहरना, तहसील जिला हनुमानगढ, राजस्थान ।
471	भारत स्वाभिमान पार्टी	55/1/228, ग्राउंड फ्लोर भावापुर, जी.टी.बी.नगर, करेली, प्रयागराज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211016
472	भारत उदय मिशन	सी-3/4, सुमन नगर, वी. एन. पुरव मार्ग, चैम्बूर, मुम्बई-400071.
473	भारत उत्थान पार्टी	ग्राम- हरनी औसेरी, परगना- हिसामपुर, पोस्ट- अरई उमरी, तहसील- कैसरगंज, जिला- बहराइच उत्तर प्रदेश -271904.
474	भारत वाहिनी पार्टी	मातृमंदिर, प्लॉट नं. ई- 185, राम पथ, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान- 302019.
475	भारत विकास मोर्चा	शेखपुरा रोड, मधुपुर, जिला-देवघर, झारखण्ड ।
476	भारत विकास पार्टी (सेकूलर)	खसरा नं0 - 21/25, नजदीक एच. पी. पेट्रोल पम्प, उपकार प्रोपर्टीज, ए-ब्लाक, हिमगिरी इन्क्लेव, बुराड़ी, दिल्ली -110084
477	भारत विशाल पार्टी	ए/6ए, डी0 ए0 फ्लैट, मुनीरका, नई दिल्ली - 110067.
478	भारतीय बहुजन प्रजा राज्यम्	डी नं. 956, अरुणदेवलेपेट, दसवीं लेन, गुंटूर-522002, आन्ध्र प्रदेश ।
479	भारतीय मानवाधिकार पार्टी	21, राजेन्द्र मलिक स्ट्रीट, कोलकाता - 700007, पश्चिम बंगाल ।
480	भारत धर्म जन सेना	इमारत सं0-849/V, मारारिकुलम उत्तर पंचायत, कांचीकुलंगर मंदिर के पूर्व में, मारारिकुलम उत्तर गांव, चेरत्तल तालुका, आलप्पझा जिला, केरल - 688544
481	भारत प्रजा स्पन्दन पार्टी	डी.न0 - 2 - 42, कलावचरला ग्राम, निदादावोले मंडल, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश।
482	भारता मक्कल कच्ची	नियर डोर नं. 44 व 45 (पुराना डोर नं. 38), एस.एस. कॉलोली, पोन्मेनी नारायणन स्ट्रीट, जिला-मदुरै, तमिलनाडु- 625016
483	भारत सेवाई कच्ची	नं. 1 व2, गूम्स रोड, पैरिस, चैन्नई, तमिलनाडु- 600001
484	भारतीय चैतन्य पार्टी	डी. सं. 9-186/7, हाई स्कूल रोड, वेकंट नगर, कडियम, पूर्व गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533103
485	भारथीया सधरमा समस्थापना पार्टी	हाऊस नं0 3/17, डोरासानी पल्ली, प्रोहतुर मंडल, कडापा डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
486	भारतीय प्रजा सेवा पार्टी	6-3-360/1, श्री कृष्णा देवराय नगर, बडवेल टाउन, वाईएसआर कडप्पा

		जिला,आन्ध्र प्रदेश- 516227
487	भारथ्या बेलाकू पार्टी	नं. 54, गवर्नमेंट स्कूल रोड, गांव- गोपनहाली, तालुका- मादुरु, जिला- मंड्य, बेंगलुरु, कर्नाटक- 571422
488	भारतीय द्रविड़ मक्कल काची	2036, 15वीं मेन रोड, अन्ना नगर पश्चिम, चेन्नई-600 040, तमिलनाडु ।
489	भारतीय जन शब्द	331 (311), वार्ड नं. - 1, कालरा हाउस, मण्डेला, पोस्ट ऑफिस, वेला नाडु तिरुवनन्तापुरम - 695 543, केरल ।
490	भारतीय नेताजी पार्टी	3857, चौथा क्रॉस, गायत्री नगर, बंगलौर - 560021, (कर्नाटक) ।
491	भारतीय प्रगनावंथा कांग्रेस	60सी, 80 फीट रोड, आई.टी.आई लेआउट, मल्लाथाहल्सी, नगरमावी वार्ड, बेंगलोर, कर्नाटक- 560056
492	भारतीय प्रजा शक्ति	संO 931, 932, करबला मैदान,रेलवे स्टेशन क्रॉस रोड,चन्नापटना टाउन व तालुक, रामनगरा जिला, पिन कोड - 571501 कर्नाटक ।
493	भारतीय युवथा, समथा, राष्ट्रीयथा कांग्रेस पार्टी	फ्लैट नं. जी-1, भूतल, ए. आर. के. रेजिडेन्सी प्लॉट नं. 304, सर्वे नं. 153, 154, 163 व 143, बोदूपल, ग्राम एवं ग्राम पंचायत - घटकेसर (मंडल), जिला- रंगारेड्डी, हैदराबाद - 500038, आन्ध्र प्रदेश ।
494	भारतीय आम अवाम पार्टी	सरिस्ताबाद, इन्द्रपुरी पथ, गली नंO ई, गर्दनीबाग, पटना, बिहार- 800001
495	भारतीय आमजन पार्टी (विवेकानन्द)	150, गणेश कॉलोनी, गली नं. 8, जैन मंदिर के पास, झोटवाडा, जयपुर, राजस्थान- 302012
496	भारतीय आवाम एकता पार्टी	23 सी, सेक्टर- ए, सैनिक विहार, नन्दानगर, कूडाघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
497	भारतीय अग्रगामी दल	44,श्री कृष्णा नगर,रोड नं.1,पी.एस.बुध कॉलोनी,पटना,बिहार-800001
498	भारतीय अम्बेडकर पार्टी	मेन बाजार, कृष्णा नगर,जाउरा फाटक, अमृतसर (पंजाब) ।
499	भारतीय अपना समाज पार्टी	LIG-A/LGF-03,यशोधरा कुंज आवासीय योजना,गोरखपुर,उत्तर प्रदेश- 273016
500	भारतीय आशा पार्टी	मकान नंO 590,गाँव-भरण,गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास,तहसील- मेहम,जिला-रोहतक,हरियाणा- 124111
501	भारतीय अष्ट जन पार्टी	151, सी. सेक्टर, दूसरी मंजिल, कमरा नंO 203, इन्दर पुरी, भोपाल - 462022 (मध्य प्रदेश) ।
502	भारतीय आवाज पार्टी	मिलन कमेटी सेवा संघ, संतोष नगर बेहराम बाग, जोगेश्वरी पश्चिम, मुम्बई - 440102, महाराष्ट्र ।
503	भारतीय अवाम ताकत दल	ग्राम- सुजनडीह (रामपुर), पोस्ट- शोहंसा (मुंगरा बादशाहपुर), तहसील- मछलीशहर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222204
504	भारतीय बैकवर्ड पार्टी	71, सूर्य अपार्टमेंट्स, फ्रेजर रोड, पटना - 800001 (बिहार) ।
505	भारतीय बहुजन कांग्रेस	117, खोडियारकृपा सोसायटी, कंतारेश्वर महादेव मंदिर के पास, कतारगाम, सूरत, गुजरात ।
506	भारतीय बहुजन परिवर्तन पार्टी	खसरा नंO - 139/2, ग्राम - लखवाया रसूलपुर, रोहटा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।

507	भारतीय बहुजन पार्टी	156, भरौली, शाहगंज, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
508	भारतीय बहुजन समता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सुरजननगर, जिला- मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244602
509	भारतीय बेरोजगार पार्टी	ग्राम- काँटा करौंदी, पोस्ट- मीरक नगर, थाना- निगोहा, तहसील- मोहनलाल गंज, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226302
510	भारतीय बेरोजगार मजदूर किसान दल	बंसल गांव, पो. ऑ. - धेघाट, पट्टी-मल्ला, चौकौट, जिला - अल्मोडा (उत्तराखण्ड) ।
511	भारतीय बौद्धिक विचार पार्टी	गाँव-बल्लानगला पट्टी, पो० शाहपुर खेडी, तह० - धामपुर, जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
512	भारतीय छात्रसंघ भारत	प्रेमघन मार्ग, बदली घाट, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231 001 ।
513	भारतीय काँग्रेस (एम)	16, बतरा कालोनी, एम. टी. एक्स सोनीपत, हरियाणा ।
514	भारतीय काँग्रेस पक्ष	कसबापेठ, लिंबूवाली सवारी के सामने, मु० पोस्ट - बार्षी, जिला - सोलापुर, महाराष्ट्र ।
515	भारतीय डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट अलायंस पार्टी	मकान सं. 198, मोहल्ला- कच्छपुरा, (शाक्य नगर), वार्ड नं.8, पोस्ट- राजा का रामपुर, जिला- एटा, उत्तर प्रदेश ।
516	भारतीय डेवलपमेन्ट पार्टी	बिल्डिंग न. 14/54, एस.बी.बिल्डिंग, अपोजिट सरी कृष्णा टेम्पल, असरामम, कोल्लम, केरल-691002
517	भारतीय डा० बी० आर० अम्बेडकर जनता पार्टी	नं० 18, बारहवीं क्रॉस, एम० टी० एस० लेआउट, केनगिरी उपनागरा, बेंगलूरु - 560060 कर्नाटक ।
518	भारतीय एकलव्य पार्टी	गांव व पो० - बेलहार कलां, तहसील मेहडावल, जिला - संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश ।
519	भारतीय एकता दल	189, बसंत अपार्टमेंट, बसंत विहार, नई दिल्ली - 57.
520	भारतीय गन परिषद	मकान नं. 3, बाय लेन नं. 4, वार्ड नं. 16, बिष्णुराभा पथ, लालगणेश (उदालवाक्रा), थाना- दिसपुर, जिला- कामरूप मैट्रो, गुवाहाटी, असम- 781034
521	भारतीय गांव ताज दल	ग्राम - कुका, पो०आ० मक्सूदपुर, जिला - कपूरथला, पंजाब ।
522	भारतीय ग्रामीण दल	आर्यव्रत प्रकाशन मंदिर, बस स्टाप, गोसाईगंज, जनपद - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
523	भारतीय हिन्दू सेना	जी-17, रिद्धि सिद्धि टावर, सैक्टर-5, प्लॉट न.4, सन एण्ड मून टावर के पास, विधाधर नगर, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान-302023
524	भारतीय हितरक्षक पार्टी	नं० - 33, मीरा निवास, पुष्कर पार्क, बाबेन, नियर बाबेन प्राथमिक शाला, तालुक - बाराडोली, जिला - सूरत, गुजरात- 394601
525	भारतीय इन्कलाब पार्टी	ग्रा० राणा प्रताप नगर, इस्लामपुर, पो० व थाना - इस्लामपुर, जिला - नालन्दा, बिहार, पिन - 801303.
526	भारतीय जागृति दल	आर. जेड 21 - डी, गली नं० 4, सिंडिकेट एन्क्लेव, निकट डाबडी मोड, दिल्ली - 110045
527	भारतीय जय भीम पार्टी	1304, भानतलैया, सिंधी कैम्प, जिला- जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
528	भारतीय जन बेरोजगार छात्र दल	आर० टी०ओ० ऑफिस के पास, हुसैनगंज, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश ।

529	भारतीय जन जागृति पार्टी	बृजधाम आश्रम, रणहेरा, तहसील - छाता, जिला - मथुरा (उत्तर प्रदेश)।
530	भारतीय जन किसान पार्टी	1080C बाबाजी का बाग, तिलक रोड, बलुआ घाट, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
531	भारतीय जन क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	एफ-23, सैनिक सोसायटी, शक्ति नगर, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
532	भारतीय जन मोर्चा पार्टी	वार्ड नं.-1, सतना रोड, अमरपाटन, जिला- सतना, मध्य प्रदेश - 485775
533	भारतीय जन सभा	मार्फत राजाराम यादव, रघुवीर नगर, न्यू कॉलोनी, देवरिया (उत्तर प्रदेश)।
534	भारतीय जन समाजवादी पार्टी	ए - 62, जे० जे० कॉलोनी, खानपुर, नई दिल्ली - 110062.
535	भारतीय जनचेतना दल	नं.70,एलआईजी इंदिरा नगर,कानपुर नगर,उत्तर प्रदेश-208026
536	भारतीय जनक्रान्ति पार्टी	12/17, चक्खुवाला, देहरादून,उत्तराखण्ड।
537	भारतीय जनतंत्र संरक्षण विकास पार्टी	ग्राम -पंडित पुर थाना एवं अंचल -पिप्राकोठी,जिला - पूर्वी चंपारण,बिहार - 845429
538	भारतीय जनवादी पार्टी	ए-559, शास्त्री पार्क एक्सटेंशन, बुलन्द मस्जिद, दिल्ली-110053.
539	भारतीय कार्यस्थ सेना	121, विष्णु कॉलोनी शाहगंज, आगरा - 282010. उत्तर प्रदेश।
540	भारतीय किसान परिवर्तन पार्टी	नगला दखाल, कोटला रोड, फिरोजाबाद - 283203, जिला फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
541	भारतीय किसान राजनैतिक पार्टी	प्लॉट न० 04,खसरा न० 151/01,सेमरा गौडी,मडिगांव,सीता रोड लखनऊ,उत्तर प्रदेश- 226021
542	भारतीय किसान सेना लोकतांत्रिक	मकान नं०-392/1, चक रघुनाथ, नैनी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
543	भारतीय क्रान्तिकारी दल	ए-5, प्रियदर्शनी विहार, नई दिल्ली-110092.
544	भारतीय लिबरल पार्टी	सी- 79, प्रथम तल, गली नं. 4, राधे श्याम पार्क एक्सटेंशन. राधे श्याम पार्क एक्स. कॉलोनी, घोड़-ली वार्ड, कृष्णा नगर, दिल्ली- 110051
545	भारतीय लोक कल्याण दल	एरिया/पोस्ट/तहसील-बिकाबुर,जिला-फैजाबाद (उत्तर प्रदेश)।
546	भारतीय लोक सेना	लोअर ग्राउन्ड फ्लोर, ऑफिस नं०-2, बिल्डिंग नं०- ए.-212-सी, तिरुपति प्लाजा, गली नं०- 1,शकरपुर विकास मार्ग, दिल्ली - 110092
547	भारतीय लोकतांत्रिक पार्टी (गांधी-लोहियावादी)	सत्यवती निवास, राम दास पथ, मीठापुर बी. ऐरिया, पटना-800001, बिहार।
548	भारतीय मजदूर जनता पार्टी	ग्राम - लालपुरा, पो०- कुकथरी(पिनाहट), तहसील- बाह, जिला- आगरा, उत्तर प्रदेश- 283123
549	भारतीय मानवता विकास पार्टी	133/4, कुतब एन्कलेव, फेस-11, नई दिल्ली- 110016.
550	भारतीय माइनारिटीज सुरक्षा महासंघ	410, अर्केडिया बिल्डिंग, सर जे.जे. रोड, जे.जे. हॉस्पिटल के सामने मुम्बई-400008. (महाराष्ट्र)।

551	भारतीय मोमिन फ्रंट	174, आनन्दपुरी, बेस्ट बोरिंग, कैनाल रोड, पटना 800001 (बिहार) ।
552	भारतीय मूल निवासी समाज पार्टी	77/129, भगत सिंह कालोनी, तरला अधोईवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
553	भारतीय नागरिक पार्टी	गांव-कनासी, पो. ओ. -कनासी, जिला-फर्रुखाबाद-207501 (उत्तर प्रदेश)।
554	भारतीय नेशनल जनता दल	701 ए, सातवीं मंजिल, मेघमल्हार काम्पलेक्स, सेक्टर नं० 1, गांधीनगर, गुजरात-382010
555	भारतीय नव क्रान्ति पार्टी	गांव-मखमैलपुर, पोस्ट-सरायखवाजा, जिला-जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
556	भारतीय नवयुवक चेतना पार्टी	429/263, निकट अम्बर मैरिज हॉल, मौज्जम नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
557	भारतीय नवयुवक पार्टी	मकान नं० 572, बाई साहब की परेड, प्रिया ब्रेड फैक्टरी के पास, लक्ष्मीगंज, लशकर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश ।
558	भारतीय न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- डारा, थाना- जयनगर, जिला- दक्षिण 24 परगना, पश्चिम बंगाल- 743337
559	भारतीय न्याय-अधिकार रक्षा पार्टी	पूर्व बिष्णुपुर, डाकखाना - रमाकान्त नगर, थाना - मन्दिरबाजार, जिला - 24 परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल - 743395
560	भारतीय परिवर्तन काँग्रेस	126, आदिवासी कॉलोनी, राष्ट्र संत तुकदोजी महाराज कैंसर हॉस्पिटल के निकट, मानेवाडा रोड, नागपुर-440027, महाराष्ट्र ।
561	भारतीय परिवर्तन पार्टी	70-ए, डी.डी.ए, फ्लैट्स, पाण्डव नगर, मेट्रो स्टेशन शादीपुर के पास, नई दिल्ली- 110008.
562	भारतीय पीपुल्स पार्टी	टी-9, 295/16/11, शिवशक्ति नगर, सैयद चिनचौली रोड, फिल्टर बेड, गुलबर्गा, कर्नाटक-585104.
563	भारतीय पिछड़ा दल	ग्राम-खुजरी, पोस्ट-सागर, वाया-चकरमाथा कैम्प, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़-495 220 ।
564	भारतीय प्रजा पक्ष	नं. 374/ए, प्रथम तल, 1-ब्लॉक, 1-क्रॉस, रविन्द्र नाथ टैगोर नगर (आर.टी.नगर), बंगलोर-560032 (कर्नाटक) ।
565	भारतीय प्रजा सुराज्य पक्ष	ए./पी. - खांडज, तालुका - बारामती, जिला- पुणे, महाराष्ट्र- 413116
566	भारतीय प्रजागला कल्याण पक्षा	नं० - 23, फ्लैट नं० - 401, चौथी मंजिल, एवरजॉय, नंदनावना, तृतीय क्रॉस, द्वारका नगर, चन्नासंदारा, बैंगलोर, कर्नाटक- 560098.
567	भारतीय प्रजाशक्ति पार्टी	29/3, पंचकुईयाँ, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
568	भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल	मिस्टा, जिला जांजगीर, विकास खण्ड नवगढ़, छत्तीसगढ़ांचल, छत्तीसगढ़ ।
569	भारतीय पूर्वांचल पार्टी	ई-68, प्रेमचन्द कॉलोनी, पांडेयपुर (1), वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
570	भारतीय राष्ट्रवादी पक्ष	12, जूना पावर हाऊस, रोटरी हाल के पीछे, जेल रोड, मेहसाना (गुजरात), पिन-384002.
571	भारतीय राष्ट्रवादी समानता पार्टी	एफ-402, रोड सं० 9-एफ, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया जयपुर- 302 013, राजस्थान
572	भारतीय राष्ट्रीय बहुजन समाज विकास पार्टी	जी-96, 'शांतिपुरम फाफामऊ, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।

573	भारतीय राष्ट्रीय जनहित पार्टी	सी-2968, सपना कॉलोनी, लखनऊ-226017, (उत्तर प्रदेश) ।
574	भारतीय राष्ट्रीय महिला सर्वोदय कांग्रेस	नं० 2, प्रथम तल, वायुपुत्र आर्कड,वाई नं. 15, नियर एन.टी.टी. एफ, पी.बी. रोड, धारवाड, जिला- धारवाड, कर्नाटक-580001
575	भारतीय राष्ट्रीय मजदूर दल	नया सर्राफा, ग्वालियर-474001 (मध्य प्रदेश) ।
576	भारतीय राष्ट्रीय मोर्चा	डी-6, प्रताप बाग कॉलोनी, नया हनुमान मन्दिर, अलीगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
577	भारतीय राष्ट्रीय स्वदेशी कांग्रेस पक्ष	308, रामनगरी, 2/सी, तीसरा तल, अलन्दी रोड, भोसरी, पुणे-411039, महाराष्ट्र ।
578	भारतीय रविदास पार्टी	मोहल्ला-कुंडगढ, पोस्ट-सदर, आजमगढ उत्तर प्रदेश ।
579	भारतीय रिपब्लिकन पक्ष	डा. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई-400014 (महाराष्ट्र) ।
580	भारतीय सद्भावना समाज पार्टी	खान मंजिल खपाड़गंज,बिलासपुर, छत्तीसगढ ।
581	भारतीय समाज दल	85, चौक माकान्डु गंज, प्रतापगढ (उत्तर प्रदेश) ।
582	भारतीय समाज कल्याण पार्टी भारत	रवेन्द्र इलैक्ट्रॉनिक्स, पुरानी चुंगी, आगरा रोड, हाथरस, जिला अलीगढ (उत्तर प्रदेश) ।
583	भारतीय समाजवादी पार्टी (लोकतांत्रिक)	मुहल्ला-चाहशीरी,पंजाब एंड सिंध बैंक लेन,सिविल लाइंस,बिजनौर,जनपद-बिजनौर,उत्तर प्रदेश-246701
584	भारतीय सम्पूर्ण क्रान्तिकारी पार्टी	ए-1/150, अमन विहार, नांगलोई, नई दिल्ली -110041
585	भारतीय सम्राट सुभाष सेना	ग्राम - अजीतपुर, पो0 - कनखल,लक्सर रोड, हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 249408
586	भारतीय समता समाज पार्टी	ग्राम-देहरामऊ, पोस्ट-गोसाईगंज, जिला -लखनऊ - 227 125 (उ.प्र.)
587	भारतीय समतावादी पार्टी (ए)	निकट खान आटा चक्की, अपोजिट देवी लाल कॉलोनी, सरस्वती विहार, मेहलाना रोड, तहसील एवं जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
588	भारतीय संघर्ष मोर्चा	सी4/33,ई.डब्लु.एस,विश्व बैंक कॉलोनी,ए.डी.ए,नैनी,तहसील-करछना,प्रयागराज,उत्तर प्रदेश-212301
589	भारतीय संगठित पार्टी (एस)	साई ग्रीन सिटी, अटोर रोड, निकट मोरटी, राजनगर एक्सटेंशन, एन.एच.-58, गाज़ियाबाद, उत्तर प्रदेश-201017)
590	भारतीय संग्राम परिषद	48, बैंक स्ट्रीट, खटाव बिल्डिंग, ग्राउंड फ्लोर, एस. बी. एस. रोड, ओल्ड कस्टम हाउस के सामने, फोर्ट, मुंबई, महाराष्ट्र - 400001
591	भारतीय सन्त मत पार्टी	बहु झोलरी रोड,ग्राम व पोस्ट - नाहर, तहसील - कोसली, जिला - रेवाड़ी, हरियाणा ।
592	भारतीय सर्वजन विकास पार्टी	ग्राम- हर्षपुर (पूरे राल्ही), पोस्ट- कोट्वाशुकुलपुर, तहसील- लालगंज, थाना- सांगीपुर, जिला- प्रतापगढ, उत्तर प्रदेश- 230136
593	भारतीय सर्वकल्याण क्रान्ति दल	2/643/सी, रामाबाग कॉलोनी, रामघाट रोड, अलीगढ-202 001 (उत्तर प्रदेश) ।

594	भारतीय सर्वोदय क्रान्ति पार्टी	113, मलिकपुर, जी.टी.बी.नगर, दिल्ली-110009.
595	भारतीय सत्य विजयी पार्टी	सी-120, बेगम विहार ऐक्सटेंशन, बेगमपुर, दिल्ली -110086.
596	भारतीय सत्यार्थ संगठन	भारत नगर, प्रेम विद्यालय- रेलवे क्रॉसिंग, राधापुरम हाउसिंग कॉलोनी के सामने, बिरला मंदिर के पास, वृन्दावन रोड, जीटीवी- 3, मथुरा-281,003, (उत्तर प्रदेश) ।
597	भारतीय शक्ति सेना	शक्ति सेना भवन, बैरियर नं० 6, औद्योगिक क्षेत्र बहादुराबाद, हरिद्वार – 249 402 उत्तराखण्ड ।
598	भारतीय श्रमिक दल	एल-238, विकास प्राधिकरण कॉलोनी, इंदिरा नगर, राय बरेली (उत्तर प्रदेश) ।
599	भारतीय सुभाष सेना	ग्राम और पो. ऑ. बानकासिया शिवरतन सिंह, जनपद-गोन्डा-271302 (उत्तर प्रदेश) ।
600	भारतीय सुहेलदेव जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- चितबड़ागांव, मकान नं० – 885ख, वार्ड नं० -8, इन्दिरा नगर, तहसील – बलिया, बलिया, उत्तर प्रदेश- 221713
601	भारतीय सुराज दल	सिन्हा भवन, एग्जिविशन रोड, रिजर्व बैंक के पीछे, पटना, बिहार – 800001
602	भारतीय स्वजीवी नागरिक पार्टी	ग्राम- कुकुरिहा, पोस्ट- रूद्रपुर कोरवा, थाना व तहसील- रूद्रपुर, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश।
603	भारतीय स्वतन्त्र पार्टी	गांव-नौगाई, पो०ऑ० रघुनाथपुर, तहसील, वाडरूफनगर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ ।
604	भारतीय उत्तम सेना	ग्राम व पोस्ट – खेढ़ायँ, थाना – आन्दर, जिला – सिवान, बिहार ।
605	भारतीय युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	वार्ड सं-54, सर्किल सं०-71, बिस्कोमान गोलम्बर, बी.एस.एन.एल, टेलिफोन एक्सचेंज के पास, पोस्ट ऑफिस- गुलजारबाग, कुम्हारार, पटना, बिहार-800007.
606	भारतीय युवा शक्ति	हवेलियों का वास, ग्राम पंचायत, कोसेवाल, तहसील-सुमेरपुर, जिला – पाली, राजस्थान ।
607	भारत राष्ट्र डेमोक्रेटिक पार्टी	शॉप नं० - 22, सी एस सी-II, डी डी ए मार्केट, आई. पी. एक्सटन्सन, पटपड़गंज, दिल्ली – 110092
608	भारिपा बहुजन महासंघ	डॉ. अम्बेडकर भवन, गोकुलदास पास्ता रोड, दादर मुम्बई- 400014 (महाराष्ट्र) ।
609	भरोसा पार्टी	मकान नं. 8-233, पोचराम ग्राम पंचायत, घाटकेसर- मण्डल, जिला- मेडचल, तेलंगाना - 500088
610	भारतीय समाजवादी मोर्चा	3/1108, देहरादून चौक, सहारनपुर-247001. (उत्तर प्रदेश) ।
611	भारती जन सुरक्षा पार्टी	प्रधान कार्यालय, धौलवाहा मार्ग,हीरा कालोनी के समीप, टाउन एवं पो०ऑ० हरिआना, जिला होशियारपुर, पंजाब-144208
612	भारती लोक लहर पार्टी	136, अजीत नगर, अमृतसर (पंजाब) ।
613	भारतीय समुदाय पार्टी	7 सी-10, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, थाना – पी० जी० आई०, तहसील – लखनऊ, जिला – लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226002

614	भारतीय आम आदमी परिवार	1000 जय अम्बे अपार्टमेन्ट, डी0डी0ए0एल0आई0जी0 फ्लैट्स,न्यू कोंडाली, मयुर विहार फेज-3, दिल्ली- 110096
615	भारतीय आम जनता विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट- दुलमा, थाना- मधुबन मोतिहारी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार।
616	भारतीय अहिंसा पार्टी	728, निराला नगर, अयोध्यापुरी, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
617	भारतीय अमृत पार्टी	खसरा नं. 661/3, कचनारिया, भोपाल रोड बायोरा, जिला- रायगढ़, मध्य प्रदेश- 465674
618	भारतीय अनारक्षित पार्टी	मकान नं. 08, आनन्दवन, एन.एच-02, नवादा, पोस्ट- औरंगाबाद, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281006
619	भारतीय अनार्य पार्टी	राजवंशी मार्किट बस स्टैंड राजगीर,थाना व पोस्ट-राजगीर,जिला-नालंदा,बिहार- 803116
620	भारतीय अंत्योदय पार्टी	8- प्रीत विहार, फेज- 11, इंदिरा गांधी मार्ग, निरंजनपुर, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248171
621	भारतीय अपना अधिकार पार्टी	किरार छात्रावास के पास, रामपुरी आऊ खाना कला शब्द, प्रताप आश्रम, जिला- ग्वालियर, मध्य प्रदेश-474012
622	भारतीय आरक्षण मुक्ति दल	291,अग्निहोत्र नगर,मकडीखेडा,कानपुर नगर,उत्तर प्रदेश- 208017
623	भारतीय आर्य क्रान्ति मंच	83 राम वाटिका, कॉलोनी,गीता पैलेस के पीछे, श्यामगंज, बरेली,उत्तर प्रदेश - 243005
624	भारतीय अस्मिता पार्टी	मकान नं0 302,ग्राम-कतबाव,दहगांव रोड,पोस्ट- वाशिंद,तालुका-शाहपुर,महाराष्ट्र- 421602.
625	भारतीय अवाम एक्टिविस्ट पार्टी	गाँव- केशरू, थाना- चन्दौती, जिला- गया, बिहार- 823002
626	भारतीय अवाम पार्टी (राष्ट्रीय)	मकान नं030 (बी0बी020), बेचूपुर, पटेलनगर, (40 फीट रोड),मुगलसराय, जिला-चन्दौली,उत्तर प्रदेश । पिन कोड -232 101
627	भारतीय आजाद सेना	15 नं. चौक, बड़कागांव, जिला- हजारीबाग, झारखण्ड- 825311
628	भारतीय बहुजन क्रान्ति दल	सेवागढ़ बिल्डिंग नं.- 02, अजादेगांव, डोंबिवली पूर्व, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 421201
629	भारतीय भाईचारा पार्टी	मकान नं0 - 61/3, गांव - छलेरा बांगर, अम्बेडकर विहार, सेक्टर - 37, परगना व तहसील - दादरी, नोएडा, जनपद - गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश - 201303
630	भारतीय चैतन्य पार्टी	बी-97, पंचशील विहार, निकट शेख सराय, कम्यूनिटी सेन्टर, नई दिल्ली ।
631	भारतीय छत्रपती सेना	शगुन रो हाउस डी 3,उद्योग भवन के पीछे,अयोध्या नगर, सिन्नर,नासिक, महाराष्ट्र - 422103
632	भारतीय चेतना पार्टी	सूरतगंज, वार्ड नं0 15,थाना नगर,मधुबनी,जिला मधुबनी बिहार- 847211
633	भारतीय दलित कांग्रेस	चौपड़ा पारा, काली मंदिर के पीछे, अम्बिकापुर, जिला-सरगुजा, छत्तीसगढ़ -497001 ।

634	भारतीय दलित पार्टी	खाता सं०- 269, मौ०- विजयनगर, पोस्ट- विजयनगर, अँचल-बाँका, जिला- बाँका, बिहार ।
635	भारतीय दमितजन पार्टी	गाँव-गोविन्दपुर, पोस्ट-सिहारा, तहसील-धामपुर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश- 246746.
636	भारतीय देशभक्त पार्टी	92/एच/2, प्रताप मार्केट, मुनीरका, (मार्फत सोमू प्रेस), नई दिल्ली- 110067.
637	भारतीय देशभक्त संघ (ब्रजेश)	शॉप नं०-1, खसरा नं० 1494, नेहरू इन्कलेव, बैंक वाली गली, अलीपुर, दिल्ली- 110036.
638	भारतीय धर्मनिरपेक्ष पार्टी	मकान नं. 146, ग्राम- खडगपुर, पोस्ट- चौबेपुर, थाना- चौबेपुर, जिला- कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 209203
639	भारतीय दृष्टिगोचर पार्टी	मकान संख्या- 54, ग्राम - मौसंदी, पोस्ट- सूरतगंज, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश- 225304
640	भारतीय एकता मंच पार्टी	शबाब बिल्डिंग, टैगोर मार्ग, नदवा रोड लखनऊ 226020, उत्तर प्रदेश ।
641	भारतीय गदर पार्टी (एस)	गांव-ओदेरा मठिया, पोस्ट-राऊतमऊ, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश-276406
642	भारतीय गांधीवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- गड़वार, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश ।
643	भारतीय गणतंत्र पार्टी	मकान नं. 5, गंगाधाम, कुन्दन नगर, बाग मुगालिया, होशंगाबाद रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
644	भारतीय गरीबमजदूर पार्टी	ग्राम- पचटकी राम, पोस्ट- पचटकी यदू, थाना- बैरगनिया, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843313
645	भारतीय गोरखा जनशक्ति	26/2, एच.डी. लामा रोड दार्जिलिंग-734101, (पश्चिम बंगाल) ।
646	भारतीय ग्राम नगर विकास पार्टी	एकता विहार, लेन नं. -1, ग्रामसभा- आमवाला तल्ला, पी०ओ० - कण्डोली, सहस्रधारा रोड, देहरादून उत्तराखण्ड -248001 ।
647	भारतीय ग्रामीण समाज पार्टी	भवन नं० 15/357, भरोसी की धर्मशाला, पंचम वाली गली, दत्तपुरा, मुरैना, मध्य प्रदेश-476001
648	भारतीय ग्रामवासी पार्टी	ग्राम - विक्रमपुर बाँसपार (मणि चौराहा), पो० - बैतालपुर, जिला - देवरिया, उत्तर प्रदेश
649	भारतीय हरित क्रान्ति दल	गांव व पो० सोन्टा, वायां -अलीपुर, खेरी, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश ।
650	भारतीय हरित पार्टी	निकट हंस प्राकृतिक चिकित्सालय, मीरापुर रोड, जानसठ, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश - 251314
651	भारतीय हिमाचल जन विकास पार्टी	गांव व डाकघर - बढलठोर, तहसील - देहरा, जिला - कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश - 177105
652	भारतीय हिन्द एकता दल	डिफेन्स कालोनी, अनिल शहीद नगर, इज्जतनगर, नैनीताल रोड, बरेली - 243122 उत्तर प्रदेश ।
653	भारतीय हिन्द फौज	यु.जी.एफ-07, चित्रांश ड्रीम सोसाइटी, आर.के.पुरम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश - 201013
654	भारतीय ईमानदार पार्टी	सिंधौली, तहसील - पुवायाँ, शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश ।
655	भारतीय इण्डियन सैकुलर	हमदर्द नगर-बी, जमालपुर, माफी, तहसील कोल, जिला- अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-

	पार्टी	202001.
656	भारतीय इंसान पार्टी	नं0 - 84, चतुर्थ तल, बट्ला हाउस, खलीलुल्लाह मस्जिद के पास, जामिया नगर, ओखला, नई दिल्ली-110025 ।
657	भारतीय जागरण पार्टी	पूर्वी नवादा, आरा, भोजपुर- 802301, बिहार ।
658	भारतीय जन अधिकार पार्टी	गाँव-भीम,हॉस्पिटल रोड,पोस्ट ऑफिस-भीम,जिला-राजसमन्द
659	भारतीय जन हित विकास पार्टी	220, इन्द्रापुरी, जैकबपुरा रोड, गुडगाँव, हरियाणा - 122001
660	भारतीय जन हितकारी पार्टी	प्लॉट नं0 31-32, शिवनगर, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर, राजस्थान
661	भारतीय जन जागरुक पार्टी	सर्वे नं. 171, ग्राम- चैनपुरा, पोस्ट- शिवगढ़, तहसील- मेघ नगर, जिला- झाबुआ, मध्य प्रदेश- 457777
662	भारतीय जन जन पार्टी	दुकान संख्या - 8 व 9, द्वितीय तल,गोयल प्लाजा, फैजाबाद रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
663	भारतीय जन मानस पार्टी	मकान संख्या - 262 घ, सरसवाँ, थाना - अर्जुनगंज, अर्जुनगंज, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226002 ।
664	भारतीय जन मंच	361, गली नं0 13, बुद्ध विहार, (बड़े स्कूल के पीछे), मंडोली गांव, नन्द नगरी,दिल्ली -110093 ।
665	भारतीय जन नायक पार्टी	सी-17-18, सेक्टर-15, वसून्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201012
666	भारतीय जन परिषद	एफ.एफ/108, शान्तिविला कॉम्प्लेक्स, एच.पी.पेट्रोल पंप के सामने, दहेगम रोड, नारोडा, अहमदाबाद, गुजरात- 382330
667	भारतीय जन प्रगति दल	मकान नं.- 134, गाँव- रामरायपुर (बाय पास रोड), पोस्ट- रामरायपुर, तहसील- भदोही, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221314
668	भारतीय जन सहयोग पार्टी	8/6, जूही सफेद कॉलोनी, कानपुर,उत्तर प्रदेश - 208014
669	भारतीय जन समाधान पार्टी	411,स्पेक्ट्रम,नजदीक यशरीअन,स्वामी विवेकानंद सर्किल,मेम नगर,अहमदाबाद,गुजरात-380052
670	भारतीय जन समाज पार्टी	एल.जी.एफ.123,खजाना कॉम्प्लेक्स,आशियाना,लखनऊ,उत्तर प्रदेश- 226012
671	भारतीय जन सम्मान पार्टी	फ्लैट नं. 32, कृष्णा अपार्टमेन्ट, ब्लॉक बी.एच पूर्वी, डी.डी.ए फ्लैटस, ग्राउंड फ्लोर, शालीमारबाग, दिल्ली- 110088
672	भारतीय जन सम्पर्क पार्टी	मकान संख्या- 3616, शारदा निवास कटरा, आधारताल, जबलपुर, मध्य प्रदेश।
673	भारतीय जन समरसता पार्टी	5081,विश्वकर्मा नगर,प्लॉट नं.80,वार्ड नं.14,द्वारकापुरी,रामेश्वरी रोड,राधा मंदिर के पास,पार्वती नगर,नागपुर,महाराष्ट्र-440027
674	भारतीय जन सम्राट पार्टी	खसरा नं. 719, प्रॉपर्टी नं. X9/10, ओल्ड नं. X6/12, ग्राम- घोडा गुजरन खादर, गली नं. 9, X ब्लॉक, ब्रह्मपुरी, दिल्ली- 110053
675	भारतीय जन सनमति पार्टी	ग्राम- हरौला, सेक्टर -5, नोएडा, उत्तर प्रदेश ।
676	भारतीय जन सत्ता पार्टी	भवन संख्या - 11, मुख्य ग्राम + पोस्ट - भादवासी, भाया - कटराथल, जिला- सीकर, राजस्थान- 332024
677	भारतीय जन सेवा पार्टी	शरीफ मार्केट, हरदोई रोड, सिकरोरी, पोस्ट-काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश

		-227107
678	भारतीय जन स्वराज पार्टी	सीसी- 1/24, अनसल, अवन्तिका, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201001
679	भारतीय जन युग पार्टी	हीरा नगर, पुरानी छावनी, लशकर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश - 474010
680	भारतीय जन काँग्रेस (राष्ट्रीय)	113/70 बी, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पटना -800023, (बिहार) ।
681	भारतीय जनता समाजसेवी पार्टी	हाउस नं० 116 आरपीजी/844,वर्तमान म.116/839,रावतपुर-2,कल्यानपुर,कानपुर उत्तर प्रदेश- 208019.
682	भारतीय जनता विकास पार्टी	डी- 4/2, सेक्टर- 20, रोहिणी, दिल्ली- 110086
683	भारतीय जनहित काँग्रेस पार्टी	ए-3, रूम नं. 602, छठा माला, आर.एन. ए. पार्क, वाशी नाका, आर.सी. मार्ग, चेम्बुर, मुंबई- 400074, महाराष्ट्र
684	भारतीय जनहित दल	डी-1/535, जे.जे.कलस्टर, भलस्वा डेरी, नई दिल्ली - 110042
685	भारतीय जनजागरण गाँधीवादी पार्टी	खाता नं. 112,खेसरा नं. 1196,ग्राम- हसमी,पी.एस- माण्डर,जिला- राँची झारखण्ड- 835214
686	भारतीय जनमुक्ति पार्टी	ग्राम - डुन्दुर, पोस्ट - लठेया, थाना - छतरपुर, जिला - पलामू, झारखण्ड - 822116
687	भारतीय जनराज पार्टी	मकान संख्या 653, वार्ड नं. 14, शिव नगर, नियर शिव मंदिर, हिसार, हरियाणा-125001
688	भारतीय जनसमानता अधिकार पार्टी	कोठी नं० - 2, पूर्णागिरी विहार, पटेल नगर, पो० - इज्जत नगर, जनपद- बरेली, उत्तर प्रदेश ।
689	भारतीय जनसेवा कांग्रेस	कोठी नं. 768, वार्ड नं. 17, किला कॉलोनी, कोसली रोड, झज्जर, हरियाणा- 124103
690	भारतीय जनता दल	सी-16, संजय विहार, आवास विकास कॉलोनी, मेरठ रोड, हापुड, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
691	भारतीय जनता दल (इंटिग्रेटिड)	मकान नं०62, गली नं०16, ए-1 ब्लॉक, सन्त नगर, (बंगाली कॉलोनी), बुराड़ी रोड, दिल्ली-110084 ।
692	भारतीय जनता की एकता पार्टी	प्लॉट संख्या 29-ए एण्ड 30ए, खसरा नं० 20/1/1, गांव राजापुरा खुर्द दिल्ली, कालोनी मोहन गार्डन, आर-III, ए-2, नई दिल्ली -110059
693	भारतीय जनता सेक्यूलर पार्टी	सर्वमंगला नगर, दुरपा, वार्ड नं. 45, पोस्ट- दुरपा, थाना- कुसमुण्डा, तहसील- कटघोरा, जिला- कोरबा, छत्तीसगढ़- 495677
694	भारतीय जनतंत्र मोर्चा	खाता नम्बर-80,प्लॉट नम्बर-528,ग्राम-सिदरौल,थाना-नामकुम,युगान्तर भारती परिसर,जिला-रांची,झारखण्ड-834002
695	भारतीय जनतंत्र सनातन दल	नं. 752, चरित्र वन, टीचर्स कॉलोनी, जिला- बक्सर, बिहार- 802101
696	भारतीय जनतांत्रिक जनता दल	1, दरोगा राय पथ, पटना- 800001,बिहार ।
697	भारतीय जनतांत्रिक पार्टी	ग्राम- चिरोटा, पोस्ट- अजयराजपुरा, वाया- बगरू, तहसील- सांगानेर, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303007
698	भारतीय कामगार पार्टी	ग्राम- चान्दोपारा, पोस्ट- चान्दोपारा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-

		212402 ।
699	भारतीय कौटिल्य सेना	आर 14/6 (बेसमेंट), राजनगर, स्कवायर माल के सामने, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
700	भारतीय किसान जनशक्ति पार्टी	मकान नं0 600, वार्ड नं0 5, घसियारीपुरा, नौवागढ़ी, बहराइच उत्तर प्रदेश
701	भारतीय किसान पार्टी	ई- 58, तारानगर, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान- 302012
702	भारतीय किसान सेना (सेक्युलर)	ग्राम-वियारा,अंचल-भगोडीयाँ,जिला-बडौदा,गुजरात- 391760
703	भारतीय किसान यूनियन समाज पार्टी	मकान नं. 332एफ, वृन्दावन गेट के पास, राजेन्द्र नगर, पश्चिम गोरखनाथ, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 272115
704	भारतीय क्रांति वीर पार्टी	ग्राम- काजीचक, पोस्ट व पुलिस स्टेशन- संदेश, जिला- भोजपुर, बिहार- 802164.
705	भारतीय कृषक दल	197, कौशलपुरी (सरला बाजपेयी का बाग), सुभाष नगर के दक्षिण, जनपथ, हरदोई,उत्तर प्रदेश ।
706	भारतीय लोक चेतना पार्टी	जानकी निवास,ब्रह्मपुर,पोस्ट व थाना- फुलवारी शरीफ,जिला-पटना,बिहार- 811505
707	भारतीय लोक नायक पार्टी	ग्राम- नौवापाली,पोस्ट-चकरा,जिला सिवान,बिहार- 841226
708	भारतीय लोक सत्ता पार्टी	गली नं.6,वार्ड नं.47,गडोरा का पुरा,जिला-मुरैना,मध्य प्रदेश-476001
709	भारतीय लोक सेवा दल	एमसी नं. 9/128डी, 9/128/ई, गली नं. 10, वार्ड नं. 9, नियर कंसल गैस एजेन्सी, रमन मण्डी, तहसील- तलवंडी साबो, जिला- भटिंडा, पंजाब- 151301
710	भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सदाय बिगहा-165, बड़हिया, जिला- लखीसराय, बिहार- 811302.
711	भारतीय लोकशाही पार्टी	खडका रोड, रामदेव बाबा मंदिर, ता0- भुसावल, जिला- जलगांव, महाराष्ट्र- 425201
712	भारतीय लोकस्वराज्य पार्टी	सुभाष नगर, अष्टविनायक कॉलोनी, जि0प0 प्राथमिक शाळे समोर, डी0पी0 भोसले कॉलेज जवळ, सुलतानवाडी रोड, ता0 कोरेगांव, जिला- सतारा, महाराष्ट्र-415501
713	भारतीय महासंघ पार्टी	नं0 के-2413, नगर पालिका रोड, रोसड़ा समस्तीपुर, बिहार- 848210
714	भारतीय महाशक्ति मोर्चा	जय नारायण वर्मा रोड, फतेहगढ़, जिला-फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, पिन- 209601.
715	भारतीय महिला पार्टी (शीतल वर्मा)	मकान संख्या- 12/2, बी ब्लॉक, फेज- 2, गोयल विहार, निकट सेंट थॉमस स्कूल, द्वारका, गोगिया डेरी रोड, नई दिल्ली- 110071.
716	भारतीय मानव कल्याण पार्टी	ई 49/1, राजहर्ष कॉलोनी, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462042
717	भारतीय मानव समाज पार्टी	गांव व पोस्ट- ओड़ना, तहसील- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222146.
718	भारतीय मानवता पार्टी	श्रीरामपुर टोला (बिहटा),पो.+थाना-बिहटा,जिला- पटना,बिहार- 801103

719	भारतीय मानवाधिकार फेडरल पार्टी	154/17, राज चेंबर, (फखरुद्दीन मंजिल), अलीभाई प्रेमजी मार्ग, ग्रांट रोड, मुंबई, महाराष्ट्र- 400007.
720	भारतीय मजदूर किसान कांग्रेस पार्टी	डी-40, मेरठ रोड, औद्योगिक क्षेत्र, गाजियाबाद -121003, उत्तर प्रदेश ।
721	भारतीय मित्र पार्टी	सर्कल -10, होल्डिंग सं० -79ए/64, मोहल्ला - गोला रोड, बाकरगंज, जिला- पटना बिहार- 800004
722	भारतीय मोहब्बत पार्टी (ऑल इण्डिया)	म.नं.-18184, चंदसार बस्ती, भटिण्डा-151001. (पंजाब)।
723	भारतीय नागरिक सुरक्षा पार्टी	नं.13,न्यू केतन सोसाइटी,नजदीक उमा शिक्षण तीर्थ,भ.भाग्योदय सोसाइटी,नरोदा,अहमदाबाद,गुजरात-382325
724	भारतीय नौजवान इन्क्लाव पार्टी	2/26, मन्डौली एक्सटेंशन, मन्डौली चुंगी, शाहदरा,दिल्ली- 110093.
725	भारतीय नव विकास पार्टी	60, सीडा मोहल्ला, चिल्ला गाँव, नियर साई मंदिर, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
726	भारतीय नवजवान सेना (पक्ष)	श्री. मोरया पार्क, शॉप नं०4,सोमनाथनगर, सोमनाथ मंदिर के पास, वडगांवशेरी, पुणे-411014,महाराष्ट्र ।
727	भारतीय नवोदय पार्टी	ग्राम- अहेरिया, पोस्ट- चकरनगर, चकरनगर चौराहा, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश।
728	भारतीय न्यू संस्कार क्रांतिकारी पार्टी	ग्राम व पोस्ट- सहसरौंव, भाया- भगवानपुर हाट, जिला- सिवान, बिहार- 841408
729	भारतीय निवास पार्टी	ग्राम – सरबसी, पोस्ट – बढनी, गोपालपुर (उनवल), जिला – गोरखपुर, उत्तर प्रदेश - 273406 ।
730	भारतीय नौजवान दल	मकान नं.882, गली नं.16, फेस -4, पुष्कर विहार, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली - 110094
731	भारतीय पंचायत पार्टी	डी – 15/674, गली नं० – 5, गणेश नगर-2, शकरपुर, दिल्ली – 110092
732	भारतीय पंचायती राज पार्टी (लोकतांत्रिक)	बी-247,तीसरी मंजिल,प्रियदर्शनी विहार दिल्ली- 110092.
733	भारतीय पंचशील पार्टी	बी-71,इंदिरी नगर,रायबरेली,उत्तर प्रदेश- 229001
734	भारतीय पार्टी	न्यू कॉलोनी, पोस्ट-नीम का थाना, जिला-सीकर, राजस्थान – 332713
735	भारतीय पार्टी (लोकतांत्रिक)	ए-12, अन्सा प्लाजा, आर.बी.एस.एस. सहाय रोड, भागलपुर, बिहार- 812001
736	भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस	डी.-43, राजधानी पार्क, नांगलोई, दिल्ली -110041.
737	भारतीय प्रजा जन पार्टी	नारायणपुर रोड, कस्बा बानसूर, जिला-अलवर, राजस्थान ।
738	भारतीय प्रजातन्त्र निर्माण पार्टी	7/7/47-ए न्यू कॉलोनी लाल बाग, पोस्ट ऑफिस – फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
739	भारतीय पब्लिक लेबर पार्टी	357/3, श्याम नगर, गली नं० -1, काली मन्दिर के पीछे, फॉयसागर रोड, अजमेर, राजस्थान – 305001

740	भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी	ग्राम - नयाटोला बरियारपुर, पंचायत - चम्पापुर, वार्ड नं० 13, थाना - बख्तियारपुर, जिला - पटना बिहार ।
741	भारतीय राष्ट्रवादी पार्टी	जे- 74ए, गली नं. 14, खसरा नं. 6/14, स्वरूप नगर, दिल्ली- 110042.
742	भारतीय राष्ट्रीय दल	सी- 6/52, यमुना विहार, दिल्ली- 110053
743	भारतीय राष्ट्रीय जागरूक दल	ई-2548, राजाजीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226017 ।
744	भारतीय राष्ट्रीय जनसत्ता	127, प्रथम तल, वर्धमान टावर, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092
745	भारतीय राष्ट्रीय लोक मंच पार्टी	प्लॉट नं० 2, गली नं० - 2, चौहान पट्टी, निकट मंगल बाजार, करावल नगर, दिल्ली- 110094
746	भारतीय राष्ट्रीय तंत्र पार्टी	एन. 502, मधुवन ग्लोरी, सेन्ट मेरी स्कूल के नजदीक, नरोडा, अहमदाबाद, गुजरात-382330
747	भारतीय रिपब्लिकन पार्टी (इन्सान)	ग्राम - महुआरी, पो० जंगीगंज, जिला - सं० र० न० भदोही, उत्तर प्रदेश ।
748	भारतीय रोजगार पार्टी	ई-77, पुराना जसोला गाँव, निकट मेट्रो पिलर नं०- 141, जसोला, निकट जामिया को-ऑपरेटिव बैंक, नई दिल्ली-110025 ।
749	भारतीय सबका दल	मुहल्ला- गोलवार टोला, पोस्ट, थाना व तहसील- मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
750	भारतीय सबलोग पार्टी	मौजा दीघा, राजीव नगर, रोड सं० 25 ई, पो०-केसरीनगर, थाना- फूलवारी, पटना बिहार-800024
751	भारतीय समाज सेवा पार्टी	मकान नं० - 1, ग्राम - वनुपुर पुख्ता, पोस्ट - मलिकपुर (सोरो), जिला - काशगंज, उत्तर प्रदेश ।
752	भारतीय सामाजिक एकता पार्टी	16, ग्राम- नंदोरा, तहसील- गोहरगंज, जिला- रायसेन, मध्य प्रदेश- 464990
753	भारतीय सामाजिक क्रान्ति दल	गांव- सुवारी, पोस्ट-दानगंज, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
754	भारतीय सामाजिक न्याय मोर्चा	वार्ड नं० - 3, विकास नगर, राबर्टसगंज, जनपद - सोनभद्र, उत्तर प्रदेश - 231216
755	भारतीय सामाजिक न्याय पार्टी	गांव व डाकखाना - सेरसा, तहसील व जिला - सोनीपत, हरियाणा ।
756	भारतीय सामाजिक पार्टी	6, बस स्टैंड, अलिराजपुर, जिला - अलिराजपुर, मध्य प्रदेश - 457887
757	भारतीय समाजवादी सेना	भवन संख्या- एस.-2/525, मोहल्ला- सिकरौल, पोस्ट- कैण्टूनमेण्ट, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
758	भारतीय समानता पार्टी	चित्रकूट धाम, तीसरी मंजिल, 60-बी, पनकी रोड, कल्याणपुर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208017.
759	भारतीय समता पार्टी	173 डी, राधा कृष्ण चौराहा, रामपुरम् श्याम नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208013
760	भारतीय संगम पार्टी	230/5, न्यू मेंहदौरी, पो० - तेलियरगंज, जनपद - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211004.
761	भारतीय संघर्ष समिति	मकान सं. 4684, निसार नगर, करीदा संकुल के सामने, जम्भून

		रोड,सांगवान,बुलढाणा,महाराष्ट्र-443001
762	भारतीय संस्कृत विरासत पार्टी	मकान नं. 338, ग्राम व पोस्ट- लखौर खुर्द, थाना- कुरावली, जिला-मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
763	भारतीय सवैधानिक जनहित पार्टी	विक गोल्ड फार्म, गांव - सरायजोगा, पोस्ट-कान्था, नवाबगंज उन्नाव, उत्तरप्रदेश।
764	भारतीय संयुक्त किसान पार्टी	भुसाही बाजार,यादव मार्केट,कमले बलिया,भुसाही,बोछहा,मुजफ्फरपुर बिहार-843103
765	भारतीय सर्वजन हिताय समाज पार्टी	अनंत विहार कॉलोनी, दलदल सिवनी मार्ग, मोवा, रायपुर, छत्तीसगढ़।
766	भारतीय सर्वजन पार्टी	गांव-रामपुर, हाटा मार्ग, पोस्ट-गौरी बाजार, जिला-देवरिया-274202, उत्तर प्रदेश।
767	भारतीय सर्वोदय पार्टी	152/126, पटेल नगर (पश्चिम), देहरादून-248001, उत्तराखण्ड ।
768	भारतीय सर्वसमाज पार्टी	लाल सिंह कचरी वाला, शनि बाजार वाली गली, टुण्डा नगर, जौहरी पुर, दिल्ली ।
769	भारतीय सत्य संघर्ष पार्टी	ग्राम-बिड़िया, थाना-मंडला, जिला-मंडला, मध्य प्रदेश ।
770	भारतीय सेवक पार्टी	उत्तराखण्ड ग्रामिण बैंक के नजदीक,बुग्गावाला (मेन मार्केट),हरिद्वार,उत्तराखण्ड- 247662
771	भारतीय शक्ति चेतना पार्टी	वाई नं0 18, ग्राम – खामदार, पो0 मोड, तहसील-व्यौहारी, जिला – शहडोल, मध्य प्रदेश
772	भारतीय शक्ति दल	डी – 236, विवेक विहार, दिल्ली – 110095 ।
773	भारतीय शान्ति क्रान्ति पार्टी	1/80, रतन विहार, किराडी, नांगलोई, नई दिल्ली – 110041
774	भारतीय श्रमिक दल सोशलिस्ट	वामन नगर पतेरी, सेक्टर - 20, जिला - सतना, मध्य प्रदेश ।
775	भारतीय श्रमिक पार्टी	79/4, जूही सफेद कॉलोनी, साकेत नगर,कानपुर नगर – 208014, उत्तर प्रदेश ।
776	भारतीय स्वदेशी कांग्रेस	12/303,मैक्स सिटी पार्क सफायर,रामप्रस्था ग्रीन्स,सेक्टर-9,वैशाली गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश- 201010.
777	भारतीय स्वराज्य क्रांती पार्टी	तृमबोलीनगर,कसबा-बावडा जिला-कोल्हापुर,महाराष्ट्र- 431124.
778	भारतीय स्वर्ण समता पार्टी	201-सी, गोयल एन्कलेव, फैजाबाद रोड, चिनहट लखनऊ उ. प्र.
779	भारतीय स्वर्णिम युग पार्टी	40,लक्ष्मी नगर,रत्नेश्वर रोड,रतलाम,मध्य प्रदेश- 457001
780	भारतीय स्वतन्त्र पंच पार्टी	नोरंगिया चौराहा से 50 मीटर कोनी मार्ग,पोस्ट-कोनी,नोहरू चौक खलीलाबाद,
781	भारतीय तारक समाज पार्टी	465ए बिनौली, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250645
782	भारतीय ट्रायबल पार्टी	मु.पो. चंदेरिया, तालुका- वालिया,जिला- भरूच, गुजरात
783	भारतीय वंचितसमाज पार्टी	ग्राम – भुड़िया (फगुहा), तह0 व जिला – कन्नौज,उत्तर प्रदेश।
784	भारतीय वीर दल	खेवट/खसरा नं.- 39/56, मुस्टिल नं.- 14, मौजा- घुडासन, पोस्ट- तिगाँव, बल्लबगढ़, फरीदाबाद, हरियाणा - 121101

785	भारतीय वीर किसान पार्टी	ग्राम-खापरखेडा, तालुक- जफ्राबाद, जिला- जालना, महाराष्ट्र।
786	भारतीय विकास पार्टी	139-बी, टामुर नगर, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी, नई दिल्ली ।
787	भारतीय विकास दल यूनाईटेड	मकान नं. एसएम.011-0425, ग्राम- छोटा बरियारपुर, वार्ड नं.- 38, पोस्ट- मोतिहारी कोर्ट, थाना- छतौनी, जिला- पूर्वी चम्पारण, बिहार- 845401
788	भारतीय विस्तारवादी पार्टी	ग्राम-श्यामपुर, पो0 – दुगरेई, जिला – फतेहपुर, उत्तर प्रदेश ।
789	भारतीय युवा एकता शक्ति पार्टी	मकान सं.-63,रामपुर रोड,मानपुर उत्तर,हल्द्वानी,जिला- नैनीताल,उत्तराखण्ड-263139
790	भारतीय युवा जनशक्ति पार्टी	रोजी अनीमा एक्स.टी.टी.आई, अखण्ड ज्योति हास्पिटल के पास, दीघा, पटना, बिहार- 800011
791	भारतीय युवा क्रान्ति पार्टी	ई-ब्लॉक सूरजदीप कॉम्प्लेक्स, निकट दैनिक जागरण चौराहा, जॉपलिंग रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
792	भारतीय युवा पार्टी	एवरशाइन आपर्टमेंट जलाराम सोसायटी के निकट,रॉयल पार्क के सामने,पार्क एवेन्यू के निकट,जानागढ,गुजरात- 362001
793	भारतीय युवा पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं. 139, सोनवरसा बैरिया, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश- 277208
794	भारतीय युवा सेना	मकान नं0 – 1-407, कस्बा विभाग, किल्ले धारूर, तालुक – धारूर, जिला – बीड, महाराष्ट्र – 431124 ।
795	भारतीय युवा स्वाभिमान पार्टी	19/769, मोहल्ला – नारायनपुर, शुक्ला आटा चक्की के पास, गोविन्द नगर, औरैया, उत्तर प्रदेश– 206122
796	भारतीय मानवता निर्माण पार्टी	लाला लाजपत नगर,पोस्ट-पुण्दाग,थाना-जगन्नाथपुर,जिला - राँची,झारखण्ड - 834004.
797	भ्रष्टाचार मुक्ति मोर्चा	चन्द्रनगर कुरुद रोड कोहका, भिलाई, जिला व तहसील - दुर्ग, छत्तीसगढ़।
798	भ्रष्टाचार विरोधी दल	आर.जेड.डी.-120सी, निहाल विहार(नानग्लोई), दिल्ली- 110041
799	भ्रष्टाचार का अंत पार्टी	64/189 गड़रिया मोहाल, कानपुर,उत्तर प्रदेश- 208001
800	भूमिसन्तान अधिकार पार्टी	ग्राम-तलूक रानाघाट,पो.-पूर्व रानाघाट,थाना-मथुरापुर,जिला-दक्षिण24 परगना पश्चिम बंगाल- 743338
801	बिहार जनता पार्टी	ग्राम - जेल शहर, ओल्ड रिमाण्ड होम, धर्मनाथ मन्दिर रोड, दौलतगंज, सारण, बिहार - 841301
802	बिहार जस्टिस पार्टी	प्लॉट नम्बर 2251,यदुवंशी नगर दीघा,आशियाना रोड,पटना बिहार- 800011
803	बिहार लोक निर्माण दल	मौ. नूनगोला, थाना नगर व पोस्ट- हाजीपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 844101
804	बिजु स्वाभिमान दल	प्लॉट नं0 40, उमापदा, स्टेडियम वी आई पी रोड, पी ओ - एफ सी प्रोजेक्ट, कलिंग नगर, जाजपुर रोड, जाजपुर, ओडिसा – 755020
805	बीरा ओडिया पार्टी	मार्फत – श्री पी. सामन्तरे, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), स्था./पो.ऑ. – मधुपटना, कटक – 10 (उडिसा) ।

806	बोलशैविक पार्टी ऑफ इंडिया	डा. शशिकान्त वायेकर, 9 भुपेशनगर, गोरेवाडा रोड, नागपुर- 440013, महाराष्ट्र ।
807	बराबर समाज सांझी पार्टी	मकान नं0 – 698, ग्राम – अर्नियावाली, तहसील – नत्थुसारी चोपटा, जिला – सिरसा, हरियाणा - 125055
808	बृज पार्टी	बेसवां मोड़, अलीगढ़ मथुरा रोड, पोस्ट – बेसवां, ग्राम पंचायत – नयाबाँस, तहसील – इगलास, जिला – अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202145
809	ब्रज विकास पार्टी	ए-193, ट्रांस यमुना कालोनी, फेस – II, आगरा – 286002, उत्तर प्रदेश ।
810	बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी	पैलेस के पीछे, किशोरगंज पन्ना, जिला- पन्ना, मध्य प्रदेश ।
811	ब्रिज क्रान्ति दल	16, हरियाणा भवन, दयाल बाग, आगरा – 5, उत्तर प्रदेश ।
812	बुद्धिविवेकी विकास पार्टी	आर(यू)- 9, द्वितीय तल, पीतमपुरा, दिल्ली – 110088.
813	बुंदेलखंड एकीकृत पार्टी	बुंदेली सदन, ग्राम एवं पो0 – सतारी, जिला – महोबा, उत्तर प्रदेश।
814	बुन्देलखण्ड काँग्रेस	56, ज्वाला हेडी मार्केट, शर्बती काम्प्लेक्स, पश्चिम विहार, दिल्ली – 110063.
815	बुन्देलखण्ड क्रान्ति दल	मकान नं. 40, मोहल्ला- खाई, नई बस्ती, झांसी, उत्तर प्रदेश - 284001
816	बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा	श्री सुखलाल आइस फैक्ट्री भवन, इलीट चौराहा, झांसी – 284001, (उत्तर प्रदेश) ।
817	बुंदेलखंड विकास दल	द्वारा श्री शिव नारायण खरे (एडवोकेट), 116/3 शिवालय, किशोर गंज, टाउन एरिया, कुलपहाड़, जिला – महोबा, उत्तर प्रदेश – 210426
818	लोक कल्याण पार्टी	नंबर 4 एफ / 403, अकाशरथ बी / एच रत्नम ऑप। सी.जी.रोड, अहमदाबाद, गुजरात - 380009
819	चैलेंजर्स पार्टी	दुर्गेश निवास, विठोबा मंदिर के सामने, 68/XX टेलर स्ट्रीट, काउलबाजार, बेल्लारी, कर्नाटक – 583102 ।
820	चण्डीगढ़ की आवाज पार्टी	मकान नं. 2207, ग्रांड फ्लोर, सेक्टर- 45 सी, चण्डीगढ़- 160047
821	चंडीगढ़ विकास पार्टी	मकान नं0 230, सेक्टर 9-सी, चंडीगढ़ – 160009.
822	चेन्नई यूथ पार्टी	एच नं0 2595, टी.एन.एच.बी., अयप्पक्कम, प्रथम तल, चेन्नई, तमिलनाडु- 600077
823	छत्रपति शिवाजी भारतीय गरीब पार्टी	ग्राम-फत्तेहपुर (खौदा), पोस्ट-कटौना, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221208
824	छत्तीसगढ़ एकता पार्टी	मकान सं. 182/2, वार्ड नं. 08, बड़े पडरमुदा रोड, जमगहन, तहसील- मलखरोदा, जिला- जांजगीर चम्पा, छत्तीसगढ़- 495691
825	छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा	पो. ऑ. दल्ली राजहारा, जिला – दुर्ग- 491228. (छत्तीसगढ़) ।
826	छत्तीसगढ़ नव निर्माण सेना	सी0 आर0 12, आर0 डी0 ए0 बिल्डिंग, गुरूनानक मार्केट, शारदा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।
827	छत्तीसगढ़ समाजवादी पार्टी	रामानुजगंज रोड, संजय पार्क के सामने, अम्बिकापुर, छत्तीसगढ़ – 497001

828	छत्तीसगढ़ संयुक्त जातीय पार्टी	बजरंग नगर (तात्यापारा वार्ड), रायपुर, छत्तीसगढ़।
829	छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच	21, बतीस बंगला, भिलाई नगर, जि० - दुर्ग- 490006 छत्तीसगढ़ ।
830	छत्तीसगढ़ विकास गंगा राष्ट्रीय पार्टी	खोंगापानी, जिला - कोरिया छत्तीसगढ़ - 497447
831	छत्तीसगढ़ विकास पार्टी	ए-12, फ्लाश विहार, न्यू पुरैना, पोस्ट ऑफिस-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
832	छत्तीसगढ़ समाज पार्टी	हांडीपाड़ा आजाद चौक, रायपुर - 492001. (छत्तीसगढ़)।
833	छत्तीसगढ़िया पार्टी	म०मं००93, ग्राम- धनरास, पोस्ट- छुरी, तहसील- कटधोरा, जिला- कोरवा, छत्तीसगढ़ - 495450
834	चिल्ड्रन फर्स्ट पार्टी ऑफ इंडिया	703-704, देवथा प्लाजा, 132, रेजीडेंसी रोड, बैंगलुरु -560025, कर्नाटक ।
835	क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक फ्रंट	नं. 9, रोसारी चर्च रोड, सनथोमे, चेन्नई - (तमिलनाडु) ।
836	क्रिश्चियन मुन्नेत्र कडगम	93 तैयप्पा मुदाली स्ट्रीट, चेन्नई - 600001. (तमिलनाडु)।
837	सिटिजन पार्टी	मकान. नं. 53, सर्वे नं. - 620, बजनाईकोइल स्ट्रीट, मधननकुप्पम, कोलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600099.
838	सिविल राइट्स पार्टी	फ्लैट नं. डी- 89, ग्राउड फ्लोर, ब्लॉक-16, शिवजोत इन्कलेव, खरड एस.ए.एस नगर, मोहाली, पंजाब- 140301
839	कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट पार्टी केरल स्टेट कमेटी	कुन्नुकुड़ी, त्रिवेन्द्रम - 695037, (केरल) ।
840	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट - लेनिनिस्ट) रेड स्टार	सी-141, सैनिक नगर, नई दिल्ली - 110059 ।
841	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ तेलंगाना (मार्क्सिस्ट-अंबेडकरिस्ट) सीपीटी(एमए)	मं. नं०-2-2-1106/बी/एसबीके1, शान्तिनगर, अम्बरपेट, हैदराबाद-500013
842	काँग्रेस (सेक्युलर)	राम राज भवन, मनीक्काठ रोड, कोचीन - 16 (केरल) ।
843	करप्शन एबोलिशन पार्टी	मकान नं० - 219, गाँव व डाकखाना - शेरिया, तहसील - बेरी, जिला - झज्जर, हरियाणा
844	दक्ष पार्टी	आई/1102, रहेजा विस्टा, रहेजा विहार, चांदीवली, अंधेरी ईस्ट, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400072
845	दलित क्रान्ति दल	जाति मेघवाले, गांव पोस्ट - धौलीपाल, तहसील व जिला - हनुमानगढ़ (राजस्थान) ।
846	दलित मजदूर किसान पार्टी	इ-11/77 न्यू कॉलोनी, हौज रानी मालवीय नगर, नई दिल्ली - 110017.
847	दलित समाज पार्टी	नव चेतना पथ, शिवपुरी, पो. ऑ. - अनीशाबाद, पटना - 800002, (बिहार) ।
848	दलित शोषित पिछड़ा वर्ग	ग्राम- हसनपुर जागीर, पोस्ट- सिकन्द्राबाद, जनपद- बुलन्दशहर, उत्तर

	अधिकार दल	प्रदेश-203205
849	दलित विकास पार्टी (भारत)	हाई स्कूल के पीछे, वार्ड नं. 3, गांव व पोस्ट - घुनवारा, तहसील -मैहर, जिला - सतना, मध्य प्रदेश ।
850	दलित बहुजन पार्टी	4-1-1215, स्ट्रीट नं. 3, बोगुल्लाकुन्टा, किंग काटी रोड, हैदराबाद - 500001.
851	दिल्ली जनता पार्टी	वार्ड - 200, कैप नं0-1, नांगलोई, दिल्ली - 110041
852	दिल्ली परिवर्तन पार्टी	ई-37, टैगोर गार्डन एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110027.
853	डेमोक्रेटिक भारतीय समाज पार्टी	गली नं0 - 7, गुरु नानक पुरा (पूर्वी), चिन्तपूर्णी मन्दिर के पास, जालंधर, पंजाब ।
854	डेमोक्रेटिक काँग्रेस पार्टी	291, ओडियन वाली गली, गोपाल मंदिर के पास, मजीठा रोड, अमृतसर (पंजाब) ।
855	डेमोक्रेटिक क्रप्शन लिबरेशन फ्रन्ट	2एफ/1ए नेडुंगनविलै, पोन्नप्पा नाडार नगर, नागरकोइल, तमिल नाडु - 629004
856	डेमोक्रेटिक ह्यूमन राईट्स मूवमेंट पार्टी	तुन्डुविला वीडू, पन्जियूर, वेनजारामूड पी.ओ. तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695607
857	डेमोक्रेटिक इन्साफ पार्टी	डी-62, जी. टी. बी. नगर (करेली), इलाहाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
858	डेमोक्रेटिक जनता दल (जे. एण्ड के.)	344 ई. पी. किस्टेन कॉलोनी (शहीदी चौक), जोगी गेट, जम्मू (जम्मू व कश्मीर) ।
859	डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	डोर न0.3/78, पी.ओ-एलामकुन्नपुझा, जिला-एर्नाकुलम, कोच्चि, केरल- 682511
860	डेमोक्रेटिक ऑरगेनाइजेशन फॉर सोसिऔ-इकॉनॉमिक ट्रांसफोरमेशन ऑफ इंडिया पार्टी	प्लॉट नंबर -749, बेसमेंट, सेक्टर-39, गुडगाँव, हरियाणा- 122011
861	डेमोक्रेटिक ऑरगेनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	मन्नारायथु, थेक्केथिल वीतिल, पल्लीसेरीकल, पोस्ट -सष्ठमकोट्टा, कोल्लम, केरल- 690521.
862	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	162, आनन्दराव उमरा मार्ग, अशोक नगर, नागपुर - 17, (महाराष्ट्र) ।
863	डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (अम्बेडकर)	मोहल्ला - ताजपुरा, राहों, तहसील - नवांशहर, जिला - शहीद भगत सिंह नगर, पंजाब - 144517
864	डेमोक्रेटिक प्रजाक्रान्ति पार्टी सेक्युलरिस्ट	उम्माथुर पो. व ग्राम. हन्सुर तालुक, मैसूर जिला, कर्नाटक - 571105
865	डेमोक्रेटिक सेक्युलर पार्टी	कोहिनूर बेकरी, उमरेद रोड, ताजाबाद, औलिया नगर, नागपुर - 24, महाराष्ट्र ।
866	डेमोक्रेटिक सोशल जस्टिस पार्टी	तिरुवोणम, एन.एल.आर.ए.140, नीराङ्गी लैन (नं.7/242), तिरुवनन्तपुरम नगरसभ, उल्लूर, मेडिकल कॉलेज, पो.ऑ-तिरुवनन्तपुरम, केरल-695011
867	डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी (प्रबोध चन्द्र)	63- अनन्दा पलित रोड, कोलकाता - 700014, पश्चिम बंगाल ।

868	डेमोक्रेटिक सोसलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	359, वेस्ट कोदलिया, न्यू बैरकपुर, थाना - घोला, जिला - उत्तर 24 परगना, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700131
869	डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी	आर्य स्कूल रोड, वीपीओ - सोहना, एस ए एस नगर, पंजाब- 140 308
870	देस मक्कल मुनेट्र कडगम	3/172, वीरचेल्लैयपुरम कॉलनी, वल्लीयूर (पोस्ट), पी. कुमारलिंगपुरम, आमतुर (वाया), तालुक एवं जिला-विरुधूनगर, तमिलनाडु - 626005
871	देसिया प्रजा सोसलिस्ट पार्टी	एन. एस. भवन, वेलायनी, डाकघर - नेमॉम, तिरुवनन्तपुरम - 695020, केरल ।
872	देश बचाओ जन मोर्चा	डी - 6/171, सेक्टर - 31, नोएडा - 201301 (उत्तर प्रदेश) ।
873	देश बचाओ पार्टी	223/ए,केवलपुरी,अहिल्याबाई रोड,मुजफ्फरनगर,उत्तर प्रदेश- 251001
874	देश भक्त पार्टी	बी - 114, प्रीत विहार, दिल्ली - 110092.
875	देश हित पार्टी	प्लॉट नं० - 467, ग्राम- जमुनी, पोस्ट- तरकुलवा, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
876	देश जनहित पार्टी	प्लॉट नं. 78, विनायक को० हाऊसिंग सोसाईटी बिदीपेट, पावर हाउस के पीछे, नरसाला, मकान नं० - 4430/78, मौजा बिदीपेट, नागपुर - 30 महाराष्ट्र ।
877	देश सेवा पार्टी	नं. ए-2,अधाना भवन,ग्राम- मोरना,सेक्टर- 35,नोएडा,उत्तर प्रदेश- 201303.
878	देश शक्ति पार्टी	14/39, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
879	देशा दल	मानस रंजन मिश्रा खतियान नं.466/90,तहसील नं.198,आनंद विहार,सर्वहल,हनुमान मंदिर के पास,पोस्ट एवं थाना-झारसुगुडा,जिला-झारसुगुडा,ओडिशा-768201
880	देशबन्धु पार्टी	ग्राम- मेहरबान नगर, निकट प्राइमरी पाठशाला, मेहरबान नगर, बाईपास रोड नानपारा, पो० - बलहा, तहसील - नानपारा, जिला - बहराइच, उत्तर प्रदेश।
881	देशभक्त निर्माण पार्टी	सुल्तानपुर बारहगाँवा,पोस्ट व तहसील - मधुबन,जनपद - मऊ, उत्तर प्रदेश
882	देशी किसान पार्टी	मकान सं० - 1624, वार्ड सं० - 52, लक्खीबाग मानपुर, जिला गया, बिहार
883	देशवादी पार्टी	मकान नं. 2184, डी- ब्लाक, इन्दिरा नगर, जनपद- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226016
884	देसिया पातुकाप्पु कडगम	'अरिवागम' 33, रामकृष्ण स्ट्रीट, गांधी नगर, सालीग्रामम, चेन्नई - 600093 (तमिलनाडु) ।
885	देसिया फारवर्ड ब्लाक	नं० 5, एम० पी० एवेन्यू मजेस्टिक कॉलोनी, शालीग्रामम, चेन्नई - 600093, तमिलनाडु ।
886	देसिया मक्कल पेरियक्कम	प्लॉट नं. 19, के.के. नगर,नन्निलम 61010,नन्निलम-पोस्ट,तिरुवारूर,जिला तमिलनाडु- 610105.
887	देसिया मक्कल शक्ति काँची	न्यू न - 21, ओल्ड नं० - 11,वैक्टरमन स्ट्रीट, मिंट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600079

888	देसिया सिरुपनमयिनर मक्कल इयक्कम	एस जॉन, नं. 7, पवुन्जुर, मेन रोड, कीरल्वादी- गांव, पुलियारानन कॉट्टेड, पंजायत, जमीन, एन्दाथुर- पोस्ट, मदुरंताकम- तालुका, कांचीपुरम- जिला, चेन्नई, तमिलनाडु- 603311
889	देशिया उझवर उझइपलर कझगम	2/52, सी.सी.रोड. इ.बी.ऑफिस से सामने, किलपाल्लीपट्टु गांव, वेल्लोर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 632311
890	धनवान भारत पार्टी	फ्लैट नं. 002, डी विंग, श्री गणेश सी.एच.एस., शांति विद्यानगरी, मीरा रोड (ईस्ट), तालुका और जिला- ठाणे, महाराष्ट्र- 401107
891	धर्म निरपेक्ष दल	24/42, लोकनाथ चौक, इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
892	धर्मराज्य पक्ष	601/602, बिल्डिंग नं० 7, शुभारम्भ फेस - 1, कोनकानीपाडा मार्ग, ऑफ जी बी रोड, मानपाडा, ठाणे- 400610, महाराष्ट्र ।
893	देशिया एलिया मक्कल नालाकाची	संख्या- 8 / 166,मारुथम्पट्टी कॉलोनी,कठालपट्टी (पीओ) करूर,तमिलनाडु- 639007.
894	देसीया मक्कल कझगम	डोर नं० - 1/239-3, मेन रोड, आर.सी. चेटीपट्टी, कोट्टामेट्टुपट्टी विलेज, धर्मापुरी ओमलुर तालुक, जिला - सलेम, तमिलनाडु - 636455
895	डिजिटल ऑर्गनाइजेशन ऑफ नेशन पार्टी	वार्ड नं. 25,मालमत्ता क्रमांक 35,प्लॉट नं. 3776,मोतीनगर पुसद,तालुका- पुसद,जिला- यवतमाल,महाराष्ट्र- 445204
896	दिग्विजय भारत पार्टी	#5 (40/जी) 21वाँ मेन रोड, मारेनहल्ली, स्टैंडर्ड इंग्लिश स्कूल, विजयानगर, बैंगलूरु, कर्नाटक- 560040
897	दो जमा पांच मुद्दे जन पार्टी	गांव व डाकखाना - आसन, तहसील व जिला - रोहतक, हरियाणा
898	डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी	नं० 9 और 10, ब्लॉक - डी, सेक्टर - सी, गांधी नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004
899	डा. अम्बेडकर पीपुल रिवोल्यूशन मूवमेंट	नं० 4, ग्यारवीं गली, कुमारप्पा नगर, धारापाडावेडु, कटपाडी, वैल्लोर जिला, तमिल नाडु ।
900	डॉ. अम्बेडकर पीपुल्स पार्टी	106, 4 वां क्रॉस, के. एच. रंगनाथ कॉलोनी, अपोजिट बीएचईएल फैक्ट्री, मैसूर रोड, बंगलौर -26 कर्नाटक
901	डॉ. अम्बेडकर समाजवादी डेमोक्रेटिक पार्टी	वेङ्कतैअह्न चतरा, हरदनहल्ली होबली, चामराजनगर तालुक व जिला, कर्नाटक ।
902	डा. भीमराव अम्बेडकर दल	ग्राम - कोठीडीह, तहसील - परगना नवाबगंज, जनपद - बाराबांकी - 225001, उत्तर प्रदेश ।
903	द्रविड मुरपोक्कु मक्कल काच्ची	कार्यालय नं० 5/762,सबरई रोड,मडिपक्कम,चेन्नई,तमिलनाडु- 600091
904	द्रविड़ पेरावाई	69, रंगापिल्लई स्ट्रीट, पांडिचेरी - 605001.
905	डुगर प्रदेश पार्टी	झाड़विंग इंस्टीट्यूट कॉम्पलैक्स, जानीपुर जम्मू - 180007, जम्मू और कश्मीर ।
906	एकलव्य समाज पार्टी	53, बी-ब्लॉक, पुराना दारुलशफा लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 251001.
907	एकता क्रान्ति दल यू. पी.	मार्फत-सत्यपाल सागर, अमनजय,जलाल नगर, छोटी लाइन के सामने, शाहजहांपुर, (उत्तर प्रदेश) ।
908	एकता समाज पार्टी	6898, नीम स्ट्रीट, अहाता किदारा, बाडा, हिन्दू राव, दिल्ली - 110006.

909	एकता शक्ति	झंझाड़ी, पोO -भैनी खुर्द, तहसील - नीलोखेडी, जिला - करनाल, हरियाणा ।
910	एकता विकास महासभा पार्टी	सिन्हा सदन, एल.सी.टी. घाट, पूर्वी मैनपुरा, थाना- पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पोस्ट- जी.पी.ओ, सदर-पटना, जिला- पटना, बिहार-800001
911	इलेचिया धीरविडा मुन्नेत्र कजगम	'इलेचियागम', 4-ए, हिन्दी प्रचार सभा स्ट्रीट, टी. नगर, चेन्नई - 600017, तमिलनाडु।
912	एलुची देशम पार्टी	पुराना नं. 1/46, न्यू नं.34, वडिवलपुरम, पोस्ट- वाडुकाचिमथील, तालुक- नानगुनेरी, जिला- तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627102
913	इंजीनियर्स पार्टी	बूताना हसुर, पोस्ट- सुनागहल्ली, जिला - मंड्या, कर्नाटक- 571403
914	एजहुची तमिझारगल मुनेत्र कजगम	5/197, चिन्ना मंगलाकुडि, उथांगुडि पोस्ट, मदुरै, तमिलनाडु - 625107
915	फौजी जनता पार्टी	मकान नं0 - 104, गाँव - मनोबास, डाकखाना - बराल, तहसील - सिकन्द्राबाद, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203001
916	फौजी किसान पार्टी	ग्राम- सेराहवा, पोस्ट ऑफिस- मुराली, वाया हरिनगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845103
917	फेडरल काँग्रेस ऑफ इण्डिया	होलम्बी खुर्द, गाँव व पोO - होलम्बी कलां, दिल्ली - 110082.
918	फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	244/ब, कठमोडवा, पोस्ट - मदैनिया, जनपद - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224147
919	फोरम फार प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी	बी/145-146, मितल टावर्स, नारीमन प्वाइंट, मुम्बई - 400021, महाराष्ट्र।
920	फार्वर्ड ब्लॉक (सोशलिस्ट)	टेम्पल स्ट्रीट, पो. ओ. व जिला - जलपाईगुडी - 735101 (पश्चिम बंगाल)।
921	फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी	वार्ड नं. 5, रेस्ट हाउस के सामने, गणेश नगर, मुरमाडी, तहसील व पोस्ट- लाखानी, जिला- भंडारा, महाराष्ट्र- 441804
922	फ्रीडम पार्टी	एफ-2/260, टॉप फ्लोर, सुंदर नगरी, नन्द नगरी, शहादरा, दिल्ली- 110093
923	फ्रीथॉट पार्टी ऑफ इंडिया	121, धर्म विहार, पो. ओ. खंडगिरि, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751030
924	फ्रंट ऑफ रेवल्यूशनाइज्ड क्रिएटिव एफर्ट्स	श्री गोवर्धन पैलेस, धार रोड, उधमपुर-182101 जम्मू एण्ड कश्मीर ।
925	गदर पार्टी	मकान संO 32, रामलीला मैदान के बगल में, पड़ाव वार्ड, पोस्ट मकन्द्रगंज, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001 ।
926	गणा सुरक्षा पार्टी	ग्राम-दिघलीपुर, तमूलपुर, थाना-तमुलपुर सब डिविजन-बक्स, जिला-बक्शा असम- 781367.
927	गनसंगम पार्टी ऑफ इंडिया	डी. नं. 6/786, साक्य मंजिल, पोनविलानगर, तिरुची रोड, नामक्कल, तमिलनाडु- 637001
928	गाँधी एकता पार्टी	के-63/01, भूतभैरव नखास (खाशीपुरा), वाराणसी, उत्तर प्रदेश
929	गांधी प्रकाश पार्टी	मकान संO-126, खाता संO-236, प्लॉट संO-637, ग्राम- सिकठी, पोस्ट ऑफिस- अखलासपुर, थाना - भभुआ, जिला- कैमूर, बिहार ।
930	गांधीवादी राष्ट्रीय काँग्रेस	टीचर्स कॉलोनी तहसील रोड, महोरिया, पोस्ट - महोरिया टाऊन और

		जिला - मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) ।
931	गांधीय मक्कल इयक्कम	9-1, तडागम रोड, कौंडमपालयम, कोयम्बतूर, तमिलनाडु- 641030.
932	गाँधीयन पीपुल्स पार्टी	सी - 1255, इन्दिरा नगर, लखनऊ - 226016, उत्तर प्रदेश ।
933	गणतांत्रिक जनहित पार्टी	द्वारा वेदवती देवी, पश्चिमी लोहानीपुर, कदमकुँआ, पटना बिहार-800003
934	गरीब आदमी पार्टी	आर-21, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, नई दिल्ली -110059
935	गरीब जनक्रान्ति पार्टी	वार्ड - 12, होल्डिंग संख्या - 747/642, दाउदपुर कोठी, एम0आई0टी0 गेट के सामने, लक्ष्मी चौक, ब्रह्मपुरा, मुजफ्फरपुर, बिहार- 842003
936	गरीब क्रान्ति पार्टी	मकान सं. 7, मुकरपुर खेमा, नवाब का आहता, तहसील व जिला- बिजनौर, उत्तर प्रदेश -246701
937	गरीब सामना पार्टी	म0 नं0 -399, आवास विकास कॉलोनी, जिला- मिर्जापुर - 231001 उत्तर प्रदेश ।
938	गरीबजन समाज पार्टी	706/ए-6, तिरखा रोड, जाग्रति विहार, गढ़ रोड, मेरठ- 250004, उत्तर प्रदेश
939	गरीब बेरोजगार विकास पार्टी	ग्राम- चम्पतपुर, पो.ओं- बलिया, तहसील- आंवला, विकास-खण्ड- आलमपुर जाफराबाद, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243402
940	गरीब एकता पार्टी	ए-71 गुप, वजीरपुर, औद्योगिक क्षेत्र, वजीरपुर, दिल्ली - 110052.
941	गरीब जनता पार्टी	राजिन्दर नगर, मेन बाजार, पो. ऑ. - विजय नगर, बटाला रोड, अमृतसर (पंजाब)।
942	गरीब जनशक्ति पार्टी	कुमार मार्केट, अखाड़ाघाट रोड, होल्डिंग नंबर -17/15, वार्ड सं. 17, बालुघाट ढलान के समीप, मुजफ्फरपुर, बिहार-842001
943	गरीब जनता दल (सेकुलर)	मित्र मंडल कालोनी, वार्ड नं. 11, स्थित होल्डिंग नम्बर- 470, साकेत विहार, अनिसाबाद, पटना-2, बिहार
944	गरीब राज पार्टी	मं0 नं0 748ए, झारखण्डी कायस्थवाड़ा, सिकन्द्राबाद, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश ।
945	गरीब समाज पार्टी (शोषित)	हाजीपुर मालीपुर रोड, निकट राम जानकी मन्दिर, शंकरगढ़, थाना व तहसील - जलालपुर, जिला - अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश - 224149.
946	गरीब विकास पार्टी	प्रोफेसर कॉलोनी, बेलबनवा, मोतीहारी, बिहार - 845401.
947	गरीबी मुक्त भारत पार्टी	मकान संख्या- 185, बलिया देव नगर, बड़ोदरा, गुजरात- 390001
948	गारो नेशनल काउन्सिल	न्यू तुरा, पश्चिम गारो हिल्स, (मेघालय)।
949	गरवी गुजरात पार्टी	नं. 112, घीवाली चाली, चमनपुरा, असारवा, अहमदाबाद, गुजरात- 380016
950	ग्लोबल पीपुल पीस पार्टी	1-आनंदनगर, पोस्ट - आनंदनगर, थाना - कल्याणी, जिला - नदिया, पश्चिमी बंगाल - 741245
951	गोवा नेशनलिस्ट पार्टी	मकान नं0 - 442, चिंचमाला, वाडा पार्ये, सत्तारी, गोवा - 403505।
952	गोवा प्रजा पार्टी	क्लासिक अपार्टमेंट्स, हाउस नं0 - 69, एल्ला, पुराना गोवा, तिसवाडी, नॉर्थ गोवा, गोवा - 403402
953	गोवा सु-राज पार्टी	383 - ए, पीराजोना, मोड़रा, बारडेज, गोवा, पिन - 403514.
954	गोवा सुरक्षा मंच	दुकान नं0 - 644/1, वार्ड नं0 - 4, ग्राउण्ड फ्लोर, अहिल्याराम

		निवास, पंचायती के सामने, सावईवेरें, पोंडा-गोवा ।
955	गोवा विकास पार्टी	लक्ष्मी सदन, ग्राउंड फ्लोर, असेम्बली कॉम्प्लेक्स के सामने, जरनलिस्ट कॉलोनी के पास, पुरवोरिम, गोवा - 403507.
956	गोएमकरेंची ऑट्रेक असरो	मकान नं० 780/ए, मुगल्ली, साओ जोस डी एरीयल, सालसेट, गोआ ।
957	गोकुला मक्कल काची	न्यू नं. 7, ओल्ड नं. 3, वेंकटरामन स्ट्रीट, तेनाम्पेट, चेन्नई, तमिल नाडु- 600018
958	गोंडवाना गणतंत्र पार्टी	ग्राम व पो. ऑ. तिवेर्थ, तहसील कटघोरा, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़) ।
959	गोंडवाना काँग्रेस पार्टी	शाहपुरा, ए-121, बी० डी० ए० कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
960	गोंडवाना मुक्ति सेना	एम-2, पूर्वांचल फेस- 1, खजूरीकला रोड, भोपाल- 462021, मध्य प्रदेश ।
961	गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रन्ट	डॉ० आफिर हुसैन रोड, (जलपहाड़ रोड) पो. ऑ. और जिला दार्जिलिंग, दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल (पश्चिम बंगाल) ।
962	गोरखा डेमोक्रेटिक फ्रंट	शाही निवास चन्द्राबनी, पोस्ट-मोहब्बेवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
963	गोर्खा जनमुक्ती मोर्चा	नॉर्थ प्वाइंट, सिंगामारी, दार्जिलिंग-734 104, पश्चिम बंगाल ।
964	गोर्खा राष्ट्रीय कांग्रेस	9, के.बी. रोड, पोस्ट-धूम, थाना -जोरबंगला, जिला -दार्जीलिंग, पश्चिम बंगाल ।
965	ग्रामांचल पार्टी	3/ए, सत्य नगर, सेंट्रल स्कूलके सामने, भुवनेश्वर- 7, उड़ीसा ।
966	ग्रामीण विकास पार्टी	शिव ग्राम, प्लॉट नं. 323, (खाता नं. 1161/1314), इंतकाल नं. 5678, किला नं. 10/02, (1-0), चोमा, पालम विहार एक्सटेंशन, तहसील व जिला- गुरुग्राम, हरियाणा-122017
967	ग्रेट इंडिया पार्टी	डी नं० 1-1334, देवस्थानम रोड, मंगलागिरी-522503, गन्तूर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
968	ग्रीन पार्टी ऑफ इंडिया	36-सी, गोविन्दपुरी, रामनगर, सोडाला, जयपुर, राजस्थान- 302006
969	गुजरात जनता पंचायत पार्टी	सिटी सर्वे नं. 966, रामेश्वर मंदिर के पास, डेली फली, बोखिरा, पोरबंदर, गुजरात- 360577
970	गुजरात युवा विकास पार्टी	मार्फ्त दरबार क़ूबा ट्रान्सपोर्ट, बस स्टेशन के पास, वाइनगर-384355, जिला-मेहसाना (गुजरात) ।
971	गुडगाँवा रेसिडेन्ट्स पार्टी	सी-1927, सुशांत लोक-1, गुडगाँव -122 002, हरियाणा।
972	गुरु चाँद मुक्ति मोर्चा	जी-52, अरुणा नगर, मजनु का टीला, सिविल लाईन्स, दिल्ली - 110054
973	हाकिम अपना पार्टी	मौहल्ला महमूद खाँ, सराय नखासा चौराहा, सम्भल, तहसील व जिला - सम्भल, उत्तर प्रदेश 244302 ।
974	हमारा दल	सी-112, सेक्टर-जी, एल० डी० ए० कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ -12 उत्तर प्रदेश ।
975	हमारा सहारा पार्टी	सानंद भवन, ग्राम व पोस्ट - मसौदा, थाना - पालीगंज, जिला - पटना, बिहार - 801110
976	हमारी अपनी पार्टी	सर्वे नंबर -75/1, इंद्रायणी विहार, संत नगर, लोहगांव पुणे, महाराष्ट्र -

		411047
977	हमारी जनमंच पार्टी	1/12, नया चुक्खूवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
978	हमदर्द पार्टी	मोहल्ला- सैय्यदवाडा, पोस्ट- सट्टी मस्जिद, शहर- गाजीपुर, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
979	हमदर्दी जनरक्षक समाजवादी विकास पार्टी (जन सेवक)	ग्राम- उधुरा, पोस्ट ऑफिस- दल्लुपुर, थाना- ब्रह्मपुर, जिला- बक्सर, बिहार-802130
980	हमरो सिक्किम पार्टी	ओम शांति निवास, लोवर मरचाक, रानी पूल, ईस्ट सिक्किम, सिक्किम - 737135
981	हक इंसाफ पार्टी	नं.3037, तलब खटिकान, जम्मू एवं कश्मीर-180001
982	हरदम मानवतावादी राष्ट्रीय दल	नं. 3-10-18, पट्टाभिपुरम, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश- 522006
983	हरित प्रदेश पार्टी	मकान नं० - 349, ग्राम व पोस्ट बिलसूरी, जिला - बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203205
984	हरित प्रदेश विकास पार्टी	मकान नं. 34, ग्राम- तबेलागढ़ी, तहसील- बडौत, जिला- बागपत, उत्तर प्रदेश- 250622
985	हरियाणा डेमोक्रेटिक फ्रंट	नम्बर 549, मथुरा नगरी अम्बाला सिटी, हरियाणा- 134003
986	हरियाणा हितकारी दल	गाँव-ब्राह्मण माजरा, पोस्ट -भदौर, तहसील-पानीपत, जिला - पानीपत हरियाणा- 132103
987	हरियाणा इंसाफ कांग्रेस	फार्म हाउस, नजदीक भगवत भक्ती आश्रम, रामपुरा, रेवाड़ी, हरियाणा - 123401
988	हरियाणा जन चेतना पार्टी (वी)	कोठी नं० - 118ए, सर्कुलर रोड, मॉडल टाउन, अम्बाला सिटी, हरियाणा - 134003
989	हरियाणा जनहित विकास पार्टी	531ए, सैक्टर-4, रोहतक, हरियाणा- 124001
990	हरियाणा जनरक्षक दल	249/3, पार्क रोड, आदर्श नगर, गोहाना, जिला सोनीपत, हरियाणा ।
991	हरियाणा जनता पार्टी	गांव व पोस्ट - रीसालु, तहसील व जिला - पानीपत, हरियाणा - 132103
992	हरियाणा क्रान्ति दल	बबैन रोड, लाइवा, जिला - कुरुक्षेत्र, हरियाणा
993	हरियाणा लोकहित पार्टी	शॉप नं०-8, एस सी ओ - 2, ओल्ड जुडिशल काम्प्लेक्स, झारसा रोड, सेक्टर - 15, गुडगाँव, हरियाणा - 122001
994	हरियाणा नवनिर्माण सेना	101, गाँव- सिलोखरा, गुडगाँव - 122001. हरियाणा ।
995	हरियाणा सामाजिक न्याय पार्टी	कोठी. नं०-239, सेक्टर -7, अर्बन एस्टेट, कुरुक्षेत्र- 136118, हरियाणा ।
996	हरियाणा सर्वजन पार्टी	मकान न. 236. वार्ड न. - 2 ग्राम पंचायत रादौर, जिला - यमुना नगर, हरियाणा ।
997	हरियाणा स्वतंत्र पार्टी	हाउस नं.- 154, ग्राम व पोस्ट ऑफिस-जखौदा, तहसील-बहादुरगढ़ जिला-झज्जर, हरियाणा ।

998	हिमाचल जन क्रांति पार्टी	मकान सं.435, वार्ड नं. 10, शाम नगर, धर्मशाला, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश- 176215
999	हिमाचल लोकहित पार्टी	शास्त्री भवन, देव नगर कासुम्पटी, शिमला-171009, हिमाचल प्रदेश ।
1000	हिन्द कांग्रेस पार्टी	सी-6, साउथ साइड, जी0 टी0 रोड, इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
1001	हिन्द एकता मिशन	ग्राम-लेडूवावर, पोस्ट-कौवरागहनी, तहसील-फूलपुर, जिला-आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1002	हिंद जन कांग्रेस	72, प्यारेलाल कम्पाउण्ड, नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश ।
1003	हिन्द जन स्वराज पार्टी	ग्राम-किशनपुर,पोस्ट-बेनीपुर,पुलिस स्टेशन-बहेडा,जिला-दरभंगा,बिहार-847208
1004	हिन्द किसान मजदूर पार्टी	31/419, केला हाऊस, महाराणा प्रताप नगर, आगरा-4 (उत्तर प्रदेश)
1005	हिन्द मोर्चा	समाज सुधार आश्रम, सिरसपुर, दिल्ली
1006	हिन्द रक्षा सेना	डब्ल्यू जैड-13 बी, प्रथम तल, मुखराम पार्क एक्सटेंशन, तिलक नगर, नई दिल्ली - 110018
1007	हिन्द राष्ट्रीय एकता पार्टी	प्लॉट. नं0 104, अंगुरी पैलेस, वजीराबाद रोड, पासुन्डा गरिमा गार्डन, साहिबाबाद, गाजियाबाद, यू.पी0-201005
1008	हिन्द समर्पित पार्टी	156,शाहबिसवा जलालपुर,रघुनाथपुर,मुरादनगर,गाजियाबाद,उत्तर प्रदेश-201206.
1009	हिन्द समदर्शी पार्टी	एफ-64, गलैक्सी अपार्टमेंट, सेक्टर-43, गुडगांव, हरियाणा-122002
1010	हिन्द साम्राज्य पार्टी	512/695क/1, वाल्दा रोड, निशातगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226007
1011	हिन्द स्वराज्य गणतन्त्र पार्टी	एस-41, पंचशील पार्क, नई दिल्ली - 110017.
1012	हिन्द विकास पार्टी	पो. ऑ. श्री हर भगवान नगर तापाकालान, काली मन्दिर के पास, जलेसर रोड, फिरोजाबाद (उत्तर प्रदेश) ।
1013	हिन्दू एकता आन्दोलन पार्टी	हिन्दी एकता कार्यालय, मल्हार, खान भाग, पुलिस चौकी, मकान नं0 927/1, सांगली - 416416, जिला सांगली, महाराष्ट्र ।
1014	हिन्दु समाज पार्टी	राष्ट्रवादी धर्म सत्ता, 26-ए, खुर्शिदाबाद,लखनऊ -4, उत्तर प्रदेश
1015	हिन्दुस्तान ऐक्शन पार्टी	156, खन्ना नगर, लोनी, गाजियाबाद-201102 उत्तर प्रदेश ।
1016	हिन्दुस्तान एकता पार्टी	दुकान नं0 132/2, केशो राम कौम्पलैक्स, सैक्टर-45 सी0 चण्डीगढ़ - 160047
1017	हिन्दुस्तान हमारा पार्टी	555ए/1, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211002
1018	हिंदुस्तान इंकलाब पार्टी	महेश प्रसाद मंडल,गाँव-झिटकी,पोस्ट-हिसार,थना नंबर-32,ब्लॉक-हरलाकी,बजरंग बाजार झिटकी,जिला-मधुबनी बिहार-847230
1019	हिन्दुस्तान जनमोर्चा	मकान सं0 - 1, ग्राम व पोस्ट- टेकुआं, जिला- देवरिया, उत्तर प्रदेश - 244182 ।
1020	हिन्दुस्तान जनता पार्टी	मैसर्स सोनो सेल्स कोरपोरेशन, सब्जी मण्डी, खोकडपुरा, औरंगाबाद (महाराष्ट्र) ।
1021	हिन्दुस्तान क्रान्ति दल	गाँव- दुन्डलाका, पंचायत-गौधोला, पोस्ट व तहसील - पुन्हाना, जिला -

		मेवात (नूँह), हरियाणा ।
1022	हिन्दुस्तान क्रान्तिकारी दल	ए-65, सेक्टर-34, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1023	हिन्दुस्तान नेशनल पार्टी	नं० 103/68, कॉलेज रोड, नंगनल्लूर, चेन्नई-600114, तमिलनाडु
1024	हिन्दुस्तान पीपल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक)	एच. न. 57, (स्काई सडाम)प्लॉट न. 34/392/बी/8/सी, ग्राम-पालबागन, वार्ड-4, मिहिजाम जामताडा झारखण्ड - 815354
1025	हिन्दुस्तान पीपुल्स पार्टी (राजपाल)	85ए-मोहिले नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
1026	हिन्दुस्तान समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जगदीशपुर,डीह- रायबरेली,उत्तर प्रदेश- 229310
1027	हिन्दुस्तान संपूर्ण आजाद पार्टी	ग्राम - सेन्दूआरी पुरुषोत्तम वार्ड नं. 8,पोस्ट-बखरी, थाना+अंचल-मोतीपुर,जिला-मुजफ्फरपुर,बिहार - 843111
1028	हिन्दुस्तान शक्ति सेना	म० नं० - 1113/11, दर्शन सिंह नगर, अलिपुर रोड, पटियाला, पंजाब
1029	हिन्दुस्तान स्वराज कांग्रेस पार्टी	शेवर बंगला, ए. बी. नायर रोड, जूहू मुम्बई-400049, महाराष्ट्र
1030	हिन्दुस्तान तहरीक ए-इंसाफ	मकान नं. 1-12-386, राजावडी, पटवाडी नाका बहार भुज, तहीसल-भुज, जिला- कच्छ, गुजरात- 370001
1031	हिन्दुस्तान उत्थान पार्टी	मकान सं. 438,ग्राम- रवानी कटीरी, पोस्ट- बुगरासी, तहसील- स्याना, जिला- बुलन्दशहर उत्तर प्रदेश- 245403
1032	हिन्दुस्तान विकास दल	करमन टोला, आरा, जिला-भोजपुर-8002301 बिहार ।
1033	हिन्दुस्तानी आवाम पार्टी	मं० नं० - 202ए/104, जवाहर नगर, निकट हाथी पार्क, लखनऊ उत्तर प्रदेश - 226001
1034	हिन्दुस्तानी अवाम मंच (युनाईटेड)	मौ. ग्राम-दखनेर,पोस्ट- परैया,थाना-परैया,जिला-गया,बिहार- 824209
1035	हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)	माँ शबरी कुटीर, गोदावरी, थाना - रामपुर, जिला - गया, बिहार - 823001
1036	हिन्दुस्तानी गरीबवादी पार्टी	61, अग्रवाल चैम्बर्स, विकास मार्ग, वीर सावरकर ब्लॉक शकरपुर,दिल्ली - 110092
1037	हिन्दुस्तानी स्वराज पार्टी	69, अशोक मोहल्ला, नांगलोई, दिल्ली -110041.
1038	हिन्दुस्तानवादी पार्टी (जयहिन्द)	मकान सं.102,ग्राम-रमदत्तपुर,पोस्ट- पाण्डेयपुर,थाना-कैण्ट,वाराणसी,उत्तर प्रदेश-221007
1039	हिन्दुस्थान निर्माण दल	मकान नं० 100, गली नं० 5, कृष्णा नगर,सफदरगंज इंकलेव, नई दिल्ली ।
1040	हिन्दुस्तान प्रजा पक्ष	7/702, 'सी' विंग, शीतलधारा कॉम्प्लेक्स, प्लॉट नं. 28, सेक्टर-7,कामोठे, नवी मुंबई-410209, महाराष्ट्र ।
1041	हिन्दुस्तान सुरक्षा पार्टी	नार्थ-इस्ट जोन, बरपेटा रोड, ट्रिस्ट लोज के पास वार्ड नं० 6, जिला बरपेटा, (आसाम) ।
1042	हिन्दवी स्वाराज्य दल	नं. 167,अम्बिकानगर,भचाऊ-7,तालुका-भचाऊ,जिला-कच्छ गुजरात- 370140
1043	हार्डटेक पार्टी	बी-85, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010 ।

1044	हमारे पिपुल्स कन्वेंशन	द्वारा लालुवा, मकान नं०ए/56,बावंगकाउन चिमवेंग एजल- 796014, मिजोरम ।
1045	हम भारतीय पार्टी	मकान नं. 1-3-3227, हर्षरुस, मुक्ता लॉन के पीछे, जीजऊ नगर, बारशी रोड, बीड, महाराष्ट्र- 431122
1046	हम एक है पार्टी	मकान सं. 212,खसरा नं.15/21,रशीद नगर,नाल साहब रोड,नागपुर,महाराष्ट्र-440018
1047	हम किसान पार्टी	मकान नं० - 1699/G25/A, विद्या नगर रोड न० - 1, हरमु, राँची, झारखण्ड - 834002
1048	हम लोग पार्टी	मकान सं. बी- 170, प्रियदर्शनी विहार, दिल्ली- 110092
1049	हम सबकी पार्टी	ग्राम- महिमापुर (जलालपुर चौमुहानी), पोस्ट - जलालपुर, जिला - जौनपुर, उत्तरप्रदेश - 222136
1050	ह्यूमन डेमोक्रेटिक पार्टी	मकान सं.2/42,वृसिपल्ली गांव,थेनेपल्ली पोस्ट,वेपनपल्ली पंचायती,पूतलपट्ट मंडल,चित्तूर-जिला,आन्ध्र प्रदेश-517124
1051	हूमैनिटी यूनिवर्सल मोशन पार्टी	C/O शमिक बनर्जी, # होलडिंग नं. 84/1,इंदा रबिन्द्रापल्ली,वार्ड नं.- 02,प्रातिक क्लब के पास,खडगपुर,जिला-पश्चिम मेदिनीपुर,पश्चिम बंगाल- 721305
1052	इलन्तमिलर मुन्नानी कझगम	1/159, पेरीयार नगर, तिरुसुलम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600043
1053	इन्डिपेंडेंट इन्डियन कांग्रेस	मु० पो० पिंपलगांव तर्फे महालुंगे, ता० आंबेगांव, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 410503
1054	इंडिपेंडेंट पीपुल्स पार्टी	मकान सं० - 63, कारगिल कॉलोनी, नरवाल बाला, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1055	इन्धिया कुडियारासु काचची	11,कारपगम्बल नगर, III स्ट्रीट, कोट्टीवक्कम, चेन्नई-600041, तमिलनाडु ।
1056	इन्धु द्रविडा मक्कल काची	नं० 14, बालाजी नगर, चिक्कारायापुरम, मंगादू, जिला- चेन्नई, तमिल नाडु- 600069
1057	इण्डिया द्रविड मक्कल मुन्नेत्र कांची	द्वार सं० 15/1, वार्ड नं० 21, सरोजनी नगर, टॉवरलाइन कॉलोनी, इरोडे कॉरपोरेशन जॉन - II, इरोडे-638011,तमिलनाडु ।
1058	इंडिया ग्रीन्स पार्टी	104,वर्धमान कॉम्प्लेक्स,प्रथम तल,एलएससी,सविता विहार,दिल्ली- 110092
1059	इंडिया जनशक्ति पार्टी	प्लॉट नं. 20, 21 एवं 22, नई बस्ती, नहर रोड, शैदपुर जागीर, भूईआ देवी मंदिर के निकट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226062
1060	इंडिया मक्कल मुन्नेत्र कांची	95,कावेरी स्ट्रीट, भवानी-638301 जिला इरोड, तमिलनाडु
1061	इंडिया प्रजा बंधु पार्टी	मकान नं. 18-1-317/ए/68/1, शिवाजी नगर, उप्पुगुडा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500053
1062	इंडिया राइजिंग पार्टी	मकान सं. 39, फतेहपुर कपुरापुर-1,तहसील- तिरवा, जिला- कन्नौज, उत्तर प्रदेश- 209723
1063	इंडिया समाधान पार्टी	मकान नं.- 129, ग्राम व पोस्ट- चौरादेव, थाना- गागलहेडी, जिला-

		सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247669
1064	भारत सुराज्य पार्टी	नं0 48,चोला स्ट्रीट,प्रकाश नगर,अंबातुर,चेन्नई,तमिलनाडु-600053
1065	इंडियन पीपल एसोसियेशन पार्टी	2-74, गांव- वैकटापुर, लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर, टाउन/मंडल-वेलपुर, जिला- निजामाबाद, तेलंगाना- 503311
1066	इंडियन आर्थिक सुधार पार्टी	मकान नं0 - 1, मनजीत नगर, बस्ती शेख, जालन्धर, पंजाब ।
1067	इंडियन एलाऐंस पार्टी	शॉप नं. 6, एल/1/21/6/83, अलनूर सोसायटी, अहमदाबाद रोड, बालासिनोर, जिला- महीसागर, गुजरात- 388225
1068	इंडियन बहुजन समाजवादी पार्टी	2/3,अम्बेडकर नगर, पोस्ट, नगीना, जिला- बिजनौर - 246762, (उत्तर प्रदेश) ।
1069	इंडियन बहुजन संदेश पार्टी (कांशीराम)	बी-525, गुरु हरिकिशन नगर, नई दिल्ली ।
1070	इंडियन बीलीवर पार्टी (आईबीपी)	पुराना एच.नं.केंद्रीय कार्यालय 8-3-168,फ्लैट नंबर 201,दूसरी मंजिल,भानु टावर्स,ईएसआई अस्पताल,मेट्रो स्टेशन,एस.आर.नगर,हैदराबाद,तेलंगाना- 500038
1071	इंडियन बिजनेस पार्टी	1207, प्रगति टॉवर, 26-राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110008
1072	इंडियन क्रिश्चियन फ्रन्ट	एल.आई.जी. 289, अन्ना नगर, वैल्लकन्नी चर्च के सामने, मदुरै - 625020, तमिलनाडु ।
1073	इंडियन क्रिश्चियन सेक्युलर पार्टी	प्लॉट नं0 8, वहाब नगर, सिख गाँव, सिकंदराबाद - 500009 आंध्रप्रदेश ।
1074	इंडियन सिटिजन्स पार्टी	मरकटा नगर, सैक्टर-10, प्लॉट नं0 सी-43, पोस्ट-अभिनवा बिदानसी, कटक-753014, उड़ीसा ।
1075	इंडियन डेमोक्रेटिक कांग्रेस	गांव - बाबू शंकर नगर, मौजा - भालुकसुंदी, जे.एल.नं0: 22, पोस्ट - अलीगढ़, थाना - राजनगर, जिला - वीरभूम, पश्चिम बंगाल - 731130 ।
1076	इंडियन डेमोक्रेटिक पार्टी	डी-978, जन कल्याण स्कूल रोड, भजनपुरा, दिल्ली - 110054 ।
1077	इंडियन डेमोक्रेटिक पीपुल्स पार्टी	बाबूगाछ, पोस्ट- गेन्दागाछ, थाना- चोपड़ा, इस्लामपुर, जिला- उत्तर दिनाजपुर, पश्चिम बंगाल- 733207
1078	इंडियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन फ्रंट	मकान नं0-404, संजय कॉलोनी, अर्थला मोहन नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रवेश ।
1079	इंडियन फेडरल डेमोक्रेटिक पार्टी	1, बलवन्त राय मेहता लेन, के. जी. मार्ग, नई दिल्ली- 110001.
1080	इंडियन गाँधीयन पार्टी	कुरियाकोट्ट बिल्डिंग, थेक्कुमपदम रोड, पट्टिककड डाकघर श्रीसूर जनपद, केरल - 680 509
1081	इंडियन इन्दिरा कांग्रेस (आर)	1- रूपरजत नगर, न्यू बस स्टैंड के पीछे, पाली, राजस्थान - 306401
1082	इंडियन जस्टिस डेमोक्रेटिक पार्टी	टीसी/25/25(3), जीबीएनआरए- 63, कलपाल्लयम लेन, गान्धारीअम्मन कोविल रोड, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695001
1083	इंडियन जस्टिस पार्टी	5, पुसा रोड, तीसरी मंजिल, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.

1084	इंडियन क्रांतिकारी लहर	मुहल्ला टुडी वाला, बाजीगर बस्ती, फरीदकोट, जिला -फरीदकोट, पंजाब।
1085	इंडियन लेबर पार्टी (आंबेडकर फुले)	डी० नं० 26-28-118, 1 लाइन, नेताजी नगर, ए० टी० अग्रहारम, गुंदूर, आन्ध्र प्रदेश - 522004
1086	इंडियन लवर्स पार्टी	नं० - 23, बी - ब्लॉक, द्वितीय स्ट्रीट, भूपति नगर, कोडमबक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600024
1087	इंडियन मक्कल कलवी मुनेत्रा कजगम	नं०-3, दीनदयालरु स्ट्रीट, टी० नगर, चेन्नई-600017, तमिलनाडु.
1088	इंडियन मिलन पार्टी ऑफ इंडिया	गोल बाजार, पोस्ट- अकोट, जिला- अकोला, महाराष्ट्र- 444101
1089	इंडियन माइनोरिटीज पॉलिटिकल पार्टी	डी० नं० 9-4-51/35/48, हकीमपेठ (आई. ए. एस.) कॉलोनी, टॉली चौकी, पोस्ट- गोलकुण्डा फोर्ट, हैदराबाद-500008, आन्ध्र प्रदेश ।
1090	इंडियन मुवमेन्ट पार्टी	65, मनतप्पाविलेज, बन्नरेगाटारोड, जिगानी हुबली, अनेकल तालुक, बेंगलूर कर्नाटक- 560083
1091	इंडियन नेशनल ग्रीन पार्टी	ए-44, पर्यावरण काम्पलेक्स, सैदुला जैब, नई दिल्ली-30.
1092	इंडियन नेशनल लीग	नं. 7, बलवन्त राय मेहता लेन, कस्तूरबा गाँधी मार्ग क्रास, नई दिल्ली - 110001.
1093	इंडियन नेशनल मानवाधिकार पार्टी	प्लॉट नं० - 429/(आर), राणी दुर्गावती चौक, एन. आय. टी. कॉम्पलेक्स बिनाकी ले-आऊट, नागपुर, महाराष्ट्र- 440017.
1094	इंडियन नेशनल परिवर्तन पार्टी	सी-316ए, वाशी प्लाजा, सेक्टर- 17, वाशी, नवी मुंबई, महाराष्ट्र- 400703
1095	इंडियन नेशनल सेकुलर डेमोक्रेटिक पार्टी (ऑफ इंडिया)	विक फार्म, बड़ी नहर के पास, वैरोवाल रोड, जण्डियाला गुरु, जिला- अमृतसर, पंजाब-143115
1096	इंडियन नेशनल यूथ पार्टी	नं. 68-बी, देवासंद्रा, के.आर. पूरा, बेंगलुरु, कर्नाटक-560036
1097	इंडियन नेशनल युवा जना पार्टी	मकान नं. 9-14, प्रशांत नगर, बोडउप्पल, घटकेसर मंडल, रंगारेड्डी जिला, तेलंगाना-500092
1098	इंडियन नेशनलिस्ट एलायंस पार्टी (इंडिया)	सी/1061/5, इन्दिरानगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
1099	इंडियन न्यू कांग्रेस पार्टी	ऑफिस नं० - 107, द्वितीय तल, 1 st क्रॉस, 'ए' ब्लॉक, ए. के. कॉलोनी रोड, घौंसिया नगर, मैसूर सिटी, कर्नाटक - 570 019
1100	इंडियन ओसनिक पार्टी	के-316, एम.बी. रोड, लाडो सराय, नई दिल्ली - 110030
1101	इंडियन पीपुल्स कॉफ्रेंस पार्टी	मखदूम साहिब, मकान नं० -51, रैनावारी, श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1102	इंडियन पीपुल्स काँग्रेस	79, लायर्स चैम्बर्स, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली - 110001
1103	इंडियन पीपुल्स फारवर्ड ब्लॉक	तंगरा हाउसिंग एस्टेट, ब्लॉक-एल/1, फ्लैट-5, 40/1, तरंगरा रोड, कोलकाता-15, पश्चिम बंगाल ।
1104	इंडियन पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19, शुभम इनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान ।
1105	इंडियन प्रजा कांग्रेस	मथुदेवोभवा, शॉप नं. 1, गाउंड फ्लोर, लिबर्टी प्लाजा, डोर नं. 3-6-

		365/यूजी/3-4, हिमायत नगर, हैदराबाद, तेलंगाना- 500029
1106	इंडियन पब्लिक फेडरेशन पार्टी	220, वर्धमान फोर्चून मॉल, महेन्द्र एन्कलेव के सामने, जी.टी.करनाल रोड, दिल्ली- 110033
1107	इंडियन पब्लिक पार्टी	बी-1, राज कम्पलेक्स, संस्कार मंडल, भवनगर - 364002, गुजरात
1108	इंडियन रक्षका नयाकुडु पार्टी	मकान नं. 4-279, बासावेशवारा कॉलोनी, मकथल, जिला- महबूब नगर, तेलंगाना स्टेट- 509208
1109	इंडियन सर्वहित पार्टी	6-बी/138, गोपेशकुंज, वृन्दावन योजना, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226025
1110	इंडियन सवर्ण समाज पार्टी	मकान संख्या - 0053, दाउदपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश
1111	इंडियन सेक्युलर काँग्रेस	202, पाकेट-बी, एस.एफ.एस. (डी.डी.ए. फ्लैट्स), सुखदेव विहार, नई दिल्ली - 110025.
1112	इंडियन युनिटि सेंटर	गाँव तथा पो.ओ.सोमरूक,पो.स.उलुबेरिया,जिला-हावड़ा-711316,पश्चिम बंगाल)
1113	इंडियन विकास पार्टी	खसरा नं. 327, खोड़ा हजारी, बुटेश्वर बगीची रोड, तहसील एवं जिला- हाथरस, उत्तर प्रदेश- 204101
1114	इंडियन वोटर्स वेलफेयर पार्टी	नं०-608, 14वीं मेन, गोकुल प्रथम स्टेज, बैंगलोर-560054, कर्नाटक ।
1115	इंडियन यूथ पार्टी	7/545, विकास नगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश ।
1116	इंडियनस फ्रंट	37-12-62, एन०जी०ओ०एस० कॉलोनी, पी० आर० गार्डन्स, विशाखापट्टनम-530007, आन्ध्र प्रदेश ।
1117	इंडियन्स विकट्री पार्टी	3/261-2, आन्नदन नगर, असरीपाल्लम - 629201, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु
1118	इन्डीजीनियस नेशनलिस्ट पार्टी ऑफ त्वीपरा	अभय नगर, अगरतला-799005, त्रिपुरा ।
1119	इण्डिया जननायक काच्ची	स० 9, थर्ड ऐवन्यू, 34 स्ट्रीट, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु ।
1120	इंकलाब पार्टी ऑफ इंडिया	मौहल्ला पश्चिमी लखपेड़ा, टाउन एवं पोस्ट-मोहम्मदी, जिला-लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश, पिन-262804.
1121	इन्कलाब विकास दल	92, ग्राम-गावांडी, सरदार पटेल पार्क के पास, धौंडा, दिल्ली ।
1122	इंकलाबी पार्टी	बी०टी०आई० स्कूल के पीछे, महावीर नगर, भिण्ड (मध्य प्रदेश), पिन 477001.
1123	इंसाफवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट-पियरी, थाना चौबेपुर, जिला - वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221104
1124	इंसानियत लोक विकास पार्टी	प्लॉट नं.1938/447/2,केयर ऑफ हिन्द स्कैप स्टोर,स्ट्रीट 0-2,जनता नगर,निकट पी.एन.बी.,लुधियाना,पंजाब-141003
1125	इंसानियत पार्टी	मकान नं० - 262/1, गणनायक भवन, एट व पो. - सनाली, तालुका - महुधा, जिला- खेड़ा, गुजरात - 387330।
1126	इंटरनेशनल पार्टी	ब्लॉक बी-5, फ्लैट नं. 111, यमुना विहार, दिल्ली- 110053

1127	इस्लाम पार्टी हिंद	मौहल्ला-राजडे पुर, पो० सिटी, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
1128	इष्टतन्त्र परिषद	ग्राम-दिव्यसिंहपुर, खाता संख्या - 638, प्लॉट नं. 1343, पोस्ट-रायगुरुपुर, थाना - गदिसागोडा, जिला - पुरी, ओडिसा
1129	इतेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल	93, सोदागरन, दरगाह आला हजरत, बरेली, उत्तर प्रदेश ।
1130	जे० एण्ड के० सिटीजन्स पार्टी	हीरा बिल्डिंग, अबी गुजर, लाल चौक, श्रीनगर(जम्मू और कश्मीर) ।
1131	जे एण्ड के पीपुल्स मूवमेन्ट	शेखपुरा,हम्हामा,तहसील व जिला-बडगाम,जम्मू और काश्मीर- 191111
1132	जागो भारत फ्रन्ट	डी-185बी, मोहन गार्डन, उत्तम नगर, दिल्ली - 110059
1133	जगनमय नारी संगठन	सेक्टर-21/5, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1134	जगत कल्याण मोर्चा	गाँव-नानी,डाकघर-मतियाना,तहसील-ठियोग,जिला-शिमला,हिमाचल प्रदेश-171212
1135	जगत तेलुगु मुन्नेत्र कडगम	नं० 33, हाल्स रोड, पी. ए. टावर, एफ-9 ओर 10, एगमोरे, चेन्नई-600008, तमिलनाडु ।
1136	जागो भारत जागो पार्टी	14 ए/84 डब्ल्यू.ई.ए., करोलबाग, नई दिल्ली - 110005
1137	जागो हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 368, मोहल्ला- कल्यानी देवी सिविल लाईन्स, जिला-उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209801
1138	जागो पार्टी	9-1-108/1, द्वितीय फ्लोर, टाटा चैरी कम्पाऊंड, एस० डी० रोड, सिकन्दराबाद-500026, आन्ध्र प्रदेश ।
1139	जाग्रत भारत पार्टी	101, विधायक निवास, राजेन्द्र नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1140	जागरूक जनता पार्टी	ग्राम- दिलावरपुर, पोस्ट व थाना- बिहटा, जिला- पटना, बिहार- 801103
1141	जागते रहो पार्टी	द्वारा मैसर्स क्षमा आर देसाई, 2, वाटिका बंगला, सबरी स्कूल के पास, वासना रोड, बड़ोदा, गुजरात ।
1142	जय आन्धा पार्टी	डी. नं० -14-71, चगलनाडु स्टील्स, मोरंपुडी जंक्सन, राजमुंड्री, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश
1143	जय भारत नेशनल पार्टी	मकान नं. 22/630, डी.डी.ए. फ्लैट, मदनगिरी, दिल्ली - 110062.
1144	जय भारत पार्टी	आर जैड एच-710 ई (इ/54), राज नगर-II, (देव हास्पिटल के पास), पालम कॉलोनी, नई दिल्ली-45.
1145	जय भारत समानता पार्टी	ए-36/54-वी-1, समानता शक्ति भवन, कजकपुरा, कोनीया रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1146	जय भारत जेना सेना पार्टी	डी. नं. 42-64-1/1, लूना सेन्टर,एम.के. बैंग मुनिसिपल कॉरपोरेशन हाई स्कूल के पीछे, सिंह नगर, विजयवाडा, जिला - कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश - 520015
1147	जय छत्तीसगढ़ पार्टी	10, दूसरा माला, शहीद वीरनारायण सिंह परिसर, नगर घडी चौक, जी ई रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़-492001 ।
1148	जय हिन्द कांग्रेस पार्टी	शॉप नं. 34, रिद्धि सिद्धि कॉलोनी, रवाला - मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान- 335771
1149	जय हिन्द नेशनल पार्टी	ए2/135,दर्शनम एंटिका,दंतेश्वर,वडोदरा,गुजरात-390004
1150	जय हिन्द पार्टी	खरैल पुर्नवास, वार्ड नं. 16, नगर परिषद, सुपौल, बिहार

1151	जय हिन्द समाज पार्टी	ग्राम-खड़हरा (बिन्द वलिया), पोस्ट-दुबिहा, जनपद-गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।
1152	जय हिन्दुस्तान पार्टी	मकान नं. 22-13-47, ब्लॉक नं. 13, अम्बेडकर कॉलोनी, तिरुपति, चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517507
1153	जय जनता जनार्दन पार्टी	मोहल्ला-मनोहरीगंज, मर्दन नाका शहर बाँदा, परगना व जिला-बादा, उत्तर प्रदेश ।
1154	जय जनसेवा पार्टी	14/43, संभाजी चौक, इचलकरंजी, तहसील-हातकणंगले, जिला-कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416115 ।
1155	जय जनता पार्टी	वार्ड नं0 – 18, होल्डिंग नं0 – 27, भभुआ (कैमूर), अग्रवाल पेट्रोल पम्प के पास, बिहार-821101 ।
1156	जय जवान जय किसान मजदूर काँग्रेस	डब्ल्यू जैड-553-ए/3, सोनी कुंज, नांगल राय, नई दिल्ली-110046.
1157	जय जवान जय किसान पार्टी	प्रथम तल, मकान नं0 - 60, गली नं0 - 7, विर्क कॉलोनी, निकट डी सी डब्ल्यू, पटियाला, पंजाब - 147001
1158	जय लोक पार्टी	एफ-2/5, मयूर विहार, अशोका गार्डन भोपाल, भोपाल, मध्य प्रदेश-462023
1159	जय महा भारत पार्टी	जय महाभारत भवन, श्री महावैकुण्ठ पुरम, गांव-बुक्कापुरम, तहसील-आलमपुरम, जिला-महबूब नगर, आन्ध्रा प्रदेश, पिन-509652.
1160	जय मानवता पार्टी	मकान नं0-1, समृद्धि परिसर, साहू आटा चक्की के पास, ललिता नगर, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1161	जय प्रकाश जनता दल	190, प्रताप नगर, मयूर विहार, फेज-I, दिल्ली-110091
1162	जय समाख्या आंध्रा पार्टी	डी० नं० 4-86, कम्मावरी विधि, माचावरम ग्राम पंचायत लिमिटेड, रायावरम मंडल, जिला – पूर्वी गोदावरी, आंध्र प्रदेश – 533 214
1163	जय समाज भारतीय समाज पार्टी	टाउन एरिया सादात, पोस्ट – सादात, जिला – गाजीपुर, उत्तर प्रदेश ।
1164	जय समता पार्टी	रकबा शेर नगर बीबीपुर, कल्लरपुर, जानसठ रोड, तहसील-सदर, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश- 251001
1165	जय सेवालाल बहुजन विकास पार्टी	मकान नं0 2, प्लॉट नं0 31, हिमालयपुष्पा बिल्डिंग, स्वपन्ननगरी, गारखेडा एरिया, औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431005.
1166	जय स्वराज पार्टी	10-105/1/बी/2, प्रथम तल, रोड नंबर- 2, नई गड्डीनाराम कॉलोनी, दिलसूक नगर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500060
1167	जय विजय भारथी पार्टी	पो० ऑ० चिन्नागोट्टीगल्लू, जिला-चित्तूर, आन्ध्र प्रदेश।
1168	जामात-ए-सिरातुल मुस्ताकिम	पोस्ट – छोटा सुजापुर, थाना – कलियाचाक, जिला – मालदा, पश्चिम बंगाल – 732206
1169	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी नेशनल काँफ्रेंस	3-आर सी क्वाटरर्स, प्रेस एन्क्लेव, प्रताप पार्क, श्रीनगर - 190001. (जम्मू व कश्मीर)
1170	जम्मू एण्ड कश्मीर नैशनल युनाइटेड फ्रंट	पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, अम्फला चौक, करन नगर, जम्मू तवी - 180005, जम्मू व कश्मीर ।

1171	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपुल्स काँग्रेस	जनरल ऑफिस, ओल्ड सैक्रेटेरिएट रोड, श्रीनगर 190001, (जम्मू व कश्मीर) ।
1172	जम्मू एण्ड कश्मीर पीर पंजाल अवामी पार्टी	नजदीक पुलिस स्टेशन पुंछ, केयर ऑफ जिला कोर्ट पुंछ, जम्मू एण्ड कश्मीर
1173	जम्मू और कश्मीर सेव श्रीनगर फ्रन्ट	नायब मुफ्ती आजम मंजिल,तेलबल रोड, हाबक क्रॉसिंग, श्रीनगर - 190006 जम्मू और कश्मीर ।
1174	जम्मू एण्ड कश्मीर अपनी पार्टी	कोहिनूर हाउस,7 शेख बाग,श्रीनगर,जम्मू एण्ड कश्मीर-190001
1175	जम्मू एण्ड कश्मीर अवामी लीग	बी - 24, इन्द्रानगर, श्रीनगर - 190001 (जम्मू व कश्मीर) ।
1176	जम्मू एण्ड काश्मीर डेमोक्रेटिक पार्टी नेशनलिस्ट	कुर्रू राजबाग, श्रीनगर - 190008, कश्मीर ।
1177	जम्मू एण्ड कश्मीर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	168, रावलपोरा हाउसिंग कॉलोनी, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर) ।
1178	जम्मू एण्ड कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट (सेक्युलर)	राजबाग, लिटिल एन्जल्स स्कूल के पास, श्रीनगर,जम्मू व कश्मीर ।
1179	जम्मू कश्मीर पीपुल्स पार्टी (सेक्युलर)	96/9, नानक नगर, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर - 180004
1180	जम्मू कश्मीर सेव पार्टी	गाँव- रावलपोरा, श्रीनगर,जम्मू एण्ड कश्मीर
1181	जम्मू स्टेट मोर्चा (प्रोग्रेसिव)	8, ओल्ड ड्राई फ्रूट मार्केट, ज्वैल चौक, जम्मू - 180001, जम्मू व कश्मीर
1182	जन आवाज पार्टी	झींझक, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश- 209302
1183	जन आदेश अक्षुणी सेना	मकान सं0 - 117, पठारिया मोहल्ला, पडुआ चौराहा, जी. टी. रोड, भोगांव, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश
1184	जन अधिकार मंच	9 शिवाखण्ड, झिलमिल, दिल्ली - 110095.
1185	जन अधिकार पार्टी	मकान नं. 331, सर्वोदय नगर, चण्डी रोड, पिलखुवा, उत्तर प्रदेश।
1186	जन अधिकार पार्टी (लोकतांत्रिक)	वार्ड संख्या- 05/14, बर्द्धमान हाता, अर्जुन भवन, अर्जुन नगर, पोस्ट आफिस- पूर्णियाँ, थाना- सहायक के0 हाट, जिला- पूर्णियाँ, बिहार - 854301
1187	जन आंदोलन मोर्चा	ए-8/18, प्रथम तल, ब्लॉक-ए, पॉकेट - 8, सेक्टर - 17, रोहिणी, दिल्ली - 110085
1188	जन आवाज विकास पार्टी	मकान नं0 - 631, द्वितीय तल, मेन रोड, मुखर्जी नगर, दिल्ली ।
1189	जन भावना पार्टी	सी - 103, गणेश नगर, पाण्डव नगर कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली - 110092 ।
1190	जन चेतना क्रांति मंच	खेमनीचक,जकरियापुर,कृष्णा निकेतन स्कूल के पीछे,थाना- आलमगजं,अगमकुआं,जिला-पटना बिहार-800007
1191	जन चेतना पार्टी	चेम्बर नं. 475, वेस्टर्न विंग, तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली - 110054.
1192	जन कांग्रेस पार्टी	वार्ड नं0- 1, मकान नं0- 395, बोकाखाट टाउन, जिला- गोलाघाट,

		असम- 785612
1193	जन एकता दल	घेर कटेबाज खान, मस्जिद काले खान के पास, रामपुर, जिला – रामपुर – 244 901, उत्तर प्रदेश ।
1194	जन एकता पार्टी	147/5, आई० टी० आई० के पीछे, शमशेरपुर, पौंटा साहिब, हिमाचल प्रदेश ।
1195	जन जागरण युवा मंच	नम्बर 2528/2649, रतनदीप हॉस्पिटल, नगर रोड, जामखेड, तालुका-जामखेड, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र-413201
1196	जन जन (युनाईटेड) पार्टी	शान्तीपुरम, फाफामऊ, आपोजिट – बी.बी.एस. इंजी. कालेज, नियर नवजीवन हॉस्पिटल, जिला- प्रयागराज, उत्तर प्रदेश- 211013
1197	जन जन पार्टी	गली सं०- 7, ग्राम - ममूरा, सेक्टर- 66, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1198	जन कल्याण पार्टी	फतेहपुर- सहाबपुर, पोस्ट ऑफिस- कसेडा, तहसील- चायल, जिला- कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
1199	जन क्रान्ति पार्टी, अण्डमान एंड निकोबार	द्वारा हर्ष मेहरा ट्रेडर्स, सी बी आई कार्यालय के सामने, रॉची बस्ती, पोर्ट ब्लेयर-744103 ।
1200	जन क्रान्ति स्वतंत्रता पार्टी	226/27, गली नं० – 6, महावीर नगर, फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1201	जन लोक कल्याण पार्टी	ग्राम तथा पोस्ट: बुगाडा, तहसील – शामली, जिला – मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश ।
1202	जन लोकमत पार्टी	2, हसरत बिल्डिंग, आध्यात्मिक नगर, रेलवे फ्लाई ओवर के नीचे, डासना, गाजियाबाद – 201302 उत्तर प्रदेश ।
1203	जन मन पार्टी	डी-409, प्रतिक मौल, रायसन, गाँधीनगर, गुजरात- 382007
1204	जन मिथिला विकास पार्टी	ग्राम-सम्धिनिया, पास्ट-गरी, थाना-जाले, जिला-दरभंगा बिहार-847303
1205	जन मोर्चा	1, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली – 110001.
1206	जन राज्य पार्टी	110/F/10A/1A, गाँव-कन्हाईपुर, धूमनगंज, इलाहाबाद-211001, उत्तर प्रदेश
1207	जन रक्षा पार्टी	भिठौली, सीतापुर रोड, लखनऊ – 226020, उत्तर प्रदेश ।
1208	जन साधारण पार्टी	मकान नं० – 4, डॉ फतेहउल्लाह लेन, मेन रोड, रॉची, झारखण्ड- 834001
1209	जन सहारा पार्टी	फ्लैट नं.2, युजी फ्लौर, ए-1/बी, एडवोकेट कम्पाउंड, औल्ड जसोला विलेज, दिल्ली-110025
1210	जन समानता पार्टी	बी – 125, नवजीवन कैम्प, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110019.
1211	जन समर्थन दल	12, कृष्णा विहार, ज्वाला नगर, रामपुर, उत्तर प्रदेश ।
1212	जन सम्मान पार्टी	जी- 238, मेन रोड, गली नं.- 6/28, बाल ज्ञान स्कूल, पश्चिम करावल नगर, दिल्ली –110094
1213	जन संवाद पार्टी	319, अमखेरा रोड, गोहलपुर, जबलपुर, मध्य प्रदेश-482004
1214	जन संघ पार्टी	ए-90, सेक्टर – 21, जलवायु विहार, नौएडा, गौतम बुद्ध नगर – 201301, उत्तर प्रदेश ।

1215	जन संघर्ष दल	छोटी मस्जिद के पास,मेन रोड लौरिया,जिला पश्चिम चम्पारण,बिहार-845453
1216	जन संघर्ष विराट पार्टी	गली नं0 - 2, भूतेश्वर मन्दिर के पास, संत रविदास वाई, सागर, तहसील व जिला - सागर,मध्य प्रदेश ।
1217	जन संग्राम पार्टी	मकान नं.482, सेक्टर-3ए, आवास विकास कालोनी, बोदला, आगरा-7 उत्तर प्रदेश।
1218	जन सत्य पथ पार्टी	प्रथम तल, माधव कॉम्प्लेक्स, सिटी पल्स थिएटर के सामने,रायपुर, अहमदाबाद,गुजरात-380022
1219	जन सेवा सहायक पार्टी	ग्राम - तालमहावर, तहसील - बिलासपुर, जिला - रामपुर, उत्तर प्रदेश
1220	जन सेवा संघर्ष पार्टी	गाँव व पोस्ट - पीली मन्दोरी, तहसील- भट्टु कलाँ, जिला- फतेहाबाद, हरियाणा - 125053 ।
1221	जन सेवक पार्टी	एल0 आई0 जी0 63, शेखपुरा, अलिगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1222	जन सेवा ड्राइवर पार्टी	प्लैट एफ-201,कृष एक्सोटिका,ऑपोजिट रजीपा ग्रीट लैंड,बी/एच,श्यामवेद रेजीडेंसी,निकोल,अहमदाबाद,गुजरात- 382350
1223	जन सेवक क्रांति पार्टी	ए टी-772,भीमनगर नया रेलवे रोड,गुरुग्राम-122001
1224	जन शक्ति दल	शिवाजी नगर, गली नं0 1, निकट कैल्टन स्कूल, लाईन पार,मुरादाबाद - 244 001, उत्तर प्रदेश ।
1225	जन शक्ति एकता पार्टी	ग्राम - मंडनपुर, पोस्ट -भीरगंज, जिला - बरेली, उत्तर प्रदेश - 243504 ।
1226	जन शक्ति पार्टी ऑफ इंडिया	7107, स्ट्रीट नं0.3, न्यू विश्वकर्मा नगर, फोकल पॉइन्ट, लुधियाना, पंजाब-141010
1227	जन शान्ति संगठन	एए - 14, चंदन वन, फेज - 1, मथुरा उत्तर प्रदेश - 281001.
1228	जन सृजन पार्टी	15-डी, कौशलपुरी, खरगापुर, विकास खण्ड - चिनहट, गोमतीनगर, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1229	जन सुराज्य शक्ति	जन सम्पर्क कार्यालय, वारानानगर, ता0 - पनहाला, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र - 416113.
1230	जन स्वाभाविक पार्टी	636/09, बुद्ध विहार कॉलोनी, फेज-1, तकरोही, इन्दिरा कॉलोनी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226016
1231	जन विकास पार्टी सेक्यूलर	1/97, विशेष खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010
1232	जन ध्वनि पार्टी	डी. नं. 3-पी सी/18, लक्ष्मी नारायण एस्टेटस्, मियापुर, हैदराबाद, तेलंगाना - 500049
1233	जन हितकारी पार्टी	ए/13 - 14, इंडस्ट्रियल एस्टेट, रसूलगढ, भुवनेश्वर - 751010, उड़ीसा ।
1234	जन प्रिय	ए/2, कास्टेल-5, कार्नेवल रोड, बंगलौर - 560025, (कर्नाटक) ।
1235	जना राज्यम पार्टी	मकान नं.8-217/16,धर्मावेड्डी आर्केट,प्लैट-टी 1,गायत्री नगर,लक्ष्मीनगर कॉलोनी,रोड नं.3,जिल्लेला गुडा म्यूनिसिपलिटी,बालापुर मण्डल,रंगारेड्डी जिला,तेलंगाना-500097
1236	जन सहायका सक्ति	दरवाजा नंबर 27-85/1,कोबाल्डपेट,4 लेन,गुंदूर,आन्ध्र प्रदेश- 522006.

1237	जना सामान्यरा पार्टी (कर्नाटक)	श्री वीरभद्रा स्वामी निलया, पहला मेन, पाँचवां क्रॉस, विजय नगर, तुमकुर, कर्नाटक - 572102
1238	जन समृद्धि पार्टी	काशीपुर-बलरामपुर, यूनिट- 18, पोस्ट ऑफिस- केंदुझरगढ़, थाना-टाउन, जिला- केन्दुझर, ओडिशा- 758001.
1239	जना शंखारावम पार्टी	मकान नं.4-1-216/54/502,कार्तिकेय नगर,नाचारम,उप्पल,मेड्चल मल्कजगिरि जिला,तेलंगाना-500076
1240	जना स्पन्दना पार्टी	नं.-60,फर्स्ट प्लोर,वीरापिल्लय स्ट्रीट,शिवाजी नगर,बैंगलोर,कर्नाटक-560001
1241	जन स्वराज्य पार्टी	प्रधान कार्यालय - 83/ए, तृतीय वार्ड, कलम्मा बाजार, सन्दुर-583119, कर्नाटक ।
1242	जन उन्नयन मंच	मार्फत डोलफिन इंजिनियरिंग कम्पनी, 39, शेक्सपियर सरणी, कोलकाता - 700017, पश्चिम बंगाल ।
1243	जन वाहिनी पार्टी	डोर नं. 28-05-37ए, 12 रोड, शांति नगर, एलुरु, पश्चिम गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश-534001.
1244	जनादेश पार्टी	राधे निवास, जरीमरी, जगताप वाडी, कुर्ला अंधेरी रोड, मुंबई - 400072
1245	जनाधार नेशनल पार्टी	63,आर.आर.एवेन्यु, तुलसी नगर, महालक्ष्मी नगर रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश- 452010
1246	जनाधिपथ्या केरला कांग्रेस	जवाहर बालभवन के पास, भवन सं० - 641, वार्ड नं० - 21, कोट्टयम म्यूनिसिपालिटी, जिला - कोट्टयम, केरल ।
1247	जनाधिपथ्या समक्षणा समिती	केरल राज्य समिती कार्यालय, आयरन ब्रिज डाक घर,एलेप्पी - 688011, केरल ।
1248	जनहित पक्ष	डी० नं० 109, सेकेंड वार्ड, कालम्मा स्ट्रीट, बेल्लारी, कर्नाटक - 583101
1249	जनम मनम पार्टी	13-24/ए, पाण्डुरंगावारीपल्ली गांव, इथेपल्ली पोस्ट, चन्द्रगिरी मंडल, चित्तूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 517102
1250	जननायाहा मुनेत्रा कजगम	नं० 32, न्यु टेन्क गली, नूंगमबक्कम, चेन्नई-600034, तमिलनाडु ।
1251	जनपालना पार्टी (डेमोक्रेटिक)	8-2-703/2/बी, प्लाट नं.2, रोड नं.-12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश -500034
1252	जनसेना पार्टी	मकान नं० 8-2-293/82/HH/91/A/201, हुडा हाईट्स, एम.एल.ए. कॉलोनी, रोड नं० 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500033
1253	जनता कांग्रेस	278 ए, प्रथम तल, जी.के. कॉम्पलेक्स, मेन रोड ओखला, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025
1254	जनता कांग्रेस नेशनल मोवमेंट पार्टी	नं. 8-2-293/82/जे/III,रोज नं० -79,जुबलीहिल्स,हैदराबाद तेलंगाना - 500033
1255	जनता दल (अहिंसावादी)	201,भेल एक्सटेंशन,9 वाँ क्रॉस,स्टेज-2,राजराजेश्वरी नगर,बैंगलोर,कर्नाटक- 560098
1256	जनता पार्टी	जी/42, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली - 110091
1257	जनता उदय पार्टी	860. गली नं०-4, संजय इन्कलेव,चाचा चौक, परवतिया कॉलोनी,एन० आई० टी० फरिदाबाद, हरियाणा

1258	जनता विकास मंच	सी-216, आवास विकास कॉलोनी, मीरा भवन, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1259	जनता विकास पार्टी	अबषेक भवन, उदयनगर कॉलोनी, सागर रोड, विदिशा,(मध्य प्रदेश)
1260	जनहित भारत पार्टी	730, अर्वा नई बस्ती, नौबस्ता, योगेन्द्र विहार, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208021
1261	जनहित दल	आर.एम.एस. कालोनी, रोड नं0 2, कंकड बाग, पटना-20, बिहार ।
1262	जनहित किसान पार्टी	वार्ड नं0 24, सक्सेना नगर, नगरपालिका परिषद - महाराजगंज, जनपथ-महाराजगंज - 273303, उत्तर प्रदेश ।
1263	जनहित लोकशाही पार्टी	रूम सं0 - 41/3,गोंवदेवी रोड, पावणे गोंव, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र - 400705
1264	जनहित विकास पार्टी	ग्राम- कपासी, पोस्ट- हसनपुर, ब्लॉक- बलियाखेड़ी, जिला- सहारनपुर, उत्तर प्रदेश- 247111
1265	जनक्रान्ति समाज पार्टी	मकान नं. 16, सदरपुर कॉलोनी, बी.डी.एस.मार्केट, सोम बाजार, सैक्टर-45, नोएडा,गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
1266	जनलोक राष्ट्रीय पार्टी	452, सेक्टर - 19, द्वारका नई दिल्ली ।
1267	जनलोक विकास पार्टी	हाउस संख्या-124,वार्ड संख्या-22,कसाई टोला,गोरया स्थान,पोस्ट ऑफिस-रसडा,जिला-बलिया,उत्तर प्रदेश-221712
1268	जनमंगल पक्ष	राम प्रताप, गीता नगर, मेन रोड, गुरुकुल के पास, राजकोट - 360002, (गुजरात) ।
1269	जनमत पार्टी	ऑफिस न. 101, पहली मंजिल, बी-37, बी.ब्लॉक, गली न.14, मधु विहार, दिल्ली - 110 092
1270	जनमत विकास पक्ष	पोस्ट - ससवाद, पुर्नधार, महाराष्ट्र - 412301
1271	जननायक युवा शक्ति पार्टी	म.नं.587/20,खासा चौक के पास,रामेश्वर पुरम कॉलोनी,कबीरपुर,सोनीपत,हरियाणा-131001
1272	जन-न्याय दल	301, श्री देवरहा - काम्पलेक्स, माता मढिया चौराहा विजय टाकीज रोड, मोतीनगर वार्ड, तहसील व जिला - सागर, मध्य प्रदेश ।
1273	जनरल समाज पार्टी	सूरत प्रीटिंग प्रेस, दाना मंडी रोड, बठिण्डा, पंजाब ।
1274	जनसमुदाय पार्टी	57, प्रथम तल, स्टेडियम हाउस, स्टेडियम क्रॉस रोड, नवरंगपुरा, अहमदाबाद, गुजरात - 380009 ।
1275	जनसत्ता दल लोकतांत्रिक	ग्राम व पोस्ट- मझिलगाँव (बाबूगंज), तहसील- कुण्डा, जिला- प्रतापगंज, उत्तर प्रदेश- 230204
1276	जनसत्ता पार्टी	एल-14, महेन्द्रा पार्क, आदर्श कॉलोनी, नई दिल्ली - 110003.
1277	जनसेवा गोंडवाना पार्टी	प्लॉट नं. 36,जायसवाल ले आउट,भोयर गल्स हॉस्टल के पास,नालवाडी,वर्धा,तह और जिला वर्धा महाराष्ट्र- 442001
1278	जनशक्ति जनता दल	रजनी कॉम्पलेक्स,खगौल रोड,दयानंद बालिका उच्च विधालय के नजदीक,मीठापुर,पटना,बिहार-800001
1279	जनशक्ति पार्टी (राष्ट्रीय)	प्लॉट नं0 - 38, भू-तल (ग्राउंड फ्लोर), के डी के पब्लिक स्कूल के सामने, मेन रोड, मंडावली, फजलपुर, दिल्ली - 110092
1280	जनशक्ति विकास पार्टी	ग्राम+पो0 - नुमर,थाना-बरहट,जिला-जमुई बिहार-811313

(डेमोक्रेटिक)	
1281	जनशोषित समाज पार्टी
1282	जनता ब्रिगेड पार्टी
1283	जनता दल हिन्दुस्तानी
1284	जनता दल राष्ट्रवादी
1285	जनता क्रान्ति पार्टी
1286	जनता क्रान्ति पार्टी (राष्ट्रवादी)
1287	जनता राज पार्टी
1288	जनता राज विकास पार्टी
1289	जनता समता पार्टी
1290	जनता सरकार पार्टी
1291	जनता सेना राजस्थान
1292	जनता स्वाभिमान पार्टी
1293	जनतंत्र पार्टी
1294	जनतांत्रिक लोकहित पार्टी
1295	जनतांत्रिक समता पार्टी
1296	जनतांत्रिक विकास पार्टी
1297	जनतावादी कांग्रेस पार्टी
1298	जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट)
1299	जातिया समा समाजम पार्टी
1300	जाथिया तेलुगु अभिवृद्धि सेवा समुह
1301	जातिय महिला पार्टी

		500070
1302	जवान किसान मोर्चा	क्वाटर नं० एल० आई० जी०, एच० - 1/7, हाउसिंग कॉलोनी, दलपत पूर्व (चन्दवा), आरा, बिहार - 802312.
1303	जय हिन्द जय भारत पार्टी	एन-106, एच. आई. जी. फ्लैट, संजय नगर, सैक्टर-23, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1304	जेबामणि जनता	नं० 33, सैकंड स्ट्रीट, पूर्व अबिरामपुरम, माइलापोर, चेन्नई-600004, तमिलनाडु ।
1305	झारखण्ड अनुशीलन पार्टी	ग्रा० व पो० आफिस झिलीमिली थाना - बरीकुल, जिला - बाकुंडा पश्चिम बंगाल - 722135
1306	झारखण्ड आजाद पार्टी	झालेश्वर करमली मकान संख्या- 153 ए, खाता संख्या 40, प्लॉट संख्या 293, मौज होम्बई, विलेज-होम्बई पोस्ट-निवरी विकास, थाना-सदर राँची, जिला - राँची, झारखण्ड - 835217.
1307	झारखंड दिशोम पार्टी	12, मार्ग सं० 21, कदमा फार्म एरिया, जमशेदपुर - 831005, झारखण्ड ।
1308	झारखण्ड जन क्रांति मोर्चा	मकान सं० - 36, दिनकर नगर, पो० - हटिया रेलवे कॉलोनी, थाना - जगरनाथपुर, राँची, झारखण्ड ।
1309	झारखण्ड जन मोर्चा	द्वितीय मंजिल, अजमेरी टावर, मल्लाह टोली, राँची - 834001, झारखण्ड ।
1310	झारखण्ड जनाधिकार मंच	भुवनेश्वरी लोक, काली मंदिर रोड, वर्धमान कम्पाउन्ड, राँची - 834001, झारखण्ड ।
1311	झारखण्ड जनाधिकार पार्टी	हॉली क्रॉस स्कूल के सामने, लालपुर पीस रोड, राँची - 834001, झारखण्ड ।
1312	झारखण्ड की क्रान्तिकारी पार्टी	23, पूर्वी जेल रोड, राँची - 1 (झारखण्ड) ।
1313	झारखण्ड मुक्ति मोर्चा (उलगुलान)	द्वारा श्री ओम प्रकाश सिंह, ग्राम एवं पो. - मधुकम, रोड नं.4, थाना - सुखदेव नगर, जिला - राँची, झारखण्ड - 834001
1314	झारखण्ड पार्टी	आनन्द सुवानी निवास, एयरपोर्ट रोड, हिनू, राँची, झारखण्ड - 834002.
1315	झारखण्ड पार्टी (नरेन)	स्थान - रधुनाथपुर, पो. ऑ. - झाड़ग्राम, जिला - मिदनापुर - 721507, (पश्चिम बंगाल) ।
1316	झारखण्ड पार्टी (सेकुलर)	ग्राम - उनीडीह, पोस्ट - राजा उलातु, थाना - नामकुम, जिला - राँची, झारखण्ड ।
1317	झारखण्ड पीपुल्स पार्टी	पो. ऑ. लौबासा, जमशेदपुर, पु० स्टे० - गोविन्दपुर, जिला - सिंहभूम (पूर्व) झारखण्ड ।
1318	झारखण्ड वनांचल काँग्रेस	5, रातू रोड, राँची - 834005, झारखण्ड ।
1319	झारखण्ड विकास दल	273, लेक एवेन्यू, स काँके रोड, राँची, झारखण्ड
1320	जिन्दाबाद क्रान्ति पार्टी	31/38ए, तृतीय तल, गली नं.5, भीकम सिंह कॉलोनी, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली-110032
1321	जोहार पार्टी	ग्राम- दड़हाटांड, पोस्ट एवं थाना- ईटकी, जिला- राँची, झारखण्ड-

		835301
1322	जस्टिस अण्ड डेवलपमेंट पार्टी	गाँव+पोस्ट-ऑफिस अहिरन,पी.एस.-सुति, जिला-मुर्शिदाबाद, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 742223.
1323	जस्टिस पार्टी	ग्राम- दिकतन खेड़ा, पोस्ट- हरचन्दपुर, जिला- रायबरेली, उत्तर प्रदेश - 229303 ।
1324	ज्वाला दल	मकान संख्या - 247 बी, मु0 - जंगल तुलसीराम, पो0 - बिछिया पी.ए.सी. कैम्प, थाना - शाहपुर, जिला - गोरखपुर - 273014 उत्तर प्रदेश ।
1325	कैविनयगेर मुन्नेत्र कड़गम	श्री विश्वेश्वर भवनम, 76, मिलर्स रोड, किलपोक, चेन्नई - 600010 (तमिलनाडु) ।
1326	कलिंगा नैशनल फ्रंट	स्थान - परबील, पो0 ऑ0 -कन्दरपुर, जिला - कटक - 754100, ओडिशा ।
1327	कलिंगा सेना	19ए, मधुसूदन नगर, यूनिट - 4, भूवनेश्वर-751001, खुर्दा, उड़ीसा ।
1328	कल्याण क्रान्ति पार्टी	# 57, दुसरा तल, 3 मेन अदित्यानगर, 8 फेज, जेपी नगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560062
1329	कल्याणकारी जनतांत्रिक पार्टी	बी-4/260ए, केशवपुरम, नई दिल्ली - 110035 ।
1330	कल्याणवादी पार्टी	16, पाण्डेय टोला, पैंतेपुर, महमूदाबाद, सीतापुर, उत्तर प्रदेश - 261203
1331	कामराजार अदितनार कड़गम	6-ई, संस्थान कोइल स्ट्रीट, पुधुकुदिइरुप्पु, नागेरकोइल - 629001 (तमिलनाडु) ।
1332	कामराजार देसीया काँग्रेस	7-वेलायुधा, राजा स्ट्रीट, राजा अन्नामलाईपुरम, मंडावेली, चेन्नई - 600028 (तमिलनाडु) ।
1333	कामतापुर पीपुल्स पार्टी (यूनाईटेड)	गाँव एवं पोस्ट- भंदानी, पुलिस स्टेशन- धुपगुडी, जिला- जलपाईगुडी, पश्चिम बंगाल- 735210.
1334	कमेरा समाज पार्टी	वार्ड न. -3,लाला का पुरवा शंकरगढ (पन्ती देवी स्कूल के पास),पो0-शंकरगढ,जिला-प्रयागराज,उत्तर प्रदेश- 212108.
1335	कामगार किसान पार्टी	राहुल भवन,मकान नं०00-51,मानस नगर,जियामऊ,हजरतगंज,जिला-लखनऊ,उत्तर प्रदेश-226001
1336	कामगार समाज दल	मकान नं0 9/237, मोहल्ला : रायडोपुर, पोस्ट एवं जिला -आजमगढ, उत्तर प्रदेश ।
1337	कामतापुर प्रोग्रेसिव पार्टी	चिल्ला रॉय भवन, गाँव - बिधानपल्ली,डाक घर - कदमताला, जिला - दार्जिलिंग - 734433, पश्चिम बंगाल ।
1338	कन्नड़ चालवाली वाटल पक्ष	154, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट, बंगलौर - 560053, (कर्नाटक) ।
1339	कन्नडा देशदा पक्षा	नं. 20, बन्दारलाहल्ली विलेज, कामसमुद्रम होबली, बंगारपेट तालुक, जिला-कोलार, कर्नाटक- 563129.
1340	कन्नड़नाडु पार्टी	54, ग्राउन्ड फ्लोर, प्रसन्ना कॉलोनी, बसावेश्वर नगर, गोकुल रोड, हुबली - 580030 कर्नाटक ।
1341	कन्नड़ पक्ष	नं0 259/1, फर्स्ट फ्लोर, रंगास्वामी टेम्पल स्ट्रीट (जैन टेम्पल के

		सामने), बंगलौर - 560053 (कर्नाटक) ।
1342	कानून राज पार्टी	डी-1/1045, गली नं.27, हर्ष विहार, शाहदरा, दिल्ली-110093
1343	कांशीराम बहुजन दल	खाता नं. 208, का अराजी नं.- 159एम/0.0810, गांव- अली खानपुर, पी.एस.- लाईन बाजार, तहसील- सदर, परगना- हवेली, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222132
1344	कर्मा पार्टी	शॉप नं0 -1, हुडा मार्केट, लैज़र वैली पार्क, किंगडम ऑफ ड्रीम्स के सामने, सेक्टर - 29, गुडगांव, हरियाणा - 122002
1345	कर्नाटक जनसेवा पार्टी	ओल्ड पीआईडी नं.36, खाता नं.151, सर्वे नं.42, कावेरीपुरा मेन रोड, नं.587, नियर महादेशवरा मंदिर रोड, रंगनाथापुरा, कामाक्षीपलया, बैंगलुरु, कर्नाटक-560079
1346	कर्नाटक जनता पक्ष	#11, 12 मेन, 17 क्रास, मालेश्वरम, बैंगलुरु-560055, कर्नाटक
1347	कर्नाटक कार्मिकर पक्ष	नं. 120, प्रथम तल, सेन्ट जोन्स चर्च रोड, नियर कोल्स पार्क, बैंगलोर, कर्नाटक - 560005
1348	कर्नाटक क्रान्ति दल	नं0 240, सिक्सटीन्थ मेन, सिक्सथ क्रास, फर्स्ट फेज, II स्टेज, वी.टी.एम. (ई डब्ल्यू एस) लेआउट, बंगलौर - 560076 (कर्नाटक) ।
1349	कर्नाटका मक्कला पक्ष	एच0 ओ0 नं0 09, ब्लॉक - 4जेएसएस इम्प्लायस लेआउट, साथागली नजाराबाद मोहल्ला, मैसूर, कर्नाटक- 570011
1350	कर्नाटक प्रगन्यावन्ता जनता पार्टी	नं0 -23, दूसरी "ए" मेन रोड, 7 वां क्रॉस, मुनेश्वर लेआउट, श्रीगंदनगर, बैंगलुरु, कर्नाटक - 560091
1351	कर्नाटक प्रजा पार्टी (रैयथा पर्व)	फ्लैट नं. 104, अदित अपार्टमेंट, एस.जे.सी.ई कालेज रोड, टेलिकॉम ले आउट, वाग्देविनगर, मैसूर, कर्नाटक- 570009.
1352	कर्नाटक प्रजा विकास पार्टी	नं0 15, सम्पंगीमै लेआउट, सिदेदाहल्ली, यशवंतपुर हौबी, नागासन्द्रा पोस्ट, बैंगलुरु नॉर्थ ता0, बैंगलुरु डिस्ट्रिक्ट, कर्नाटक- 560073
1353	कर्नाटक राज्य रयोता संघ	636, आईडल होम्स ले आउट, राजाराजेश्वरी नगर, बंगलौर - 560098 (कर्नाटक)
1354	कर्नाटक राष्ट्र समिति	नं.31/2, 8वा इ मेन, चतुर्थ ब्लॉक, जयनगर, बैंगलुरु, कर्नाटक-560011
1355	कर्नाटक समता पक्ष	नं. 718, एस. कलेदार प्लॉट, तिरुपुर, नवलगुंड, जिला- धारवाड़, कर्नाटक- 582208
1356	कर्नाटका स्वाभिमानि रैथरा कर्मिकारा पार्टी	खाता ऐसेसमेंट नं. 565/7782/6536, सी.के.पूरा मेन रोड, चित्रादुर्गा, कर्नाटक- 577501
1357	कर्नाटक स्वराज्य पार्टी	सं0 2082, चिदाम्बर कृपा, साई नगर, रायबाग, जिला बेलगाम, कर्नाटक - 591317
1358	कर्नाटक तामीझार मुन्नेत्र कड़गम	नं. 6, II फ्लोर, चिक बाजार रोड, क्रास शिवाजी नगर, बंगलौर - 560051, (कर्नाटक) ।
1359	कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी	मकान सं0 - 46, लाला मोहम्मदपुर, कंकर खेड़ा, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1360	करुनाडु पार्टी	सा. 13/2, नं0 7 मल्लाथाहली, नंजप्पा गार्डन, बैंगलौर-560056 कर्नाटक ।
1361	करुणाडगा तमिझार काची	नं.15, निदरसनम, जेवी.शेट्टी, रामासामी पाल्या, एम.एस नगर पोस्ट,

		बेंगलुरु, कर्नाटक-560033
1362	काश्मीर डेवलपमेंट फ्रंट(जे एंड के)	म0 नं0 - 254 - मेन रोड, पोस्ट ऑफिस के पास, जवाहर नगर, श्रीनगर, जम्मू एण्ड कश्मीर ।
1363	कठोर शासन पार्टी	75, बी-3, जाटन, भगवती भवन, पी. ओ. व जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246701 ।
1364	केंद्रीय जनविकास पार्टी	प्लॉट नं0 - 179, आयुर्वेदिक लेआउट, भांडे प्लॉट, उमरेर रोड, सक्करदरा, जिला - नागपूर, महाराष्ट्र-440024 ।
1365	केरल काँग्रेस	67. कुमारानसन नगर, कादवानथारा, पो0 ऑ0 एरनाकुलम, केरल ।
1366	केरल काँग्रेस (बी)	पी.टी. चाको स्मारक, मन्दिरम्, एस.एस. कोबिल रोड, थाम्पनूर, तिरुवनन्तपुरम - 695001, (केरल) ।
1367	केरल काँग्रेस (जेकब)	वार्ड 13, बिल्डिंग 346, टी. बी. रोड, कोट्टायम, (केरल) - 686001
1368	केरला कांग्रेस (स्कारिया थॉमस)	चिंगवनं, बिल्डिंग नं. 711, वार्ड नं. 6, कोट्टयम मुनिसिपलिटि, कोट्टयम, जिला- कोट्टयम, केरल
1369	केरल काँग्रेस सेक्यूलर	केरल काँग्रेस सेक्यूलर स्टेट कमेटी कार्यालय, भारत बिल्डिंग, पुलीमूड जंक्शन, कोट्टायम - 1, केरल ।
1370	केरला जनपक्षम	पुरा - 36, श्यामला निवास, पूजापुरा पी0 ओ0, तिरुवनन्थापुरम - 695012.
1371	केरला जनापक्षम (सेक्युलर)	टी.सी. 16/882(13), श्रीकृष्ण नगर, जगती- पोस्ट, तिरुवनंतपुरम, केरल- 695014
1372	केरला जनता पार्टी	मुलाकुलम पंचायत, वार्ड नं. 12, बिल्डिंग नं. 2, पूझीकोल पो.ऑ,कडुथुरुत्ती केरल- 686604
1373	केरला कामराज कांग्रेस	बिल्डिंग नं.- एन.एम.सी. XI/342डी, नेय्याट्टिंकारा, तिरुवनन्तपुरम, केरल- 695121.
1374	केरला रिवोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी - (लेनिनिस्ट- मार्क्सिस्ट)	नं. 19/1347, सासथाकोटा ग्राम पंचायत, कोल्लम, केरल- 690521
1375	केरला विकास काँग्रेस	ई.पी- III/468, इखवेस्सी, पी.ओ.- चेम्परी, तालीपरम्बा, जिला- कन्नूर, केरल, पिन- 670632
1376	खानदेश विकास काँग्रेस पार्टी	बिल्डिंग नं0 2, 15/16, प्रथम तल, खानदेश, मिल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जलगांव - 425001.
1377	खुन हिन्यूटिप नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट	जियाव लोअर लैंसोनालेन, हाउस न. 32 एवं वार्ड न. 14 एवं होल्डिंग न. 65, शिलांग, पूर्व खासी हिल्स जिला, मेघालय - 793002
1378	खुशहाल किसान पार्टी	मकान नं.- 125, अनाज मण्डी के पास, नागर रोड दीग, तहसील- दीग, जिला- भरतपुर, राजस्थान- 321203
1379	खुसरो सेना पार्टी	आई-4/95, शास्त्री नगर, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश ।
1380	किसान अधिकार पार्टी	ए/1-104, प्रथम तल, सूर्यान्जली रेसिडेन्सी, संसकार रेसिडेन्सी के सामने, क्रास रोड, अमरोली, सूरत, गुजरात- 394107
1381	किसान गरीब नागरिक पार्टी	203, मरकज व्यू द्वितीय तल, 24, अपोजिट कैरिट सिनेमा, जोगेश्वरी

		पश्चिम, मुम्बई - 400103 महाराष्ट्र ।
1382	किसान क्रान्ति दल	नांगला सुखदेव, नीमखेरा - जलैसर, जिला - एटा (उत्तर प्रदेश)।
1383	किसान मजदूर बेरोजगार संघ	गांव - जेतपुर, पोस्ट - फफुन्द, ओरइया, उत्तर प्रदेश ।
1384	किसान मजदूर प्रजा पार्टी	ए एक्स - 223/224, राजहर्ष कॉलोनी, नयापुरा, कोलार रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1385	किसान मजदूर सुरक्षा पार्टी	मकान नं. 45, ग्राम- खेड़िया-हैबतखाँ, पोस्ट- कुलना, तहसील- गथाना, जिला- अलीगढ़ उत्तर प्रदेश- 202001
1386	किसान मजदूर बहुजन पार्टी	जे-1/2, दली बाग कॉलोनी, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
1387	किसान मजदूर संघर्ष पार्टी	भरोसा सिटी, ग्राम- सरोसा भरोसा, पोस्ट- मौंदा,ब्लॉक- काकोरी, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226008
1388	किसान पार्टी (लोकतान्त्रिक)	श्रीकृष्णा चिकिस्तालय,सीडा,सतहरिया,पोस्ट-पवॉरा,जिला-जौनपुर,उत्तर प्रदेश- 222202.
1389	किसान पार्टी ऑफ इण्डिया	वार्ड नं. 01, जनकपुर रोड, नागेश्वर स्थान, थाना- पुपरी जिला- सीतामढ़ी बिहार -843320
1390	किसान राज पार्टी	जूनियर एल.आई.जी. 358, विंध्य विहार कॉलोनी (पडरा), जिला- रीवा, मध्य प्रदेश- 486001
1391	किसान रक्षा पार्टी	529/ए व नया मकान संख्या- 807, पठौरियां दतिया गेट के बाहर, तहसील व जिला- झांसी, उत्तर प्रदेश- 284001
1392	किसान समाज मोर्चा	बिचौला भूड, पो0 - पतरिया,तह0 - गुन्नौर, बदायूँ, उत्तर प्रदेश ।
1393	किसान समाज पार्टी (एस)	झिन्नापूर्वा, पोस्ट -धाखेरवा नानकर, तहसील - निघासन, जिला - लखीमपुर (खीरी), उत्तर प्रदेश ।
1394	किसान संघर्ष समिति	छरियारी,मखदुसपुर,जहानाबाद,जिला-जहानाबाद बिहार-804422
1395	किसान सेना	101, कोलियान, विशुनगढ़ रोड, छिबरामऊ, कन्नौज, उत्तर प्रदेश ।
1396	किसान शक्ति जनतांत्रिक पार्टी	मकान नं0 - 12/445, मझौला आवास विकास, तहसील - सदर, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1397	किसान विश्व पार्टी	ग्राम व पोस्ट-सफिपुर,थाना-देवां,जिला-बाराबंकी,उत्तर प्रदेश-225301
1398	किसान व्यवसायी मजदूर पार्टी	प्रकाश भवन, नरही बाजार, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
1399	किशोर राज पार्टी	एल - 2/601, विनीत खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1400	कोन्गु देसा मारुमलरची मक्कल काँची	नं0 - 301/14, अलगर नगर, गांव - पचनपालयम, पोस्ट - अंतियर, ईरोड, तमिलनाडु- 638501
1401	कौंगू नाडु मुनेत्र कडगम	320, बेस्ट काम्पलेक्स कुमारन रोड, त्रिपुर - 641601, कोयम्बदूर (जिला), तमिलनाडु ।
1402	कौंगुनाडु जननायगा काँची	“इराई अरुल” नं0 - 24, मेथा लेआउट, लक्ष्मीपुरम, पीलामेडु (पो.ऑ.), कोयम्बदूर, तमिलनाडु - 641004
1403	कौंगुनाडु मक्कल देसीय कचची	5/54, ईस्ट स्ट्रीट, पोस्ट - व कौकरायंपेट्टै, तालुक - तिरुचंगोड, जिला - नामकल्लक, तमिल नाडु - 638007

1404	कोसल जनता दल	प्लॉट नं. जे.सी-02, फेज-01, छंद कॉलोनी, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिशा-769015
1405	कोसल क्रान्ति दल	टेलिफोन एक्सचेंज रोड, रुगुदी पाडा, बालेनगिर - 767001, उडीसा ।
1406	कोसल पार्टी	जी. एम. कॉलिज रोड, सम्बलपुर - 768004, (उडीसा) ।
1407	कोशल मुक्ति मोर्चा	रेलवे स्टेशन रोड, तितिलागढ़, जिला - बोलांगिर, ओडिसा ।
1408	कोशी विकास पार्टी	मछली भवन, डॉ अम्बेडकर मार्ग, गांव, पो0 व जिला - खगड़िया, बिहार - 851204.
1409	क्रान्ति दल	132, बाबूगंज, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
1410	क्रान्ति जनशक्ति पार्टी	1058, यादव पुरा, पुरानी विधान सभा के सामने, वार्ड नं0 - 34, जोन नं0 - 8, तहसील - हुजूर, भोपाल, मध्य प्रदेश ।
1411	क्रान्ति परिषद्	म0 नं0 2019, मिस्त्रीखान रोड, नाहरगढ़ रोड, जयपुर (राजस्थान)।
1412	क्रान्तिकारी जयहिन्द सेना	द्वारा एडवोकेट आर0 एन0 काचवे, देवी प्रसाद होटल के पास, एम आई डी सी सेन्ट्रल रोड, अन्धेरी पूर्व, मुम्बई-400093, महाराष्ट्र।
1413	क्रान्तिकारी किसान सेना	सी-221, ओल्ड मीनल रेसीडेन्सी, राज होम्स, जे0 के0 रोड, भोपाल-462023, मध्य प्रदेश।
1414	क्रांतिकारी परिवर्तन पार्टी	देवयानी मार्ग,निकट सिक्सवे बाईपास,अशोक नगर(पूर्वी),इटावा,उत्तर प्रदेश-206001
1415	क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टी	एम एल ए फ्लैट नं0 26, वीर चन्द पटेल पथ, पटना (बिहार)।
1416	क्रांतिकारी शेतकरी पार्टी	शॉप नं.20, तिरुपती कॉम्प्लेक्स, सोनई-राहुरी रोड, सोनई, तालुका-नेवासा, जिला- अहमदनगर, महाराष्ट्र- 414105
1417	क्रान्तिकारी विकास दल	78/09 सी., मौ0 - बिरसा आदिवासी कॉलोनी, पोस्ट - गुलजार बाग, थाना - आलमगंज, जिला - पटना - 800007, बिहार।
1418	क्रान्तिकारी युवा पार्टी	मकान नं. 318, ओल्ड रोहतक रोड, गुर्जर गली,शाहजादा बाग, दया बस्ती, दिल्ली-110035
1419	क्रांतीसेना महाराष्ट्र	5-ए, ज्योतिसदन शितलादेवी, टेंपल रोड, माहिम, मुम्बई, महाराष्ट्र।
1420	कृषक भारती पार्टी	दुकान नं. 841, गली नं. 11, हरिपुर सैक्टर-4, पंचकूला, हरियाणा-134112
1421	कृपा पार्टी	प्लॉट नं.452, खाता सं. 69, शांति भवन, ग्राम- पहाना, पो.ऑ- तिकनपुर, जी.पी.- रामचन्द्रपुर, पी.एस- पाटकुरा, जिला- केन्द्रपाड़ा, ओडिशा-754153
1422	कूकी नेशनल असेम्बली	ग्रेस कॉटेज, पेटेवेंग, कवाकेलथेल, पो. ऑ. - इम्फाल, पिन - 795001, (मणिपुर)
1423	कुनबी बहुजन सवराज्य पार्टी	एच. नं. 114, ए-2, गाँव और पोस्ट खादी लोलवन, तातुका-संगमेश्वर, जिला- रत्नागिरी, महाराष्ट्र- 415801
1424	कुशल जनता पार्टी	पुपरी, वार्ड नं0-2, पोस्ट- जनकपुर रोड, जिला- सीतामढ़ी, बिहार- 843320
1425	लेबर एण्ड जॉब सीकर्स पार्टी ऑफ इण्डिया	66, रोयेपेट्टा हाइ रोड, मायलापोर, चेन्नई-600004. (तमिलनाडु)।
1426	लेबर पार्टी (सेक्यूलर)	382/4, गली हरदेव, संत निरंकारी कॉलोनी, दिल्ली-110009.
1427	लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	ए-160, दूसरी मंजिल, विकास मार्ग, शकरपुर, मेट्रो स्तंभ संख्या 42 के

		पास, दिल्ली - 110092
1428	लेबर समाज पार्टी	चेम्बर नं० 91, सिविल कोर्ट, राजनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1429	लघुजन समाज विकास पार्टी	बड़ापुरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश।
1430	लक्ष्यधर गणतांत्रिक पार्टी	पुरानी बस्ती, चौकीदारपाड़ा, पो० ओ० के० एम० रोड, झारसुगुडा-2, जिला - झारसुगुडा, ओडिसा ।
1431	लाल मोर्चा	आर० जेड० सी० - 113, विष्णु गार्डन, ख्याला, नई दिल्ली - 110018.
1432	लचिया जननायक काची(लजक)	नं० - 18, अरविन्द बिल्स, अमन कोविल, फस्ट क्रॉस स्ट्रीट, श्रीनिवास नगर, पेरूगालाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600063
1433	लट्टिन काँग्रेस	बवाली, पोस्ट-खाश, जिला-मेरठ-250621, (उत्तर प्रदेश)।
1434	लौकिक समाज पार्टी	द्वारा-चित्रा कॉन्वेंट स्कूल,ग्राम - देवपार (वीरसिंहपुर),पोस्ट - मदनपुर,तहसील - बरहज,जिला - देवरिया,उत्तर प्रदेश- 274205
1435	लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी	20, भारतीय नगर, अल्लागप्पापुरम, कराईकुड्डी-630003, तमिलनाडु।
1436	लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी	ग्राम- शान्तिपुर (मिर्जा), पोस्ट ऑफिस- मिर्जा, पुलिस स्टेशन- पलाशबरी, जिला- कामरूप, असम-781125
1437	लिबरल पार्टी ऑफ इंडिया	6/12, सर्वप्रिय विहार, नई दिल्ली- 110016.
1438	लोग जन पार्टी - सेक्यूलर	शिनपुरी,नवचोतना पथ,अनिसाबाद,पटना,बिहार- 800002
1439	लोग पार्टी	मकान सं० 33/2,स्टेनले रोड,इलाहाबाद,उत्तर प्रदेश- 211001
1440	लोहिया संयुक्त समाजवादी पार्टी	एच-ब्लाक, हाउस नं.- 359, सैक्टर - 9, ओल्ड विजय नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1441	लोक आवाज दल	होल्लिंग नं० 20/11, सर्किल नं० 264, अम्बेडकर चौक, विष्णुपुरी, पटना - 800002, बिहार।
1442	लोक भलाई पार्टी	5-एफ एफ, राजगुरु नगर, फिरोजपुर रोड, लुधियाना, (पंजाब)।
1443	लोक भारती	ए/702, वेदन्त उन्नत नगर नं. 2, गोरेगांव (पश्चिम) मुंबई- 400062.
1444	लोक चेतना दल	ग्राम - पकड़ी जलाल, पोस्ट - शुभंकरपुर, जिला - मुजफ्फरपुर, बिहार - 843113
1445	लोक दल	केन्द्रीय कार्यालय, 8, माल एवेन्यू,लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1446	लोक एकता पार्टी	एस-8/188, सुधाकर रोड, खजुरी कैण्ट, वाराणसी-221 002, उत्तर प्रदेश।
1447	लोक गठबंधन पार्टी	नं० - बी - 16-ए, बेसमेंट ऑफ अलिशा अपार्टमेंट (अतरौला हाउस, 27/6, राम मोहन राय मार्ग) मदन मोहन मार्ग, कृषि भवन के नजदीक, 3 वे रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226001
1448	लोक हित राष्ट्रीय विकास पार्टी	ग्रेन मार्केट, लॉंगोवाल, जिला - संगरूर, पंजाब ।
1449	लोक इंसाफ पार्टी	बी -XXVI/208/403- डी/5, गुरु रामदास कॉम्प्लेक्स, दुगरी रोड, लुधियाना, पंजाब - 141001 ।
1450	लोक जन संघर्ष पार्टी	ग्राम- जमुनहा, विकास खण्ड बांकेगंज, पोस्ट- सौंखिया, जिला- लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1451	लोक जन विकास मोर्चा	कचहरी रोड, थाना-कोतवाली, पोस्ट-राँची-834001, झारखण्ड।

1452	लोक जनहित पार्टी	ग्राम - डालूपुर सुल्तानपुर,पोस्ट - प्रेमपुर, जनपद - कन्नौज उत्तर प्रदेश ।
1453	लोक मानवाधिकार पार्टी	सी. 32/27-16ए, विद्याविहार कॉलोनी, छित्पूर, वाराणसी-221002, उत्तर प्रदेश।
1454	लोक निर्माण दल	2, अराधना इन्कलेव, सुरखपुर मार्ग, फेस-II, दिल्ली ।
1455	लोक परित्राण	"सौभाग्य" 12-13 तिलक नगर-II महामन्दिर, जोधपुर - 342 010, राजस्थान।
1456	लोक परिवर्तन पार्टी (डी.सी.)	भापरा रोड, पुलिस चौकी के सामने, जी.टी. रोड, समालखा, जिला-पानीपत हरियाणा।
1457	लोक रक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट ऑफिस - सिरसा, जिला - इटावा उत्तर प्रदेश ।
1458	लोक राष्ट्रीय पार्टी सेकुलर(एस)	अबन्तीबाई नगर,भोगांव,जिला-मैनपुरी,उत्तर प्रदेश- 205262
1459	लोक समाज पार्टी	बी-1756, गली नं. 25, प्रथम पुस्ता, सोनिया विहार, दिल्ली- 110090
1460	लोक साम्यां पार्टी	प्लॉट नं0 179,रामचंद्रपुर आर.सी. ठकुरानी,पोस्ट -हरिदेवपुर,कोलकाता-700104
1461	लोक संघर्षशील पार्टी	प्रीमिसर्ज नं0 100Z864894,शास्त्रीमगर,चोटिला,ता0 चोटिला,जिला-सुरेन्द्रनगर गुजरात- 363520
1462	लोक सत्ता पार्टी	फ्लैट नं.801, श्रीनिवास टावर्स, आईटीसी काकतीय होटल के पास, बेगमपेट, हैदराबाद-500016, तेलंगाना ।
1463	लोक सेना पार्टी	अहमद नगर रोड,मकान नं.-1-4-2956,गुलशन नगर,बालेपीर,बीड,महाराष्ट्र-431122
1464	लोक सेवा दल	पोस्ट बधिया, तहसील लखीसराय, बिहार-811302.
1465	लोक शाही पार्टी (सेकुलर),	187-एच, 6/2, जीवन नगर, आश्रम चौक के नजदीक, महारानी बाग बस स्टैंड के सामने, नई दिल्ली - 110014
1466	लोक शक्ति	83, लोधी एस्टेट, नई दिल्ली-110003.
1467	लोक शक्ति पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं.2,तृतीय तल,शकरपुर खास दिल्ली-110092
1468	लोक स्वराज्य पार्टी	प्रेमलता गोबिंदराव ब्राम्हंकर,वाड नं.-5,गाँव एवं पोस्ट -संगाडी,तहसील-सकोली,जिला-भंडारा महाराष्ट्र- 441802.
1469	लोक विकास मंच	शॉप नं0 - 159, दूसरी मंजिल, शॉपिंग सेंटर, आर-वर्ल्ड सिनेमा के पास, सेक्टर - 21, गाँधीनगर, गुजरात ।
1470	लोक विकास पार्टी	41, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092.
1471	लोकजागर पार्टी	प्लॉट नं. 17, मैफिल, सन्मार्ग नगर, हुडकेश्वर रोड, जिला- नागपुर, महाराष्ट्र- 440034
1472	लोकनायक पार्टी	172/3 सी, पूर्वी मोती बाग, सराय रोहिल्ला, दिल्ली - 110 007.
1473	लोको संमिलोन	पोस्ट ऑफिस-जलेश्वर, जिला-गोलपारा, असम।
1474	लोकप्रिय समाज पार्टी	प्रजापति धर्मशाला मंदिर, श्री कालका जी, नेहरू पैलेस, नई दिल्ली-110019.

1475	लोकराज्य जनता पार्टी	कार्यालय नं० 1001ए/1बी, प्लॉट नं० 58, ए वार्ड, लक्ष्मीटेक कॉलनी साने गुरुजी वसाहत, कोल्हापूर, जिला-कोल्हापूर, महाराष्ट्र- 416012
1476	लोकसंग्राम	एच० नं० 1321, लेन नं० 4, धुले-424001.
1477	लोकसेना	63/एच०/एस० मदनमोहन बर्मन एस्टेट कोलकता-700007, पश्चिम बंगाल।
1478	लोकशाही निर्माण पार्टी	नं. 6, प्राईम रोज, क्वीन पार्क, दीपक हॉस्पिटल के पीछे, मीरा भयंदर रोड, मीरा रोड, जिला- थाने, महाराष्ट्र- 401107
1479	लोकशाही सत्ता पार्टी	“पंचवटी” बोराडीपा, रामजी मंदिर के पास, बावला, तहसील – बावला, जिला – अहमदाबाद, गुजरात -382220 ।
1480	लोकशक्ति विकास पार्टी	उदंतपुरी (किलापर), बिहारशरीफ, नालंदा, बिहार-803101
1481	लोकशासन आन्दोलन पार्टी	259, गुहा गांव, तालुक – रहुरी, जिला – अहमदनगर महाराष्ट्र – 413705
1482	लोकशासन पार्टी ऑफ इंडिया	सं० नं० 67, प्लॉट सं० 25, प्रतिक बिल्डिंग, फ्लैट नं० 3, विद्यानगर, पुणे-411032, महाराष्ट्र।
1483	लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी	खसरा नं. 21/9/1 व 10/2, मंगोलपुरी इंडस्ट्रीयल एरिया, फेज-I, टी.वी.एस एजेन्सी के सामने, नियर आई.बी.पी पेट्रोल पम्प, मंगोलपुरी, नई दिल्ली- 110083.
1484	लोकतंत्र कांग्रेस पार्टी	इ-1, 21/7, न्यू राजेन्द्र नगर, डाकघर-रविग्राम, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1485	लोकतंत्र कल्याण पार्टी	ग्राम-खिरीकोन, पोस्ट-तार, थाना-अगीआँ बाजार, प्रखंड-पीरो, जिला-भोजपुर, बिहार-802207.
1486	लोकतंत्र विकास पार्टी	ग्राम व पोस्ट शहपुर बम्हैटा, थाना कविनगर, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201009
1487	लोकतांत्रिक चेतना पार्टी	मुमताज मंजिल, आजाद नगर, बादा, उत्तर प्रदेश।
1488	लोकतांत्रिक जन स्वराज पार्टी	सविता सदन, धूमनगर (कचहरी टोला), पोस्ट- बेलबाग (बेतिया), थाना-नौतन, जिला- पश्चिम चंपारण, बिहार- 845438
1489	लोकतांत्रिक जनता पार्टी (सेक्यूलर)	मेन रोड, फिरोजपुर, पोस्ट-ऑफिस आन्देर, जिला-सिवान, बिहार- 841231,
1490	लोकतांत्रिक जनशक्ति पार्टी	मकान सं० - 107, केशर कालोनी हल्दौनी, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश- 201306 ।
1491	लोकतांत्रिक जनता दल	मकान नं. 861 पी, सेक्टर-15, पार्ट- II, गुरुग्राम, हरियाणा – 122001
1492	लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी	एस- 25/51ए-9बी-1, गौतम बिहार कॉलोनी, सरसौली, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221002
1493	लोकतांत्रिक मानवतावादी पार्टी	दुकान नं० 5, एस० डी० 366, शास्त्री नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1494	लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी	ई-2, ओल्ड सोसाइटी, सैजपुर रेलवे स्टेशन के पास, सैजपुर बोधा, अहमदाबाद, गुजरात- 382245
1495	लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी	मकान नं० ई-5, इन्दिरा गांधी मार्ग, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091

1496	लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी	27-ए, डी.डी.ए. फ्लैट्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110002.
1497	लोकतांत्रिक समता दल	डी0-104, दारोगा प्रसाद राय पथ, पटना-800001, बिहार।
1498	लोकतांत्रिक सरकार पार्टी	द्वारा पी0 के0 खरिया, एडवोकेट, शताब्दी चैम्बर, नं0-1, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मांडला-481 661, मध्य प्रदेश।
1499	लोकतांत्रिक सर्वजन समाज पार्टी	बी-103, सपना अपार्टमेन्ट, रामनगरी, आशियाना नगर, पटना-800025 बिहार।
1500	लोकतांत्रिक युवा शक्ति पार्टी	नं0 - 5, एच0 आई0 जी0-160, 100 फीट रोड, नेहरू एन्क्लेव, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282001
1501	लोकतांत्रिक जनता फ्रंट	ई0-13/307, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जवाहर पार्क, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092
1502	मा तेलंगाना पार्टी	8-2-540/4, रोड नं0 4, बंजारा हिल्स, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)।
1503	मानववादी जनता पार्टी	ग्राम- दोगी, पोस्ट- गोरौर, थाना - छबिलापुर, वाया - राजगीर, जिला- नालन्दा, बिहार- 803116
1504	मानीला कोंगु पेरावाई	नं0 41, नारायणगुरु रोड, साईबाबा कॉलोनी, कोयम्बटूर-641011, तमिलनाडु।
1505	मध्य प्रदेश जन विकास पार्टी	नया वार्ड क्र.- 72, मकान नं0 -4872, प्लॉट नं.- 123, फेस- 2, स्टार सिटी, कटंगी रोड, जबलपुर, मध्य प्रदेश ।
1506	मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना	2983, प्रिंस कालोनी, न्यूकंचनपुर, आधारतल, जबलपुर-482004, मध्य प्रदेश।
1507	महा लोकतंत्र पार्टी	शॉप नं.4, बसन्त गंगा मार्केट, मकान नं. 762/648, पुराना कटरा, इलाहाबाद-211002, उत्तर प्रदेश
1508	महाभारत महाजन सभा	प्लॉट नं0 10, विवेकानंद नगर, इनर रिंग रोड, कोलाथुर, चेन्नई-600099, (तमिलनाडु)।
1509	महागुजरात जनता पार्टी	ए-203, सत्यमेव-1, एस.जी. रोड, हाई कोर्ट के सामने, अहमदाबाद गुजरात।
1510	महाजन मंडली पार्टी	मं0 नं0 - 1-8-27/20, जी0एच0एम0सी0 - 1483, स्ट्रीट नं0-12, चिक्कडपल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500020
1511	महाजन राज्यम पार्टी	#7/347-2 पी0 - ए0 - 3. सिम्हापुरी कालोनी, चौथी रोड, आर0 टी0 सी0 बस स्टेण्ड के पास, कडपा - 516002, कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश।
1512	महाजना सोशलिस्ट पार्टी	द्वार नं0 1-14-297/1, बालामराई, रसूलपुरा, सिकन्द्राबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
1513	महाकौशल विकास पार्टी	"शान्ति कुटीर" 281, संजीवनी नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश)।
1514	महाक्रान्ति दल	ग्राम-83 अवहदपुर, पोस्ट- कोइलारी, तहसील व परगना- केराकत, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222148 ।
1515	महामुक्ति दल	ग्राम - उसरांव, डाक घर - इटार्ये, तहसील - मडियाहूँ, जिला - जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1516	महान भारतीय संगठन पार्टी	ग्राम व पोस्ट- जंगराल, थाना- वागडोद, तहसील- सरस्वती, जिला- पाटन, गुजरात।

1517	महान दल	ए-218 डी, धीरज नगर एक्सटेंशन, एतमादपुर, निकट फौजी ढाबा, सैक्टर-30, फरीदाबाद, हरियाणा।
1518	महान समतावादी पार्टी	म. न. 571, गली न. 10, आदर्श कॉलोनी बिहारीपुरा, निकट खिल्लूराम एकेडमी, विजयनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201009
1519	महानायक सरदार पटेल संघ	52/98, द्वितीय तल, चितरजन पार्क, नई दिल्ली- 110019.
1520	महानवादी पार्टी	ग्राम व पोस्ट - कुतुबपुर चनोरा, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1521	महाराणा क्रांति पार्टी	म. नं० - 698, वार्ड नं० - 14, बाबा रामदेव मन्दिर के सामने, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर, राजस्थान
1522	महाराष्ट्र बहुजन सन्मान पार्टी	केसकरवाडी, पो. भालवणी, ता. पंढरपूर, जि. सोलापूर महाराष्ट्र- 413310.
1523	महाराष्ट्र बहुजन वंचित अघाड़ी	10 बी, करंजे तर्फ, प्लॉट नं. 7, सातारा, महाराष्ट्र-415002
1524	महाराष्ट्र क्रान्ति सेना	वार्ड नं. 20, मकान नं. 920, प्लॉट नं. 58, महावीर हाउसिंग सोसाईटी, नियर गुजराती भवन, इचलकरंजी, तहसील- हातकणंगले, जिला- कोल्हपुर, महाराष्ट्र- 416115
1525	महाराष्ट्र परिवर्तन सेना (टी)	ग्राम - मांगवडगांव, तालुका - केज, जिला - बीड, महाराष्ट्र ।
1526	महाराष्ट्र स्वाभिमान पक्ष	सुखसागर रिएल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड, 101, सॉई पूजा, प्रथम तल, 16वां रोड, मिनी पंजाब होटल के पास, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400050
1527	महाराष्ट्र विकास आघाड़ी	गोविंदगज सदन, श्याम नगर, लातूर, महाराष्ट्र।
1528	महासंकल्प जनता पार्टी	शॉप नं. 22, सन साइन काम्प्लेक्स, रिफाइनरी रोड, पंचवटी गोरवा, बडोदरा, गुजरात- 390016
1529	महात्मा मक्कल मुनेत्र कझकम	पुराना नं. 56/11-एन, नया नं. 24, डॉ. अम्बेडकर नगर, रेलवे रोड, जिला- कांचीपुरम, तमिलनाडु- 631502
1530	महात्मा गांधी नेशनल लेबर पार्टी	3/366 जी, कुथुकल स्ट्रीट, पारामाकुडी, रामानाथपुरम जिला, तमिलनाडु- 623707.
1531	महात्मा मक्कल सेवै पेरियक्कम	कार्यालय नं० - 45, सुभा अघिला नगर, हवाई अड्डा - पी.ओ., तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु - 620007
1532	महिला & युवा शक्ति पार्टी	मकान नं. 45, न्यू आबादी, सेक्टर- 23, तहसील- सोनीपत, जिला- सोनीपत, हरियाणा -131001
1533	महिला अधिकार पार्टी	29-ए नहरपुर, सेक्टर-7, रोहिणी, दिल्ली-110085.
1534	महिला प्रधान पक्ष	1261, 16 मेन, 20 क्रास, ए ब्लॉक, सहकारा नगारा, बैंगलौर - 560092 कर्नाटक ।
1535	महिला सशक्तिकरण पार्टी	यू0जी0एफ0 - 63, उद्यान प्लाजा, उत्तरठिया, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226025
1536	महिला स्वाभिमान पार्टी	ग्राम - गुमटी नं० - 5, सरॉय करोरा, गोसाईगंज, जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 227125
1537	मै ही भारत	2 ए "रायल", हेस्टिंग्स पार्क रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

1538	मैदानी क्रान्ति दल	मुख्यालय – मस्जिद वाली गली, माजरा, देहरादून उत्तराखण्ड।
1539	मजदूर किसान अकाली दल	गाँव-75 जी बी, डाकघर-72 जी बी, वाया-रामसिंहपुर, तहसील-अनूपगढ़, जिला-गंगानगर, राजस्थान।
1540	मजदूर किसान यूनियन पार्टी	459/1, मो०सरवट (वसन्त विहार), पो०खास, जिला व शहर-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251001
1541	मजलिस बचाओ तहरीक	16-4-593/ए चेनेहलगुडा,हैदराबाद-500024, (आन्ध्र प्रदेश)।
1542	मजलिस मर्कज़-ए-सियासी पार्टी	10-5-391/54/182/ए, भूतल, कशां-ई-घौसिया अलीम, सैयद नगर, 95ए, विधायक कॉलोनी के सामने, रोड नं० -12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
1543	मजलूम समाज पार्टी	ग्राम – मौदुखुर्द,तहसील - मवाना,जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश,पिन कोड 250404
1544	मक्कल आलुम अरसियल	नं० 2,एन.एस.के. फर्स्ट स्ट्रीट,पेरम्बूर,नेलवायल नगर,चेन्नई,तमिलनाडु-600011
1545	मक्कल अरसियल काची	3/463,पालकार दुरैसामी वट्टम,जी.पी. पालिटेकनिक नियर, जी.पी.नगर,पालनांगकुप्पम गांव,इलागिरी पोस्ट,तीरुपथुर तालुक,वेल्लोर जिला,तमिलनाडु - 635601
1546	मक्कल काँग्रेस वजहापडियार	18, तेलुगु ब्राह्मण स्ट्रीट, वेलाचेरी, चेन्नई-600 042, तमिलनाडु।
1547	मक्कल देसिया जननायका काची	245/6, आर. के. मुट्ट रोड, माइलापोर, चेन्नई-600 004, तमिलनाडु।
1548	मक्कल देसिय काची	137, कक्कन कॉलोनी, नंगमबाक्कम, चेन्नई, तमिलनाडु – 600034
1549	मक्कल कूटामैपु काची	न. 348ए, केप रोड, एट्टूकडै बाजार, टी.एम.बी. बैंक के पास, एडालकुडी, कोट्टार पोस्ट, वैवीस्वरम गाँव, अगस्तीस्वरम तालुक, नागरकोईल, कन्याकुमारी जिला,तमिलनाडु-629002.
1550	मक्कल मरुमलार्ची मुनेत्र कडगम	नं० 13ए, प्रथम तल, थियागाराजन नगर, कोडुंगईयुर, चेन्नई – 600118 तमिलनाडु ।
1551	मक्कल मसोथा कांची	नं. 480, आर.के.वी. कॉम्पाउन्ड, थेथाकुडी, कथीरुप्पु पोस्ट, सिरकली तालुक, नागापट्टीनम- जिला, तमिलनाडु- 609109
1552	मक्कल मुनेत्र कांग्रेस	नं. 12,प्रथम क्रॉस स्ट्रीट,बालाजी नगर,पुदुचेरी- 605013.
1553	मक्कल मुन्नेटरा काचि	62/77,पेरूमल पुरम,कामाराज नगर,2 nd स्ट्रीट भवानी,जिला-इरोड,तमिल नाडु- 638301
1554	मक्कल मुन्नेत्रा पेरावाइ	डोर नंबर 61एपोंडी रोड,कोलियानुर गाँव,जिला – विलुपुरम,तमिलनाडु – 605103.
1555	मक्कल नाला काजगम	नं० 30,वार्ड-2,नेताजी नगर,तातनावलासड़,कोडुम्पली पोस्ट,तिरुपत्तूर,तालूक,जिला तिरुपत्तूर,तमिलनाडु- 635653.
1556	मक्कल नलवाजहवुक कांची	फ्लैट नं० – जी3, वेटरी फ्लैट्स, नं०-7 (पुराना नं० 3ए), कावेरी स्ट्रीट, गाँधी नगर, शालीग्रामम, चेन्नई, तमिलनाडु - 600093
1557	मक्कल नीधि मय्यम	#नया 04 # पुराना 172, एल्डमस रोड, अलवरपेट, चेन्नई, तमिलनाडु-

		600018
1558	मक्कल नीति काँची-इंडिया	नं0 112ए3, वड्डाक्कु थिरु (प्रवीन कॉम्प्लैक्स), ग्राउंड फ्लोर, त्रिची मेन रोड, थुराईमंगलम पोस्ट, तालुक व जिला - पेराम्बलुर, तमिलनाडु - 621220
1559	मक्कल राज्यम काचि	नम्बर 1/427, कादुर मेन रोड,पोस्ट- पुदुवेटाकुडी, तालुक -कुन्नम, जिला-पेरमबलुर तमिलनाडु- 621716.
1560	मक्कल शक्ति काची	न्यू नं0 41, पुराना नं0 15, बाजार लेन, द्वितीय तल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई-600 015, तमिलनाडु।
1561	मक्कल सनानायगा कडियार्सु काँची	नं. 3/123, गंगाई अम्मन कोइल स्ट्रीट, साउथ मलायमबक्कम गांव, कुनराथुर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600069
1562	मक्कल सेवई काची	नं. 10, बालाजी नगर, ऐर्नाउर, चेन्नई, तमिलनाडु- 6000057
1563	मक्कल तिलागम मुन्नेत्र कलगम	डी. नं. 6/431, पुन्नायपुरम, कडायानल्लूर तालुक, टेन्कासी, जिला-तिरुनेलवेली, तमिलनाडु- 627855.
1564	मक्कलाचची कचची	नं. 57, जगजीवनराम स्ट्रीट, पारुम्बू, अलवारकुरीची, अम्बासुमुतीरम तालुक, तिरुनेलवेली- जिला, तमिलनाडु-627412
1565	मक्कलाचची मुनेत्र कझगम	5/187, डॉ. जे.जे.स्ट्रीट, कास्पापुरम, अग्रमथेन, चेन्नई, तमिल नाडु - 600126
1566	मालवा कांग्रेस	133,स्नेह नगर,सपना-संगीता रोड,इंदौर,मध्य प्रदेश- 452001
1567	मना देशम पार्टी	ए-1, प्रथम तल, अनंता साई अपार्टमेन्ट, विवेकानन्द नगर कॉलोनी, कुकाटपली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 72
1568	माना पार्टी	5-4-719, कैटलमण्डी, नामपाल्ली, हैदराबाद-500 001, आन्ध्र प्रदेश।
1569	मन तेलंगाना राष्ट्र समायिका पार्टी	मिग ओग ब्लॉक प्रथम तल नंबर 6,बागलिंगमपल्ली,अपोलो फार्मसी के ऊपर,टीएसएसपीडीसीआई,कार्यालय और इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन, सुंदराया विज्ञान भवन और पार्क के पास,हैदराबाद,तेलंगाना-500044
1570	मानव अधिकार रक्षा पार्टी	36, दरियास्थान स्ट्रीट, ग्राउंड फ्लोर, ऑफिस नं0 - 3, काटावाला बिल्डिंग (गोपमणि चेम्बर), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400003
1571	मानव आवाज पार्टी	मोहल्ला - नलापुर, वार्ड नं0 - 6, नारनौल, जिला - महेन्द्रगढ़, हरियाणा-123001
1572	मानव एकता पार्टी	दादुसिंह कालोनी, प्लॉट नं0 53, सिरपुर, जिला-धुलिया (धुले), महाराष्ट्र।
1573	मानव हित पार्टी	भवन संख्या-575/1, सेक्टर-24, ट्यूवैल कालोनी, आगर रोड. एटा, उत्तर प्रदेश- 207001
1574	मानव जागृति मंच	552, बैंक कॉलोनी, देवली गांव, नई दिल्ली-110062.
1575	मानव कल्याण मंच	सा0 6/186, एम0 एक्स - 1, अकथा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
1576	मानव क्रान्ति पार्टी	न्यू सर्राफा बाजार, वार्ड नं. 11, नगर पंचायत खागा, जिला- फतेहपुर, उत्तर प्रदेश- 212655
1577	मानव मुक्ति मोर्चा	हमीदगंज वार्ड नं0-13, पत्थर मिल के सामने, डाक घर-मैदिनी नगर-822101, जिला-पालामू (झारखण्ड)
1578	मानव समाज पार्टी	9538, गोशाला बारादरी किशनगंज, दिल्ली-110006.

1579	मानव संघर्ष पार्टी	हाउस संख्या-54, ग्राम और पोस्ट-मनियां, ब्लॉक-भदौरा, जिला - गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233001
1580	मानव पार्टी	जी-23, यूरेका टावर्स, किट्टूर चेन्नम्मा सर्किल, हुबली-580029, (कर्नाटक)।
1581	मानवाधिकार जनशक्ति पार्टी	जे-6/7-बी-डी, पुलिस स्टेशन के समीप, जैतपुरा वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221001
1582	मानवतावादी क्रान्ति दल	मानव भवन, कुल्लीखेड़ा, अहमामऊ, पोस्ट - अर्जुनगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1583	मानवतावादी समाज पार्टी	638/307, ग्राम-जरहरा, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1584	मणिपुर डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	लैरिक येंगबाम लैकई (साऊथ), 33 के० वी० इलेक्ट्रिक सब-स्टेशन के सामने, के० एम० टावर के पास, तिरुपति लेन, पूर्व इम्फाल - 795010 मणिपुर।
1585	मणिपुर नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	कोइजम अपार्टमेन्ट, वीआईपी कॉलोनी, 107/109 बाबूपारा, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795001
1586	मणिपुर पीपुल्स पार्टी	पीपुल्स रोड इम्फाल- 795001, मणिपुर।
1587	मणिपुर पीपुल्स पार्टी (डेमोक्रेटिक)	क्वार्टर नं० 1, टाईप-4, बाबूपड़ा, इम्फाल-795001, (मणिपुर)।
1588	मनिथा उरिमईगल कलागम	14/41, गुड्स शैड स्ट्रीट, मदुरै - 625 001 तमिल नाडु ।
1589	मनीथनेया जनान्यागा काँची	124, कामराजार रोड, मौला कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, इलायंगुडी, जिला - शिवगंगई, तमिलनाडु - 630702
1590	मनीथानेया मककल काची	तीसरी मंजिल, सं० 6, वडा मराइकोयेर गली, चेन्नई-600001, तमिलनाडु।
1591	मनुवादी पार्टी	201, बिरहाना, पांडेगंज, सुभाषमार्ग, लखनऊ-226004, (उत्तर प्रदेश)।
1592	मानवाधिकार नेशनल पार्टी	12, द्वितीय तल, स्वागत काम्पलेक्स, रामबाग रोड, मणीनगर, अहमदाबाद, गुजरात - 382443
1593	मानवीय भारत पार्टी	ग्राम व पोस्ट- रामपुर नदी, तहसील- मड़ियाहु, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश - 222105
1594	मारालैंड डेमोक्रेटिक फ्रंट	सेहा-796901, छिमतुईपुई जिला, (मिजोरम)।
1595	मराठवाडा जनता पक्ष	मौजे पाखर सांगवी, गट नं० - 39, संत तुकाराम विद्यालय के पास, तालुक व जिला - लातूर, महाराष्ट्र - 413512
1596	मरूमलार्ची द्रविड मुन्नेत्र कड़गम	'त्यागम,' नं० 141, रूक्मणि लक्ष्मी पति सलाई, इगमोरे, चेन्नई-600008, (तमिलनाडु)।
1597	मरूमलार्ची जनता काची	62/5, पिल्लैयार कोविल स्ट्रीट, पप्पिरेड्डीपट्टी- पोस्ट व तहसील, धर्मापुरी जिला, तमिल नाडु- 636905
1598	मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (यूनाईटेड)	# 1-8-742/2/3, बाग लिंगमपल्ली, अचाय नगर, हैदराबाद-500044, तेलंगाना
1599	माक्सिस्ट कोअर्डिनेशन	टैम्पल रोड, पुराना बाज़ार, धनबाद, जिला-धनबाद, झारखंड-826001
1600	माक्सिस्ट लेनिनिस्ट पार्टी	इर नं.- 828, द्वितीय तल, एरोमा बिल्डिंग, पुडुक्कड- पोस्ट ऑफिस,

	ऑफ इंडिया (रेड फ्लैग)	थिश्शूर - जिला, केरल- 680301.
1601	मार्क्सवादी जनता पार्टी	33, कुन्दन पुरा, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश – 251002
1602	मर्यादी दल	ग्राम चोरकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान।
1603	मातृ भक्त पार्टी	रघुनाथ फार्म, ग्राम व पोस्ट-कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा।
1604	मातृ भूमि विकास पार्टी	मार्फत श्री काशीनाथ त्रिपाठी, अस्पताल रोड, मऊ चिबी, बांदा-210209, (उत्तर प्रदेश)।
1605	मजदूर दलित किसान महिला गरीब पार्टी (हिन्दुस्तानी)	गद्दी अशरफ खान, जसमई रोड, फरूखाबाद, उत्तर प्रदेश
1606	मजदूर एकता पार्टी	नं. बी-2/208, नन्द नगरी, शहादरा, दिल्ली- 110093
1607	मजदूर किरायेदार विकास पार्टी	प्लॉट नं. 116, म्युनिसिपल नं. 500/3ई/4, ब्लॉक नं. 30, गली नं. 6, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली- 110032
1608	मजदूर विकास दल	क्वाटर नं. प्लॉट-ई/124, फेज-I, छिन्द, राउरकेला, जिला- सुन्दरगढ़, ओडिसा-769015
1609	मीनवर मक्कल मुन्नानी	नं0 – 51, ओल्ड नं0 – 24, तम्बु लेन, रॉयपुरम, चेन्नई, तमिलनाडु – 600013
1610	मेघ देशम पार्टी	मेघवंश भवन, ई-70 बी, बजरंग विहार तृतीय, हरमाडा घाटी, जयपुर, राजस्थान ।
1611	मेघालय डेमोक्रेटिक पार्टी	मिशन कम्पाउंड, मावखार, शिलांग-793001 (मेघालय)।
1612	मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल	मकान सं. 531/62, भिण्डिया टोला, बड़ा चांदगंज, प्रताप सिंह मार्ग, थाना- अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226024
1613	मेरा गाँव मेरा देश पार्टी	मकान नं0 – 142, गाँव – इस्लामपुर, पोस्ट – साऊथ सिटी-II, गुडगाँव, हरियाणा – 122018
1614	मेरा वतन पार्टी	डी. न. 23-4-227/5, अशोक स्तंभ के पास, सुल्तान शाही, हैदराबाद, तेलंगाना - 500065.
1615	मेधा पार्टी	13 ई/10ए, राजीव नगर (सुतुरखाना), डाकखाना-तेलियरगंज, जनपद – इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
1616	एम.जी.आर. मक्कल काची	नं. 6,4 क्रॉस स्ट्रीट, पहली मुख्य सड़क, गोपालपुरम पूर्व, पट्टाभिराम, चेन्नई, तमिलनाडु- 600072.
1617	एम जी आर थॉडरकल काच्ची	नं. 18/33ए, वट्टाविलई, कप्पिवारी पोस्ट, कन्याकुमारी, जिला- 629156, तामिल नाडु।
1618	मिहिर सेना	नागर्स च्वाइस, एस-47, साउथ साइड, जी0टी0 रोड, जी.टी. रोड, लाल कुंआ, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1619	माइनोरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी	13, हाइड्रो रोड काम्प्लैक्स, मोमिनपुरा, नागपुर – 440018, महाराष्ट्र।
1620	माइनोरिटी पीपल्स पार्टी	पीपी न.-55,56, दाग न.22,23, ग्राम-ढिंगारति, मौजा-लहारिधाट, पोस्ट-लहारिधाट, थाना- लहारिधाट, जिला-मोरिगाव, असम- 782127

1621	मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा	सुपौल बाजार, कालेज रोड, वनदेवी नगर, बिरौल, दरभंगा, बिहार-847203
1622	मिथिलांचल विकास मोर्चा	महुआर, गौड़ा बौराम, पोस्ट - आसी, जिला - दरभंगा, बिहार - 847203
1623	मिथिलावादी पार्टी	ग्राम-पलिवार,पोस्ट-रांटी,थाना-राजनगर,वार्ड नंबर-08,हनुमान मंदिर के समीप,मधुबनी बिहार-847211
1624	मिजोरम काँग्रेस पार्टी	हैडक्वार्टर्स- आइजॉल, मिजोरम-796 001 ।
1625	मोडरेट पार्टी	ग्राम-खखडी (मगहरा चौराहा).पोस्ट-बालेपुर कलां, जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश ।
1626	मोमिन कान्फेंस	47/26, वारिस प्लाजा, हुसैन गंज, विधान सभा मार्ग, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश) ।
1627	मूल भारती (एस) पार्टी	मं0 नं0 25, खूनी मसित के पास, मोगा, मेहला सिंह मोगा-142001, जिला-फरीदकोट, (पंजाब) ।
1628	मूलजन शक्ति पार्टी	मकान नं.394,गली नं.18,विश्वकर्मा मंदिर के पास,करन विहार,करनाल,हरियाणा-132001
1629	मूलनिवासी समाज पार्टी	गाँव-मघईपुर, डाकखाना-महाराजगंज, जनपद-आजमगढ़-276137, उत्तर प्रदेश ।
1630	मोस्ट बैकवर्ड क्लासेज ऑफ इण्डिया	परसपुर-कुड़वार, सुल्तानपुर-228155, उत्तर प्रदेश ।
1631	मदर इंडिया पार्टी	खसरा नं0 - 143, कुर्रे के बाद बना नं0 - 143/3, ग्राम- जौन समाना, परगना व तहसील - दादरी, जिला - गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
1632	मदर लैंड नेशनल पार्टी	सर्वे नं. 20+21,डुप्लेक्स नं. 05,नोमान डुप्लेक्स,इकबाल एवेन्यु के पास,नियर कैनल,फतेहवादी,अहमदाबाद,गुजरात- 380055
1633	मौलिक अधिकार पार्टी	बिरौली-मोतीनगर, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश-224201.
1634	मूलनिवासी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व डाक- बसन्तपुर, जिला- मुर्शिदाबाद, एस.डी. व पी.एस. धुमकल, पश्चिम बंगाल- 742406.
1635	मूलनिवासी अधिकार पार्टी	एस.-96,यू.पी.एस.आई.डी.सी.,सेक्टर-5,जगदीशपुर,जिला-अमेठी उत्तर प्रदेश- 227817
1636	मुंदडुगु प्रजा पार्टी	डी.नं. 32-13-1/1, लावन्या अपार्टमेन्टस, फ्लैट नं. बी/3, मोंगलराजपूरम, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश- 520010
1637	मुसलसल ईमान समाज पार्टी	261, चक्की वाली गली, रेलवे रोड, बजरिया, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1638	मुस्लिम मजलिस उत्तर प्रदेश	सुल्तान मंजिल, तकिया पीर जलील, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
1639	माई इंडिया पार्टी	447/265, द्वितीय तल, पूनामल्ली हाई रोड, अंमजीकरै, चेन्नई, तमिलनाडु- 600029
1640	नाडालुम मक्कल कच्छी	7/330, भू तल, दुवारगा नगर, मनाली न्यू टाउन, चेन्नै, तमिलनाडु- 600103.

1641	नाम इन्दियर पार्टी	73एफ/1ए, पोलपेट्टई, थूथुकुडी, तमिलनाडु- 628002
1642	नाम तमिलार काँची	द्वार नं० 7, प्लाट नं० 8, हॉस्पिटल रोड, सैन्थिल नगर सिन्ना पोरुर, , चेन्नै- 600 116 तमिल नाडु ।
1643	नव भारत निर्माण सेवा पार्टी	प्लाट न.145/245/1141/1356,खाता न.50/4873,हाथी पथर लेन,त्रिनाथ मंदिर के पास,रानीगुडा फार्म,थाना,ज़िला-रायगडा,ओडिशा- 765001
1644	नागा नेशनल पार्टी	हेडक्वार्टर्स अजा डेली ऑफिस, चर्च रोड,देवलाहलैंड, इम्फाल, (मणिपुर) ।
1645	नागालैंड कांग्रेस	मकान नं० – 202, फैलोशिप कॉलोनी, आई एम सी हॉल के पास, दीमापुर, नागालैंड - 797112
1646	नागरिक अधिकार पार्टी	नंदलालपुर, पोस्ट – नंदलालपुर, वाया – मथुरापुर, जिला – भागलपुर, बिहार- 813222
1647	नागरिक अधिकार शक्ति सेवा पार्टी	ए-63, जनता जीवन कैम्प,तिगरी, खानपुर, दिल्ली-110062
1648	नागरिक चेतना पार्टी	सर्वोदय नगर, टीचर्स कॉलोनी पिलखुआ गाजियाबाद उत्तर प्रदेश ।
1649	नागरिक एकता पार्टी	3/305, विशाल खंड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश
1650	नागरिक सेवा पार्टी(आर)	4, तायल विहार कॉलोनी, गेट नं० - 2, ऐशबाग रोड, हैदरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226004
1651	नागरिक विकास पार्टी	728,एबीसी, एकता नगर,प्रोफेश्नल कोरियर के सामने,मोदी हुण्डाई शोरूम के पास,सातिवली, वसई रोड,वसई (पूर्व),
1652	नई क्रान्ति पार्टी	बाब मृत्युजयनाथ मंदिर, कुम्हारन टोला प्रथम, गोला गोकर्णनाथ, जिला- लखीमपुर- खीरी, उत्तर प्रदेश- 262802
1653	नैतिक पार्टी	314, सिटी सेन्टर निकट प्रेस क्लब, हजरतगंज लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
1654	नकी भारतीय एकता पार्टी	वार्ड नं०-1, मोहल्ला-हरिजन वाला, किठौर मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
1655	नलवजहिककडगम	कथिरवन इल्लम, 94/2, कलवै चेट्टी स्ट्रीट, चिन्तहपत, चेन्नई, तमिलनाडु- 600002
1656	नम इंडिया नाम इंडियार काँची	मकान सं० 9/8,फ्लैट सं० -3,स्वागता अपार्टमेंट,चेलप्पा स्ट्रीट,ओट्टेरी,चेन्नई तमिल नाडु- 600012
1657	नामाधु द्रविड इयक्कम	एस.सी.सी. एन्थनी पिल्लई इलम, न्यू नं० 41, ओल्ड नं० 18. 7 कॉस स्ट्रीट, शिनाय नगर पश्चिम, चेन्नई-600030 (तमिलनाडु) ।
1658	नमाधू मक्कल काँची	नं० 3, पिल्लायर कैल स्ट्रीट, कस्बा, वेल्लोर-632001, तामिलनाडु ।
1659	नमदु कोन्गु मुनेत्र कलगम	5एफ संजीत प्लाजा, तिरु वी.का. स्ट्रीट, तिरुपुर रोड काँगेयम, तिरुपुर जिला, तमिलनाडु- 638701.
1660	नम्मा कांग्रेस	नं० 98, वर्तूर मेन रोड, बैंगलोर पूर्व, बैंगलोर-560087 कर्नाटक।
1661	नारायणी सेना	निवास-ग्राम, पोस्ट-मालीपुर, जिला-अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश ।
1662	नशा मुक्त भारत पार्टी	तेजस्वी हाउस, विवेक विहार कॉलोनी, फरूखाबाद रोड, नई मंडी, इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001
1663	नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी	हाउस नं. 99, वार्ड नं. 39, गंगोत्री, गंगा विहार, आर.पी.एस. रोड, दानापुर, जिला- पटना, बिहार- 801503

1664	नैशनल अधिकार इंसाफ पार्टी	मकान नं. - 230, गली नं0 - 7, एस0 ए0 एस0 नगर, अबोहर रोड, श्री मुक्तसर साहिब, पंजाब
1665	नेशनल अमन पार्टी	मो0 - पंजाबिया, नगीना, जिला - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246762
1666	नेशनल अपनी पार्टी	डी-1, 242/9, मेन सर्कुलर रोड, सोनिया विहार, दिल्ली - 110094
1667	नेशनल आवामी यूनाईटेड पार्टी	मकान नं.- 62, प्रियदर्शनी लेन, पाटा बोहड़ी, जम्मू एवं कश्मीर- 180002
1668	नेशनल बैकवर्ड (मूल), दलित, माइनॉरिटीज़ क्रांति दल	15 ई-17, जय नारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर, राजस्थान - 334003
1669	नेशनल भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी	576/2, पंजाबिया-5, खुर्जा, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश- 203131
1670	नेशनल ब्लैक पैन्थर पार्टी	दुकान क्र.1, हिल पार्क, तिरुपति अपार्ट., कोकणीपाडा, कुरार गांव, मुम्बई, महाराष्ट्र - 400097
1671	नेशनल कन्फेड्रसी ऑफ इंडिया	63, साउथर्न एवेन्यू, फ्लैट नं0 - 9, कोलकाता, पश्चिम बंगाल - 700029
1672	नेशनल दलित दल पार्टी	7/398-8, बालिजापल्ली (एचसी), रेवेन्यू वार्ड नं. 7, मनौर (एसओ), राजामपेट मण्डल, कडापा - जिला, आन्ध्र प्रदेश- 516126
1673	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट	जंग बहादुर यादव का मकान, गांव - मौलानीपुर बाजार, पोस्ट - तरवाँ, तहसील - लालगंज, जिला - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश ।
1674	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी	सेन्ट्रल ऑफिस-चंगानाचेरी-2 कोट्टायम जिला, (केरल) ।
1675	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (भारतीय)	83, मुहल्ला- उस्ताद, जम्मू, जम्मूलोचन कम्यूनिटी हॉल के निकट, जम्मू एण्ड कश्मीर- 180001
1676	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी (सेक्युलर)	टीसी 28/1628, पुल्लामाडॉम कम्पाउन्ड, श्रीकण्ठेश्वरम, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 695023
1677	नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ साउथ इंडिया	21/7, नवीन फ्लैट्स, मीनाक्षी स्ट्रीट, पेराम्बुर, चेन्नई तमिलनाडु- 600011
1678	नेशनल डेमोक्रेटिक पीपुल्स फ्रंट	सी-4डी, 42बी, जनकपुरी, नई दिल्ली ।
1679	नेशनल डेवलपमेन्ट पार्टी	हाऊस नं0-ए-8-2, मुल्तानी कॉलोनी, बीदर-585 401, कर्नाटक ।
1680	नैशनल फैडरल पार्टी	म. नं0 80/3ए, ग्राउंड फ्लोर, बसंत गाँव, वसंत विहार, नई दिल्ली - 110057
1681	नेशनल फिफ्टी फिफ्टी फ्रंट	मकान संख्या- 77, गार्डन सिटी कॉलोनी, पोस्ट- शहामात गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243005
1682	नेशनल फ्यूचर पार्टी	देवरिया हाउस, जी.पी.ओ.के पीछे पुरानी मण्डी, अजमेर, राजस्थान।
1683	नेशनल इंकलाब पार्टी	E/576, गली नंबर-12, (मजार के पास), 33 फूटा रोड, नेहरू विहार, मुस्तफाबाद, दिल्ली- 110094.
1684	नेशनल जागरण पार्टी	मकान संख्या-14, मौंटेशरी स्कूल लेन, निकट वाले मारुति ऑटो मोबाईल्स, बोरिंग रोड, पटना, बिहार-800001.
1685	नेशनल जनहित कांग्रेस (ए	043ए/ 5 प्यारे लाल बिल्डिंग, सरकारी कालेज के पास, महरौली रोड,

	बी)	गुडगांव, हरियाणा ।
1686	नेशनल जनक्रान्ति दल	के-316, बस टर्मिनल के पास, कुतुब मीनार के सामने, एम.बी रोड, लाडो सरास, नई दिल्ली-110030
1687	नेशनल जनसत्ता पार्टी	तेजाजी चैच्या वाली ढाणी मु० पो० -खोरी, तहसील-शाहपुरा, जिला-जयपुर-303103 राजस्थान ।
1688	नेशनल जनता पार्टी (इंडियन)	प्लॉट नं० -385, खाता नं० - 105, ग्राम - मोहम्मदपुर हरी, पोस्ट व थाना - भगवानपुर, जिला - वैशाली, बिहार - 844114
1689	नेशनल लेबर पार्टी	डी-22, ऑफिस नं० 11, डी-ब्लॉक, पांडव नगर, दिल्ली-110092 ।
1690	नेशनल लोकहिन्द पार्टी	सी-1375, राजाजीपुरम, लखनऊ-226 017, उत्तर प्रदेश।
1691	नेशनल लोकमत पार्टी	ग्राम - जिसौरी, डाकखाना - मुंडाली, जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश।
1692	नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	46, गुलिस्ता कॉलोनी, लखनऊ-226001, (उत्तर प्रदेश)।
1693	नेशनल नव क्रान्ति पार्टी	डी. नं० - 1-236, गाँव - गंगावरम, मंडल - गुरजाल, जिला - गुंदूर, आन्ध्र प्रदेश- 522415 ।
1694	नेशनल ऑरगनाइजेशन काँग्रेस	नं० 1, जीवनानन्दम, सलिया, के. के. नगर, चेन्नई-6000 78, (तमिलनाडु) ।
1695	नेशनल पार्टी	रूदेन बदायू-202524, (उत्तर प्रदेश) ।
1696	नेशनल पीस पार्टी सेक्यूलर	रसूलपुर ब्युर, पोस्ट अवधन, तहसील चायल, जनपद-कौशाम्बी, -उत्तर प्रदेश -212218
1697	नेशनल पीपुल्स काँग्रेस	मकान नं. 3-6-200, फ्लैट नं. 105, अरूणोदया अपार्टमेंट, स्ट्रीट नं. 15, हिमायतनगर, हैदराबाद- 500029 आन्ध्र प्रदेश
1698	नेशनल प्रोग्रेसिव पार्टी	हाउस नं.1080, ब्लॉक-पी/1, सुलतान पुरी कलोनी, नई दिल्ली-110041
1699	नेशनल रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया	एन-51/1, फ्लैट नं. 2, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, राजपुर खुर्द, हरगोविन्द एन्कलेव, तहसील- हौज खास मेहरौली, नई दिल्ली- 110068
1700	नेशनल रिपब्लिकन कांग्रेस	होलिडिंग नं. 223, हाउस नं. 6, वार्ड नं. 26, प्रगति पथ पर स्थित, राजधानी मस्जिद के पास, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006.
1701	नेशनल समाजवादी कांग्रेस	नं.42,नायडू लेआउट,कुवेम्पु नगर,बैंगलोर,कर्नाटक-560014
1702	नेशनल सर्वसमाज पार्टी	मकान संख्या-66, खसरा सं०1995, इकबाल कालोनी, निकट सना मस्जिद, ग्राम पसौन्डा, परगना लोनी, तहसील व जिला गजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201001
1703	नेशनल सेक्यूलर कान्फ्रेंस	एम०आई०एस०एफ०ए, कोडुवली (पी० ओ०), कोझिकोड डी टी., केरल-673572.
1704	नेशनल सेक्युलर पार्टी	सी-20/बी, फर्स्ट फ्लोर, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110016
1705	नेशनल सोशलिस्ट पार्टी (युनाइटेड)	फ्लैट नं. 6, प्रथम तल, साई कृपा हाउसिंग सोसाइटी, 45/6, हॉस्पिटल कॉलोनी, तालेगांव, डभाडे, तालुका- मावल, जिला- पुणे, महाराष्ट्र-410507
1706	नेशनल स्टुडेन्ट्स पार्टी	16/2 कर्णनीशवरार पागोडा स्ट्रीट, मायलापोर, चेन्नई-600004, (तमिलनाडु) ।
1707	नेशनल टार्गेट पार्टी	नं. 158/ए, तेहखण्ड ओखला फेज-1, नई दिल्ली-110020.

1708	नेशनल टाइगर पार्टी	सेन्ट्रल हेड आफिस-सरोजनगर, पोस्ट आफिस-कालगीगंज, वाया/थाना-कहैलगांव, जिला-भागलपुर, बिहार- 812303.
1709	नैशनल युनियनिस्ट जमींदारा पार्टी	129, नई धान मण्डी, श्रीगंगानगर, राजस्थान-335001
1710	नेशनल विकास पार्टी (इण्डिया)	बी-40/ए-11, गणपति पेराडाइज सेन्ट्रल स्पाइन, विद्या धर नगर जयपुर-302023, राजस्थान ।
1711	नेशनल वेलफेयर पार्टी	16, नेहेरूजी नगर, करुप्पारायन, कोयल स्ट्रीट, समुन्दीपुरम साउथ, त्रीपुर – 641603, तामिलनाडु
1712	नेशनल वोमेन्स पार्टी	एच.नं.2-247, श्री साई नगर, (वेंकटेश्वर स्वामी टेम्पल के पास), जीलेगूडा सरूर नगर, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश – 500097
1713	नेशनल वर्ल्ड लाईफ पंचतत्व पार्टी	पाटीदार कॉलानी, भीलखेडी रोड, शुजालपुर मंडी, जिला शाजापुर, मध्य प्रदेश ।
1714	नेशनल यूथ पार्टी	फ्लैट नं० ए-202, यूरो अपार्टमेन्ट, सैक्टर-5, राजेन्द्र नगर, गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) ।
1715	नेशनलिस्ट चेरिटी काँग्रेस	बिशोप हाँउस, गाब्रियल कम्पाउन्ड, पानाविलाइ थक्काले-629175, जिला-कन्याकुमारी, तामिलनाडु ।
1716	नेशनलिस्ट जनशक्ति पार्टी	अभिनव निवास, रापतपुर, बेलघाट, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश-273404 ।
1717	नेशनलिस्ट जस्टिस पार्टी	नं. 1525/1, गली नं. 33, प्रीत नगर, न्यू शिमला पुरी, लुधियाना, पंजाब- 141003
1718	नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रन्ट	एस-8, दिव्या मॉल, टॉक राड, लाल कोठी, जयपुर (राजस्थान) ।
1719	नेशनलिस्ट पावर पार्टी	एल. -1st 1100/2, गली नं० 25, संगाम विहार, नई दिल्ली- 110062.
1720	नेशनलिस्ट तृणमूल कांग्रेस पार्टी	ए9/124, कल्याणी थाना तथा पोस्ट ऑफिस-कल्याणी, जिला-नाडिया, पश्चिम बंगाल-741235.
1721	नेशनलिस्टिक तेलंगाना राष्ट्र समिति	23-6-431/1, गोवलिपुरा, हैदराबाद-500 265, आन्ध्रा प्रदेश ।
1722	नेचर मेनकाइंड फ्रेंडली ग्लोबल पार्टी	वार्ड नं. 1, कथुआ (जम्मू और कश्मीर) ।
1723	नव भारत डेमोक्रेटिक पार्टी	चिरावाल एवं एसोसिएट, एफ 6/35, यूनाईटेड अपार्टमेन्ट्स, ईस्ट स्ट्रीट, पुणे- 411001 महाराष्ट्र ।
1724	नव भारत जागरण पार्टी	गोलेच्छा बिल्डिंग, रेलवे स्टेशन के सामने, फलौदी, जिला- जोधपुर, राजस्थान- 342301
1725	नव भारत राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी	बी- 100, न्यू अशोक नगर, नई दिल्ली- 110096
1726	नव चेतना पार्टी	मोहल्ला – जगतनगर, कस्बा व पोस्ट – भोगाँव, जिला – मेनपुरी, उत्तर प्रदेश – 205262 ।
1727	नव जनक्रान्ति पार्टी	बी – 11/42, अहाता रोहिला, गौरीगंज, वाराणसी, उत्तर प्रदेश – 221001
1728	नव युवक दल	ग्राम- टिकरा, पोस्ट-घुंघटेर, -तहसील - फतेहपुर, जिला- बाराबंकी, उत्तर

		प्रदेश - 225302 ।
1729	नव भारत नेशनल पार्टी	सर्वे सं०627, भैरव गुट्टा, ग्राम-रवाल्कोले, मंडल-मेदचल, जिला-रंगा रेड्डी. आन्ध्र प्रदेश ।
1730	नव निर्माण नागरिक समिति	6/7/8, शंकरमठ रोड, बासनगुडी, बंगलौर-560004, (कर्नाटक) ।
1731	नव प्रजा राज्यम पार्टी	पुराना म० नं० 10-30 नया म० नं० 11-54, हरिजन-वाडा (पी व एम) यूतूनूर, जिला - आदिलाबाद, आन्ध्र प्रदेश - 504311
1732	नवा समाज पार्टी	मकान नं. 5-7, बुद्धाराम ग्राम, गोपालपेटा मण्डल, वनापर्थी जिला, तेलंगाना स्टेट।
1733	नव तेलंगाना पार्टी	म० नं० 8-2-598/बी, रोड नं० 8, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500034
1734	नवम दिशा दल	4/684, विभव खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010
1735	नवरंग कांग्रेस पार्टी	डी.सं. 866/1, पेडवड्लापुडी गाँव, मंगलगिरी मंडल, गुण्टूर जिला, आन्ध्र प्रदेश- 522302
1736	नवतारम पार्टी	डोर नं० 26-37, सुब्बायथोटा, चिलकलुरीपेट, जिला - गुंटूर, आंध्र प्रदेश - 522616
1737	नवबहुजन समाजपरिवर्तन पार्टी	185, सह्याद्रीनगर, जी - वार्ड, लोनावला, तहसील - मावल, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 410401
1738	नवभारत एकता दल	धीमान भवन, नगरोटा सूरियां, तहसील- ज्वाली, जिला- कांगडा, हिमाचल प्रदेश-176027
1739	नवभारत निर्माण पार्टी	30, डी. एस.आई.डी.सी. कॉम्प्लेक्स, माता सुन्दरी रोड, नई दिल्ली-110 002.
1740	नवीन समाजवादी दल	133/4सी/1सी, तेलियरगंज, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1741	नवीन भारत निर्माण मंच	पीपलवाडी खाड़की, गाँव व डाकघर-कसोर जिला-आनंद, गुजरात ।
1742	नवजवान संघर्ष मोर्चा	डी/711, टाउनशिप, भवनाथपुर, गढ़वा, झारखण्ड-822112
1743	नवलोक समाज पार्टी	24बी, रेणुका बाग, नयी अवधेशपुरी कर्मयोगी, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282010.
1744	नवनिर्माण पार्टी	प्लॉट नं. 1588-पी, सेक्टर- 5, अर्बन एस्टेट, तहसील- थानेसर, केडीबी रोड, जिला- कुरुक्षेत्र, हरियाणा- 136118
1745	नवोदयम पार्टी	डी० नं० 4-96/2, राम मन्दिर के पास, नल्लाकावरी स्ट्रीट, इटुकुरु गाँव, गुन्टूर रूरल मण्डल, जिला-गुन्टूर आन्ध्र प्रदेश ।
1746	नवसर्जन भारत पार्टी	मकान सं.- 492, फलफलिया, कृष्णा पेट्रोल पंप के सामने, वाघधरा रोड, दादरा, दादरा एवं नागर हवेली- 396193
1747	नवयुग पार्टी	1-ग्राउंड फ्लोर, बेगमपुर, मालवीय नगर नई दिल्ली-110017
1748	नवा पंजाब पार्टी	52-ई, हीरा नगर, पटियाला, पंजाब- 147001
1749	नया भारत पार्टी	8- बापु सब्जी मण्डी, नगर पालिका रोड, सुमेरपुर, राजस्थान - 306902
1750	नया दौर पार्टी	ए-406 डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली-110024
1751	नया सवेरा पार्टी	प्लॉच नं.0 जे-2-530/8, जे-2 ब्लॉक, गुप्ता कॉलोनी, संगम विहार, नई दिल्ली- 110062.

1752	नेहरु जनहित काँग्रेस	सैनीपुरा मोहल्ला, बाद शाहपुर, तहसील व जिला-गुडगाँव, हरियाणा ।
1753	नेलोपा (युनाइटेड)	बी. डी. ओ. बिल्डिंग, दुर्गा देवी मार्ग, शीश महाल, हुसैनाबाद चौक, लखनऊ (उत्तर प्रदेश) ।
1754	नेताजी आदर्श पार्टी	298,कुट्टीयानी,28- थोडुपुझा, इडुकी जिला, केरल- 685584
1755	नेताजी काँग्रेस सेना	रंगा प्लेस,ग्राउंड फ्लोर,एस.न.48/2/10,वाघजल नगर,अम्बेगाँव खुर्द,कटराज-पो.ओ.,पुणे-411046,महाराष्ट्र
1756	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राष्ट्रीय आजाद पार्टी	मो० गायत्री नगर, कस्बा व पोस्ट-बांदा, जिला-शाहजंहापुर, पिन कोड-242402, उत्तर प्रदेश ।
1757	नेताजी सुभाष पार्टी	शाजनवा, जिला-गोरखपुर, (उत्तर प्रदेश) ।
1758	न्यू ऑल इन्डिया कांग्रेस पार्टी	ए-138, मेन विकास मार्ग, शकरपुर, दिल्ली- 110092 ।
1759	न्यू भारतीय क्रान्ति पार्टी	ग्राम- सुंगुलपुर,पोस्ट व थाना- खेतासराय,तहसील-शाहगंज,जिला-जौनपुर,उत्तर प्रदेश- 222139.
1760	न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया	द्वितीय तल, 9 ए/ 83, डब्ल्यू. ई. ए . करोलबाग, नई दिल्ली-110005 ।
1761	न्यू जनरेशन पीपल्स पार्टी	नं. 30-सी1, अंबु नगर, ईडरपलायम, पोस्ट, कोयम्बदूर, तमिलनाडु- 641025
1762	न्यू इण्डिया पार्टी	म० नं० 20-3-314, विधानगर गोदावरीखानी-505209, जिला-करीमनगर, (आन्ध्र प्रदेश) ।
1763	न्यू इंडिया यूनाईटेड पार्टी	नं. 4, द्वितीय तल, द्वितीय क्रास, डी.आर.बेन्द्रे लेआउट, गुल्बी क्रॉस, 350/1/4, कोठानूर, बेंगलोर, कर्नाटक- 560077
1764	न्यू लेबर पार्टी	रूम न०. 8/249, पेरुम्बिल्लिशेरी,पी.ओ - चेर्पु, जिला - तृस्सूर, केरल- 680561.
1765	न्यू लाइफ पीपुल्स पार्टी	नं० 15 /16, जूडी फ्लैट्स, नं० 13 रोसरी चर्च रोड, संथोम, चेन्नई- 600004 तमिलनाडु ।
1766	न्यू मदर लैंड पार्टी	एफ-111, साउथ सिटी, रायबरेली रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226025
1767	न्यू राष्ट्रीय समाज पार्टी	मकान नं. 167/2/5/एफ/4, पहली मंजिल, ब्रम्हानन्द नगर, ताडाली रोड, कामतघर, भिवंडी, जिला- ठाणे, महाराष्ट्र - 421305
1768	न्यु सोशलिस्ट मूवमेंट	104, महाराणा प्रताप कॉम्प्लैक्स, अपोजिट एल्लीसब्रिज पो० ओ०-एल्लीसब्रिज, अहमदाबाद-380 006, गुजरात ।
1769	न्यूज काँग्रेस	बाई महल, दूसरी मंजिल, वादिया गली, तारदेव,मुम्बई-400 034, महाराष्ट्र ।
1770	निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल	मकान नं. 105टी, मोहल्ला- जंगल सालिकराम, बाइपास रोड, संग्राम चौक, पादरी बाजार,गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273014
1771	निर्भय भारतीय पार्टी	27, सहजानन्द बंगलो, मोटेरा, अहमदाबाद, गुजरात- 380058
1772	निर्धन समाज पार्टी आफ इण्डिया	11 ए राजीव विहार (बन्दीबाबा मन्दिर के पास), मछरिया, नौबस्ता, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश - 208011 ।
1773	निर्जातिता समाज बिप्लबी	गाँव-दुर्गापुर पो०-हरीताला (बगुला), पी०एस०-हंसखली जिला-नदिया-

	पार्टी	741502 पश्चिम बंगाल ।
1774	निर्मल इण्डिया पार्टी	साO 6 /8 एच -15, सत्संग नगर, बेनीपुर, पहाड़िया, वाराणसी - 221007 उत्तर प्रदेश
1775	निस्वार्थ सेवा राष्ट्र सेवा पार्टी	मकान नं. 56, इन्दलपुर, नैनी, पोस्ट- डन्डी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211008
1776	निस्वार्थ सेवा पार्टी	वेद आर्युवेदिक स्टोर, बस स्टैंड के पास, महेन्द्रगढ़, हरियाणा ।
1777	निज गोयन्कर रिवुलेशन फ्रंट	मकान नं. 9/222, पेट्रोंग, बायना वास्को-डा-गामा, गोवा ।
1778	नूरी पार्टी	102, कदोदरा-बरदोली रोड, सूरत, गुजरात ।
1779	नार्थ बंगाल पीपल्स पार्टी	ग्राम-रबिन्दापल्ली,पोस्ट-मोहनबती,थाना-रायगंज,जिला-उत्तर दिनाजपुर,पश्चिम बंगाल- 733134
1780	नार्थ ईस्ट इंडिया डेवलपमेंट पार्टी	सागोलबंड टेरालाउक्राकपाम लेइकाई, इम्फाल पश्चिम, मणिपुर- 795001
1781	नार्थ ईस्ट सोशियल डेमोक्रेटिक पार्टी	मावली मावदतबाकी, डांग नाँगपाथा, शिलॉंग- 793008 जिला ईस्ट खासी हिल्स मेघालय ।
1782	न्याय पार्टी	नं.319,स्वामीपाड़ा,बुढाना गेट,मेरठ सिटी,उत्तर प्रदेश-250002
1783	न्यायधर्मसभा	प्रगति विहार,जगजीतपुर,कनखल,हरिद्वार,उत्तराखण्ड- 249408
1784	ओडिशा जन मोर्चा	प्लाट संO -17, ग्राम नखोर, डाकघर गोपीनाथपुर, जिला-खुर्द, भुवनेश्वर- 751002, ओडिशा
1785	ओडिशा कल्याण पार्टी	प्लॉट नं.44 (प्रथम मंजिल),सत्यनगर,पो.ऑ.-सत्यनगर,थाना-खारवेल नगर,नगर-भुवनेश्वर,जिला-खुर्दा,ओडिशा-7510007
1786	ओडिशा प्रगति दल	खतियान नं.- 99/180, प्लॉट नं.- 420/1360, ब्रुनदामल, पोस्ट ऑफिस- बढमाल, थाना- कटरबाग तहसील- झारसूगुडा, जिला- झारसूगुडा, ओडिशा- 768202.
1787	ओजस्वी पार्टी	फ्लैट संख्या-38, प्लॉट संख्या-36, अंजता अपार्टमेंट, पटपड़गंज, दिल्ली-110092 ।
1788	वन इंडिया पार्टी	डी-46 ए, कृष्ण विहार, दिल्ली- 110086
1789	ऑपेन पीपल्स पार्टी	पवार हाउस, साईबाबा मंदिर के पास,मंगल रघो नगर, टिसगाँव रोड,कल्याण (ई),जिला-ठाणे,महाराष्ट्र-421306
1790	उड़ीसा कम्यूनिस्ट पार्टी	एम. एल. ए. कॉलोनी, यूनिट-4 भुवनेश्वर, (उड़ीसा) ।
1791	उड़ीसा गण परिषद्	ए/52, खरवेला नगर, यूनिट-III, भुवनेश्वर-751001.
1792	उड़ीसा मुक्ति मोर्चा	15, भौमा नगर, यूनिट- IV भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
1793	उड़ीसा सोशलिस्ट पार्टी	म्यूनिसिपल कम्पाउण्ड, चौधरी बाजार, कटक-753009 (उड़ीसा) ।
1794	आवर महात्मा नेशनल पार्टी	नं. 62(द्वितीय तल),पिलैईयर कोईल स्ट्रीट,कामराज स्ट्रीट,गांधीनगर,के.के. नगर पोस्ट,तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु - 620021
1795	पचाई तमिझागम कोंची	12/143, इंदियाकरई, हरिजन कॉलोनी, विजयापति, राधापुरम(तालुक), तिरुनेलवेली (जिला), तमिलनाडु- 627104
1796	पच्चासी परिवर्तन समाज	मकान सं. 98, कल्याणी विहार, प्रशान्त पब्लिक स्कूल के निकट,

	पार्टी	कमता, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028
1797	पहचान मंगलकारी पार्टी	एल-11 56, मदनगीर, दिल्ली-110 062 ।
1798	पहाड़ी पार्टी	ग्राम-तल्ली बागी,पट्टी-सारजूला,पोस्ट-भागीरथपुरम,विकास खण्ड-चम्बा,जिला-टिहरी गढ़वाल,उत्तराखण्ड-249145
1799	पंच पार्टी	कैलाश चन्द्र मीना खोदकी धानी गांव, ग्राम व पोस्ट- रैसना, तहसील-नदोती, जिला- करूली, राजस्थान- 322215
1800	पंचपौनिया समाज पार्टी	गांव और पोस्ट -आँटामुजीब नगर,वाई नंबर 8,पी0एस0 - हाथीदा,जिला-पटना,बिहार-803303
1801	पंथर्स रिपब्लिकन पार्टी	'आनंदवन', महात्मा फुले नगर, पीर बाजार, उस्मानपुरा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र-431005
1802	पारडाइज पार्टी	कबिता अपार्टमेंट,श्रीनिकेतन रोड,पोस्ट-बोलपुर,जिला-बीरभूम,पश्चिम बंगाल- 731204
1803	परम दिग्विजय दल	मकान न0 - 7/297/7, विकास नगर, सेक्टर-7, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1804	पर्वतीय प्रजातांत्रिक पार्टी	39/ए, लेबोंग कार्ट रोड, नियर माहेश्वरी पेट्रोल पम्प, दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734301.
1805	परचम पार्टी ऑफ इण्डिया	1-रहमत बानो मार्केट, मेडिकल कॉलेज रोड, सिविल लाइन्स, अलीगढ़ - 202002, उत्तर प्रदेश ।
1806	परिवर्तन पार्टी ऑफ इंडिया	मोनु रावत, पोहरी बाईपास, इंटरसिटी बस वालों के पीछे वाली गली, राजपुरा, सर्कुलर रोड सर्किट हाउसिंग तिराहा, तहसील व जिला-शिवपुरी, मध्य प्रदेश- 473551
1807	परिवर्तन समाज पार्टी	गंडे वाली सड़क, लश्कर, ग्वालियर-474001, (मध्य प्रदेश) ।
1808	पार्टी फार डेमोक्रेटिक सोशलिज्म	183, जोधपुर पार्क, कोलकाता-700068, (पश्चिम बंगाल)।
1809	पार्टी किसान मजदूर व्यापारी	रेलवे रोड, हाथरस जंक्शन, महात्मा प्राकृतिक चिकित्सालय, नंगला हीरा, हाथरस जंक्शन, महामाया नगर, हाथरस, उत्तर प्रदेश ।
1810	पार्टी ऑफ युनाइटेड इंडियन्स	बंगला नं. 1, अक्षय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, नियर एच.पी.गैस गोदान, बदलापुर (ईस्ट), तालुका- अम्बरनाथ, ठाणे, महाराष्ट्र- 421503
1811	पश्चिम बंगा राज्य मुस्लिम लीग	129, कोल्लिन स्ट्रीट कोलकाता-700016, (पश्चिम बंगाल)
1812	पश्चिमांचल विकास पार्टी	क्वार्टर नं0 10 ई, सेंट जोसफ स्कूल के सामने, साखीपारा, जिला-सम्बलपुर, उड़ीसा-768001
1813	पश्चिमी प्रजातंत्र मोर्चा	386, शाहनत्थन, मेरठ, उत्तर प्रदेश
1814	पश्चिमी उत्तर प्रदेश स्वराज पार्टी	सरधना रोड, कंकड खारा, मेरठ (उत्तर प्रदेश) ।
1815	पश्चिमी उत्तर प्रदेश विकास पार्टी	म0 सं0 - 1, कसाना निवास, ग्राम - मोरना, सेक्टर - 35, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश - 201308
1816	पाशुमपोन मक्कल कड़गम	नं0 - 102, एल. बी. रोड, अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु- 600020.
1817	पैट्रियाट	28-अप्पावु स्ट्रीट, कुड्डालोर पोर्ट, पिन-607003, तमिलनाडु ।

1818	पैट्रियाटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	4/28 विशाल खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010, उत्तर प्रदेश।
1819	पीस एण्ड फ्रिडम पार्टी	सीटीएस नंबर 5214, फ्लॉट नंबर 180, नगर परिषद कॉलोनी, कोथलज रोड, परिवल मॉलजवळ, महाराष्ट्र- 431124
1820	पीस पार्टी	जोहरा काम्पलैक्स, बड़हलगंज, पो० बड़हलगंज, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
1821	पीजेन्ट्स एण्ड वर्क्स पार्टी ऑफ इण्डिया	हरि खारुडे निवास, महात्मा फुले रोड, नयगांव दादर, मुम्बई (महाराष्ट्र)।
1822	पैदल पार्टी	डी नं० 18-131 (ए), ग्राम - काटुरि वारी पालेम, पोदिलि मंडल, जिला - प्रकाशम, आन्ध्र प्रदेश - 523240
1823	पेडारीकम निरुमुलना पार्टी	डी. नं० 66-1-3/ए. एस. अचूथापुरम, काकीनाडा-533004, ईस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश ।
1824	पहचान पीपलस पार्टी	हनीफ मंजिल, चंदन चौक, रानी खेड़ा दरवाजा, निम्बाहेड़ा जिला-चित्तौड़गढ़ राजस्थान- 312601
1825	पीपुल लिबरेशन पार्टी	4/611, पुघजेंधी रोड, चौथा ब्लॉक, मोगप्पैर ईस्ट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037
1826	पीपुल्स एक्शन पार्टी	363, नैनागढ़, प्रेम नगर, झांसी, उत्तर प्रदेश-284003।
1827	पीपल्स जस्टिस पार्टी	मकान संख्या 120/209, (120/096बी), वार्ड - हजरतगंज, रामतीरथ, बेलदारिलेन, लोकभवन के पीछे, लालबाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226001.
1828	पीपल्स लिबरल पार्टी	104/01, ग्राम गंगाणा, ग्राम पंचायत बोरानाडा, तहसील - लूणी, जिला - जोधपुर, राजस्थान - 342012
1829	पीपुल्स पार्टी	ए-23, सुभाष नगर, रूडकी, जिला- हरिद्वार, उत्तराखण्ड
1830	पीपल्स पार्टी फॉर लिबर्टी	ए.पी 12/129, एम.एम.भवन, मदाधिलचीरा, अनद -पी.ऑ, नेदुमंगाडु, तिरुवन्नतपुरम, केरल- 690521
1831	पीपल्स पार्टी ऑफ इण्डिया (सेक्यूलर)	डुप्लेक्स-38, सलेश्री विहार, चन्द्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751021, उड़ीसा ।
1832	पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब	7112, वार्ड नं० 2, मलोट रोड, गीदरबाहा (मुक्तसर), पंजाब-152101.
1833	पीपल्स युनियन पार्टी	धर्मावत हाउस, हाउस नं० 1015, शुक्रावर पेठ, तिलक रोड, सवरगेट, पुणे-411002, महाराष्ट्र
1834	पीपुल्स डेमोक्रेटिक कांग्रेस ऑफ इण्डिया	बॉकरा, पोस्ट ऑफिस-बिराती, कोलकाता-700 051, पश्चिम बंगाल ।
1835	पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम	सी-177, सेक्टर-'जे', अलीगंज, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
1836	पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी	मास बिल्डिंग, अरनाकुलम उत्तर, पो० कोचीन-18, (केरल) ।
1837	पीपुल्स ग्रीन पार्टी	19सी/1, जीवन ज्योति अपार्टमेंट्स, वार्ड नं० 1, महरौली, नई दिल्ली- 110030 ।
1838	पीपुल्स गार्जियन	डी-302, ब्लू हिल्स, नगर रोड, पुणे (महाराष्ट्र) - 411006
1839	पीपुल्स मूवमेंट ऑफ इण्डिया	"9/215/15, योजना-3, आवास विकास कॉलोनी, झूँसी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश - 211019"

1840	पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	111, आस्था कॉम्प्लेक्स, दहेज बाईपास रोड, नंदेवाल, तालुका एवं जिला-भरुच, गुजरात- 392001
1841	पीपुल्स पॉवर पार्टी	पो० बी० नं० 16, शिवाजी नगर पोस्ट ऑफिस, मुम्बई-400043, महाराष्ट्र ।
1842	पीपल्स रिप्रेजेंटेशन फॉर आईडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ मिजोरम (प्रिज्म) पार्टी	16- अपर रिपब्लिक, आइजोल, मिजोरम- 796001
1843	पीपुल्स रिपब्लिकन पार्टी	साप्ताहिक जयभीम, आनंद टाकिज के सामने, सीताबादी, नागपुर-440012 (महाराष्ट्र) ।
1844	पीपुल्स रिसर्जन्स एन्ड जस्टिस अलायन्स	मकान नं. 156, खोमद्रम सेलुन्गबम लेयकई, थांगमेईबंद, पी.ओ./पी.एस-लांफेल, इम्फाल वेस्ट, मणिपुर- 795004
1845	पीपुल्स रूलिंग पार्टी	फ्लैट नं०-74, गांधी नगर, चकाली गुन्टा, एटुकुरु रोड, कम्मा सैशशाह ग्राउण्ड, रेवेन्यु वार्ड-32, गुंटूर, आन्ध्र प्रदेश-522003
1846	पेरुन्थालाईवर मक्कल कांची	एन आर डी टॉवरस, प्रथम एवेन्यू, अशोक नगर, चेन्नई-600083 तमिलनाडु ।
1847	फूले भारती लोक पार्टी	मेन गुरुद्वारा रोड, बाबा बकाला, जिला-अमृतसर, पंजाब-143201.
1848	पिछड़ा सामान्य अल्पसंख्यक व्यापारी किसान पार्टी	मकान नं. 402 ख, नगला खंदारी, अलीपुर पट्टी, थाना व तहसील-भोगाँव, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश ।
1849	पिछड़ा समाज पार्टी यूनाईटेड	मढरिया कॉम्प्लेक्स, मुक्त नगर, पुलगाँव रोड, पद्मनाभपुर, दुर्ग, छत्तीसगढ़ -491001
1850	पिछड़ा समाज पार्टी	मोहल्ला जती, नगीना, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
1851	पिछड़ावर्ग महापंचायत पार्टी	मो. जामालपुर, (करहाँ रोड), पोस्ट- मोहम्मदाबाद गोहना, जिला- मऊ, उत्तर प्रदेश- 276403
1852	प्लेन्स ट्राइबल्स काउन्सिल ऑफ असम	पी०ओ० व टी०ओ० कोकड़ाझाड़, जिला-कोकड़ाझाड़, (असम) ।
1853	पॉलिटिकल एसंशियल और ऐक्यूरेट काँसिल ऑफ एक्सपर्ट्स पार्टी	डोर नं० 24-21, वैस्या स्ट्रीट, पाँच रोड जंक्शन, अमेरिकन हॉस्पिटल रोड, नरसीपट्टनम, जिला - विजाग, आन्ध्र प्रदेश - 531116
1854	पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी	म. न.796, जी-3, शालीमार गार्डन एक्सटेंशन-1, साहिबाबाद, थाना साहिबाबाद, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश- 201005
1855	पॉलिटिकल टीम इंडिया	मकान नं.182, असंल कोर्टयार्ड, दहतोरा शास्त्रीपुरम, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007
1856	पॉन्डिचेरी पीपुल्स राइट्स पार्टी	#1, सुब्रमनियर कोइल स्ट्रीट, कुवायारपालयम, पंडीचेरी-605013
1857	पूर्ण स्वराज मंच	मकान नं. 1/328, ग्वाल टोली, फतेहगढ़, जिला- फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश- 209601
1858	पूर्वांचल पीपुल्स पार्टी	12/391, गली नं० - 12, ललिता पार्क, लक्ष्मी नगर, दिल्ली-110092

1859	पूर्वांचल राष्ट्रीय कांग्रेस	प्लॉट नं० 157-158, पॉकेट ई-20, सैक्टर-3, प्रथम तल, रोहणी, दिल्ली-110085.
1860	प्रबल भारत पार्टी	ग्राम- अण्डहरा,पोस्ट+थाना- परसौनी,जिला-सीतामढी,बिहार- 843325
1861	प्रबुद्ध भारत पार्टी	7ए, हॉस्पिटल स्ट्रीट, प्रथम तल, कोलकाता- 700 072, पश्चिम बंगाल ।
1862	प्रबुद्ध भारत प्रजासत्तक पार्टी	ए/101, पंचशील नगर, सेवा संघ नं० - 3, नियर अनिक डिपोट, सायन(पूर्व), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400022 ।
1863	प्रबुद्ध रिपब्लिकन पार्टी	एम०डी०26-17/6, एस०आर०टी०आर०एम०सी०एच० चेन्नई रोड, अम्बाजोगई, जिला-बीड-431517, महाराष्ट्र ।
1864	प्रगतिशील जनता पार्टी	बजरंग विहार कॉलोनी, दीघा आशियाना रोड,थाना-राजीव नगर,पोस्ट-आशियाना नगर,पटना-800025,बिहार
1865	प्रगतिशील लोक मंच	ईश्वर सदन, सोनकर फार्म, धौलाखेड़ा, पो० ओ० - अर्जुनपुर (हल्द्वानी), जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड ।
1866	प्रगतिशील मगही समाज	मकान नं०605/334, वार्ड नं०44, मोहल्ला-माइनपुर (अक्षयवट), थाना -सिविल लाईन्स, जिला -गया, बिहार।
1867	प्रगतिशील मानव समाज पार्टी	गांव-चारी (नईपुरवा) पो० दशरथपुर-221304. जिला-भदोही, (उत्तर प्रदेश) ।
1868	प्रगतिशील पार्टी	111, बादशाह नगर, लखनऊ, 226007 (उत्तर प्रदेश) ।
1869	प्रगतिशील समाज पार्टी	58/12/1 डी, नवादा, सरकुलर रोड, राजापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1870	प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया)	सीपी.- 1, विक्रान्त खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010.
1871	प्रहर जनशक्ती पक्ष	मकान सं.- 1634, ग्रामपंचायत- बेलोरा, तहसील- चांदुरबाजार, जिला-अमरावती, महाराष्ट्र- 444704
1872	प्रजा अधिकार पार्टी	डोर नं.4-107-1,एस.सी.कॉलोनी,पंचलिंगाला ग्राम,कर्नूल मण्डल,कर्नूल जिला,आन्ध्र प्रदेश-518004
1873	प्रजा भारथ पार्टी	प्लॉट नं० 106, ब्लॉक 'ए', अर्चना अपार्टमेन्ट, ईस्ट मैरिडपल्ली, सिकन्दराबाद-500026 (आन्ध्र प्रदेश) ।
1874	प्रजा चैतन्य पार्टी	1-7-578/31/2, जेमनी कालोनी मुर्शिदाबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
1875	प्रजा कांग्रेस पार्टी	डी-6/6154/6, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070
1876	प्रजा एकता पार्टी	मकान नं. 15-9-86 से 88,श्रीनिवासा निलयम,महाराजगंज,लोकालिटी-गौलीगुडा चमन,जला-हैदराबाद,तेलंगाना - 500012
1877	प्रजा पालना पार्टी	मकान सं. 64-1डी-8ए/1, ट्रेजरी कॉलोनी, काकीनाड़ा, ईस्ट गोदावरी जिला, आन्ध्र प्रदेश- 533004
1878	प्रजा परिवर्तन पार्टी	नं. 9/228, पहला मेन, तीसरा क्रॉस, (जयभीम पेट्रोल बंक के पीछे) नंनजप्पा लेआउट, अनेकल टाऊन, बैंगलोर शहरी जिला, कर्नाटक- 562106
1879	प्रजा पार्टी	3-5-898/1, हिमायतनगर, हैदराबाद-500029 (आन्ध्र प्रदेश) ।
1880	प्रजा राज पार्टी	287/264/1, मेरठ बुलन्दशहर रोड,हापुड - 245101 उत्तर प्रदेश ।

1881	प्रजा सत्ता पार्टी	1-91/24, राघवेन्द्रा नगर, पार्वतापुर (ग्राम), ग्रा.पं. - घटकेसर मण्डल, रंगारेड्डी जिला, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500098
1882	प्रजा सेना पार्टी	एच. नंबर 4-3-167 गजुलपेट,मंटपल्ली टाउन और मंडल,जिला-जगितल,तेलंगाना- 505325
1883	प्रजा सेवा पार्टी	डी.नं. 3 -1सी, रामचन्द्रापूरम ग्राम, ताडा (पी), साथयावेदु (एम), चित्तूर-जिला, आन्ध्र प्रदेश- 524401
1884	प्रजा शक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी	सर्वे नं.-1073, वसंत वाडगो, निकट के-7 सर्किल, गाँधीनगर, रंधेजा रोड, गाँधीनगर, गुजरात- 382026
1885	प्रजा शान्ति पार्टी	382, अपराजिता कॉलोनी, अमीरपेट, हैदराबाद, आन्ध्रा प्रदेश ।
1886	प्रजा विजय पक्ष	प्रथम माला,एच एच आई-08,अभीनव ऐवेन्यु,झाडेथर चौकडी,झाडेथर,तहसील भरूच,जिला-भरूच,गुजरात-392011
1887	प्रजा रैयता राज्य पक्षा	मकान सं० - 937, मंजूनाथा नगर, केन्गेरी रोड, तवाराकेरे, बेंगलुरु साउथ, कर्नाटक - 562130
1888	प्रजा स्वराज पार्टी	मकान नं. 7-2-104/11, प्लॉट नं.11, श्रीकृष्ण नगर, चिंतलकुंटा चेक पोस्ट, एल.बी.नगर, हैदराबाद, तेलंगाना राज्य - 500003
1889	प्रजामहाराष्ट्र पक्ष	निकट परीजात भवन,तीसरी मंजिल,माथुर नगर,तुलिंग रोड नालासोपारा (पूर्व),ता० - वसई,जिला - पालघर,महाराष्ट्र- 401209
1890	प्रजामंडल पार्टी	बर्थवाल निवास, शीतला माता मंदिर मार्ग, लोअर भक्तियाना, श्रीनगर, गढवाल, उत्तराखण्ड - 246174
1891	प्रजासत्तक भारत पक्ष	मु०शिलेश्वर, पो०भादस,ता०मुलशी, जिला - पूणे - 412108, महाराष्ट्र
1892	प्रजासत्तक लोकराज्य पार्टी	ग्राम व पोस्ट - परासी, तहसील - मनगवा, जिला - रीवा मध्य प्रदेश - 486111
1893	प्रजासत्ताक समाजवादी भारत पार्टी	मकान नं० - 1-7-281, यादव निवास, राजनगर, पोस्ट - यशवंत नगर, पावडेवाडी नाका, जिला - नांदेड, महाराष्ट्र - 431602
1894	प्रजाशक्ति पार्टी समदर्शी	श्री राम सदन - 40, सरॉयपिट्थू औशिक, नयागाँव (केशरुआ), सीतापुर रोड, हरगाँव, जनपद - सीतापुर, उत्तर प्रदेश ।
1895	प्रजातन्त्र आधार पार्टी	46, पुरानी फौजदार की चाली, मेम्को चार रास्ते के पास, नरोडा रोड, अहमदाबाद-382345 गुजरात ।
1896	प्रजातंत्र कांग्रेस पार्टी	स्टेशन चौक, मुख्य डाकघर के सामने, रायगढ, छत्तीसगढ
1897	प्रजातंत्र पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 33, मोहल्ला- बम्बाघेरा, टाउन व थाना- रामनगर, जिला- नैनीताल, उत्तराखण्ड
1898	प्रजातांत्रिक बहुजन शक्ति दल	टी-1, श्रीराम हाउस, 117 एच-2/52, पांडुनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
1899	प्रजातांत्रिक जनसेवक पार्टी	मकान सं.- 88, निवहारा-इकहारा, तहसील- करहल, पोस्ट- वरनाहल, जिला- मैनपुरी, उत्तर प्रदेश- 205264
1900	प्रजातान्त्रिक लोक एकता दल	3, कौटिल्य मार्ग, पटना-800 001, बिहार ।
1901	प्रजातांत्रिक समाधान पार्टी	गाँव- हकीमाबाद, तहसील - आस्टा, जिला - सिहोर, मध्य प्रदेश।

1902	प्रजातांत्रिक समाजवादी पार्टी	सी-17, यादव नगर, ग्राम – समयपुर, दिल्ली – 110042 ।
1903	प्रजावाणी पार्टी	मकान नं.11-83-लिंगडीवरी भावनाअमु,विनायक नगर,कुजाकुजा रोड,सूर्यपेट,तेलंगाना - 508214
1904	प्रपंच तेलुगु भाषा परिरक्षण पार्टी	मं0 सं0 5-19,चिमनगुटपल्ली गाँव,वनपथी मंडल,वनपथी जिला, तेलंगाना-500089
1905	प्रवासी निवासी पार्टी	महा महल बिल्डींग, टी.सी-1/1502/7, पजहाया रोड, मेडिकल कालेज पी.ओ. जिला- तिरुवनंतपुरम, केरला-695011
1906	प्रेम जनता दल	म. नं0 – 1-4-524/ए/7/1, भोलकपुर, बादी मस्जिद के पास, मुशीराबाद, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश।
1907	प्रेम वाहिनी दल	ग्राम व पोस्ट- अंतरपाड़ा, वाया- बालीपदर, जिला- गंजाम, ओडिशा ।
1908	प्रिज्म	टॉप फ्लोर, 4-सी.एच.एच.ए.-30, विज्ञान नगर, कोटा- 324005 (राजस्थान)।
1909	पृथक बस्तर राज्य पार्टी	8, सीनियर एच0 आई0 जी0 सेक्टर-3, शंकर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
1910	पृथ्वीराज जनशक्ति पार्टी	मकान नं. 45-ए, ग्राम- किरतपुर, पोस्ट- पिंडरा, तहसील- पिंडरा, थाना- फुलपुर, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
1911	प्रोफेशनल पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 91, ब्लॉक- डी-1, श्याम विहार, नज़फगढ़, नई दिल्ली- 110043
1912	प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक पार्टी	गांव व पोस्ट – सूरजावाली (सलेमपुर), जिला-बुलन्दशहर-203001, उत्तर प्रदेश।
1913	प्रोग्रेसिव पार्टी	बी ब्लॉक, गली नं0 -5, शनि बाज़ार रोड, अमृत विहार, बुराड़ी, दिल्ली – 110084 ।
1914	प्रोग्रेसिव पिपुल्स पार्टी	मकान नं.-975, 976, श्याम कॉलोनी, बुद्धविहार फेस-II, कृष्णा मंदिर के पास, थाना – विजय विहार, दिल्ली – 110086 ।
1915	प्राउटिस्ट ब्लॉक, इंडिया	द्वारा श्री रमेश कुमार, एच.एन.ए.-37 (खसरा न.2167/845), हर्षरूप कॉलोनी, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली- 110074
1916	प्राउटिस्ट सर्व समाज	सेवा निकेतन कम्पाउण्ड, आगरा रोड, एटा, उत्तर प्रदेश
1917	पब्लिक डेवलपमेंट पार्टी	मुरलीपुर शेख सलाह तकिया, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1918	पब्लिक मिशन पार्टी	सीता कुंज, गोदावरी अपार्टमेंट के सामने, आशियाना दीघा रोड, पटना, बिहार-800014
1919	पब्लिक पार्टी	“इकबाल महल”, 234ए, अटाला, इलाहाबाद – 211003 उत्तर प्रदेश।
1920	पब्लिक पॉलिटिकल पार्टी	14ए/57, पहला तल, डब्लु.ई.ए, करोलबाग, नई दिल्ली- 110005
1921	पब्लिक उत्थान पार्टी	म.स. 236,फतेहगढ़,फतेहगढ़,पी.स.- खरगूपुर,तहसील-गोंडा,पावर हाउस के पास,जिला - गोंडा,उत्तर प्रदेश – 271204
1922	पुडुचेरी डेवलपमेंट पार्टी	नं0 – 51, सेकण्ड क्रॉस, सेल्वा नगर, उरुवाईयार, पुडुचेरी-605110 ।
1923	पुडुचेरी पडाईपली मक्कल काच्ची	सं0 4, फर्स्ट स्ट्रीट, थेंड्रल नगर,पुडुचेरी-605013.
1924	पंजाब डेमोक्रेटिक पार्टी	958-मतौर सेक्टर-70, एस.ए.एस नगर, सिंडिकेट बैंक से सटा हुआ, पंजाब- 160070

1925	पंजाब एकता पार्टी	बी- XI /46, ग्राम - फरीदकोट, वार्ड नं0 - 10, पार्ट-2, तहसील - फरीदकोट, हरिन्दर नगर, जिला - फरीदकोट, पंजाब- 151203
1926	पंजाब लेबर पार्टी	ग्राम और डाकखाना-आधनियों, तहसील-मलोट, जिला-मुक्तसर,पंजाब ।
1927	पंजाब नैशनल पार्टी	157,युनीवरसिटी ऐनकलेव फेज-1,गुरु नानक देव विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परिसर के पास,लाधेवली,जालंधर,पंजाब- 144009
1928	पंजाब पीपुल्स पार्टी	14, सैक्टर-28, अरुण विहार, नोएडा-201303 (उत्तर प्रदेश) ।
1929	पंजाब विकास कांग्रेस पार्टी	पंज पीर चौक, जालन्धर, पंजाब ।
1930	पंजाबी दल	मकान नं0 बी.वी/30ए, रामगढ़िया गुरुद्वारा रोड, बरनाला-148101, जिला-संगरूर (पंजाब) ।
1931	पुराची भारतम	नं. 54, नेशनल हाईवे, पूनामल्ला, चेन्नई-56 (तमिलनाडु) ।
1932	पुरातचिकारा थोझिललार कोंची	नं0 3, करिकालन ईस्ट, प्रथम गली, (एस. पी. हॉस्पिटल के पीछे, अंजाप्पर होटल), अदमबक्कम, चेन्नई, तमिल नाडु ।
1933	पूर्वांचल नवनिर्माण पार्टी	ग्राम- सिरिहिरा, पोस्ट- सेवापुरी, थाना- कपसेठी, जिला- वाराणसी, उत्तर प्रदेश- 221403
1934	पूर्वांचल गण परिषद्	मकान नं. 34, पाकेट 28, सेक्टर 24, रोहिणी, दिल्ली-110085.
1935	पूर्वांचल जनता दल	ग्राम व पोस्ट - जनाड़ी, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश।
1936	पूर्वांचल जनशक्ति पार्टी	श्री विश्वेश्वर आश्रम सतुवाभार, पोस्ट-बिहारी बुजुर्ग, खजनी, गोरखपुर- 273 212,उत्तर प्रदेश ।
1937	पूर्वांचल जनता पार्टी (सेक्युलर)	फ्लैट नं. 2, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पॉकेट-1, फेस- 1, सेक्टर- 12, द्वारका नई दिल्ली-110078
1938	पूर्वांचल क्रान्ति पार्टी	यादवगंज, पोस्ट - सिकरारा, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
1939	पूर्वांचल महापंचायत	नं0 - 601 डी, शिप्रा सन सिटी, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
1940	पूर्वांचल राज्य बनाओ दल	374, बक्शीपुर, उत्तर पावर हाऊस के नजदीक, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
1941	पूर्वांचल विकास पार्टी	एल-131, गली नं. 5, महीपाल पुर एक्सटेंशन, नयी दिल्ली- 110037.
1942	पुथिया मक्कल तमिल देशम काच्चि	डी.नं.-6/58 साउथ स्ट्रीट, मुत्थुलक्ष्मीपुरम,मेगृहिणापुरम,तालुक-तिरुचेंदूर,जिला-थुथुकुडी,तमिलनाडु-628210
1943	पुथिया नीधि काची	6, नार्थ बौग रोड, टी. नगर, चेन्नई-600017 (तमिलनाडु) ।
1944	पुथिया तमिलागम	132, न्यू एम.एल.ए. होस्टल, गवर्नमेंट एस्टेट, चेन्नई - 600 002 (तमिलनाडु) ।
1945	पिरामिड पार्टी ऑफ इण्डिया	2-1-83, कोला स्ट्रीट, तिरुपति- 517501, (आन्ध्र प्रदेश)।
1946	कौमी एकता दल	भवन सं0 - 228, मो0 - अस्तुपुरा, तहसील - सदर, जनपद - मऊ, उत्तर प्रदेश ।
1947	कौमि इतेहाद रिपब्लिकन पार्टी	47/1,चेमुनियपेटा,रेवन्यु वार्ड न0 47,(बिसाईड हरि टावर),नागाराजउपेटा कडापा,आन्ध्र प्रदेश- 516001
1948	कौमी जनता दल	9 बी, त्रिलोकनाथ रोड, लाल बाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
1949	रचनात्मक जन मोर्चा	मकान संख्या - 752,खसरा नं0 - 146,ग्राउंड फ्लोर,निकट कन्या विद्यालय,बुराड़ी गांव,नई दिल्ली- 110084

1950	रेडिकल डेमोक्रेट्स	घर क्रमांक 4-9-771/पी70, पवनागिरि कॉलोनी, हयातनगर, हैदराबाद, तेलंगाना -501505
1951	रहबर पार्टी	वार्ड नं० 2, मोहल्ला कच्ची मस्जिद, रायसेन, तहसील व जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
1952	रायता भारत पार्टी	सेक्टर नं. 31, फ्लैट नं. 31/ए, नवानगर, बागलकोट, कर्नाटक - 587101
1953	राजस्थान देव सेना दल	बस स्टैंड के सामने, धमाई हवेली, दूदू, जयपुर, राजस्थान ।
1954	राजस्थान जन सत्ता	ग्रामीण कन्या छात्रावास, वाटर वर्क्स के पास, सादुलपुर, चुरू-331023, राजस्थान।
1955	राजस्थान जनता पार्टी	ग्राम- नैथला, पोस्ट- निठारी, तहसील- मालाखेड़ा, जिला- अलवर, राजस्थान- 301001
1956	राजस्थान नवनिर्माण पार्टी	मकान नं. 4एफ, प्रथम तल, रामलाल सदन, सिविल एयरपोर्ट रोड, पाबूपुरा, जोधपुर, राजस्थान- 342001
1957	राजस्थान विकास पार्टी	43, चाँद बिहारी नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर-302012 (राजस्थान) ।
1958	राजदल हरियाणा	डी / एस 45, ब्रास मार्केट, बावल रोड, रेवाड़ी-123401, हरियाणा
1959	राजलोक पार्टी	बी-123, स्ट्रीट नं. 8, कमल विहार, बुरारी, दिल्ली-110084.
1960	राजनैतिक चेतना दल	प्लॉट नं. 78, खाता संख्या- 93, ग्राम- सिकरिया, पोस्ट- सुघड़ी, थाना- गोविन्दपुर, जिला- नवादा, बिहार- 805126
1961	राजनैतिक क्रान्ति दल	मकान नं. 55, बाड़ुजई द्वितीय, निकट पुराना ओवर ब्रिज, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश- 242001
1962	राजनैतिक विकल्प पार्टी	204 - शाही भवन, डाक बंगला, पटना – 800001, बिहार ।
1963	राज्य नौजवान शक्ति पार्टी	गाँधीनगर पुलिस थाना के पास, जम्मू, जम्मू व कश्मीर
1964	राज्याधिकार पार्टी	एच-नं.10-4-ए /390, एड्डागोट्टा,ईस्ट मैरीडपल्ली, सिकन्दराबाद-17, आन्ध्र प्रदेश ।
1965	रक्षका सेना	नं. 604, वायुनन्दा लेआऊट, हैब्ल, केम्पापुरा, बंगलोर – 560024, कर्नाटक।
1966	रानी चेन्नमा पार्टी	वक्कलागेरी दयामवनकट्टी, गडग-582101,कर्नाटक ।
1967	रानी लक्ष्मीबाई क्रांतिकारी पार्टी	शॉप नं. 06, राहुल बाजार, कमिश्नियल काम्प्लेक्स, प्रथम तल, सीताबर्डी, नागपुर, महाराष्ट्र- 440012
1968	राष्ट्र भक्त दल	बाबा बजरंगदास जी की बगीची खाटीपुरा रोड, झोटवाडा, जयपुर – 302012, राजस्थान।
1969	राष्ट्र हित पार्टी	706/707 एम.के हाईट्स सीएचएस, बी विंग, सी.टी.एस.नं. 621, एल.वार्ड आफिस के सामने, एस.जी. बार्व मार्ग, कुर्ला (पश्चिम), मुम्बई- 400070 महाराष्ट्र ।
1970	राष्ट्र मंगल मिशन पार्टी	कामधेनु कृपा, काचो माढ, पिलाजी गंज, श्रीराम चौक, मेहसाना, गुजरात-384001
1971	राष्ट्र निर्माण पार्टी	डी 25 डिफेन्स कालोनी, नई दिल्ली-110024 ।
1972	राष्ट्र समर्पण पार्टी	वार्ड संख्या-4,प्रोपर्टी संख्या-040000225,ओल्ड प्रोपर्टी संख्या डब्लू 4-

		448(ओल्ड 225),सावनेर,तालुक-सावनेर,जिला-नागपुर,महाराष्ट्र- 441107.
1973	राष्ट्र सेवा दल	85/40, ऑफिसर फ्लैट, बेली रोड, पटना-800001.बिहार ।
1974	राष्ट्र शक्ति	1112, एस /5, टैगोर गार्डन बस स्टैंड के पास, यमुना नगर-135001, जिला यमुना नगर, हरियाणा ।
1975	राष्ट्र उदय पार्टी	खसरा नं. 10, आतिफ विहार कॉलोनी, नजदीक सिटी आई.टी.आई., उत्तरधौना, चिनहट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226001
1976	राष्ट्र वाहिनी पार्टी	412, एस.के.श्याम हाईट्स, संपत हिल्स, बिचौली मर्दाना, इंदौर, मध्य प्रदेश- 452016
1977	राष्ट्र विकास झुंबेश पार्टी	दूसरी मंजिल, अपोलो एन्क्लेव, जैन देरासर के सामने, मोढेरा क्रॉस रोड, महेसाणा, गुजरात - 384002
1978	राष्ट्रहित चिन्तक विपक्ष पार्टी	प्लॉट नं0 - 177-ई/2, वार्ड नं0 -2, महरौली, नई दिल्ली-110030
1979	राष्ट्रसमर्पित जनसमूह	एच-101, ग्राउण्ड फ्लोर, चन्दु पार्क, कृष्णा नगर, नई दिल्ली-110051.
1980	राष्ट्रवादी बहुजन क्रान्ति पार्टी	मौहल्ला - चिरंजीलाल, कस्बा - अफजलगढ़, तहसील - धामपुर, जनपद - बिजनौर, उत्तर प्रदेश - 246722
1981	राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी	बेगारिया का खेड़ा, पोआबरवान कलां, काकोरी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
1982	राष्ट्रवादी जनता पार्टी	अनील भारती भवन, 43-ए, सुखबीर नगर, कराला, नई दिल्ली-110081.
1983	राष्ट्रवादी क्रान्ति दल	इन्दु निवास, गाँव देवी रोड, पोयसर, कांदिवली (पूर्व), मुंबई, महाराष्ट्र- 400101.
1984	राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक पार्टी (इंडिया)	35बी, सैनिक एन्क्लेव, सेक्टर- 1, मोहन गार्डन, नई दिल्ली- 110059
1985	राष्ट्रवादी पार्टी (भारत)	ग्राम- ककराना, पोस्ट- धौलाना, जिला- हापुड, उत्तर प्रदेश- 245301
1986	राष्ट्रवादी प्रताप सेना	ग्राम-नारायणपुर बासका पोआधौलाना, जिला-गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
1987	राष्ट्रव्यापी जनता पार्टी	एम.एम.एस., 1/84, सेक्टर - ए, अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
1988	राष्ट्रवादी चेतना पार्टी	रा, मकान सं. 16एफ/एफ, के.एच.सं0 28/10, रियाल गार्डन, नागलोई, नई दिल्ली-110041
1989	राष्ट्रवादी इंसान पार्टी	18/84/6सी, पुरा दलेल, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
1990	राष्ट्रवादी जन चेतना पार्टी	ए-69, त्रिकम नगर सेक्शन-1, चौपाटी गार्डन के पास, एल.एच. रोड, सूरत, गुजरात-395010
1991	राष्ट्रवादी जन कांग्रेस	संतोष भवन, रोड नं0 - 1 एक्स्टेंशन, राजवंशी नगर, पटना, बिहार - 800023
1992	राष्ट्रवादी जन समाज पार्टी	158/33ए-1,गंगा प्रसाद रोड,अंसार कॉम्पलेक्स,मौलवीगंज,लखनऊ उत्तर प्रदेश- 226018
1993	राष्ट्रवादी जनताराज पार्टी	ए-404,अबजिबापा लेक व्यू,अपोजिट आर ए एफ गेट,निरंत चोकदी,वस्तराल,अहमदाबाद,गुजरात - 382418
1994	राष्ट्रवादी जनलोक दल	934/1, नियर वड़ी, मोटामाढ़, एट व पो.ऑ- वालम, टी.ए- विसनगर, जिला- मेहसाणा, गुजरात- 384310

1995	राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी (सत्य)	हरसरू,शिव मंदिर के पास,तहसील-हरसरू,जिला-गुडगाँव हरियाणा-122505
1996	राष्ट्रवादी जनसंघ	पकड़ी गांधीनगर मोड,(कतीरा रोड),जैन कॉलेज पूर्वी गेट के पास,कतीरा,आरा,नवादा,जिला-भोजपुर,बिहार-802301
1997	राष्ट्रवादी जनतांत्रिक पार्टी	अम्बर विला, 127/660 डब्ल्यू-1, साकेत नगर, कानपुर-208014 उत्तर प्रदेश।
1998	राष्ट्रवादी जनविकास पार्टी	मकान सं. 7-जी-27, जवाहर नगर, श्री गंगानगर, राजस्थान- 335001
1999	राष्ट्रवादी जनवादी मंच	मकान नं-160, जोधी का पूरा, आजमगढ़ नगर, आजमगढ़,उत्तर प्रदेश ।
2000	राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल	H.No 73, मोहल्ला - रायसाहब,तहसील - सिरौली, गौसपुर,जिला - बाराबंकी, उत्तर प्रदेश - 225415.
2001	राष्ट्रवादी लेबर पार्टी	डी-12/104, सेक्टर-8, रोहिणी, दिल्ली - 110085
2002	राष्ट्रवादी माइनोरिटी पार्टी	ग्राम-कदमपुरा,वार्ड-9,पोस्ट ऑफिस-कदमपुरा,जिला-सुपौल बिहार-852134
2003	राष्ट्रवादी परिवर्तन पार्टी (एल. बी.)	एम. सी. यूनिट नं0 4 - 467, नूनसर जोहड़, पतराम गेट, भिवानी, जिला - भिवानी, हरियाणा - 127021
2004	राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम- कल्याणपुर, पोस्ट- बड़हलगंज, तप्पा कस्बा, परगना - चिल्लूपार, जनपद- गोरखपुर, उत्तर प्रदेश- 273402
2005	राष्ट्रवादी प्रजा दल	सी-2/60, राम पार्क-1 लोनी, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201102
2006	राष्ट्रवादी समाज पार्टी	16/17, सिविल लाईन्स, पदम अपार्टमेंट के पास, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
2007	राष्ट्रवादी समता पार्टी	196 /187क, ग्राम-बलीपुर खुर्दवां, तहसील-गौरीगंज, जिला-अमेठी, उत्तर प्रदेश।
2008	राष्ट्रवादी सेना	मुख्य शाहदरा चौक, दिल्ली - 110032.
2009	राष्ट्रवादी श्रमजीवी दल	512/695न, पहली गली, निशातगंज, लखनऊ उत्तर प्रदेश।-226007
2010	राष्ट्रवादी स्वर्ण एकता पार्टी	प्लॉट नं0 - 11, द्वितीय तल, अवधपुरी खण्ड - 1, खरगापुर मार्केट, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2011	राष्ट्रवादी युवा पार्टी	आरसी हाउस, प्रगति नगर, चकमोहब्बत, पो.ओ- भीखनपुर, थाना-अहियापुर, जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार- 842004
2012	राष्ट्रीय बहुजन पार्टी	729/4, अंबेडकर चौक, ग्राम - नलेगांव, तालुक - चाकूर, जिला - लातूर, महाराष्ट्र- 413524
2013	राष्ट्रीय आदर्श मैम्बर पार्टी	ग्राम व पोस्ट- उदयपुरा बीच का मुहल्ला, तहसील- राजनगर, थाना-खजुराहो, जिला- छतरपुर, मध्य प्रदेश- 472339
2014	राष्ट्रीय आदिवासी बहुजन पार्टी	प्लॉट नं0 4, पुष्पक नगर, जुनवानी रोड, भिलाई, जिला-दुर्ग (छत्तीसगढ़) पिन नं0 490 020
2015	राष्ट्रीय आम पार्टी	पार्टी कार्यालय 19ए, दूसरी मंजिल, ओम हीरा पन्ना मॉल, न्यू लिंक रोड, ओसिवरा, अंधेरी (वेस्ट), मुम्बई, महाराष्ट्र - 400053
2016	राष्ट्रीय आमजन पार्टी	बी-225, ओल्ड मिनाल, जे.के.रोड, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462023.
2017	राष्ट्रीय आदर्श पार्टी	पित्थूवाला खुर्द, चन्दरबनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
2018	राष्ट्रीय अग्रणीय दल	ग्राम-खमौना, पोस्ट-रेसीपुर, थाना-जन्सा,जनपद-वाराणसी, उत्तर प्रदेश।

2019	राष्ट्रीय अहिंसा मंच	132/1, महात्मा गाँधी रोड, कोलकाता – 700 007
2020	राष्ट्रीय एकता मंच पार्टी	डी-197, कुँवर सिंह नगर, नांगलोई, दिल्ली – 110041
2021	राष्ट्रीय अमन सेवा	अमन हाउस, संजय गांधी नगर, रोड नं० 9, शिवाजी नगर सं० 2, गोवंडी, मुम्बई, महाराष्ट्र -400043.
2022	राष्ट्रीय अम्बेडकर दल	अम्बेडकर भवन, बुद्ध विहार, सेन्ट्रल जेल रोड, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2023	राष्ट्रीय अंत्योदय कांग्रेस	एस.एस. III/800, सैक्टर – 1, कोपरखैरणे, नवी मुम्बई, महाराष्ट्र – 400709
2024	राष्ट्रीय अन्याय निवारण सेना	138, जहागिरदारवाडी, पोस्ट- शिंगोली, तहसील व जिला- उस्मानाबाद महाराष्ट्र-413501
2025	राष्ट्रीय अपना दल	मकान नं० 232/81/4डी, तिलक नगर, अल्लापुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
2026	राष्ट्रीय आर्य राज सभा	769/2, विजय पार्क, झांग कॉलोनी, रोहतक – 124001, हरियाणा ।
2027	राष्ट्रीय अतुल्य युवा पार्टी	प्लॉट नं. 291, फ्लैट नं. 301, शिवनगर- 1, मुरलीपुरा, जयपुर, राजस्थान- 303328
2028	राष्ट्रीय आवामी दल	152, काजी टोला, सैलानी रोड, ओल्ड सिटी, बरेली-243005, उत्तर प्रदेश।
2029	राष्ट्रीय आज़ाद मंच	गाँव व पोस्ट - शाहजादपुर, तहसील- नारायणगढ़, जिला- अम्बाला, हरियाणा ।
2030	राष्ट्रीय बैकवर्ड पार्टी	1/44, शान्ति नगर,एटा-207001, उत्तर प्रदेश।
2031	राष्ट्रीय बहुजन काँग्रेस पार्टी	टी ए - 137/3 तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली – 110019.
2032	राष्ट्रीय बहुजन हिताय पार्टी	सी.-158, कैप्टन सतीश मार्ग, ऋषि नगर, रानी बाग, नई दिल्ली - 110034.
2033	राष्ट्रीय बहुजन क्रान्ति दल	ग्राम – दतावली गेसूपुर, जय भीम नगर, गढ़ रोड, निकट मैडिकल कॉलेज, तहसील - मेरठ, जिला – मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
2034	राष्ट्रीय बाल्मिकी सेना पक्ष	जगद्गुरु महर्षि बाल्मिकी स्वामी मंदिर मार्ग, सी.एम.ई. राम नगर बोपखेल, पुणे – 411031 (महाराष्ट्र) ।
2035	राष्ट्रीय बन्धुत्व पार्टी	554, मम्फोर्डगंज, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश ।
2036	राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी	श्रीशिपमा बिल्डिंग, एमिटी विश्वविद्यालय गेट नं.1 के सामने, निजामपुर, मल्हौर,पी.एस-चिनहट,तहसील-सदर लखनऊ,उत्तर प्रदेश-226028
2037	राष्ट्रीय भागीदारी समाज पार्टी	गाँव-गढ़ी (मेहन्दा मोड़), तहसील-हाँसी, जिला-हिसार, हरियाणा-125033
2038	राष्ट्रीय भाईचारा विकास पार्टी	सीपी - 15,रिको झुंझुनू,राजस्थान - 333001
2039	राष्ट्रीय भारतीय अखण्ड पार्टी	मकान नं० – 14, ग्राम व पोस्ट – बेहटा, विकास खण्ड – मसौली, थाना – सफदरगंज, जिला – बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
2040	राष्ट्रीय भारतीय जन जन पार्टी	नियर ए.पी.एस, बिसाहड़ा, दादरी (गौतम बुध नगर) उत्तर प्रदेश - 203207 ।
2041	राष्ट्रीय बुजुर्ग शक्ति पार्टी	मकान नं० – 144, गांव-मांगावास, डाकखाना-पलड़ा, तहसील-बैरी,

		जिला-झज्जर, हरियाणा
2042	राष्ट्रीय बुन्देलखंड विकास पार्टी	1/965, मानसरोवर पार्क, रामजी लाल की बगीची, नियर रेलवे लाइन फाटक, जी.टी.रोड, जी.टी.रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110032
2043	राष्ट्रीय चाणक्य पार्टी	फ्लैट नं. 726एफएफ, ब्लॉक-ए, सेक्टर- म्यू-II, ग्रेटर नोएडा, जिला- गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201310
2044	राष्ट्रीय कांग्रेस (बाबू जगजीवनराम)	वार्ड सं० 45, मोहल्ला - बलदेवपुरी, जनपद-मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2045	राष्ट्रीय कांग्रेस (जे०) पार्टी	सैंधरी, पोस्ट - हरथला, वाया-पाकवड़ा, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2046	राष्ट्रीय दल युनाइटेड	जी- 3/792, वार्ड नं.- 69, दुर्गा अपार्टमेंट, शालीमार गार्डन, एक्सटेंशन-1, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201005
2047	राष्ट्रीय देहात मोर्चा पार्टी	601, रोहित हाउस , 3- टालस्टाय मार्ग,नई दिल्ली - 110001
2048	राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	मकान नं० - 397, ग्राम- सोनारी, पोस्ट - सोनारी(रामगंज), थाना - पीपरपुर, तहसील- अमेठी, जनपद- अमेठी, उत्तर प्रदेश - 228159
2049	राष्ट्रीय देशज पार्टी	टुंगरी टोली, अरगोडा, सेन्ट फांसिस स्कूल, पोस्ट-हारमू, जिला-रांची, झारखण्ड, पिन - 834012
2050	राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी	108, शंकर शाह नगर, जबलपुर (मध्य प्रदेश) ।
2051	राष्ट्रीय एकता पार्टी	हाउस नं.83, ग्राउंड फ्लोर, गली नं.4, चांद मस्जिद की पास, जाफराबाद, दिल्ली - 110053
2052	राष्ट्रीय एकता पार्टी (सैक्यूलर)	भवन नं० 543, मोहल्ला- उपादियान, वार्ड नं० 14, किठौर, जिला- मेरठ, उत्तर प्रदेश।
2053	राष्ट्रीय एकता विकास पार्टी	नूर मस्जिद के पास, मदाना मस्जिद ट्रांसफार्मर वाली गली, अशोक विहार, वार्ड नं० 42, लोनी, तहसील एवं जिला - गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2054	राष्ट्रीय गरीब दल	110, रामनगर, पानीपत, हरियाणा ।
2055	राष्ट्रीय गरीब उत्थान पार्टी	ग्राम- नसोपुर, पो.- नगपुर, तहसील- जलालपुर, थाना- जलालपुर, जनपद- अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश- 224149 ।
2056	राष्ट्रीय गरिमा पार्टी	बी-14, कस्तूरबा नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल - 462001, मध्य प्रदेश ।
2057	राष्ट्रीय जनरल पार्टी	वार्ड नं० 11, आदर्श नगर, कलेक्ट्रीएट रोड, बक्सर, बिहार -802101 ।
2058	राष्ट्रीय गोंडवाना पार्टी	सारखेल हाऊस, तिफरा,बिलासपुर - 495223, छत्तीसगढ़।
2059	राष्ट्रीय ग्राम विकास पार्टी	62, सिविल लाईन्स , रुड़की, जनपद - हरिद्वार,उत्तराखण्ड ।
2060	राष्ट्रीय ग्रामीण पार्टी	ग्राम - चकेरशानपुर (केमराला)पो०आ० घोड़ी बछेरा (दादरी), जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश ।
2061	राष्ट्रीय हमारा दल	22/191, ढोली खार, मन्टोला,आगरा (उत्तर प्रदेश) ।
2062	राष्ट्रीय हिन्द एकता दल	गांव- नगला भाजा,पोस्ट- मिधौली,थाना-विष्णुगढ़,तहसील- छिबरामऊ,जिला-कन्नौज,उत्तर प्रदेश- 209721
2063	राष्ट्रीय हिन्द सेना	158/1, देव नगर, जिला- फिरोजाबाद - 283203 उत्तर प्रदेश ।

2064	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान सेना, कर्नाटक	शिवा शक्ति, 141, न्यू बस स्टॉप के पीछे, वासवी नगर, हुबली - 580 030, कर्नाटक ।
2065	राष्ट्रीय हिन्दुस्तान शक्ति दल	आई- 26/1, गली नं. 10, ब्रह्मापुरी, दिल्ली- 110053
2066	राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी	गाँव-मुमताज नगर,पोस्ट-मुमताज नगर,तहसील सोहावल,नजदीक सम्राट मेडिकल सेटोर,थाना-कँट,जिला-अयोध्या,उत्तर प्रदेश- 224001.
2067	राष्ट्रीय हित काँग्रेस	712, जी- ब्लॉक, मिलिट्री रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
2068	राष्ट्रीय इन्डीपेन्डेंट मोर्चा	माईनिंग रोड, किंओझार (ओ.एस.एम. ई. लेडीज़ हॉस्टल के सामने), पोस्ट/द्वारा : किंओझारगढ़, जिला : किंओझार - 758001 ओड़िसा ।
2069	राष्ट्रीय इन्दिरा पार्टी	दत्तपुरा, सब्जीमण्डी के पास, मुरैना, मध्य प्रदेश ।
2070	राष्ट्रीय जागृती पार्टी	रीषभ इंस्टीट्यूट, चिरैयाटांड पुल, चौधरी पेट्रोल पम्प, कंकरबाग, पटना, बिहार - 800020
2071	राष्ट्रीय जागरूक पार्टी	मकान संख्या- बी- 7/209, सट्टा बाजार, कोट कपूरा, जिला- फरीदकोट, पंजाब - 151204
2072	राष्ट्रीय जयहिन्द पार्टी	आदर्श नगर,कोकर,थाना-सदर,जिला-रांची,झारखण्ड-8340041
2073	राष्ट्रीय जन अधिकार पार्टी (यूनाईटेड)	मकान नं० - 710, नया पूर्वा, डिग्री कॉलेज चौराहा, कचहरी रोड, लिबर्टी शोरूम के सामने, जिला - रायबरेली, उत्तर प्रदेश ।
2074	राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी	एम.आई.जी.-23, त्रिवेणी कॉम्प्लेक्स, टीटी नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश- 462003
2075	राष्ट्रीय जन गौरव पार्टी	470, परमानतपुर, (सपना आइस फैक्ट्री के पीछे), पोस्ट- कचहरी, तहसील- सदर, जिला- जौनपुर, उत्तर प्रदेश- 222002
2076	राष्ट्रीय जन जन पार्टी	CO परशुराम सिंह, नैली निवास, शिव नगर, रोड नंबर-1, फोर्ड हॉस्पिटल के पीछे, थाना-राम कृष्णा नगर, पो-राम कृष्णा नगर, खेमनीचक, जिला पटना, बिहार - 800027
2077	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी	जी - 290, ओल्ड सीमा पुरी, दिल्ली - 110095.
2078	राष्ट्रीय जन कल्याण पार्टी सेक्युलर	खाता-187,खसरा-869,थाना-150,तौजी न.-525,ग्राम व पोस्ट-चौंढली,थाना-बेल्दौर,जिला-खगडिया,बिहार- 852161
2079	राष्ट्रीय जन मंच	ग्राम व पोस्ट- गुढा,जिला- जालौन,उत्तर प्रदेश- 285122.
2080	राष्ट्रीय जन सागर पार्टी	वॉटर बॉक्स के पीछे, नारेड़ा रोड, तहसील व जिला- बारां, राजस्थान- 325205
2081	राष्ट्रीय जन सहाय दल	112, न्यू कनॉट प्लेस, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2082	राष्ट्रीय जन सहयोग पार्टी	प्लॉट नं. ए-40, गायत्री पुरम, शोभित यूनिवर्सिटी, पल्लवपुरम, फेस-2, मोदी पुरम, सिटी- मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250110
2083	राष्ट्रीय जन समानतावादी (अम्बेडकर)	71- बी, पॉकेट ए -3, कालकाजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली - 110019
2084	राष्ट्रीय जन समर्थन पार्टी	ए-122बी, ग्राउन्ड फ्लोर, हरि नगर, नई दिल्ली- 110064
2085	राष्ट्रीय जन संसद	शक्ति नगर, पुराना जी.टी. रोड,खुरजा, जिला - बुलन्दशहर - 203131, उत्तर प्रदेश ।
2086	राष्ट्रीय जन सेवक पार्टी	गांव - नांगला जमालपुर, पोस्ट- पंचली खुर्द, बागपत रोड, मेरठ, उत्तर

		प्रदेश ।
2087	राष्ट्रीय जन विकास पार्टी	मुहल्ला-सुन्दरपुर छट्टी पोखर,पोस्ट-लालबाग,जिला-दरभंगा,बिहार-846004
2088	राष्ट्रीय जनाधार पार्टी	596 एस. के.- 04/01/01, सुमिरन खेड़ा, आदर्श विहार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2089	राष्ट्रीय जनाधिकार पार्टी	61, मंगला पुरी फेस- 1, पालम, नई दिल्ली - 45.
2090	राष्ट्रीय जनाधिकार सुरक्षा पार्टी	गाँव - कृष्णापुर, पोस्ट - धोपाहाट कृष्णापुर,जिला - 24, परगना (दक्षिण), पश्चिम बंगाल ।
2091	राष्ट्रीय जनाहिता पार्टी	न0 140,विद्यारन्यापुरा,नर्सिपुरा,मेन रोड,बैंगलोर,कर्नाटक- 560097
2092	राष्ट्रीय जननायक जनता पार्टी	आर. जैड-3284/37,तुगलकाबाद एक्सटेंशन,नई दिल्ली- 110019
2093	राष्ट्रीय जनआन्दोलन पक्ष	'पोवराभवन' नं0 567 (38) , 60 फीट रोड,गोकुल मथीकेरे लेआउट,बंगलौर - 560054 , (कर्नाटक) ।
2094	राष्ट्रीय जनसचेतन पार्टी (आर.जे.पी.)	सेनारपुर, सुकान्ता नगर (मिलानपाली) (शिव मन्दिर के पास) पो0 आफिस व पुलिस स्टेशन - सोनारपुर,कोलकाता - 700150,पश्चिम बंगाल ।
2095	राष्ट्रीय जनता जनार्दन पार्टी	सूरज का पुरवा, अतरारूरल, पो0 ऑ0 अतरा जिला-बाँदा,उत्तर प्रदेश ।
2096	राष्ट्रीय जनहित पार्टी	कोठी नं0 75, सेक्टर - 17,पंचकुला- 134109. (हरियाणा)।
2097	राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी	109- एफ, नजीम पुरा, भूड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203001
2098	राष्ट्रीय जनहित विकास पार्टी	वी.पी.ओ. - खनक, मकान नं0 - 627बी निकट पंचायत घर, आदर्श कॉलोनी, तहसील - तोशाम, जिला - भिवानी, हरियाणा- 127040
2099	राष्ट्रीय जन-जागरण मोर्चा	राज मंजिल, वार्ड नं0 12, गोपालगंज, पोस्ट एंड डिस्ट्रिक्ट - गोपालगंज, बिहार ।
2100	राष्ट्रीय जनक्रान्ति मोर्चा	ग्राम - बभने आलमनगर, पोस्ट - प्रतापपुर, जिला - चतरा, झारखण्ड ।
2101	राष्ट्रीय जनक्रान्ति पार्टी	5/24 एच - 10 (आर0), आई0आई0 रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202001
2102	राष्ट्रीय जनमंच (सेकुलर)	गांव बेलापुर,तालुक-श्रीरामपुर,जिला-अहमदनगर,महाराष्ट्र-413715
2103	राष्ट्रीय जनमत पार्टी	ग्राम - फतूहा, पोस्ट-हनुमानगंज, जिला-इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2104	राष्ट्रीय जनमोर्चा	सी-69/10, गली नं0 10, सी ब्लॉक, मुस्तफाबाद, दिल्ली - 110094
2105	राष्ट्रीय जनप्रिय पार्टी	एच -II - 76/डी, एल.डी.ए. कालोनी, कानपुर रोड, लखनऊ - 226012, उत्तर प्रदेश ।
2106	राष्ट्रीय जनराज पार्टी	28-ए, विशाल कुंज, दहतोरा रोड, बोदला, आगरा, उत्तर प्रदेश- 282007
2107	राष्ट्रीय जनरक्षक पार्टी	ग्राम - बिर्जापुर, पोस्ट - अड्की, जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश।
2108	राष्ट्रीय जनसभा पार्टी	कोण्डागांव, फारेस्ट कॉलोनी वार्ड, जिला- कोण्डागांव, छत्तीसगढ़-494226.
2109	राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी	यू.के. साहनी कॉमर्शियल कॉम्पलेक्स, कमरा नं-101, प्रथम तल, ग्राम-राजोपट्टी, जिला- सीतामढ़ी, बिहार-843302

2110	राष्ट्रीय जनसंचार दल	600/279/031एन, सुमित नगर, फरीदीपुर, रिंग रोड दुबग्गा, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226101
2111	राष्ट्रीय जनसंघ	पुराना - 20, नया-35, विक्टोरिया पार्क, स्पोर्ट्स कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश ।
2112	राष्ट्रीय जनसंघर्ष स्वराज पार्टी	अपर चुटिया, रांची, झारखण्ड - 834001
2113	राष्ट्रीय जनसेना पार्टी	दुकान नं. 101, मदीना कॉम्प्लेक्स, कुंभारटेक, शिरपुर, जिला- धुले, महाराष्ट्र।
2114	राष्ट्रीय जनसेवा - सेकुलर पार्टी	428, ब्राह्मण वाडा, पुराना वार्ड नं० 23, बल्लभगढ़ - 121004, जिला - फरीदाबाद, हरियाणा ।
2115	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (एकलव्य)	पोस्ट व गांव - बिंजहोल, तहसील और जिला - पानीपत, हरियाणा - 132103.
2116	राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी (सेक्युलर)	417-ए, जैना टावर-111, ए-1 ब्लॉक, जनकपुरी, नई दिल्ली- 110058
2117	राष्ट्रीय जनशक्ति समाज पार्टी	मुहल्ला- थोक, वार्ड नं. 4, पुरानागंज, निकट रेलवे स्टेशन, मिश्रिख, जिला- सीतापुर, उत्तर प्रदेश- 261001
2118	राष्ट्रीय जनशांति पार्टी	52/2, स्कूल वार्ड चौक, जी.जी.आई.सी. के पीछे, प्रतापगढ़ - 230001, उत्तर प्रदेश ।
2119	राष्ट्रीय जनसुराज्य पार्टी	मकान नं. 953/सी, गरोबा मैदान, भंडारा रोड, बगडगंज, नागपुर (पूर्व), महाराष्ट्र-440008
2120	राष्ट्रीय जन-स्वाभिमान पार्टी	नं.1 बी, 223, एमआईजी, आवास विकास कॉलोनी, रुकुनपुर, शिकोहाबाद, जिला-फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश-283135
2121	राष्ट्रीय जनता कांग्रेस	12, सिरी फोर्ट रोड, नई दिल्ली - 110049.
2122	राष्ट्रीय जनता पार्टी	निकट शिव मन्दिर कालोनी, सौरखा, जाहिदाबाद, सैक्टर - 115, नोएडा, जिला - गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश ।
2123	राष्ट्रीय जनतंत्र पक्ष	24, स्टार अपार्टमेंट्स, विद्या विहार मार्ग, सेक्टर - IX रोहिणी, दिल्ली - 110085
2124	राष्ट्रीय जनतांत्रिक भारत विकास पार्टी	गोविन्द चिकित्सालय, परसिया मोड़, रसूलपुर, रसड़ा - बलिया, उत्तर प्रदेश ।
2125	राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी (सेक्यूलर)	फ्लैट नं० 153-154, वीर चन्द पटेल पथ, पटना- 800001 (बिहार)
2126	राष्ट्रीय जनउत्थान पार्टी	ए-655-56, आवास विकास, हंसपुरम (कैनाल रोड), नौबस्ता, कानपुर नगर - 208021, उत्तर प्रदेश ।
2127	राष्ट्रीय जनविकास पार्टी (डेमोक्रेटिक)	मनोरमा सदन, इन्द्रपुरी सिपारा, पोस्ट आफिस- ढेलवाँ, थाना- बेऊर, जिला- पटना, बिहार- 800020.
2128	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी (क्रांतिकारी)	9/168, इन्द्रानगर, पानी टंकी के पास लखनऊ - 226016.
2129	राष्ट्रीय जनवादी पार्टी	1/73, शिव कटरा, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश-208007

	(सोशलिस्ट)	
2130	राष्ट्रीय जातिगत आरक्षण विरोधी पार्टी	788- ई/24, यूनियन बैंक के सामने, नजदीक पुरानी कचहरी, रोहतक रोड, सोनीपत - 131001, हरियाणा ।
2131	राष्ट्रीय कल्याण पक्ष	904, अटलान्टा टावर, इन्कलाब सोसायटी गुलबाई टेकरा, अहमदाबाद - 380006, गुजरात।
2132	राष्ट्रीय कामगार पार्टी	बी डब्ल्यू-97, डी, शालीमार बाग, दिल्ली - 110088
2133	राष्ट्रीय कमजोर वर्ग पार्टी	केन्द्रीय कार्यालय - पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग, लाल बहादुर शास्त्री नगर, पोस्ट ऑफिस, (उच्च तल), पटना - 800023 (बिहार)।
2134	राष्ट्रीय कर्मयोग पार्टी	गाँव व पोस्ट - सुल्तानपुर, तहसील - नीलोखेड़ी, हरियाणा - 132116.
2135	राष्ट्रीय किसान बहुजन पार्टी	अजिंक्य राजवाड़ा भवन, शासकिय तंत्रनिकेतन के सामने, तुलजापूर रोड, निटुरे नगर, उस्मानाबाद, तालुक और जिला - उस्मानाबाद, महाराष्ट्र - 413501
2136	राष्ट्रीय किसान काँग्रेस पार्टी	मकान नं० 1-11-602 रमामाता आंबेडकर नगर, गुरु गोविंद सिंघजी स्टेडियम के पास, ता. जि. नांदेड, महाराष्ट्र ।
2137	राष्ट्रीय किसान मजदूर पार्टी	डब्ल्यू-127, पहला तल, ग्रेटर कैलाश-II, नई दिल्ली-110048
2138	राष्ट्रीय किसान पार्टी	गांव व पो० धानौधा, तहसील व जिला - महेन्द्रगढ़, (हरियाणा) ।
2139	राष्ट्रीय किसान समाज पार्टी (यूनाईटेड)	मौहल्ला - पटेगंज कांठ, पोस्ट - कांठ, तहसील- कांठ, जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश - 244501
2140	राष्ट्रीय किसान श्रमिक पार्टी	ग्राम- तखत खेड़ा, पोस्ट- आकमपुर (बिहार), भगवन्त नगर, जनपद- उन्नाव, उत्तर प्रदेश- 209864
2141	राष्ट्रीय कौमी एकता पार्टी	लिमडा लेन, मकरानी पाड़ा, जामनगर - 361001, (गुजरात) ।
2142	राष्ट्रीय क्रान्ति पार्टी	लोधी प्रज्ञापीठ, लौह पुरुष डा. साक्षी नगर, शिकोहाबाद रोड, जिला एटा - 207001, उत्तर प्रदेश।
2143	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी दल	गोपाल नगर, मेन सुरखपुर रोड, नजफगढ़, नई दिल्ली - 110043.
2144	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी जनता पार्टी	407, दुर्गा चैम्बर्स, डी. बी. गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005.
2145	राष्ट्रीय क्रान्तिकारी समाजवादी पार्टी	मकान सं० 65/25 के, छितवापुर रोड, लाल कुँआ, लखनऊ , उत्तर प्रदेश।
2146	राष्ट्रीय लोक जागृति पार्टी	बैरक नं० - 27 के पास , बुद्ध विहार के सामने, भीम नगर, उलहासनगर - 421001, जिला-ठाणे, महाराष्ट्र।
2147	राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी	मकान नं. 31, ग्राम- कमसड़ी, पोस्ट ऑफिस - असावर, तहसील- मुहम्मदाबाद, जिला- गाजीपुर, उत्तर प्रदेश- 233225
2148	राष्ट्रीय लोक निर्माण पार्टी	एम - 12 , मीर विहार, मदनपुर डबास, दिल्ली।
2149	राष्ट्रीय लोक सर्वाधिकार पार्टी	म. नं० -630, ग्राम- पसौंडा, बौद्ध विहार मंदिर,साहिबाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
2150	राष्ट्रीय लोक सेवा मोर्चा	206, लव कुश टावर, एक्जीवीशन रोड, पटना 800001, बिहार।
2151	राष्ट्रीय लोक सेवक पार्टी	सम्पत्ति स.39/34 ए.निकट साहबा बस अड्डा,जिला हनुमंगढ़,राजस्थान- 335501

2152	राष्ट्रीय लोक तन्त्र दल	ग्राम मोहल्ला - नगला काशी तहसील - धौलाना, जिला - हापुड, उत्तर प्रदेश - 245301
2153	राष्ट्रीय लोकहित पार्टी	ए-40/35 ए, अमरपुर मढिया, वाराणसी, उत्तर प्रदेश ।
2154	राष्ट्रीय लोकमंच	1303, नौरंग हाऊस, बी-ब्लॉक, 21- कस्तूरवा गाँधी मार्ग, नई दिल्ली - 110001
2155	राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी	जे-1201, आदित्य मेगा सीटी, वैभव खण्ड, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201014
2156	राष्ट्रीय लोकराज पार्टी	भवन सं० - 73/382, मोहल्ला - वनखण्डी टीला, (सहकारी बैंक के पीछे), मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281001
2157	राष्ट्रीय लोकशाही पार्टी	सर्वे नं० - 40/1, 40/2 एवं 40/3, मकान सं० - 411 एवं 412, ग्राम - बीड बुद्रुक, तालुक - कर्जत, जिला - रायगड, महाराष्ट्र
2158	राष्ट्रीय लोकशक्ति पार्टी	अर्जुन नगर कालोनी, गोला गोकर्णनाथ, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश - 262802
2159	राष्ट्रीय लोकस्वराज पार्टी	पद्मा फॉर्म, गाँव - छप्परा खेड़ा, नजदीक बालाजी मंदिर फूसगढ़, करनाल, हरियाणा
2160	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक समभाव सेकुलर पार्टी	मकान सं० 411, कृष्णबिहारी नगर, बांदा सागर रोड वर्मा तिराहा, जिला व तहसील - फतेहपुर, उत्तर प्रदेश ।
2161	राष्ट्रीय लोकवादी पार्टी	ए/6ए, ग्राउण्ड फ्लोर, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली - 110015
2162	राष्ट्रीय मच्छुवा समाज पार्टी	रेलवे रोड, दादरी, नियर रावाजी फार्म हाउस, गोतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) ।
2163	राष्ट्रीय महा जनशक्ति दल	कमरा नं० -17, एम. नरेश मुन्ना चॉल, जयहिन्द नगर, पाईप लाइन, खार पूर्व, मुम्बई - 400 051, महाराष्ट्र ।
2164	राष्ट्रीय महाजन शक्ति पार्टी	मकान नं. 843/39, शिव उत्सव वाटिका, न्यू रेलवे स्टेशन मार्ग, अटर रोड, भिण्ड, मध्य प्रदेश- 477001
2165	राष्ट्रीय महान दल	108/60, आवास विकास कॉलोनी, ग्राम तैमूरपुर, पोस्ट-बिजनौर, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश ।
2166	राष्ट्रीय महान गणतन्त्र पार्टी	गाँव - अड्डा छिनपारई, पोस्ट - छिनपारई, नौझील, मथुरा, उत्तर प्रदेश - 281203
2167	राष्ट्रीय महाशक्ति पार्टी	5, रुपायातन एस. वी. रोड । विले पार्ले पश्चिम, मुम्बई-400056, महाराष्ट्र ।
2168	राष्ट्रीय महिला जनशक्ति पार्टी	ग्राम सभा-सैंता जिगिनियाँ, पोस्ट-काँटा गुलजारपुर, ब्लॉक-फतेहपुर, जिला-उन्नाव, पिन-909801, उत्तर प्रदेश ।
2169	राष्ट्रीय महिला पार्टी	340, स्वाले नगर, रामपुर रोड, सी.वी.गंज, जिला- बरेली, उत्तर प्रदेश- 243502
2170	राष्ट्रीय मजदूर विकास पार्टी	मकान सं. 502, यमुना रोड, प्रथम तल, ग्राम- मेहंदीपुर, तहसील व जिला- सोनीपत, हरियाणा- 131001
2171	राष्ट्रीय मानव अधिकार पार्टी	17/700, ग्राम- गोपालपुर, पो. आजादपुर (तिमारपुर), दिल्ली - 110009

2172	राष्ट्रीय मानव एकता काँग्रेस पार्टी	गुरुद्वारा के सामने, स्टेशन रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ ।
2173	राष्ट्रीय मानव सम्मान पार्टी	मकान नं0-1485, किदवाई नगर, भारद्वाजपुरम, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश – 211006.
2174	राष्ट्रीय मानव सेवा पार्टी	खाता नं.60, खसरा नं.03, मौजा नं.82, श्रीनगर हाऊस, समूखिया मोड, नियर न्यू पुलिस लाईन बांका, जिला-बांका, बिहार-813102
2175	राष्ट्रीय मानव विकास पार्टी	मकान नं. 249, ग्राम- साथलपुर, पो.ऑ- ढवारसी, तहसील- हसनपुर, ब्लॉक- गंगेश्वरी, जिला- अमरोहा, उत्तर प्रदेश- 244242 ।
2176	राष्ट्रीय मंगलम पार्टी	19/23, वेस्ट मोती बाग, स्ट्रीट नं – 3, सराय रोहिल्ला, दिल्ली – 110035.
2177	राष्ट्रीय मराठा पार्टी	शिवनेरी सिंहगड बिल्डिंग, श्रीनगर (शिवनगर) कॉलोनी, बिंदर रोड, उदगीर, जिला – लातूर, महाराष्ट्र – 413517
2178	राष्ट्रीय मार्क्सवादी दलित लहर पार्टी	ग्राम- छाँकरवाडा, तहसील- वैर, जिला- भरतपुर, राजस्थान ।
2179	राष्ट्रीय मताधिकार पार्टी	ग्राम+पो0 – अरेराज, वार्ड नंबर 11, शिव मंदिर से पूर्व, गायत्री ट्रेडर, जिला- पूर्वी चंपारण, बिहार-845411
2180	राष्ट्रीय मतदाता पार्टी	मोहल्ला – सैय्यदवाड़ा, कस्बा – मलिहाबाद, जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2181	राष्ट्रीय मजदूर एकता पार्टी	ब्लॉक बी, संत नगर, गली नं0 57, बुरारी रोड, दिल्ली – 110009.
2182	राष्ट्रीय मजदूर किसान पार्टी	आकाश भवन, आई0डी0बी0आई0 बैंक के समाने, मेन रोड दादरी, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, विकास खण्ड- विसरख, तहसील- सदर, जनपद- गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश ।
2183	राष्ट्रीय मजदूर किसान प्रजातांत्रिक पार्टी	अशोक ऐवन्यू, गांव – लालगंज, थाना – सदर, जिला – राँची , झारखण्ड।
2184	राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी	मकान नं0 – 57, ग्राम-मानेसर, मोहल्ला – मोहन पट्टी, जिला – गुडगाँव, हरियाणा – 122050.
2185	राष्ट्रीय नागरिक पार्टी	मकान नं. 725, खसरा नं. 40, गाँव- मैदानगढ़ी, नई दिल्ली- 110068
2186	राष्ट्रीय नौजवान दल	20/575, डी0डी0ए0 फ्लैट, दक्षिणपुरी, नई दिल्ली - 110062
2187	राष्ट्रीय नव निर्माण भारत पार्टी	के-33, एफ/एफ, ए.बी., लाजपत नगर - II, नई दिल्ली- 110024
2188	राष्ट्रीय परिवर्तन दल	बी – 4 ए/25, राणा प्रताप बाग, दिल्ली – 110007.
2189	राष्ट्रीय पीस पार्टी	17जी/322, सैक्टर - 17, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2190	राष्ट्रीय पूर्वांचल एकता पार्टी	प्लॉट नं.145, पैगम्बरपुर, पोस्ट-रसूलगढ़, थाना-सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221007
2191	राष्ट्रीय पॉवर पार्टी	101, आश्रम एवन्यू, बी/एच, कोचरब आश्रम, पालडी क्रॉस रोड, ऐलीसब्रीज, अहमदाबाद, गुजरात - 380006
2192	राष्ट्रीय प्रगति पार्टी	गढ़ पर, नारदीगंज रोड, नवादा, पोस्ट व जिला – नवादा – 805 110, बिहार।

2193	राष्ट्रीय प्रगतिशील प्रजातन्त्र पार्टी	3518, दरीबापन, शीला सिनेमा के सामने, पहाडगंज, नई दिल्ली - 110055.
2194	राष्ट्रीय प्रजा काँग्रेस (सेक्यूलर)	12-11-113, ए. बी. नागेश्वर राब स्ट्रीट, आर्य पुरम राजमुन्दरी (आन्ध्र प्रदेश)
2195	राष्ट्रीय प्रजातान्त्रिक पार्टी	मकान नं. 38, ग्राम - जनौर, पोस्ट कन्धीकला, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
2196	राष्ट्रीय राजधानी काँग्रेस दिल्ली	8, नाथ मार्किट, नई सड़क, दिल्ली - 110006.
2197	राष्ट्रीय रक्षा दल	मार्फत, होटल पंकज, सैक्टर - 22ए, चंडीगढ़।
2198	राष्ट्रीय रक्षक मोर्चा	31, अलकापुरी, न्यू हाईकोर्ट के पीछे, सिटी सेंटर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश - 474011
2199	राष्ट्रीय राष्ट्रवादी पार्टी	2/36, रुचि खण्ड-1, शारदा नगर योजना, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226012
2200	राष्ट्रीय रिपब्लिकन पार्टी	डी- 26, मीरदर्द रोड, नई दिल्ली- 110002
2201	राष्ट्रीय सब जनशक्ति पार्टी	रूतनचक नया टोला, पोस्ट-हथुआ, जिला-गोपालगंज बिहार-841436
2202	राष्ट्रीय सदभावना पार्टी	ग्राम- राघोपुर नरसंडा, पोस्ट- बाजितपुर, थाना- पातेपुर, जिला- वैशाली, बिहार- 843110
2203	राष्ट्रीय साधु विचार काउंसिल	रैदोपुर न्यू, ऑफिसर कॉलोनी, न्याय मार्ग, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
2204	राष्ट्रीय साफ नीति पार्टी	ग्राम व पोस्ट- मनोहरपुरा, तहसील- बस्सी, जिला- जयपुर, राजस्थान- 303301
2205	राष्ट्रीय सहारा पार्टी	जंगरा मार्किट दुन्दहारा, गुडगाँव - 122016, हरियाणा।
2206	राष्ट्रीय सहयोग पार्टी	एफ- 130/4, ग्राउंड फ्लोर, गौतम नगर, नई दिल्ली- 110049
2207	राष्ट्रीय समाधान पार्टी	121-ए० आर० - 3/ए० -2, मंगल बाजार, मोहन गार्डन, नई दिल्ली - 110059.
2208	राष्ट्रीय समाज दल (आर)	मकान सं.193, वार्ड सं.7, शास्त्री नगर, कोरांव, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश-212306
2209	राष्ट्रीय समाज पक्ष	द्वारा एल. डब्ल्यू. काले, 17 - रघुनाथ दादोजी स्ट्रीट, चौथी मंजिल, हैन्डलूम हाउस के पास, फोर्ट, मुम्बई - 400001, महाराष्ट्र।
2210	राष्ट्रीय समाजहित दल	मुहल्ला-देवी मंदिर कॉलोनी (डीएम कॉलोनी), पेट्रोल पम्प के बगल में, दीघा, पटना, बिहार-800011
2211	राष्ट्रीय समाजवादी अपना दल	ग्राम - बासूपार (बनकट) निकट शिवा नरसिंह होम, पो - जीयनपुर, जनपद - आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
2212	राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	बी-37/162, के. पी. गिरी कॉलोनी, बिरदोपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश।
2213	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (सेक्यूलर)	ए /104, राजश्री एवेन्यू, बी./एच., इन्कम टैक्स के पीछे, दिनेश हाल के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद - 380009, गुजरात।
2214	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी (यूनाईटेड)	9, कम्युनिटी सेन्टर, अशोक विहार, फेस -II, दिल्ली - 110052.
2215	राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी	बी - 248, मोहन नगर, थाटीपुर, मोरार, ग्वालियर, (मध्य प्रदेश)।

	“प्रगतिशील”	
2216	राष्ट्रीय समाजवादी स्वाभिमान मंच	प्लॉट नं. 33/34, लक्ष्मी नगर, रिसाली, भिलाई, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़ -490006
2217	राष्ट्रीय समानता दल	8/440, त्रिलोक पुरी, दिल्ली - 110091.
2218	राष्ट्रीय समदर्शी देशभक्त दल	खुशकरी सदन, आनन्द नगर, मण्डी रोड तिराहा, कासगंज, कांशीराम नगर, उत्तर प्रदेश।
2219	राष्ट्रीय समरसता पार्टी	सी- 133, डी.डी.ए फ्लैट्स, न्यू रणजीत नगर, पटेल नगर, नई दिल्ली- 110008
2220	राष्ट्रीय समता पार्टी (सेकुलर)	मकान नं0 - 27, ग्राम - वीरपुर सिंघाड़ा, पोस्ट - सिंघाड़ा, जिला - वैशाली, बिहार- 800011
2221	राष्ट्रीय समता विकास पार्टी	मकान सं. 227/111, विष्णुपुरी भूतेश्वर, पोस्ट- कृष्णानगर, जिला- मथुरा, उत्तर प्रदेश- 281004
2222	राष्ट्रीय साम्यवादी आर्यन पार्टी	570/20, विराट नगर, आलम बाग, लखनऊ-226005, उत्तर प्रदेश।
2223	राष्ट्रीय सनातन पार्टी	स्वाभिमान भवन, शिवधाम कॉलोनी, सी ब्लॉक समीब, सैनिक विहार, डीवाईडर रोड, नंगला तासी, थाना कंकड़खेड़ा, मेरठ कैट, मेरठ, उत्तर प्रदेश- 250001
2224	राष्ट्रीय सेंगेल पार्टी	सिमडेगा भवन, डंगराटोली चौक के नजदीक, ऑपोजिट तनवीर पेट्रोल पम्प, पुरुलिया रोड, रांची, झारखण्ड- 834001
2225	राष्ट्रीय संगम दल	7बी, ख्योरा, नवाबगंज, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208002
2226	राष्ट्रीय संघर्ष पार्टी	फरीदाबाद, सुजानगंज, जौनपुर-222201, उत्तर प्रदेश।
2227	राष्ट्रीय संत संदेश पार्टी	263, बनारसे निवास, मित्रनगर, लातूर, तालुक व जिला-लातूर-413512, महाराष्ट्र ।
2228	राष्ट्रीय संयुक्त पार्टी	5/36, रेलवे रोड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, जनपद - फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश -209625 ।
2229	राष्ट्रीय संयुक्त समाज पार्टी	एन 8/236-आर-53-1, गणेश धाम कॉलोनी, नेवादा, सुन्दरपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221004.
2230	राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी	124/3, मदक खाना खुशीपुरा, झांसी-284001, उत्तर प्रदेश।
2231	राष्ट्रीय सर्वसमाज पार्टी (इंडिया)	प्लॉट नं0-256, मीतला धाम, रहीवासी संघ, जरी वर्गीस टर्मट कम्पनी के सामने, जनरल ए. के. वैद्य मार्ग, मलाड (पूर्व), मुम्बई- 400097, महाराष्ट्र ।
2232	राष्ट्रीय सर्वजन समाज पार्टी	ग्राम व पो0 - मानधाता, तहसील - सदर, जिला - प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश।
2233	राष्ट्रीय सर्वजन विकास पार्टी	खसरा नं. 496/1, मेन वजीराबाद रोड, ग्राम- पसौंदा, तहसील- लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
2234	राष्ट्रीय सर्वोदय पार्टी	ए - 412, ए0जी0 कॉलोनी, थाना - शास्त्री नगर, जिला - पटना, बिहार - 800025
2235	राष्ट्रीय सवर्ण दल	दुबे का पड़ाव, अलीगढ़ - 202001, (उत्तर प्रदेश)।

2236	राष्ट्रीय स्वर्ण शक्ति पार्टी	299, ग्राउन्ड फ्लोर, गगन विहार, दिल्ली-110051
2237	राष्ट्रीय सैक्युलर काँग्रेस	आशीर्वाद अपार्टमेन्ट, मथुरा द्वारका रोड, सकुन्तला पथ, 5 वीं बयई लेन, दीसपुर, गुवाहाटी-6, असम ।
2238	राष्ट्रीय सैक्युलर मजलिस पार्टी	वार्ड नं.36,गांव-बिहार शरीफ,बड़ी दरगाह,नालंदा,बिहार-803101
2239	राष्ट्रीय शहरी विकास पार्टी	म0 नं0 8/69(40,40ए) पुराना किला, बाबू बनारसी दास नगर, कैण्ट रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001
2240	राष्ट्रीय शक्ति पार्टी (इण्डिया)	80-ए, मुनिरका गाँव, नई दिल्ली-110067
2241	राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी	गांव – लोहवन, पोस्ट - लोहवन, लक्ष्मी नगर – बलदेव रोड, जिला – मथुरा, उत्तर प्रदेश
2242	राष्ट्रीय सिन्धी काँग्रेस	437/बी/1, रुबिया हाऊस, बी/एच, एलिस ब्रिज शॉपिंग सेन्टर, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380 006,गुजरात ।
2243	राष्ट्रीय सूर्य प्रकाश पार्टी	द्वारा श्री पन्ना लाल, पुत्र श्री भोले शंकर, थाना-अवागढ़, जलेसर रोड, कस्बा व डाकखाना-अवागढ़, जिला-एटा, उत्तर प्रदेश ।
2244	राष्ट्रीय स्वराज्य सेना	03,दहिसर संकेत बिल्डिंग,शिव वल्लभ क्रॉस रोड,रावलपाडा,दहिसर (पू),मुंबई,महाराष्ट्र- 400068
2245	राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी	ग्राम व पो0 – पिपरिया,वार्ड नं0 नं0- 3,थाना – मोहनियाँ,बिहार-821105
2246	राष्ट्रीय ओलमा कौन्सिल	3, रशद नगर, गोरखपुर रोड, आजमगढ़ - 276001, उत्तर प्रदेश।
2247	राष्ट्रीय उन्नती पार्टी	प्रस्ताव संख्या 12-ए,ब्लॉक-के 4,मोहन गार्डन,उत्तम नगर,प्रथम पुस्ता,सोनिया विहार,दिल्ली- 110059
2248	राष्ट्रीय उत्तर भारतीय समाज पार्टी	कैलाश इंडस्ट्रीयल इस्टेट के सामने,एस.आर.ए. बिल्डिंग नं0 1,रूम नं0 207,90 फीट रोड,विक्रोली,मुंबई-400079
2249	राष्ट्रीय उत्तराखण्ड पार्टी	124/98, हरिद्वार रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2250	राष्ट्रीय वंचित पार्टी	मकान नं0 – 525(नया), 204(पुराना), पल्टन बाजार सदर, मकन्दुगंज, जिला – प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश - 230001 ।
2251	राष्ट्रीय विकल्प पार्टी	ग्राम-पिपरौली, पोस्ट-जहाँगीराबाद, जनपद-बाराबंकी, उत्तर प्रदेश।
2252	राष्ट्रीय विकास मंच पार्टी	प्लॉट सं0 58, न्यू कालोनी,तिलमापुर, आशापुर, सारनाथ, वाराणसी,उत्तर प्रदेश ।
2253	राष्ट्रीय विकास मोर्चा	557, पाना उद्यान, नरेला, दिल्ली-40 ।
2254	राष्ट्रीय विकास पार्टी	195, मेन अशोका इन्क्लेव, फरीदाबाद, हरियाणा
2255	राष्ट्रीय विकासवादी जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- हरिहरपुर रैकवारी, जिला- बहराइच, उत्तर प्रदेश- 271870
2256	राष्ट्रीय विकलांग पार्टी	114, डी. डी. ए. पॉकेट-2, सेक्टर-7, द्वारका, नई दिल्ली - 110045
2257	राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी	एफ-25, प्रोफेसर कालोनी, कमलानगर, आगरा-282005, उत्तर प्रदेश ।
2258	राष्ट्रीय युवा मोर्चा दल	ग्राम-बलेजी,पोस्ट-फेफना,जिला-बलिया,उत्तर प्रदेश-277503
2259	राष्ट्रीय युवा समाज पार्टी	18- मुस्कान मंजिल, रसुलाबाद, रहमत डुप्लेक्ष के सामने, शाह-ए-आलम, अहमदाबाद, गुजरात- 380028

2260	राष्ट्रीय युवा संघ	बी-117, गली नं. 6, पूर्वी विनोद नगर, दिल्ली-110091.
2261	राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी	कात्रे टाऊनशिप, सावता मैदान के सामने, जुनीवस्ती मेन रोड, बडनेरा जिला-अमरावती महाराष्ट्र- 444701.
2262	राष्ट्रीय संविधानवादी पार्टी	ग्राम-रमपुरा,पोस्ट-हैदरपुर,जनपद-औरैया,उत्तर प्रदेश- 206129
2263	राष्ट्रीय आम जन सेवा पार्टी	सी-90, खसरा नं. 770, मदनपुर, खादर एक्सटेंशन, तहसील- महरौली, नई दिल्ली- 110076.
2264	राष्ट्रीय हिन्द समाज पार्टी	हाउस नं. नया जुगगौर आंशिक,तेह.-लखनऊ जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226028.
2265	राष्ट्रीय इन्साफ पार्टी	604, अनुभव ईलेडको, उद्यान-2, रायबरेली रोड, लखनऊ - 226025, उत्तर प्रदेश
2266	राष्ट्रीय नव निर्माण पार्टी	जयमांदेवी पैंथो स्ट्रीट, ओल्ड ब्रह्मपुर, पोस्ट - ब्रह्मपुर, थाना - बडा बाजार, जिला - गंजम, ओडिसा-760009
2267	राष्ट्रीय प्रजा चक्रव्यूह पार्टी	नं० 73, शान्तिनिकेतनम, डी. के. हल्ली मेन रोड, पालार नगर, बीईएमएल नगर (पोस्ट), बंगारपेट (तालुक), कोलार (जिला), कर्नाटक - 563115 ।
2268	राष्ट्रीय सदाबहार पार्टी	72- तुलसी मंडी, होटल महारानी, महारानी चौक, पोस्ट- गुलजारबाग, थाना- आलमगंज, पटना सिटी, जिला- पटना, बिहार- 800007.
2269	रायलसीमा कांग्रेस पार्टी	5/62, पेड्डुरु रोड, गालीवीडु कास्पा, गालीवीडु पोस्ट एवं मण्डल, वाई.एस.आर. कडपा जिला, आन्ध्र प्रदेश - 516267
2270	रायलसीमा परिरक्षण समिति	डोर नं. 70-125-बी-71, हाईवे के निकट, कल्लुर, कर्नूल टाउन, आन्ध्र प्रदेश - 518003
2271	रायलसीमा प्रजा समिति	मकान नं.5-54,चौदेश्वरी बाजार,पोस्ट एवं मंडल-कोडुमूर ,कर्नूल जिला, आन्ध्र प्रदेश-518464
2272	रायलसीमा राष्ट्र समिति	डोर नं. 22/160, वसन्थपेटा, कडप्पा डिस्ट्रिक्ट, प्रोद्दातुर - 516 360, आन्ध्र प्रदेश ।
2273	रीयल डेमोक्रेसी पार्टी	37, अक्षर डायमंड मार्केट, सरदार चौक, मिनी बाजार, वराछा रोड, सूरत, गुजरात - 395006 ।
2274	रिजनल डेमोक्रेटिक सेकुलर कांग्रेस	लोअर लम्पेयरिंग, पोस्ट - लाबन, जिला - ईस्ट खासी हिल्स, शिलाँग - 793004, मेघालय ।
2275	रिपब्लिकन बैकवर्ड काँग्रेस	प्लाट सं० - 04, गली सं०1,वाई सं०1, एम. सी. - कालोनी, चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाण ।
2276	रिपब्लिकन बहुजन सेना	305, शाहू स्मृति बिल्डिंग, थर्ड फ्लोर, महात्मा फुले नगर, मीनाताई ठाकरे उद्यान के पीछे, ठाणे (वेस्ट), महाराष्ट्र - 400606
2277	रिपब्लिकन लेबर पार्टी	ब्लॉक-4, हाउस नं०-236,7 वीं माइल चुमुकेडिया, दीमापुर-797 103, पोस्ट बॉक्स - 354, नागालैण्ड ।
2278	रिपब्लिकन पक्ष (खोरिपा)	ईसा हटमेंटस, 8-9, आजाद मैदान, मुम्बई महा नगर पालिका के सामने, किला, मुम्बई-400001, (महाराष्ट्र) ।
2279	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ	सतनाम मैन्सन, तीसरा मंजिल, बिल्डींग नं.245, पी डिमैलो रोड, रोल

	इंडिया	नं.1393, म्यूनिसीपल को-आपरेटिव बैंक के उपर, जीपीओ के अपोजिट, मुंबई -400001
2280	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले)	नं.3/4,इंसा हटमेंट,आजाद मैदान,फोर्ट,मुंबई,महाराष्ट्र-400001
2281	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक)	मुकुन्द निवास, इंडिया नगर, लाटुर-413512(महाराष्ट्र) ।
2282	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (काम्बले)	ए, 703, सूर्याकिरण, को. औप. हाऊसिंग सोसाइटी, प्लाट नं. 12 एण्ड 13, सेक्टर-5, धनसौली, नवी मुंबई- 400701, महाराष्ट्र।
2283	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (कर्नाटक)	कार्यालय नं.- 49/1, बी. नागासंद्र, यमलूर पोस्ट, बैंगलुरु, कर्नाटक-560037.
2284	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (खोब्रागडे)	गीता विला, ईस्ट मारेड पल्ली,सिकन्दराबाद, (आन्ध्र प्रदेश) ।
2285	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय)	मकान नं0 - 67, 68, गली नं0 - 15, ब्लॉक - 28, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली - 110032
2286	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (रिफॉर्मिस्ट)	बी-12/704, विजय पार्क, कासारवडावली, जी.बी. रोड, ठाणे (पश्चिम), महाराष्ट्र - 400615
2287	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (शिवराज)	10, सोलई स्ट्रीट, अयानावरम,चेन्नई-600023, (तमिलनाडु) ।
2288	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (सोशल)	प्रोपर्टी न. 2618, वार्ड नं. टुकुम-2, (पुराना वार्ड 1 सी), समता कॉलोनी, एसटी वर्कशॉप के सामने, ताडोवे रोड, चन्द्रपुर, महाराष्ट्र- 442401
2289	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी	बी-9/667, देव नगर, करोल बाग, नई दिल्ली - 110005
2290	रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (ए)	1/16, संजय काम्पलैक्स, टी. टी. नगर, भोपाल-462003, (मध्य प्रदेश)।
2291	रिपब्लिकन प्रेसिडियम पार्टी ऑफ इंडिया	ऊरुली-कंचन, पुणे-412202, (महाराष्ट्र) ।
2292	रिपब्लिकन सेना	शॉप नं0 -6, न्यू निर्मल सोसाइटी, 189, ढोले पाटील रोड, अक्षय कॉम्प्लेक्स समोर, पुणे, महाराष्ट्र - 411001
2293	रिवोल्यूशनरी कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (रसिक भट्ट)	84-आशुतोष मुखर्जी रोड, कोलकाता-700025, पश्चिम बंगाल ।
2294	रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	5221, गली नं.-115,बी-ब्लॉक, सन्तनगर,बुराडी, दिल्ली-110084
2295	रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	शहीद सरवण सिंह चीमा मेमोरियल ट्रस्ट भवन, 352/1, फगवाड़ी मोहल्ला, गढ़ा, जालंधर,पंजाब - 144022 ।
2296	रेवोल्यूशनरी पार्टी	एस एच-3/40,आर.एस.,विश्वनाथपुरी कालोनी,नवलपुर,वाराणसी,उत्तर प्रदेश-221003
2297	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट	टीसी 24/113, पनविला, थाईकाडु पो. आ.,तिरुवनन्थापुरम, पिन

	पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	कोड-695014
2298	रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ केरल (बोल्शेविक) आर. एस. पी. बी	केरला स्टेट कमिटी कार्यालय, फ्यूचर सेंटर, शाहोदरा, समाजम रोड, चेट्टाकुलंगरा, तिरुवनंतपुरम (केरल)
2299	राइट इंडिया मूवमेंट पार्टी	सेंट्रल मेल बॉक्स, श्री दी एम के हाइट्स, फ्लॉट नंद 402, नंद 32-10- 32, वैकटेश्वरा कॉलोनी, वार्ड नं० 65, शीला नगर, विश्वपट्टणम, आन्ध्र प्रदेश- 530012
2300	राइट पार्टी ऑफ इंडिया	ग्राम व पोस्ट - उत्तर बहीरगाछी, पी.एस. - नाकाशीपाड़ा, जिला - नदिया, पश्चिम बंगाल - 741126
2301	राइट टु रिकॉल पार्टी	एफ-001-ए, सुपथ-2 कॉम्प्लेक्स, जुना वाडज बस स्टेन्ड के सामने, आश्रम रोड, अहमदाबाद, गुजरात- 380013
2302	राइजिंग पीपल्स पार्टी	मकान नं०-202, भूतल, फैलोशिप कॉलोनी, दीमापुर, नागालैंड-797112
2303	रोटी कपडा और मकान पार्टी	ब्लॉक डी, बाबा कॉम्प्लेक्स, हर्ष नगर इटावा, उत्तर प्रदेश- 206001.
2304	रायथु बिद्धा पार्टी	8-16-93/1, सौभाग्य कॉलोनी, श्रीराम नगर, चिंतालकुन्टा, हैदराबाद, तेलंगाना- 500074
2305	साफ पार्टी	547/229, जलालपुर, राजाजी पुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226017
2306	सब जन विकास राष्ट्रीय पार्टी	शॉप/हाउस ऑफ नबी रसूल अंसारी पुत्र मोहम्मद हुसैन, गांव व पोस्ट- बारागाँव, वाया खरासारा, जिला-बलिया, उत्तर प्रदेश-277302
2307	सब समान पार्टी	मकान सं० - 95 क, गांव सरसण्डा, पोस्ट - गोपरामऊ, तहसील व जिला - लखनऊ, उत्तर प्रदेश
2308	सब्बाथ पार्टी	दुकान नं. - 3, लक्ष्मी निवास बिल्डिंग, एम. एन. रोड, कुरला (पश्चिम), मुंबई - 400070, महाराष्ट्र ।
2309	सभी जन पार्टी	ई-1/32, दीनदयालपुरम, तौधकपुर रोड, नौबस्ता, कानपुर, उत्तर प्रदेश- 208021.
2310	सबका दल यूनाइटेड	ग्राम व पोस्ट- सैरपुर, रायथा रोड, ब्लॉक- चिनहट, जिला- लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226201 ।
2311	सबकी पार्टी	बी-1/1, सेक्टर-जी, जानकीपुरम, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2312	सबसे अच्छी पार्टी	मकान संख्या- 222, अमीपुर नंगौला, माजरा- हैदरनगर, तहसील व जिला- हापुड, उत्तर प्रदेश।
2313	सबसे बड़ी पार्टी	41/48, पॉकेट- 2, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली- 110091
2314	साडा हक पार्टी	मकान सं. 29/9/3, 29/8/2/3, वीपीओ महीलपुर, तहसील- गढ़शंकर, जिला- होशियारपुर, पंजाब- 144527
2315	साडा पंजाब पार्टी	शांति नगर, ढंडारी कलां, लुधियाना, पंजाब - 141001 ।
2316	सदान विकास पार्टी	नॉर्थ ऑफिस पारा, गौरी शंकर नगर, मकान नं.-276, दोरन्डा, राँची, झारखण्ड ।

2317	सदभावना पार्टी	कमरा नं. 14, प्रथम तल, लखनऊ होटल श्रीराम रोड, चौराहा अमीनाबाद, लखनऊ-226018,(उत्तर प्रदेश) ।
2318	सैनिक समाज पार्टी	317, शिवा डिस्पोजल कौम्प्लेक्स, संयुक्त यात्रा बस अड्डा रोड, चन्द्रभागा, आदर्श ग्राम, ऋषिकेश, जिला-देहरादून, उत्तराखण्ड-249201
2319	सजग समाज पार्टी	मोहल्ला- नासही, पोस्ट- जफराबाद, तहसील/सदर/जिला- जौनपुर उत्तर प्रदेश- 222180
2320	सकाला जनुला पार्टी	नं.7-23/1,एम.वेंकटायपलेम,खम्मम ग्रामीण,खम्मम जिला,तेलंगाना- 507003
2321	शक्ति भारत देशम	सं. 2/58, वैरावन चेट्टी स्टोर,पाचीयाम्मन पाडीथुराई, मदुरै- 625001,तमिलनाडु।
2322	सामान्य प्रजा पार्टी	डी0 नं0 48-11-10/4, अशोक नगर, एम.वी.एस. ज्वैलर्स के सामने, असीलामेट्टा, विशाखापट्टनम, आन्ध्र प्रदेश - 530016
2323	समग्र उत्थान पार्टी	मकान नं. बी/9, विवेकानन्द पार्क मार्ग, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना, बिहार- 800013
2324	समग्र विकास पार्टी	1147/8 (157), पी0 एल0 शर्मा रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश – 250001
2325	समैक्या तेलुगु राज्यम	डी. नं. 1-39-बी (क्रम सं. 1026ए), चायापुरम गाँव, वज्राकर मंडल, अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश - 515842
2326	समैक्यांध्र परिरक्षणा समिति	मकान नं. 8-3-580/1, येल्लारड्डीगुडा,अमीरपेट - 500073, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
2327	समाज अधिकार कल्याण पार्टी	ऑफिस नं.822-823, आठ वाँ तल, मैसर्स बाजवा डेवलपमेंट लिमिटेड, सन्नी बिजनेस सेन्टर, न्यू सन्नी एन्कलेव, सेक्टर – 125, मोहाली, पंजाब
2328	समाज भलाई मोर्चा	134/17-सी, मिलाप नगर, होशियारपुर, पंजाब – 146001
2329	समाज परिवर्तन पार्टी	ग्राम-सलारपुर, पोस्ट-करोरा, तहसील-मछलीशहर, जनपद-जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
2330	समाज रक्षक पार्टी (भारतीय क्रांती)	ग्राम-केन,पोस्ट-कनवार,तहसील-सिराथु,जनपद-कौशाम्बी,उत्तर प्रदेश- 212217
2331	समाज सेवा पार्टी	मकान नं. 27, बहरामगढ़, तहसील- बुढाना,जिला- मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश.
2332	समाज सेवक पार्टी	568ख/223 सेक्टर-7, नियर पुराना भारत गैस गोदाम, गीतापल्ली, आलमबाग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2333	समाज सुधारक पार्टी	मकान सं.723/2,मंगल पाण्डेय नगर,सेक्टर-2,विश्वविद्यालय रोड,मेरठ,उत्तर प्रदेश-250004
2334	सामाजिक एकता पार्टी	22, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, सोनीपत-131001, (हरियाणा) ।
2335	सामाजिक इंसाफ पार्टी (राष्ट्रवादी)	मकान नं0 - 53, ग्राम - लहरी, पोस्ट - कुरियार, जिला - बस्ती, उत्तर प्रदेश ।
2336	सामाजिक जनतांत्रिक पार्टी	मुकाम राजा मार्किट, सिनेमा रोड,गोपाल गंज नगर पालिका, पोस्ट - गोपालगंज-841428, जिला- गोपालगंज (बिहार) ।

2337	सामाजिक न्याय पार्टी	एम-22, महावीर पार्क, मारिस रोड, अलीगढ़-202001, (उत्तर प्रदेश)।
2338	सामाजिक संघर्ष पार्टी	मकान नं0 59, गली नं0 2, गुरु अर्जुन देव नगर, तरन तारन रोड, अमृतसर, पंजाब-143002
2339	समाजतांत्रिक पार्टी ऑफ इण्डिया	40/1, बी0 रोड0, बामनगाछी, हावड़ा-711006, पश्चिम बंगाल ।
2340	समाजवादी आम जनता दल	बेलातल रोड, लाया पैलेस के पीछे, वार्ड नं.-2, नौगोंव, जिला-छतरपुर, मध्य प्रदेश- 471201
2341	समाजवादी आन्दोलन पार्टी	ग्राम+पोस्ट-दौलतपुर गौहावर बिल्लौच, तहसील-चांदपुर, जिला-बिजनौर, जिला-वाराणसी, उत्तर प्रदेश-246734
2342	समाजवादी फॉरवर्ड ब्लॉक	7-5-14/बी, वैकटेश्वर कॉलोनी, महबूब नगर, तेलंगाना - 509001
2343	समाजवादी जन परिषद	जय माल्हा प्रसाद, रेती बुन्देर रोड, महागिरि, ठाणे (पश्चिम) - 400601, (महाराष्ट्र)।
2344	समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक	90 कौटिल्या नगर, बी.एम.पी.रोड, पो.-वेटनरी कॉलेज, राजा बाजार, पटना-800014, बिहार
2345	समाजवादी जनता पार्टी (चन्द्र शेखर)	L एक्सटेंशन 358, मोहन गार्डन, रामा पार्क रोड, उत्तम नगर, नई दिल्ली - 110 059
2346	समाजवादी जनता पार्टी (कर्नाटक)	कमरा संख्या-21, द्वितीय तल, हमीद शाह कॉम्प्लेक्स, नं.-2, कब्बनपेट, मेन रोड, उल्सूर गेट, पुलिस स्टेशन के पीछे, बंगलौर-560002, कर्नाटक।
2347	समाजवादी जनक्रान्ति पार्टी	ए-454, शास्त्री नगर, दिल्ली- 110052.
2348	समाजवादी क्रान्ति दल	3/197, विधायक पुरम, विनय खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2349	समाजवादी लोक परिषद	कुसुमपुरम कॉलोनी, नत्थुपुर रोड, पोस्ट - कुरथौल, थाना - परसा बाजार, पटना बिहार-804453
2350	समाजवादी समाज पार्टी	वार्ड नं. - 13, लोहिया नगर, नगर पंचायत - सलेमपुर, जनपद - देवरिया, उत्तर प्रदेश - 274001
2351	समान आदमी समान पार्टी	ग्राम- अमिलवान, पोस्ट ऑफिस- खुटार, थाना माड़ा, जिला- सिंगरौली, मध्य प्रदेश- 486886.
2352	समान अधिकार पार्टी	62/271, नगला काछियान, (मुस्तफा क्वार्टर कॉलोनी) आगरा कैन्ट, आगरा, उत्तर प्रदेश।
2353	समान भागीदारी पार्टी	538ख/404, दीनदयाल नगर, खदरा, सीतापुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226020
2354	सामान्या मक्कल नाला काची	एस.एफ.नं.1172/12 ए, करूर बाईपास रोड, इन्दिरा नगर, इरोड, तमिलनाडू-638002
2355	सामान्य जनता पार्टी (लोकतांत्रिक)	नं0 - 17, मकान नं0 - 29, बसावना दुर्गा (कोरम्मा कैम्प), गंगावती, जिला - कोप्पल, कर्नाटक - 583227
2356	समर्थ भारतवर्ष पार्टी	39ए- डी.डी.ए फ्लैट्स (पुराना), चिल्ला, मयूर विहार, फेस-1, दिल्ली-110091
2357	समर्थ किसान पार्टी	प्रबंधक- मदर टेरेसा कान्वेंट स्कूल, ग्राम व पोस्ट - मनौरी, तहसील -

		चायल, जनपद - कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश।
2358	समता क्रान्ति दल	प्लॉट नं. 3547/3875, मौजा गौतम नगर, नगर, गार्गे छाका, टेम्पल रोड, ओल्ड उन, भुवनेश्वर-751002, ओडिसा।
2359	समता पार्टी	220, विठ्ठलभाई पटेल हाऊस, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110001
2360	समता समाधान पार्टी	ई-1/150, अरेरा कालोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश।
2361	समता संघर्ष पार्टी	55बी, राधेपुरी एक्सटेंशन-1, दिल्ली - 110051
2362	समाथुवा मक्कल कझगम	139- टी.एच. रोड, कलादीपेट, थिरुवोतियूर, चेन्नई तमिल नाडु-600019
2363	संभाजी ब्रिगेड पार्टी	साई कॉम्प्लेक्स, गाला नं.7, नवा मोंढा, हिंगोली, तालुका एवं जिला- हिंगोली, महाराष्ट्र-431513
2364	संविधान बचाओ पार्टी	24/ए/2, एस.डी.मुखर्जी लेन, डाकघर-रिसडा, थाना-रिसडा, जिला- हुगली, पश्चिम बंगाल-712248
2365	समदर्शी समाज पार्टी	ग्राम- मानिकापुर मजरे सराय पाण्डेय, पोस्ट- जौरास, परगना व तहसील- हैदरगढ़, जिला- बाराबंकी, उत्तर प्रदेश ।
2366	सामूहिक एकता पार्टी	13/51, परमट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश- 208001
2367	सम्पूर्ण समर्पण पार्टी	आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर, भुजौली कॉलोनी, प्लॉट नं. ई.डब्ल्यू.एस- 209-210, देवरिया, उत्तर प्रदेश-27400
2368	सम्पूर्ण भारत क्रांति पार्टी	डब्ल्यू जैड- 150, ग्राम- बुढेला, विकासपुरी, नई दिल्ली- 110018
2369	सम्पूर्ण क्रान्ति दल	ग्राम - खजूरी कलॉ, पोस्ट - खजूरी खुर्द, कोरॉव, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2370	सम्पूर्ण समाज पार्टी	म.न. 464, ग्राम व पोस्ट- गैरवाह, थाना- सरपतहाँ, तहसील- शाहगंज, जनपद- जौनपुर, उत्तर प्रदेश-223103
2371	समरस समाज पार्टी	राजी जरई, मौजा - घामडौज, तहसील - सोहना, जिला - गुडगाँव, हरियाणा ।
2372	सम्राट अशोक सेना पार्टी	मकान नं. 1546, ग्राम व पोस्ट- बेलसर, तहसील- तरबगंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश-271401
2373	समृद्धा ओडिशा	201, सीतलकुंज अपार्टमेंट, प्लॉट नं0 एम 63, मधुसूदन नगर, भुवनेश्वर-751001, उड़ीसा।
2374	समता दल (प्रगतिशील)	मकान सं0 - 480, गाँव - लिसाड़ी, तहसील व जिला - मेरठ, उत्तर प्रदेश - 250002
2375	समता समाजवादी काँग्रेस पार्टी	के - 56/114-7 (रानीफाटक), असनगंज, वाराणसी, 221 001, उत्तर प्रदेश
2376	समता विकास पार्टी	मकान हरभजन जांगडे, वार्ड न0 17, मण्डीदीप, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश ।
2377	समतावादी रिपब्लिकन पार्टी	108, रामपुरम, पी.ए.सी. रोड, कानपुर, उत्तर प्रदेश ।
2378	समुगा मक्कल काची	नं. 3, मुदालियर गली, वलाम गाँव, काँचीपूरम जिला, तमिल नाडु - 602105
2379	समुगा समतुवा पडाई	4/388, राम गार्डन, अन्ना सालई, पालावाक्कम, चैन्नई- 600041, तमिलनाडु ।

2380	सम्यक् परिवर्तन पार्टी	ग्राम - जानकी नगर, रानीपुरवा स्कूल के पीछे, विकास खण्ड - झंझरी, निकट मण्डे नाला पुल, पोस्ट - बस स्टाप, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश
2381	सम्यक पार्टी	ग्राम व पोस्ट- माण्डा, जिला- इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश-212104
2382	सनातन समाज पार्टी	रामानन्द नगर, बेगमपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, (उत्तर प्रदेश)।
2383	सनातन संस्कृति रक्षा दल	ग्राम - तराँव, पो. थाना एवं तहसील - कोराँव, जिला - इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2384	संघर्ष पार्टी ऑफ इंडिया	मकान सं. 314, शान्ति निकेतन, डी0 एम0 रोड, बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश - 203001
2385	संघर्ष समाज पार्टी	मकान नं0 - 44, ग्राम - ढका, पोस्ट - अखा, तहसील - आँवला, जिला - बरेली, उत्तर प्रदेश - 243001
2386	संघर्ष सेना	11, साईराज कॉम्पलेक्स, पंडित नाका, शाहपुर, ता. शाहपुर, जिला. ठाणे, महाराष्ट्र - 421601
2387	साँझी विरासत पार्टी	506, चन्द्रलोक कॉलोनी, गली नंबर- 3, मंडोली रोड, शाहदरा, दिल्ली- 110093
2388	संख्यानुपाती भागीदारी पार्टी	नए विग्रहपुर, मीठापुर, (बस स्टैंड) पटना-800001, बिहार
2389	सन्मान राजकीय पक्ष	56, तिरुपति नगर, लोहारा, तालुक व जिला - यवतमाल महाराष्ट्र - 445002
2390	संयुक्त दस्तकार पार्टी	पी- 205, बस्ती ख्वाजा, मीर दर्द, बेरन रोड, नई दिल्ली- 110002
2391	संयुक्त किसान विकास पार्टी	ग्राम- सुरौन्धा, पोस्ट- बड़की बसौली, थाना- डुमरांव, जिला- बक्सर, बिहार- 802119
2392	संयुक्त समाजवादी दल	11, जोन्स लाइन्स, आगरा-282004, उत्तर प्रदेश ।
2393	संयुक्त विकास पार्टी	ग्राम - सारसौल, पोस्ट ऑफिस - मुनी, थाना - अरनियाँ, तहसील - खुर्जा, जिला - बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश ।
2394	संयुक्त समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - खारी, जिला-बिजनौर, उत्तर प्रदेश
2395	सपाक्स पार्टी	144, विद्यानगर, होशंगाबाद रोड भोपाल, मध्य प्रदेश- 462004
2396	सर्व समाज विकास पार्टी	बाम्बा रोड, सैलाई, पो. ओ. - सैलाई, जिला - फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश।
2397	सर्व साँझी पार्टी	सागर हास्पिटल, नियर पीर बाबा मादी शाह जी, बस्सी ख्वाजू, होशियारपुर, पंजाब- 146001
2398	सरदार पटेल सिद्धान्त पार्टी	ग्राम- नेवादा, पोस्ट- बहुता, तहसील- पट्टी, जिला- प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश- 230135 ।
2399	सरदार वल्लभभाई पटेल पार्टी	1, ओलेकर हाऊस, दत्तापेडा रोड, बोरीवली पूर्व, मुम्बई - 400 066
2400	सर्व जन पार्टी (भारत)	ई-734, कृष्णा मंदिर के पीछे, शकरपुर, दिल्ली- 110092
2401	सर्व जन सर्व समाज पार्टी	2/248, टी एफ, सुभाष नगर, नई दिल्ली - 110027
2402	सर्व राज्य पार्टी	548घ/17, तेजी खेड, तालकटोरा रोड, मानक नगर, जे.आर.पी.एफ. के पास, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226011.
2403	सर्व समाज पार्टी	46, राजीव नगर, मण्डी चौक, गढमुक्तेश्वर, हापुड, उत्तर प्रदेश- 245101

2404	सर्व सम्भाव पार्टी	यादव भवन, पुवायाँ रोड, ग्राम व ब्लॉक- बान्दा, तहसील- पुवायाँ, जिला- शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश।
2405	सर्व विकास पार्टी	गाँव – प्रतीत नगर, एन0 एच0 – 58, पोस्ट ऑफिस के नजदीक, रैवाला, देहरादून, उत्तराखण्ड -249205
2406	सर्व हित पार्टी	602-बी, खसरा सं0 298/199, 298/207, 298/209, मौहल्ला बॉस, सुनार वाली गली, ग्राम – घिहोरनी, नई दिल्ली - 110030
2407	सर्व जन समाज पार्टी (नन्द किशोर चावला)	चावला प्रोपर्टीज, लक्ष्मी विहार, कैमरी रोड, हिसार, हरियाणा ।
2408	सर्व जनता पार्टी	सेन्ट्रल पार्टी ऑफिस #17, जावाली (ग्राम), पिलंगिरी (पोस्ट), शिमोगा(तालुक), जिला- शिमोगा-577 227, कर्नाटक।
2409	सर्व समाज जनता पार्टी	ग्राम व पोस्ट- ओरिल (खपडियाचक), तहसील- फूलपुर, जिला- आजमगढ़ उत्तर प्रदेश- 223222
2410	सर्व समाज जनहित पार्टी	घूरीपुर (जखौव) म ज्ञानपुर रोड गोपीगंज, तहसील-ज्ञानपुर, जिला- भदोही, उत्तर प्रदेश- 221304
2411	सर्व समाज कल्याण पार्टी	बिजराज भवन, ग्राम – सिंघारपुर, पो. - अहमदपुर, मथुरा रोड, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।
2412	सर्व सुरक्षा पार्टी	ग्राम व पोस्ट- तिलखवार, जिला - करछना, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
2413	सर्वधर्म पार्टी (मध्य प्रदेश)	120/1, अशोका गार्डन, तहसील – नजूल, जिला – भापाल – 462023, मध्य प्रदेश
2414	सर्वहारा समाज पार्टी	68-ए ब्लॉक, दारूलशफा, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
2415	सर्वजन हिताय पार्टी	70/59, लीडर रोड, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश- 211003
2416	सर्वजन कल्याण लोकतांत्रिक पार्टी	कॉफेड, मीन भवन, तृतीय तल, न्यू पुनाईचक, वेस्ट बोरिंग कैनाल रोड, पटना, बिहार – 800023
2417	सर्वजन कल्याण पार्टी	के-73 के सामने, हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना बिहार-800020
2418	सर्वजन समाज पार्टी (डी)	ग्राम व पोस्ट आफिस - वाडला बांगर, तहसील-गुरुदासपुर, जिला- गुरुदासपुर, -143511 पंजाब।
2419	सार्वजनिक क्रान्ति पार्टी	सूर्य लॉज, रोड वेज, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश।
2420	सर्वे भवन्ति सुखिनः पार्टी	ग्राम व पोस्ट - ममदर, तहसील व थाना - रामपुर नैकिन, जिला - सीधी, मध्य प्रदेश।
2421	सर्वहारा दल	केवला फरियट्टा, बाया – गिधौर, जिला – जमुई , (बिहार)।
2422	सर्वहित समाज सेवा पार्टी	मकान नं0 – 177, ग्राम व पोस्ट – शाहजहाँपुर बैजना, थाना – दादौ, जिला – अलीगढ़, उत्तर प्रदेश - 202133 ।
2423	सर्वजन आवाज पार्टी	नं.528, ब्लॉक-बी, प्लैटिनम हाइट्स, सेक्टर-18बी, द्वारका, नई दिल्ली-110078
2424	सर्वजन लोक शक्ति पार्टी	टी.ए.184/2, तुगलकाबाद एक्सटेंशन, नई दिल्ली- 110019
2425	सर्वजन नवयुग विकास पार्टी	ग्राम+पो0 – बिसुनपुर, बेदौलिया, थाना-जन्दाहा, जिला-वैशाली, बिहार- 844505
2426	सर्वजन समता पार्टी	774, गीतांजलि विहार, वार्ड नंबर 28, लोनी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश – 201102

2427	सर्वजन सनातन पार्टी	म. नं.-बी-1/148,ए-1ए,अस्सी,वाराणसी,उत्तर प्रदेश- 221005
2428	सर्वजन सेवा पार्टी	163/200/1, सलारी का हाता, चिकमण्डी, मौलवीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-18
2429	सर्वोच्च राष्ट्रीय विकास महापरिषद	सी - 90, डी डी ए फ्लैट, वैस्ट गोरख पार्क (न्यू जाफराबाद) , शाहदरा, दिल्ली - 110032
2430	सर्वोदय भारत पार्टी	बी - 19, सेक्टर - 'Q' अलीगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2431	सर्वोदय कर्नाटक पक्ष	“अनिकेतना” , प्रथम तल, एस.जे.एम. समुदाय भवन,कालीदास रोड, गाँधीनगर, बैंगलोर - 560 009,(कर्नाटक) ।
2432	सर्वोदय प्रभात पार्टी	बी-3/231,नंद नगरी, दिल्ली-110093
2433	सर्वप्रिये समाज पार्टी	मोहल्ला- अशोक नगर शहरिया, विष्णुपुरम कॉलोनी, जिला- इटावा, उत्तर प्रदेश-206001
2434	सर्वशक्ति दल	डी-60, देव नगर, मुरलीपुरा, सीकर रोड, जयपुर, राजस्थान- 302039
2435	सर्वश्रेष्ठ दल	ग्राम - शाहदाऊदपुर उर्फ ककोरगहना,पो. एवं तहसील - सदर, जिला - जौनपुर,उत्तर प्रदेश ।
2436	सर्वजन महासभा	बी-36/40, कबीर नगर, दुर्गाकुंड, वाराणसी - 221 005,उत्तर प्रदेश ।
2437	सशक्त भारत पार्टी	मकान नं0 345,पराशर भवन,जाटों का मोहल्ला,पोस्ट-कन्नौज,तहसील-भदेसर,जिला-चितौड़गढ़ राजस्थान- 312613
2438	साथी और आपका फैसला पार्टी	प्लॉट नं0 - 2005, ग्राम - चमरहरा, महनार रोड, जिला - वैशाली, बिहार - 844507
2439	सत्तरी युवा मोर्चा	एच नं0 - 48, कनकिरे, गुलेली, सत्तरी, गोवा ।
2440	सत्तातगम मक्कल कच्ची	1-3/1020 बी,ग्रीन गार्डन,यूड्यूरियल पुन्गा रोड,विनायगम्पट्टी,जिला-सेलम,तमिल नाडु- 636008.
2441	सत्य बहुमत पार्टी	ए-112, प्रताप नगर, गली नं. 15, मयूर विहार फेस-1, दिल्ली-110091
2442	सत्य क्रान्ति पार्टी	म0 नं0 - 176 ई, शिवपुर, सहबाजगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2443	सत्य शिखर पार्टी	मकान सं0 - 70-ए, ग्राम - नरहरपुर (शंकरपुर), पोस्ट ऑफिस - मियागंज, जिला - फैजाबाद, उत्तर प्रदेश - 224208
2444	सत्य विजय पार्टी	101- सी, प्रेस हाऊस, 22,फिरोज गाँधी प्रेस कॉम्प्लेक्स, आगरा - मुम्बई रोड, इन्दौर - 452008 , मध्य प्रदेश।
2445	सत्यनिष्ठ जन सेवक पार्टी	मकान नं.128,वार्ड नं.5,ललित नगर,एसडीएम निवास के सामने,तहसील व पोस्ट-सुन्दर नगर,जिला-मण्डी,हिमाचल प्रदेश-175019
2446	सत्यवादी पक्ष	कमरा संख्या - 4-5, ओरायान कॉम्प्लेक्स, होटल राजधानी के सामने, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद - 431005, महाराष्ट्र ।
2447	सत्ययुग पार्टी	ग्राम-सूखा टोला, डुमरी,पोस्ट-कसया, जिला-कुशीनगर,उत्तर प्रदेश ।
2448	सौराष्ट्र जनता पक्ष	मकान संख्या- 6/3/116, हिम्मत लाल परमार रोड, वादिपारा, सुरेन्द्र नगर, गुजरात- 363001
2449	सवर्ण समाज पार्टी	ईस्ट ऑफ स्टेडियम, नन्द हार्डवेयर, सिरमौर रोड, रीवा-486001, (मध्य प्रदेश) ।
2450	सेक्यूलर एलाइंस ऑफ	केशवानी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, नवजीवन कॉर्पोरेटिव बैंक लि0, चोपडा

	इण्डिया	कोर्ट ब्रांच, उल्हास नगर, 421003, महाराष्ट्र ।
2451	सेक्यूलर डेमोक्रेटिक कांग्रेस	नं. 958/डी, वाई नं. 13, (पुराना नं. 722/डी, वाई नं. 10), (केलाकम पुलिस स्टेशन के पास), पी.ऑ- केलाकम ग्राम पंचायत, जिला- कन्नूर, केरल- 670674
2452	सेक्युलर डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी ऑफ इण्डिया	6-2-44/3ए, जम्मीबांदा स्ट्रीट, खम्माम-507001, आन्ध्र प्रदेश ।
2453	सेकुलर इंकलाब पार्टी	मकान नं.202,राजीव गार्डन,लोनी,गाज़ियाबाद,उत्तर प्रदेश-201102
2454	सेक्युलर नेशनल द्रविड़ पार्टी	काडक्कावूर बिल्डिंग, थुमपारा नगर,मुन्डाक्कल, कोल्लम शहर, कोल्लम-691001, केरल ।
2455	सेक्यूलर पार्टी ऑफ इंडिया	मं. नं. 122-ए, रामविहार, ओल्ड जानीपुर,जम्मू-180007, (जम्मू व कश्मीर) ।
2456	सेक्युलर रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी	एडम स्टार कॉम्पलेक्स, कमरा नं. 132, पहली मंजील, द्वितीय ब्लॉक, थोडुपुझा, इडुक्की जिला, केरल।
2457	सहजधारी सिख पार्टी	622/9, टेलीफोन एक्सचेंज के पास, रायकोट, जिला लुधियाना, पंजाब ।
2458	सर्व भलाई पार्टी	मकान सं. 625, नया आजाद नगर, सुल्तान विंड रोड,अमृतसर पंजाब-143001
2459	सर्विस अदहेयार्ड विथ इंटीग्रेटी देसम पार्टी	प्लॉट नं-29,फेज-1,मेन रोड,नियर पुलिस स्टेशन,वनास्थालिपुरम,हैदराबाद तेलंगाना - 500070
2460	सेवा दल	532,(ऑपोजिट 126-आर),सी.आर.कॉलेज रोड,माडल टाउन,रोहतक-124001,हरियाणा
2461	सेवा साम्राज्य पार्टी	ढबुनाईक तांडा, आनंदवाडी, ता0 – पालम, जि0 – परभणी, महाराष्ट्र – 431536
2462	शक्ति सेना (भारत देश)	सिमि भवन, नेशनल हाईवे 43,कास लेन तिराहा, देवपुरी, रायपुर छत्तीसगढ़- 492015
2463	शक्तिमान समाज पार्टी	फ्लाट नं.-133,कौशलपुरी फेस-II, ग्रामर स्कूल के पास, पोस्ट-खोजपुर, जिला-अयोध्या (फैजाबाद), उत्तर प्रदेश- 224001.
2464	शाने हिन्द फोरम	बी-111/1, बी- ब्लॉक, अशोक बिहार फेज-1, नई दिल्ली- 110024
2465	शान्ति मोर्चा	एक्स-919, चॉंद मौहल्ला, गाँधी नगर, दिल्ली - 110031.
2466	शेतकरी विचार दल	49, ममता, आनन्दनगर को-ओप. हाउसिंग, गुलमोहर रोड, सावेदी, अहमदनगर-414001, (महाराष्ट्र) ।
2467	शाइनिंग इंडिया पार्टी	वाई नं. - 6, पोस्ट - देशनोक, जिला - बीकानेर, राजस्थान - 334801
2468	शिरोमणि अकाली दल (अमृतसर) (सिमरनजीत सिंह मान)	ग्राम-किला, यस हरणाम सिंह-पो. आ. तेल्लानिमा,जिला-फतेहगढ़ साहब, पंजाब-140406.
2469	शिरोमणि अकाली दल (रिपब्लिक)	9. हकीकत नगर, गुरु तेग बहादुर नगर, दिल्ली-110009
2470	शिरोमणि अकाली दल (टकसाली)	नं. 30, गुरु हर राय अवेन्यु, खालसा कॉलेज के सामने, अमृतसर, पंजाब- 143001

2471	शिरोमणि लोक दल पार्टी	भवन संख्या - 108, कृष्ण मंदिर के निकट, दाना मंडी के सामने, जी.टी. रोड, अमृतसर, पंजाब ।
2472	शिरोमणि यूथ अकाली दल (कहलो)	5/5051, शक्ति नगर, खंडवाला, चहार्ता, अमृतसर (पंजाब) ।
2473	शिवाजी कांग्रेस पार्टी	मकान नं. 31, पो० खाकुर्दी, तालुका-मालेगांव, जिला-नासिक, महाराष्ट्र ।
2474	शिवराज्य पार्टी	फ्लैट नं. बी/102, डेक्कन अपार्टमेन्ट, यूनियन पार्क, पाली हिल, खार (पश्चिम)- 400052
2475	शोषित समाज अधिकार पार्टी	तहसील-कोल, थाना-गांधी पार्क, जनपद-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश-202001
2476	शोषित समाज दल	सेंटर ऑफिस:- दक्षिणी मंदिरी, पटना-800001, (बिहार) ।
2477	शोषित समाज पार्टी	4/8, त्यागराज नगर (सफ्दरजंग बस टर्मिनल), नई दिल्ली- 110003.
2478	शोषित संदेश पार्टी	गिर्द बड़गाँव, संद रविदास नगर, भदोही, उत्तर प्रदेश ।
2479	श्रम शक्ति पार्टी	जे-1749, जे- ब्लॉक, जहाँगिरपुरी, दिल्ली- 110033
2480	श्रमजीवी पार्टी	1-6-48, ओल्ड अलवाल, पोस्ट बोल्लाराम, सिकन्द्राबाद - 500010, आन्ध्र प्रदेश ।
2481	श्री भारत विकास पक्ष	220, श्री जी काम्पलेक्स, एलिसब्रिज पोस्ट आफिस के पास, आश्रम रोड, अहमदाबाद-380006 (गुजरात) ।
2482	श्रेष्ठतम राष्ट्र पार्टी	ग्राम-जगसड़, पोस्ट-सरवासा, जनपथ-खीरी-लखीमपुर, उत्तर प्रदेश ।
2483	श्री जनता पार्टी	मान्डा सदन, द्वारिका नगर, रीवा, मध्य प्रदेश-486001
2484	शुभा कर्नाटक	'हाउस नं. 1262, कुस्तगी रोड, फस्ट क्रास, गजेन्द्रगड़, जिला-गडग-512114, कर्नाटक ।
2485	सिक्किम गोरखा प्रजातांत्रिक पार्टी	सिम्मा बिल्डिंग, डाक घर व थाना-सिंगंटम, पूर्वी सिक्किम-737134, (सिक्किम) ।
2486	सिक्किम हिमाली राज्य परिषद पार्टी	तुलसीकुंज बिल्डिंग, टेलिफोन एक्सचेंज के निकट, पो० आ० - दारा गांव, 31-ए, नेशनल हाईवे, टाडोंग बाजार, टाडोंग, गंगटोक-737102, सिक्किम।
2487	सिक्किम जन-एकता पार्टी	तिन्जीर, नामची, साउथ सिक्किम-737126
2488	सिक्किम लिबरेशन पार्टी	तिन्तेक, पूर्व सिक्किम, गंगटोक सिक्किम - 737134
2489	सिक्किम नेशनल पीपल्स पार्टी	द जोंग, एम.जी.मार्ग, गंगटोक, ईस्ट सिक्किम-737101
2490	सिक्किम राज्य मंच पार्टी	यंगॉंग बाजार, पी.टी.सी. रोड, पोस्ट ऑफिस- यंगॉंग, थाना - रवांगला, दक्षिण सिक्किम, सिक्किम- 737134
2491	सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी	सेन्ट्रल पेन्डम, सर्जोंग वार्ड नं.- 3, पोस्ट ऑफिस- अपर पेन्डम, थाना- रोंगपो, पूर्व सिक्किम- 737132
2492	सिक्किम संग्राम परिषद्	देवराली बाजार, पो.ऑ-ताडोंग, गंगटोक, सिक्किम-737102।
2493	सिक्किम यूनाईटेड फ्रंट	सापकोटा बिल्डींग, असम लिंग्जे सोराने, पो.ऑ- असम लिंग्जे, पी.एस- रानीपूल, पूर्व सिक्किम- 737135
2494	शिक्षित बेरोजगार सेना	चन्दन कुमार बहराइच, खजूरावन, मदयाहुन, जौनपुर, उत्तर प्रदेश ।
2495	सिंह जन सेना पार्टी	पब्लिक लाइब्रेरी के पास, वेरावल-362265, (गुजरात) ।

2496	सरपंच समाज पार्टी	टी-47, ओल्ड नांगल, दिल्ली कैंट-110010.
2497	सिरुप्पानमई मक्कल नाला कांची	नं. 16ए, 9वी क्रॉस स्ट्रीट, अन्ना नगर, पामल,कांचीपुरम जिला,चेन्नई तमिलनाडु- 600075
2498	स्मार्ट इंडियंस पार्टी	ग्राम पंचायत- घाना खमरिया, जैन बिल्डिंग के सामने, जबलपुर, मध्य प्रदेश- 482005
2499	समस्त भारतीय पार्टी	डब्ल्यू-6/5, डीएलएफ सिटी, फेज-III, गुडगाँव-122002, हरियाणा ।
2500	सोशल एक्शन पार्टी	मइलाकल हाऊस, रान्नी, पठानामटिट्टा जिला,पिन-689072, (केरल) ।
2501	सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इण्डिया	8/2, प्रथम तल, जंगपुरा एक्सटेंशन, हास्पिटल रोड, भोगल, नई दिल्ली-110014
2502	सोशल जस्टिस पार्टी ऑफ इंडिया	मकान नं. 2-97, चिनाराविराला गाँव, हयातनगर- मंडल, रंगा रेड्डी-जिला, तेलंगाना स्टेट- 501505
2503	सोशल मूवमेंट पार्टी	प्रधान कार्यालय- 539, लेन नं. 29, राजपुरा मंगोत्रियां, जम्मू, जम्मू एण्ड कश्मीर-180001
2504	सोशलिस्ट जनता पार्टी	एक्स. बी-1, साह विकास अपार्टमेंट, पटपडगंज, दिल्ली-110092
2505	सोशलिस्ट पार्टी (इंडिया)	लोहिया मजदूर भवन मकान सं0 41/557, डॉ. तुफेल अहमद मार्ग, नरही, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2506	सोशलिस्ट पार्टी (लोहिया)	सिद्दीकी बिल्डिंग, 6122, बाडा हिन्दू राव, दिल्ली-110006.
2507	सोशलिस्ट पार्टी सेकुलर	505/506, भिलावाँ, लखनऊ कानपुर रोड, (अजन्ता अस्पताल के सामने), आलमबाग, लखनऊ -5, उत्तर प्रदेश ।
2508	सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी	स्टेट कमिटी ऑफिस, ट्यूटर्स, लेन, स्टेच्यू, त्रिवेन्द्रम-695001,केरल ।
2509	सोशलिस्ट युनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कॉम्युनिस्ट)	48- लेनिन सरानी (पहली मंजिल), कोलकाता-700013, पश्चिम बंगाल.
2510	सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी	प्लॉट नं. 218, विनायक एनक्लेव के पीछे, ग्राम - कोलथिया, पोस्ट - आईगिनिया,जिला-खोर्दा, भुवनेश्वर, ओडिसा - 751019
2511	सोशलिस्टिक डेमोक्रेटिक पार्टी	पोस्ट बाक्स नं. 1089, जनरल पोस्ट ऑफिस, श्रीनगर-190001, जम्मू व काश्मीर ।
2512	सोनांचल संघर्ष वाहिनी	भूमि सं0 597,विकास नगर,राबटर्सगंज वार्ड नं0 12,पुराना वार्ड-6 जिला-सोनभद्र,उत्तर प्रदेश- 231216.
2513	साउथ इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	63, मुनिसीपलायम रोड, (42/4-68सी), अरापालयम, कनमईकरई मेन रोड, मदुरई, तमिलनाडु - 625016
2514	स्टेट समविभाजन पार्टी	मकान संख्या - 56, गाँव - सोनखास, ता. - नेर, जिला - यवतमाल, महाराष्ट्र - 445102 ।
2515	स्टुडेंट्स युनाइटेड फार नेशन पार्टी	डी.नं. 12-464/4, बी- ब्लॉक, टाडेपल्ली, जिला- गुन्टूर, आन्ध्र प्रदेश - 522501
2516	सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी (सुभास पार्टी)	एफ-10, पटेल नगर-111, जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश- 201003
2517	सुदेशी मक्कल नीधि काची	नं. 24/38, एफएफ2, कुट्टी ग्रामिणी स्ट्रीट, राजा अन्नामलैपुरम,

		चेन्नई, तमिलनाडु- 600028
2518	सुधारवादी पार्टी	मो. पिऊनी बाग, वार्ड नं.-32, बेतिया, पोस्ट-बेतिया, थाना- बेतिया-नगर, जिला- पश्चिम चम्पारण, बिहार- 845438.
2519	सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी	ग्राम: मीरन गंज, पो - रामपुर रसडा, जिला- बलिया, उत्तर प्रदेश - 221712.
2520	सुखी समाज पार्टी	344 भौंझा, गाजियाबाद - 201001 उत्तर प्रदेश ।
2521	सुमिति मुक्ति मोर्चा	प्लॉट नं. 347(एलआर) 391(आरएस), खेतान नं. 2194(एलआर), मोजा- पंचनई, एरिया 5 डिसमिल, पोस्ट- माटीगारा, जिला- दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल- 734010
2522	सुन्दर समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - नांगोई, तहसील-खारसिया, जिला-रायगढ़, छत्तीसगढ़- 496 665 ।
2523	सुपर नेशन पार्टी	57/1, थाथावल्ली गांव, कुरुमभगेरी पोस्ट, तिरुपत्तुर तालुक, वेल्लोर जिला, तमिलनाडु- 635653
2524	सुपर स्टार्स मक्कल कलगम	डी. नं0 26, एवीपी ले आउट, द्वितीय गली, गांधी नगर, तिरुपुर, तमिल नाडु- 641603
2525	सुप्रीम जीरो पार्टी ऑफ भारत	वार्ड नं.6,होलिडिंग नं.222,उपरी शाही,खोरधा म्यूनिसिपलिटी,पोस्ट/थाना/जिला-खोरधा,ओडिशा-752056
2526	सुराज पार्टी	6-81, ऑफिस बिल्डिंग, विशाल एस्टेट्स, ग्राम - अन्नाराम, मंडल - जिन्नाराम, जिला - मेडक, आंध्र प्रदेश - 502 313
2527	सुराज सेवा दल	ग्राम - रामडी जसुवा, पो0 - फतेहपुर, तहसील - हल्द्वानी, जिला - नैनीताल, उत्तराखण्ड
2528	सुरक्षा समाज पार्टी	मोहल्ला - तरकापुर (सोनकर बस्ती), भवन संख्या - 1102/1, वार्ड संख्या - 7, पो0 व तहसील - सदर, जनपद - मीर्जापुर, उत्तर प्रदेश - 231001
2529	सूर्या जनसेवा पार्टी	#2,सेकेंड फ्लोर,5 क्रॉस,अंजना नगरा,बैंगलोर कर्नाटक- 560091
2530	सुशासन पार्टी	हाउस नं0558, गांव व पोस्ट-बडसी, तहसील-बवानीखेड़, जिला-भिवानी- 127032, हरियाणा ।
2531	स्वतंत्र भारत सत्याग्रह पार्टी	शॉप नं0 - 7 व 8, अपर ग्राउन्ड फ्लोर, भगवती आर्केड, जवाहर रोड नं0 - 5, उधना उद्योग नगर, उधना, सूरत, गुजरात - 394210 ।
2532	स्वाभिमान जनता दल	निर्भय कोल्ड स्टोर, खलवाईनगर, डुमराँव, बक्सर, बिहार- 802119
2533	स्वाभिमान पार्टी	31/666 न्यू शान्ति नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़.-492001
2534	स्वाभिमानी पक्ष	जयसिंगपूर, जिला - कोल्हापुर, महाराष्ट्र-416 101
2535	स्वच्छ भारत पार्टी	सोंई बाबा मंदिर भोज्यावास, भोंकरोटा, अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान।
2536	स्वच्छ स्वस्थ स्वावलम्बीजन पार्टी	मकान संख्या 108, पयागीपुर, निकट आई.टी.आई. के सामने, सुलतानपुर, उत्तर प्रदेश- 228001
2537	स्वदेश जन सेवक पार्टी	जे.पी.नगर, नई बस्ती, प्रेमचक उर्फ उमरगंज, बलिया, उत्तर प्रदेश- 277001
2538	स्वदेशी एकता मंच	बी-3/253,विनय खण्ड-3,गोमती नगर,गोमती नगर रेलवे स्टेशन के

		सामने,लखनऊ,उत्तर प्रदेश- 226010
2539	स्वदेशी हिन्द पार्टी	ग्राम व पोस्ट-हतिसा,मथुरा रोड क्रासिंग के पास,तहसील एवं जिला-हाथरस,उत्तर प्रदेश- 204101
2540	स्वराज (जे)	जंगल सुहास कुंवारी (महावीर छपरा).पोस्ट आफिस-महावीर छपरा, पुलिस स्टेशन-बेलीपर, तह0-सदर, जिला-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश ।
2541	स्वराज दल	नं.-4, स्टाप, पाट्टर गुड्डा पोस्ट गाराहेहाराम,पोर्टे ब्लेयर-744101, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह ।
2542	स्वराज इंडिया	यूनिट 109, प्रथम तल, एम.एम. हाउस, 59 रानी झांसी रोड, नई दिल्ली - 110055
2543	स्वराज जनता पार्टी	बी-79-बी, गली नं.7, फेज-1, शिव विहार, करावल नगर, दिल्ली-110094
2544	स्वराज क्रांति पार्टी	बी-31,दूसरा तल,टेजेन्द्रा कॉम्प्लेक्स,सी.एम.सी. के सामने,ओढव रोड,ओढव,अहमदाबाद,गुजरात-382415
2545	स्वराज पार्टी-यस (सुभाष चन्द्र बोस)	ग्राम व डाकघर सेमरीखान कोट, सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश-272192 ।
2546	स्वराज पार्टी (लोकतांत्रिक)	मकान नं0 - 17, ग्राम - मोगलपुरा, ग्राम पंचायत - मोगलपुरा, पो0 ऑ0 - बख्तियारपुर, जिला - पटना, बिहार - 803212
2547	स्वराज्य निर्माण सेना	मकान नं0 396/1, इंदिरा वसाहत,उत्तम नगर, पुणे,महाराष्ट्र - 411023
2548	स्वराज्य पार्टी ऑफ इंडिया	बी-33, सैक्टर-सी, अलीगंज,लखनऊ-226024, उत्तर प्रदेश।
2549	स्वराज्य राष्ट्र निर्माण सेना	एच. नंबर 797,वार्ड नंबर. 01,पोस्ट- कोरेगाँव,भीमा,तालुक- शिरूर,जिला पुणे,महाराष्ट्र- 412216
2550	स्वराज्य सेना (महाराष्ट्र)	नं. 586, मुहल्ला- मासुडी, पोस्ट- टाका, तहसील- औसा, जिला- लातूर, महाराष्ट्र- 413520
2551	स्वराष्ट्र जन पार्टी	तरकापुर फुलवरिया, पोस्ट-सदर, जिला-मिर्जापुर-231001, उत्तर प्रदेश ।
2552	स्वर्ण भारत पार्टी	जी-249 पालम विहार, गुडगाँव, हरियाणा - 122017
2553	स्वर्ण युग पार्टी	नं. 26, “अम्मा”, प्रथम मुख्य रोड, डॉलर कॉलोनी, आर.एम.वी. द्वितीय स्टेज, बेंगलोर-560094, कर्नाटक ।
2554	स्वर्णिम भारत इन्कलाब	एल.जी. - 22, सनराईज टावर, 579, एम. जी. रोड, इन्दौर, मध्य प्रदेश।
2555	स्वतंत्र आदर्शवादी भारतीय क्रान्ति पार्टी	गांव व पोस्ट-लुटुही, यन्हा माहुली, जिला-संत कबीर नगर, खलीलाबाद, उत्तरप्रदेश ।
2556	स्वतंत्र भारत पक्ष	“राही”, खोकादपुरा, औरंगाबाद-431001, (महाराष्ट्र) ।
2557	स्वतंत्र इंडियन लेबरपार्टी	खसरा नं०916,गाँव -थिलावल,गर्हिया, पो० - भोपल पट्टी,पी.एस० - मऊ दर्वाजा,जिला- फर्रुखाबाद,उत्तरप्रदेश - 209625
2558	स्वतंत्र जनताराज पार्टी	811/1, सिविल लाइन आंशिक, वार्ड नं0 - 52, झांसी, उत्तर प्रदेश-284001
2559	स्वतंत्रता पार्टी (जन)	195, सेंट मेरीस रोड, आलवारपेट, चेन्नई, तमिलनाडु- 600018
2560	स्वतंत्र राष्ट्रवादी पार्टी	12-एच, ट्रैफिक कोतवाली के सामने, दरियागंज,नई दिल्ली-110 002.

2561	स्वतंत्र समाज पार्टी	ग्राम व पोस्ट - लेभरी, थाना-दरौली, प्रखण्ड/अंचल-मैरवा, सिवान-841239, बिहार ।
2562	स्वतंत्रता अभिव्यक्ति पार्टी	नं0-2,महावीरनगर,अपोजिट कल्याण मिल,नियर चेतना होटल,नरोदा रोड,सैजपुरा-भोगा,अहमदाबाद,गुजरात-382345
2563	स्वयम कृशी पार्टी	नं.-17/बी,नन्जप्पा काम्प्लेक्स,ग्राउण्ड फ्लोर,कनकपुरमेन रोड,बनाशंकरी,शकाम्बरी नगर,बैंगलुरु कर्नाटक- 560070
2564	ताई नाडु पार्टी	44/15, कामराज रोड, शिवाजी नगर, बैंगलूरु-560001, कर्नाटक
2565	तमिल देसियक काची	80 ए, चामुन्डी शॉपिंग कॉम्पलेक्स,सलेम-636007, (तमिलनाडु) ।
2566	तमिल मनीला काँग्रेस (मूपनार)	नं0-4, अशोक रोड, अलवरपेट, चेन्नई - 600018.
2567	तमिल मानिला काची	नं0 - 74, जरमियाह रोड, वेपेरी, चेन्नई, तमिलनाडु - 600007
2568	तमिल मनीला कायदे मिल्लत लीग	579, अन्ना सलाई तेनामपेट, चेन्नई-600006, तमिलनाडु ।
2569	तमिल मनीला द्रविड मुन्नेत्र कडगम	द्वार नं0 296, अम्बेडकर स्ट्रीट, उथुक्काडु गांव व पोस्ट, वाल्जाबाद वाया कांचीपुरम तालुका व जिला, तमिल नाडु ।
2570	तमिल मानिल मुरपोक्कु द्रविड कडगम	नं. 27, प्रथम तल, गुडीयात्तम रोड, रेलवे काल्याण मण्डम के समाने, काटपाडी, वेल्लूर-जिला, तमिलनाडु- 632007
2571	तमिल नाडु इलैंगयर काची	नं.- 23, गणेश एवेन्यु, शक्ति नगर, पोरुर, चेन्नई, तमिल नाडु- 600116
2572	तमिलनाडु पीजेन्ट्स एण्ड वर्कर्स पार्टी	नं0 1, जयाम्मल रोड, तेनामपेट, चेन्नई-600018, (तमिलनाडु) ।
2573	तमिल तेलुगु नेशनल पार्टी	पुराना नं. 4/51, नया नं. 197, पेरुमाल कोइल स्ट्रीट, टी.इडैयार पोस्ट, तिरुकोइलुर तालुक, विल्लुपुरम जिला, तमिलनाडु- 607203
2574	तमिलागा मक्कल द्रविड मुन्नेत्र कजगम	3-196, पोस्ट - वेम्बरपट्टी, वेम्बरपट्टी, तालुक व जिला - डिंडिगुल, तमिलनाडु - 624008
2575	तमिलागा मक्कल मुन्नेत्र कजगम	563-शान्ति कॉलोनी, एन.के.बी. नगर, पलायमकोटाई, तिरुनेलवेली, तमिलनाडु।
2576	तमिलगा मक्कल तन्नुरीमई काची	मकान नं. 4ए, महालक्ष्मी नगर, कोर्ट के निकट, कटनाचमपट्टी गांव, रासीपुरम तालुका, नामक्कल जिला, तमिलनाडु- 637408
2577	तमिलह स्ताभन कांग्रेस	26/1. 33इ, हेनरी रोड, नीसामोनी नगर, नागरकोईल, तमिल नाडु- 629001
2578	तमिलार देशीय मुन्नई	119/ए, डिपोलाईन, सी.पल्लावरम, चेन्नई, तमिलनाडु -600043
2579	तमिलार मक्कल कांची	ग्राम - दुमबलाअल्लीडेम, पोस्ट ऑफिस - गेंडीगानहल्ली, तालुक - पालकोड, जिला - धर्मापुरी, तमिलनाडु - 635205
2580	तमिलीना विद्याल पुलिकल इयाक्कम	अन्नई इल्लम, पल्लावन नगर, थर्ड स्ट्रीट, थेनी मेन रोड, मदुराई - 625 016, तमिलनाडु।
2581	तमिलनाडु जननायक काँग्रेस	327, लोयडस रोड, रोयापेट्टा, चेन्नई-600014, तमिलनाडु।
2582	तमिलनाडु महात्मा गांधी	9-2/1 सी, टेटीविलय वीडू, श्री देवीकुमारी महिला कॉलेज के पास,

	मक्कल काँची	कुलीतुरै, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु - 629163.
2583	तमिलनाडु मक्कल नालवडुपु पेरीयक्कम	नंबर 6 ए, 10 वीं क्रॉस स्ट्रीट, थिरुवेंगदा नगर, थिरुनिन्नवुर, थिरुवल्लूर जिला, अवधी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तिरुवल्लूर संसद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु- 602024.
2584	तमिलनाडु मक्कल उरीमई काँची	43, वी.ओ.सी. नगर, किचीपलायम, सलेम, तमिलनाडु- 636015
2585	तमिलनाडु तेलुंगु मक्कल काची	मकान नं० - 1/803, करपगम विश्वविद्यालय के सामने, पोलाची मेन रोड, कोयमबटूर, तमिल नाडु - 641021
2586	तामिज़ागा मक्कल जननायगा काच्चि	वनाविल ईलम, संख्या 9 पूर्व सातवीं गली, पुडुकोट्टई-622001 तमिलनाडु।
2587	तामिज़ागा मूरपोक्कू मक्कल काच्चि	82/1, 5वीं स्ट्रीट, पदमानाभा नगर, अडयार, चेन्नई -600 020 तमिलनाडु।
2588	तमिज़ग वाङ्गुरीमई काँची	13-6-54, पिलैयार कोयल स्ट्रीट, समराजापेट्टई पोस्ट, मेचेरी मेत्तुर तालुक, सलेम जिला, तमिल नाडु - 636451
2589	तमिज़ार पार्टी	8/43, एम.टी.सी. रोड, मट्टुर डैम, 1, सलेम जिला, चेन्नई-600017, (तमिलनाडु)।
2590	ताराराणी पक्ष	वार्ड नं. 6, मकान नं. 2067, धानगर माल (शिवनगर), कोरोची, तहसील- हातकणंगले, जिला- कोल्हापुर महाराष्ट्र- 416109
2591	तहरिक इंकलाब पार्टी	अनसर नगर, अब्दुल राशीद मंजिल, ताजोद्दीन बाबा नगर, नियर इलाही मस्जिद, लातूर, महाराष्ट्र- 413520
2592	तेलंगाना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	म० नं० - 3-4-760/19, नारायणगुडा फलाईओवर ब्रिज के बाजू में, बरकतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500027
2593	तेलंगाना इंटि पार्टी	14-70, वी.टी. कॉलोनी, पोस्ट व मंडल- नकरेकल, जिला- नलगोंडा, तेलंगाना - 508211
2594	तेलंगाना जागीर पार्टी	मकान नं. 4-32/1, मुनुगानूर -गाँव, अब्दुलापुरमेट- मण्डल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना स्टेट- 501511
2595	तेलंगाना जन समिति	मकान नं. 7-1-215/ई, बलकमपेट, नेचर केयर हॉस्पिटल के पास, हैदराबाद, तेलंगाना- 500016
2596	तेलंगाना कार्मिका रैतु राज्यम पार्टी	गाँव - बैरानपल्ली, पोस्ट - सिद्धापुर, मंडल - हसनपल्ली, जिला - वरंगल, तेलंगाना।
2597	तेलंगाना लेबर पार्टी	म. न. 8-2-293/82/बी.जे.आर./ए/1, बी.जे.आर. नगर, फिल्म नगर, जुबिली हिल्स, मंडल - शेखपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500096
2598	तेलंगाना लोकसत्ता पार्टी	प्लॉट संख्या-46, फ्लैट संख्या-201, गनरौक टीचर्स कॉलोनी, त्रिमुलधेरी, सिकन्द्राबाद-500015 आन्ध्र प्रदेश।
2599	तेलंगाना माइनॉरिटीज ओबीसी राज्यम	17-3-4, रियान बाज़ार, याकूतपुरा, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500 023
2600	तेलंगाना प्रगति समिति	एडीआर एस्टेट हाउस नं०-2-22-295, दूसरी मंजिल, भाग्यनगर कॉलोनी, बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर, केपीएचबी मेन रोड, कुकतपल्ली,

		हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश - 500072
2601	तेलंगाना प्रजा समिति (किशोर, राव और किशन)	मकान नं0 10-4-108, गिरमाजीपेठ, वारंगल-506002 आन्ध्र प्रदेश ।
2602	तेलंगाना प्रजा शक्ति पार्टी	मकान नं.- 3-5-233, प्रथम तल, कोटा गली, शिवाजी नगर, अपोजिट आंध्र बैंक, आर.आर.चोब्रास्था, निजामाबाद, तेलंगाना - 503001
2603	तेलंगाना प्रजला पार्टी	मकान नं.- 12-13-830/15, गोकुलनगर, स्ट्रीट नं. 1, तारनाका, सिकन्दराबाद, तेलंगाना- 500017
2604	तेलंगाना राष्ट्र पुनःनिर्माण समिति	म. नं0 1-3-186/ए, विद्यानगर, भोनगीर, जिला - नलगोंडा, आन्ध्र प्रदेश - 508116
2605	तेलंगाना रिपब्लिकन पार्टी	मकान सं.- 2-134, तानेदारपल्ली गांव, मरिगूडा मंडल, नल्लगोंडा जिला, तेलंगाना- 508245
2606	तेलंगाना सकलाजनुला पार्टी	म0 नं0 4-2-99, एन एफ सी (न्यूक्लियर फ्यूल कारपोरेशन कॉलोनी), बंदलागुडा जागीर (गांव) व (पोस्ट), राजेन्द्र नगर मण्डल, रंगा रेड्डी, जिला-500086, आन्ध्र प्रदेश।
2607	तेलंगाना स्टुडेंट्स यूनाईटेड फॉर नेशन पार्टी	मकान संख्या 3-85, बोरमपेट ग्राम, कुतुबुल्लापुर मंडल, रंगा रेड्डी जिला, तेलंगाना-500043
2608	तेलंगाना युवा शक्ति	फ्लैट नं. 404, मकान संख्या- 2-2-25/ए/1, जीलानी मिडोस अपार्टमेंट्स, अंबेरपेट, हैदराबाद, तेलंगाना- 500013
2609	तेलंगाना इंडिपेंडेंट पार्टी	मकान नं. 5-2-13, तिरुमाला नगर, मौलाली, आर.आर. डिस्ट्रिक्ट, कपरा सर्कल, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश- 500040
2610	तेलुगु बहुजन पार्टी	8/160-ए, मित्तपालेम स्ट्रीट, गुड्डर, एसपीएसआर नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, आन्ध्र प्रदेश - 524101
2611	तेलुगु कांग्रेस पार्टी	8-2-38, अपोजिट जी.पी. ऑफिस, भवानीनगर, वेमुलावाडा, करीम नगर जिला, आन्ध्र प्रदेश-505302
2612	तेलुगु जनता पार्टी	नं.70-7/16/2ए,राम्नाययापेटा,टी.एस.आर.नगर,रोड नं.2,काकीनाडा अर्बन मंडल,जिला-इ.जी.,आन्ध्र प्रदेश-533003
2613	तेलुगु प्रजा पथम पार्टी	4-96/25/3, जीएफ - 103, चिनामुसिदिवाड़ा, रेवेन्यु वार्ड 70, विशाखापटनम् जिला, आन्ध्र प्रदेश- 530051
2614	तेलुगु राष्ट्र शक्ति पार्टी	302, जीवीआर, रेसिडेन्सी, जीवीआर टावर के साथ में, गन्नावरम, जिला- कृष्णा, आन्ध्र प्रदेश-521101
2615	तेलुगु विजयम पार्टी	फ्लैट नं.306,श्रीनिवासा टॉवर्स,केरला होटल के समीप,इब्राहिमपटनम,विजयवाडा,कृष्णा जिला,आन्ध्र प्रदेश- 521456.
2616	थक्कम कच्ची	1/2755,नेहरु स्ट्रीट,(ओल्ड आने थेरेसा स्ट्रीट),वी.पी.सिंह नगर,पंमाथुकुलम,चेन्नई,तमिल नाडु-600052
2617	थल्ली तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं0-50, रोड नं0-5,जुबली हिल्स, हैदराबाद-500033, आन्ध्र प्रदेश।
2618	तमिझ पेरासू कच्ची	3/6,पारी स्ट्रीट (एक्स.),चूलैमेडू,चेन्नाई,तमिलनाडु- 607203
2619	थमिझग मुनेत्र कांग्रेस	नं0 91, पुन्नूसामी नगर, तृतीय गली, पेराम्बर, डिविजन 68, चेन्नै -

		600011, तमिलनाडु ।
2620	तमिझार मुन्नेत्रक कङ्गम	2/5, तिरुवाल्लूर सलाए, पेरुमाल नगर, मोगापपेयर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600037.
2621	थन्थई पेरियार द्रविड़ मुन्नेत्र कङ्गम्	23, अलगप्पन स्ट्रीट, थेन्काराय पेरियाकलम, जिला - थेनी, तमिलनाडु - 625601.
2622	दि अग्रणी पार्टी	अनमोल हाउस, लीची बगान, पंखातोली, पो.- रमना, जिला-मुजफ्फरपुर बिहार-842002
2623	दि फ्यूचर इंडिया पार्टी	सं0 - 2/191 बी, नेताजी स्ट्रीट, एलीट स्कूल के सामने, एम0 ए0 नगर, रेडहिल्स, चेन्नई, तमिलनाडु - 600052
2624	दि ह्यूमेनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	34, लवीना, 52 ए, टैगोर रोड, सान्ताक्रुज (पश्चिम), मुम्बई-400054, (महाराष्ट्र)।
2625	द इम्पेरियल पार्टी ऑफ इण्डिया	190, श्रीनगर मेन, इन्दौर - 452001, मध्य प्रदेश ।
2626	द इंडियन एस्पिरेशन पार्टी	ऑफिस यूनिट नं.- 205, पेनिन्सुला प्लाजा, ए/16, वीरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, वीरा देसाई रोड, अंधेरी वेस्ट, मुंबई, महाराष्ट्र- 400053
2627	दि लोक पार्टी ऑफ इंडिया	कमरा नं0 7, बिल्डिंग नं0 61, प्रथम तल, द्वितीय लेन, एम. आर रोड, कामाथिपुरा, मुम्बई - 400 008 महाराष्ट्र
2628	दि नेशनल रोडमैप पार्टी ऑफ इण्डिया	बी-145, न्यू अशोक नगर, दिल्ली- 110096.
2629	द प्लुरल्स पार्टी	सुखबासो कॉम्पलेक्स, तीसरी मंजिल, वेस्टर्न होटल के सामने, प्लॉट नं-130, दानापुर-खगौल रोड, पोस्ट-दानापुर, जिला-पटना बिहार-801503
2630	दि पब्लिक वेलफेअर पार्टी	सोनापुर कॉम्पलेक्स, आल्हाद नगर, वार्ड नं0 - 14, जिला कॉम्पलेक्स हाई स्कूल के पूर्व में, गडचिरोली, महाराष्ट्र- 442605
2631	दि रिलीजन ऑफ मैन रिवाल्विंग पोलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया	कवितीर्थ, कवितानगर, पो0-बोंगाव, जिला-24-परगनास (उत्तर)-743235, (पश्चिम बंगाल)।
2632	थर्ड व्यू पार्टी	203, हिल व्यू, प्लॉट नं0-85, लूलानगर, माऊट कार्मेल कोनवेंट स्कूल के नजदीक, पुणे-411040 (महाराष्ट्र)।
2633	थोझीललार पार्टी	नं0 28 ए, मेदु स्ट्रीट, नेमलीचेरी, क्रोमपेट, चेन्नई-600044 तमिलनाडु।
2634	तृणमूल तमिल नाडु कांग्रेस	189/1, अमरावती स्ट्रीट (नियर फाइव रोड्स), रेड्डीयार गांव, जिला - सलेम - 636004 तमिल नाडु ।
2635	टीपू सुल्तान नैशनल रिपब्लिक पार्टी	नं0 24, फर्स्ट मेन, 13वां क्रॉस, बापूजीनगर, मैसूर रोड, बेंगलूर-560026, कर्नाटक।
2636	तिपरालैण्ड स्टेट पार्टी	ओल्ड कालीबाडी रोड, कृष्णानगर, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा-799001.
2637	टीपू सुल्तान पार्टी	56/2, आत्तार हाउस, नियर कर्बला बेस, रेविवार पेठ, अंबाजोगाई, जिला-बीड, महाराष्ट्र- 431517
2638	टोला पार्टी	मकान सं0 - 56, वार्ड सं0 - 14, अंधुवा पट्टी, होडल (पलवल),

		हरियाणा।
2639	टोटल विकास पार्टी	सी-95ए-1, आर डी सिटी, सेक्टर - 52, गुडगांव, हरियाणा - 122011
2640	त्रिकलिंगा कांग्रेस	पालांका कोलीगाडिया, पोस्ट- गुनठनी बारचाना, जिला- जयपुर, पिन- 754024
2641	त्रिलिंगा प्रजा प्रगति पार्टी	बी-118, मधुरानगर, एस.आर. नगर पोस्ट, हैदराबाद-500038, आन्ध्र प्रदेश।
2642	तृणमूल गण परिषद्	आनन्द प्लाजा काम्पलेक्स, चौथी मंजिल, गणेशगुरी चरीएली, गुवाहाटी- 781006, असम ।
2643	त्रिपुरा पीपुल्स पार्टी	8/9, जेल आश्रम रोड, धलेश्वर , अगरतला, त्रिपुरा- 799007
2644	डूथ, इक्वलिटी, जस्टिस अप्लाएंग सर्विस दल	बी-35 आनंदलोक, श्रीजी बाबा विद्यालय के पास, पोस्ट - कृष्णा नगर, गोवर्धन मार्ग मथुरा, तह0 व जिला - मथुरा, उत्तर प्रदेश-281004.
2645	तुलुवेर पक्ष	डोर नं0 - 2-139(5), कोयोरु क्रॉस लैला गांव, बेलथांगडी, दक्षिण कन्नड़, कर्नाटक- 574214.
2646	ट्वेंटी 20 पार्टी	बिल्डिंग नम्बर IV/172, ऐकरनाडु पंचायत, कदायिरूप्पू पी.ओ, कुनाथुनाडु तालुक, एरनाकुलम जिला, केरल- 682311
2647	उदारवादी समरसता पार्टी	मकान नं0 133/1, हरिजन बस्ती, गाँव समयपुर, दिल्ली- 110042
2648	उदय चन्द्रा देशम पार्टी	नं0-27, कामराज नेदुचलाई, ओल्ड पेरुंगलाथुर, चेन्नई, तमिलनाडु-600063
2649	उजाला पार्टी	ई-26, गली नं.9, नियर वाटर टैंक, सुभाष विहार, भजनपुरा, दिल्ली- 110053
2650	उज्जवल राष्ट्र पार्टी	ग्राम - अहिरावाँ, पोस्ट - बेरुआ, तहसील - सण्डीला, जिला - हरदोई, उत्तर प्रदेश - 241304
2651	ऊलागा मक्कल काची	नं. 15/24ए, मेथुकुम्मल जंक्शन, मेथुकुम्मल पोस्ट, कन्याकुमारी जिला, तमिलनाडु- 629172
2652	उलजयपाली मक्कल काची	74, शान्ति नगर, प्रथम गली, एस0 एस0 नगर पोस्ट, चेन्नई- 600062, तमिलनाडु ।
2653	यूनाइटेड बोडो नेशनलिस्ट लिबरेशन फ्रंट	मार्फत देवरी बोरा, रामभापुरी, कहिलीपाडा, गुवाहाटी, (असम) ।
2654	यूनाइटेड सिटिजन पार्टी	डी — 29, कोन्डली, दिल्ली-110096.
2655	यूनाइटेड कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	29 / 116, गली नं0 —10, विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली—110 032.
2656	युनाइटेड कांग्रेस पार्टी	201/202, द्वितीय तल, सुकुमार कॉर्नर, 127- जे.पी. रोड, दाऊद बाग लेन, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र- 400058
2657	युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट सेकुलर	539/13 शास्त्री नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश
2658	युनाइटेड फ्रंट (पार्टी)	अबु फाखरुद्दीन प्लाजा, लंगर टोली चौराहा, बारी पथ, पटना—800004, बिहार ।
2659	युनाइटेड गोअंस डेमोक्रेटिक पार्टी	पहली मंजिल, कासा डोस अलिया, डोस, गोमंत विद्या निकेतन के पीछे, एब्सडे फारिया रोड, माडगांव (गोवा) —403601 ।

2660	यूनाइटेड गोअन्स पार्टी	शॉप नं0 - 7, म0 नं0 - 18/5/6, ग्रामीलो अपार्टमेंट, डोन्ड्रीम, तेलिगो, तिसवाड़ी, गोवा ।
2661	यूनाइटेड इंडिया पार्टी	4-2-256/के/1, भीमूनिपटनम एन.टी.पी.सी, रामागुन्दम (मण्डल), करीमनगर, तेलंगाना - 505215
2662	यूनाइटेड इंडिया पीपुल्स पार्टी	मन्जामाट्टम मूझूर, पो. ऑ. कोट्टायम, जिला (केरल) ।
2663	यूनाइटेड इंडियन डेमोक्रेटिक काउन्सिल	नं0 1205, ए-स्टेज, राजाजी नगर, बंगलौर-560010, (कर्नाटक) ।
2664	यूनाइटेड माइनॉरिटीज फ्रंट, असम	उलूबारी, गुवाहाटी —781007, (असम)
2665	यूनाइटेड नागा डेमोक्रेटिक पार्टी, नागालैण्ड	वाडे नं. 7, एगापे स्कूल के पास, चुमुकोडिमा — 797103, दीमापुर—797112 (नागालैण्ड)
2666	यूनाइटेड नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी	डी—786, जैतपुर विस्तार, पार्ट —II, बदरपुर, दिल्ली-110 044.
2667	यूनाइटेड नेशनल पार्टी	गांव - शांतीनगर, मौजा - सन्नपुरा,पोस्ट - गोंसली, तहसील - बाह, जिला - आगरा, उत्तर प्रदेश ।
2668	यूनाइटेड पीपुल्स फ्रंट	सिटी रेजेंसी बिल्डिंग, आर. के. बी. रोड, डिब्रुगढ, असम—786001
2669	यूनाइटेड पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (सोशलिस्ट)	टेंगखुल एवेन्यू, इम्फाल, मणिपुर—795001.
2670	यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी ऑफ असम	एस. एस. रोड, लखटोकिया, गुवाहाटी—781001, असम
2671	यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ भारत पार्टी	डोर नं. 6-9-1373ए डिफेंस कॉलोनी,ए.पी.एच.बी. पोस्ट ऑफिस के निकट,तिरुपती कंचीमातम हॉस्पिटल के बगल में,आन्ध्र प्रदेश- 517501
2672	यूनाइटेड रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया	80/81, सी.ए.एच. कॉलेज बाय-पास रोड, मेलवीशरम, वालाजा तालुक, जिला- वेल्लोर, तमिलनाडु- 632509.
2673	यूनाइटेड रिजर्वेशन मूवमेंट काउन्सिल ऑफ असम	पो0 बॉ. नं0 2, पो0 —रेहाबाड़ी, गुवाहाटी —781008, (असम) ।
2674	यूनाइटेड सेक्यूलर काँग्रेस पार्टी ऑफ इंडिया	2 / 104 बी, कुर्ला जयहिंद बुद्धविकास, एस0 आर0 ए0 गृहनिर्माण संस्था मर्यादित नेहरू नगर, कुर्ला (पूर्व), मुंबई—400024, महाराष्ट्र ।
2675	यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी	बी 41-एच/6, ब्राइट स्ट्रीट, दूसरा तल, पोस्ट- सर्कस एवेन्यू, थाना-कराया, कोलकाता, पश्चिम बंगाल- 700017
2676	यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया पार्टी	नं. 10/116, मथागनेरी, साउथ स्ट्रीट, सेम्बीकुलम(पोस्ट), वडाकनकुलम (वाया), तालुक - राधापुरम, जिला - तिरुनेलवेली, तमिलनाडु - 627116
2677	यूनाइटेड ट्राइबल नेशनलिस्ट्स लिबरेशन फ्रंट	देउलगुरी, हरिसिंह, दारंग—784510, (असम) ।
2678	यूनिवर्सल ब्रदरहुड मूवमेंट	57-डी, साथुर मेन रोड, कोविलपट्टी, जिला - तुचुकुडी, तमिलनाडु - 628501

2679	यूनिवर्स सिटीजन पार्टी	15-5-122,वनय निलाया,अपोजिट कर्नाटका लॉ एंड फार्मसी कॉलोज,ध्यानमंदिर राज,रामपुरे कॉलोनी,बीदर कर्नाटक- 585401
2680	उपेक्षित समाज पार्टी	एफ—15, भगत सिंह मार्केट, गोल मार्केट के पास, नई दिल्ली—110011.
2681	उरिमई मीटप्पू कड़गम	न्यू नं0 —10ए, कृष्णा स्ट्रीट. ईरमबुलियुर, वेस्ट तम्बारम, चेन्नई—600045, जिला—कांची, तमिलनाडु ।
2682	उर्स संयुक्त पक्ष	नं0 46, पैलेस रोड, बंगलौर —560001, कर्नाटक ।
2683	उत्कल भारत	प्लॉट नं0 296/2624, स्थान — गोविन्दा प्रसाद, ईस्ट कनाल रोड, टविन ब्रिज के सामने, पो0 ऑ0 —जी. जी. पी. कॉलोनी, भुवनेश्वर —751010, उड़ीसा ।
2684	उत्कल समाज	आनन्दायन, प्लॉट नं0 567/2 कानन विहार, फेस —2 , भुवनेश्वर —751031 उड़ीसा ।
2685	उत्कृष्ट पार्टी	प्रथम तल, राकेश क्लाय हाऊस, मेन बाजार, ग्राम- नारौत मेहरा,तहसील व जिला- पठानकोट, पंजाब
2686	उत्तमा प्रजाकिया पार्टी	7/ए, 1 st क्रॉस, 3 rd स्टेज, 3 rd फेस, 6 th ब्लॉक बीएसके, बीएसके 3 rd स्टेज, कथिरिगुप्पे, बेंगलुरु, कर्नाटक- 560085
2687	उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना	मकान नं. 3, सेक्टर 15-ए, जिला- गौतमबुद्धनगर, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201301
2688	उत्तर प्रदेश रिपब्लिकन पार्टी	552/2, राजेन्द्र नगर, सेकेंड स्ट्रीट, लखनऊ —226004, (उत्तर प्रदेश) ।
2689	उत्तर प्रदेश यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट	38 —रोयल होटल, विधान सभा मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2690	उत्तर जनशक्ति सेना	म0 न0 66, 67,शिवपुर कॉलोनी,(अनचटगेरी लेआउट),नियर राजधनी कॉलोनी,गोकुल रोड,हुबली कर्नाटक- 580028
2691	उत्तर कर्नाटक पार्टी	नं.25,4 क्रॉस,एम.एस.आर.नगर,बेंगलुरु,कर्नाटक- 560054
2692	उत्तराखंड जनता पार्टी	प्लाट न.6,प्रकाश एन्क्लेव,शिमला रोड,सेवलाकलां जिला देहरादून उत्तराखंड— 248001
2693	उत्तराखण्ड जनएकता पार्टी	18 एफ,सेक्टर-3 बी,निकट सी ब्लॉक,टाईप-11,नई टिहरी उत्तराखण्ड-249001
2694	उत्तराखण्ड जनशक्ति पार्टी	सुशीला बर्थवाल निवास, निकट दूरदर्शन प्रसार भारती कार्यालय, हरिद्वार बाई-पास रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड- 248001
2695	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल	रोचिपुरा, पो0 ऑ0 माजरा, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2696	उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (डेमोक्रेटिक)	85/ 12 —बी, नाश विला रोड, देहरादून —248001, (उत्तराखण्ड)।
2697	उत्तराखण्ड परिवर्तन पार्टी	साह भवन, वीर चन्द्रा सिंह, गढ़वाली मार्ग, गैरसेन, जिला — चमोली, उत्तराखण्ड ।
2698	उत्तराखण्ड प्रगतिशील पार्टी	13, सुभाष रोड, (सेन्ट जोसेफ स्कूल के पिछले गेट के सामने), देहरादून -248001, उत्तराखण्ड ।
2699	उत्तराखण्ड रक्षा मोर्चा	मकान नं0 1. ग्राम-नौका (दौडावाला), पोस्ट—मोथरौवाला,

		विकासखण्ड—रायपुर, जिला—देहरादून, (उत्तराखण्ड)
2700	उत्तराखण्ड संस्कृति परिषद्	डी—355, विनोद नगर (पश्चिम), दिल्ली —110092
2701	उत्तराखण्ड सेना पार्टी	जय माता दी अपार्टमेंट, 10/1, नजदीक शंकर मंदिर, जुना कल्वा, बेला रोड, कल्वा, थाने (वेस्ट), महाराष्ट्र- 400605
2702	उत्तराखण्ड जनवादी पार्टी	53 —के, राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
2703	वैचारिक क्रान्ति पार्टी	एफ-11,12,13, ईश्वरी दयाल कॉम्पलेक्स- 92, गौतम बुद्ध मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2704	वालामाना तमिझागम कॉची	एच-982, 23rd स्ट्रीट, 13 मेन रोड, अन्नानगर, चेन्नई, तमिलनाडु- 600040
2705	वलीमई वलरची इंडियन्स पार्टी	411डी, गौंदची पालायम, वादामुगम वेलूड, ईरोड जिला, तमिलनाडु- 638112.
2706	वाल्लारासु पार्टी	एच. नंबर-6(23), मोसक्यू स्ट्रीट, मायलापोरे, मायलापोरे, चेन्नई, तमिलनाडु- 600004.
2707	वंचित बहुजन अघाडी	सर्वे नं. 858ब/2 'आकाश' भिगवण रोड, रानडे पेट्रोल पम्प के पीछे, अशोक नगर, बारामती, जिला - पुणे, महाराष्ट्र - 413102
2708	वंचित समाज पार्टी	सर्किल- बाँकीपुर, राजस्व सर्किल- 13, वार्ड- 36, मोहल्ला- पम्प हाउस गली तालाब पार, लालजी टोला, थाना- गाँधी मैदान- पटना, जिला- पटना, बिहार- 800003
2709	वंचितसमाज इंसफ पार्टी	39, आर्दश नगर, द्वारा —डॉ० शेख महोली रोड, मथुरा, उत्तर प्रदेश ।
2710	वास्तविक भारत पार्टी	726/2 / K1, ग्राम उमरिया खास, तहसील - भंथावगढ़, जिला - उमरिया, मध्य प्रदेश - 484661
2711	वसुधैव कुटुम्बकम पार्टी	वार्ड नं.-07, होल्डिंग नं. 1050 नया, मोहल्ला- साहेबदादगंज, जिला- दरभंगा, बिहार ।
2712	वसुंधरा जन विकास दल	खाता नं० - 39, 59, प्लॉट नं० - 32, 35 तथा 36, मौजा तथा थाना नं० - 371, न्यू थाना नं० - 27, एन.एच - 2, शिव सागर, जिला - रोहतास, बिहार - 821111 ।
2713	वीरथ थियागी विश्वन्थदास थोझिलालालकर काची	मणिकावसागर आरंगम, नंबर 1/9, चेंगम से तिरुवन्नमलाई मुख्य सड़क, करियामंगलम गाँव और पोस्ट, चेंगम तालुक, तिरुवन्नमलाई जिला, तमिलनाडु- 606709
2714	वेनुकाबदिनावर्गाला महिला रायतू पार्टी	डोर नं.- 3-110ए, चक्रयापालेम गांव, कोलिपारा मंडलम, गुंदूर जिला, आन्ध्र प्रदेश।
2715	विचार जाग्रति कांग्रेस पक्ष	डोर नं० — 275, हेबालु गांव व पोस्ट, देवांगिरी तालुक व जिला कर्नाटक ।
2716	विदर्भ माझा पार्टी	237, पोस्ट- उबली, तहसील- कलमेश्वर , जिला- नागपुर, महाराष्ट्र ।
2717	विदर्भ राज्य अघाडी	ब्लॉक नं. 4, दफ्तरी कॉम्पलेक्स, दादाजी धुनीवाले मठ के विपरीत, नागपुर रोड, ग्रामपंचायत नलवाडी, जिला- वर्धा, महाराष्ट्र
2718	विदर्भ विकास पार्टी	ब्लॉक ए० सेकेंड फ्लोर, पूनम चैम्बर्स, छिन्दवाडा रोड, नागपुर —13, महाराष्ट्र ।

2719	विदर्भ राज्य पार्टी	कामगार भवन, बैद्यनाथ चौक के पास, ग्रेट नाग रोड, नागपुर—3, महाराष्ट्र ।
2720	विधायक दल	एच0 आई0 जी0 — 205, सेक्टर—4, विकास नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।
2721	विद्यार्थुला महिलाला रैतुला महासेना पार्टी	डोर नं. 74-6/1-1ए, वीएसआर रोड, अयाप्पानगर, पाटामाता, विजयवाडा, आन्ध्र प्रदेश।
2722	विद्यार्थुल राजाकिया पार्टी	मकान नं.- 11-13-624/4, फ्लैट- 402, आई.बी.नगर, सरूनगर (एम), कॉलोनी, रोड नं. 3, रंगारेड्डी- जिला, आन्ध्र प्रदेश- 501505
2723	विडियल वलरची पेरनि	37-बी, कीलतेरु, इच्चीकामालैपट्टी, के. सातानूर (पोस्ट), तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु- 620021.
2724	विडियलै तेडुम इंदियरगल पार्टी	10/2032, साउथ तिरुपाचेट्टी, पोस्ट - तिरुपाचेट्टी, तालुक - तिरुपुवनम, जिला - शिवगंगै, तमिलनाडु - 630610
2725	विदुथलाई चिरुथईगल काची	नं0 —16, चिन्नईया गली, टी —नगर, चेन्नई —17, तमिलनाडु ।
2726	विदुथलाई मक्कल मुन्नेत्र कजगम	नं0 —11, कबिलार स्ट्रीट, देवानामपट्टीनम, कुड्डालोर जिला, तमिलनाडु ।
2727	विजय भारत पार्टी	मकान नं. 402, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 2-3, गली नं. 3, फ्रेंड्स एन्कलेव, शाहबेरी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश- 201009
2728	विजय भारत मक्कल (पीपुल) पार्टी	70, द्वितीय तल, ब्रोड बाजार स्ट्रीट, अम्बूर — 635802, जिला — वेल्लोर, तमिलनाडु
2729	विजया जनता पार्टी	नं0 9,ओम साई शक्ति निलाया,भारथिनागरा,हुनासामारानाहल्ली पोस्ट,जाला हुबाली,बैंगलुरु नार्थ तालुक,बैंगलुरु कर्नाटक- 560058
2730	विकास इंडिया पार्टी	टी-192, गली नं0-2, गौतमपुरी, दिल्ली- 110053
2731	विकास इंसफ पार्टी	मकान नं. 23, वाई नं. 10, महमूदपुर परगना, पी.सी.एफ. गोदाम के पास, तहसील-सदर, जिला- फतेहपुर उत्तर प्रदेश- 212601
2732	विकास मंच	भूरा चौक, पोस्ट ऑफिस&तहसील- नोखा, जिला- बीकानेर, राजस्थान- 334803
2733	विकास परिषद्	62 —ए, शास्त्री कॉलोनी, अम्बाला कैन्ट—133001, हरियाणा ।
2734	विकास पार्टी	सत्याग्रह मार्ग, दारूल सफा कम्पाउंड, लखनऊ, (उत्तर प्रदेश) ।
2735	विकासशील इंसान पार्टी	घर अपना अपार्टमेन्ट, वाई नं. 38, फ्लैट नं. 604, फेज - 03, अभियंता नगर, रंजन पथ, पो.ऑ.- दानापुर कैन्ट, पी.एस-रूपासपुर, जिला-पटना, बिहार- 801503
2736	विकासशील समाज पार्टी	305 ऐ, साहारा शॉपिंग सेन्टर, फैजाबाद रोड, इन्दिरा नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226016
2737	विलेजर्स इंडिया पार्टी	तलपाली पाडा (दुर्गामंदप चौक के पास) जिला-बोलनगीर ओडिशा- 767001
2738	विशाल जनता पार्टी	नं.1/4649/183,बुद्ध बाजार गली,सब गली नं.8,मंडोली रोड,न्यू मार्डन शाहदरा,दिल्ली-110092
2739	विशाल पार्टी ऑफ इंडिया	गांव — चौहडा, डाकघर — डगाम, तहसील — गढ़शंकर, जिला —

		होशियारपुर, पंजाब - 144527
2740	विश्व शक्ति पार्टी	बी -10/144, प्रदीप विहार, नथूपुरा मोड़, दिल्ली —110084
2741	विश्व आदर्श भारत पार्टी	मकान नं. 251, मेगा पैथोलॉजी, कोर्ट के पीछे, सूख विलास कॉलोनी बड़वानी, तहसील- बड़वानी, जिला- बड़वानी, मध्य प्रदेश- 451551
2742	विश्व हिन्दुस्तानी संगठन	3/105, आनन्दनगर, 100 फुट रिंग रोड, सटेलाईट वेजलपुर, अहमदाबाद, गुजरात ।
2743	विश्व जागृति पार्टी	74/16ए,परमहंस मार्ग,शिपरा पथ,मानसरोवर,जयपुर,राजस्थान-302020
2744	विश्वा जना पार्टी	डोर नं. 4-122, पद्मावती नगर, थोगाटावरी स्ट्रीट, पोदालाकुर, जिला-एसपीएसआर नैलोर, आन्ध्र प्रदेश।
2745	विश्व जन साम्राज्यम पार्टी	एम.आइ.जी.-74,म.नं015-13-VI-एम-74, फेज-VI, केपीएचबी कॉलोनी, कुक्कटपल्ली, हैदराबाद, तेलंगाना- 500085.
2746	विश्व मानव समाज कल्याण परिषद	ग्राम व पोस्ट - चन्दापुर, वजीरगंज, जनपद - गोण्डा, उत्तर प्रदेश।
2747	विश्व विकास संघ	एफ—53/एफ —4, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली —110095 ।
2748	विश्वनाथ प्रताप जनता दल	वार्ड नं0 - 02,मालवीय नगर,भारतीय स्टेट बैंक के सामने मेन रोड,माधौगढ,जनपद जालौन,उत्तर प्रदेश- 2285123
2749	विवासायी अंभु काची	नं0 14, राघव नाट्टन स्ट्रीट, उतिरामेरूर - 603406, (तमिलनाडु) ।
2750	विवासायीगल मक्कल मुन्नेत्र कांची	403, एसआरपीके कॉम्पलेक्स, उदयपुरपलयम, थालावडपट्टी- पोस्ट, अतुर- तालुक, सिलम-जिला, तमिलनाडु- 630102
2751	वोआईस ऑफ लेबर पार्टी (जम्मू और काश्मीर)	खसरा नं. 539, गांव- आति, पोस्ट- फतेहपुर, तहसील व जिला-राजौरी, जम्मू और काश्मीर- 185131
2752	वोटर्स इंडिपेन्डेंट पार्टी	नं. 903, प्रथम तल, छठा ब्लॉक, 80 फीट रोड, कोरामंगला, इजीपुरा, वार्ड नं. 148, बेंगलोर, कर्नाटक- 560095
2753	वोटर्स पार्टी	ए, 1/75, फ्रीडम इन्क्लेव, नेब सराय, इग्नू रोड, नई दिल्ली - 110068 ।
2754	वोटर्स पार्टी इण्टरनेशनल	मकान नं0 385, गली नं0 12/3, वजीराबाद गांव, दिल्ली-110084
2755	व्यवसायी किसान अल्पसंख्यक मोर्चा	गृह संख्या - 12, महाराजगंज, जमुई, जिला - जमुई, बिहार - 811307
2756	व्यवस्था परिवर्तन पार्टी	बौद्ध डायमण्ड, तालुक पंचायत रोड, कोर्ट के सामने, पोस्ट व तालुक-घोघा, जिला- भावनगर, गुजरात।
2757	वार वैट्रन्स पार्टी	ए/ 301 - 302, पर्ल अपार्टमेंट, आई. सी. कॉलोनी, बोरीवाली (पश्चिम) मुम्बई - 400103, (महाराष्ट्र) ।
2758	वतन जनता पार्टी	3/4/7 ए, मुगलपुरा, अयोध्या, फैजाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2759	वाजिब अधिकार पार्टी	ग्राम व पोस्ट - पोहद्दी बेला, ब्लॉक - घनश्यामपुर, जिला- दरभंगा, बिहार - 847427 ।
2760	वैल्फेयर पार्टी ऑफ इण्डिया	ई - 57/1, अबूल फजल एनक्लेव-1, जामिया नगर, नई दिल्ली - 110025.

2761	वेस्ट बंगाल प्रगतिशील इन्दिरा काँग्रेस	68 – बी, ए. पी. सी. रोड, कोलकता –700009 पश्चिम बंगाल ।
2762	वेस्ट बंगाल सोशलिस्ट पार्टी	42 – आनन्द पलित रोड, कोलकाता – 700014, पश्चिम बंगाल ।
2763	येकिकुथा संकशेमा राष्ट्रीय प्रजा पार्टी	डी नं0 7-1-500, एन जी ओ कॉलोनी, वाए एस आर स्टीट, सिद् दावातम रोड, बडवेल – 516227, वाए एस आर जिला, आन्ध्र प्रदेश ।
2764	यंग इंडिया पार्टी	सर्किल नं. 28, होल्डिंग सं. 128/113, आर्य कुमार रोड, मछुआटोली, थाना- कदमकुआं, जिला- पटना, बिहार -800004
2765	यंग इंडिया टेंग्रेस पार्टी	येलम गल्ली, तुगाव (एच), ता0 भालकी, जि0 बिदर, कर्नाटक ।
2766	यंग इंडिया युनाइटेड पार्टी	हाऊस ऑफ मदन मोहन मिश्रा, गांव- मंगलपुरवा, पोस्ट- पारसा, गोंदारी, ब्लॉक- हलधरमउ, तहसील- कनल गंज, जिला- गोण्डा, उत्तर प्रदेश- 271126
2767	यूथ एण्ड स्टूडेंट्स पार्टी	आर. पी. एस्टेट्स, 4/1, पूनामाली हाई रोड, कोयमबेदू, चेन्नई – 600107.
2768	यूथ ब्रिगेड	गांव काकगाची, पॉ0 ऑ0 भन्देरहाली, जिला – हुगली, पश्चिम बंगाल ।
2769	यूथ डेमोक्रेटिक फ्रंट	मकान सं0 1-10-63/5, प्लॉट सं0 44, चिकोटी गार्डन्स, बेगमपेट, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश ।
2770	यूथ फॉर इक्विटी	पी-90ए, द्वितीय तल, साऊथ एक्सटेंशन –II, नई दिल्ली –110034 ।
2771	यूथ इंडिया पीस पार्टी	असेसमेंट नं.- 18, ग्राम- काठा नं.- 215, यशंतपुर हुबली, बैंगलोर नार्थ तालुक, बैंगलोर, कर्नाटक- 560022
2772	यूथ सोसलिस्ट पार्टी	मकान नं0 – 248, सिहोरा गोविन्द (गोविन्द नगर), पोस्ट व थाना - कटघर, तहसील व जिला - मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश- 244001 ।
2773	वाई. एस. आर. बहुजन पार्टी	28/434, रामेश्वरम, प्रोद्दातुर –516360, जिला-कडपा,आन्ध्र प्रदेश ।
2774	युग क्रांति दल	मकान नं.192,गली नं.1,वार्ड नं.1,पंजाबी कॉलोनी (धर्मपुर),समस्तीपुर टाऊन,बिहार-848101
2775	युग परिवर्तन पार्टी	म. नंबर -2179,मोतीराम कॉलोनी,नियर मोहित पब्लिक स्कूल,नूरवाला,पानीपत,हरियाणा- 132103
2776	युवा आम दल आदमी विकास	अप्रा सिटी,फेज-2,सेक्टर-सी,ग्राम-मिशरौलिया स्टेट,पोस्ट-मिश्रौली,निकट- जेल रोड,जिला-बस्ती उत्तर प्रदेश- 272001
2777	युवा अनुभव पार्टी	मकान नं0 – 393- आई, हरितिमा, राजीव नगर, पश्चिमी बंशारतपुर, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
2778	युवा भारत आत्मनिर्भल दल	एफ/49/1ए,अयोध्या नगर,शिव मंदिर के पास,एन-7,सिडको, औरंगाबाद, महाराष्ट्र- 431003
2779	युवा बिहार सेना	मकान नं0 17,बटुकेश्वर दत्ता लेन,न्यू जक्कनपुर,पटना बिहार-800001
2780	युवा जागृति दल	3-बी, प्रयोशा फ्लैट्स, जिमखाना के पास, सैक्टर-19, गांधीनगर –382 019, गुजरात ।
2781	युवा जन जागृति पार्टी	315, फ्रीवे ट्रेड सेन्टर, आई.ओ.सी.पेट्रोल पम्प के सामने, नरोल- असलाली हाईवे, अहमदाबाद, गुजरात- 382427

2782	युवा जनकल्याण पार्टी	दुकान नं. 6, लक्ष्मी आशीर्वाद को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, प्लॉट नं.- 23, सेक्टर- 25, कामोठे, जिला- रायगढ़, महाराष्ट्र - 410209
2783	युवा जनक्रान्ति पार्टी	कस्बा-केराकत, मो0 - शेखजादा द्वितीय, जनपद - जौनपुर, उत्तर प्रदेश।
2784	युवा जनता पार्टी	भवन सं0 - 91/1, ग्रान्ट गंज, मैन मार्किट महोबा, जिला - महोबा, उत्तर प्रदेश - 210427
2785	युवा कर्नाटक पक्षा	# 66, आनेपुरा - गांव, निधारमंगला -पोस्ट, मालूर- तालुक, कोलार जिला, कर्नाटक- 563137
2786	युवा क्रान्ति दल	बी - 667, अमन विहार, पोस्ट ऑफिस-सुल्तानपुरी, जिला- उत्तर - पश्चिम, नई दिल्ली-110 086.
2787	युवा क्रांतिकारी पार्टी	आर्दश नगर, रोड नं. 1ई, समस्तीपुर, बिहार- 848101
2788	युवा पार्टी	1-8-1-83, गैरेज नं0 - 83, ग्राउंड फ्लोर, बागलिंगम्पल्ली, हैदराबाद, आन्ध्र प्रदेश
2789	युवा पार्टी (डेमोक्रेटिक)	प्लॉट नं0 - 63, गुरुकृपा सोसाइटी, पंच फलिया, दाभोलिगम, कटरगम, सूरत, गुजरात- 395004
2790	युवा सरकार	161, वनमाली पार्क सोसायटी, हरीकृष्णा चौक, धर्माकुल आश्रित रोड, पुना - सिमाडा, सूरत-394211, गुजरात ।
2791	युवा शक्ति संगठना	भांगडिया वाडा, तिलक वाई, चिमूर, तहसील - चिमूर, जिला - चन्द्रपूर, महाराष्ट्र ।
2792	युवा स्टार पार्टी	ग्राम-अकहा, पोस्ट-जयंती ग्राम ईसापुर, थाना-भगवानपुर, जिला-बेगूसराय बिहार-851112
2793	युवा तरम पार्टी	8-1-32/4, नजदीक हनुमान मंदिर के पीछे, वाई नं0-1, गतैगुदेम, गाँव- पल्वांचा-मंडल, बद्रादरी कोठगुदेम- जिला, तेलंगाना-507115
2794	युवा तेलंगाना पार्टी	प्लॉट नं. 143 & 144, रॉक टॉऊन कालोनी, अलकापुरी, मन्सूराबाद, एल.बी. नगर, हैदराबाद-500068, तेलंगाना ।
2795	युवा विकास पार्टी	सेरावां, अतरामपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
2796	जोरम पीपुल्स मुवमेंट	ट्रेजरी स्क्वायर, आईजॉल, मिजोरम-796001

सारणी-IV
(मुक्त प्रतीकों की सूची)

1.	एअरकंडीस्नर
2.	अलमारी

3.	सेब (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
4.	ऑटो-रिक्शा (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
5.	बेबी वॉकर
6.	गुब्बारा
7.	चूड़ियाँ
8.	फलों से युक्त टोकरी (तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
9.	बल्ला
10.	बल्लेबाज
11.	बैटरी टार्च
12.	मोतियों का हार
13.	बेल्ट
14.	बेन्च
15.	साइकिल पम्प
16.	दूरबीन
17.	बिस्कुट
18.	ब्लैक बोर्ड
19.	आदमी व पाल युक्त नौका
20.	बक्सा
21.	डबल रोटी
22.	ब्रेड टोस्टर
23.	ईंटें
24.	ब्रीफकेस
25.	ब्रुश
26.	बाल्टी
27.	केक
28.	कैल्क्यूलेटर
29.	कैमरा
30.	कैन
31.	शिमला मिर्च
32.	कार्पेट
33.	कैरम बोर्ड
34.	फूलगोभी
35.	सीसीटीवी कैमरा

36.	जंजीर
37.	चक्की
38.	चपाती रोलर
39.	चप्पलें
40.	शतरंज बोर्ड
41.	चिमनी
42.	चिमटी
43.	कोट
44.	नारियल फार्म
45.	कलर ट्रे और ब्रुश
46.	कम्प्यूटर
47.	कम्प्यूटर माउस
48.	चारपाई (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
49.	क्रेन
50.	घन
51.	कप और प्लेट
52.	कटिंग प्लायर
53.	हीरा
54.	डीजल पम्प
55.	डिश एंटीना
56.	डोली
57.	द्वार घंटी
58.	दरवाजे का हैंडल (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
59.	ड्रिल मशीन
60.	डम्बल्स
61.	कान की बालियाँ (तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल एवं कर्नाटक राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
62.	बिजली का खंभा
63.	लिफाफा
64.	एक्सटेंशन बोर्ड
65.	बाँसुरी
66.	फुटबॉल (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एवं त्रिपुरा राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)

67.	फुटबॉल खिलाड़ी
68.	फव्वारा
69.	फ्राक
70.	फ्राइंग पैन
71.	कीप
72.	गन्ना किसान
73.	गैस सिलेण्डर
74.	गैस का चूल्हा
75.	उपहार
76.	अदरक
77.	काँच का गिलास
78.	ग्रामोफोन
79.	अंगूर
80.	हरी मिर्च
81.	हाथ गाड़ी
82.	हारमोनियम
83.	टोप (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
84.	हेडफोन
85.	हैलीकॉप्टर
86.	हेलमेट
87.	हॉकी और बॉल
88.	रेत घड़ी
89.	आइस क्रीम (तमिल नाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
90.	पानी गरम करने की रॉड
91.	प्रेस (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
92.	कटहल
93.	केतली (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
94.	किचन सिंक
95.	भिंडी
96.	लेडी पर्स (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम त्रिपुरा एवं पश्चिम बंगाल राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
97.	लैपटॉप

98.	कुन्डी
99.	लैटर बाक्स
100.	लाइटर
101.	लूडो
102.	लन्च बॉक्स
103.	तुरहा बजाता आदमी
104.	माचिस की डिब्बी
105.	माईक
106.	मिक्सी
107.	नेल कटर
108.	गले की टाई
109.	नूडल्स कटोरा
110.	कड़ाही
111.	पैंट
112.	मूँगफली
113.	नाशपाती (तमिल नाडु व पुदुचेरी को छोड़कर)
114.	मटर
115.	पेन ड्राइव
116.	कलम की निब सात किरणों के साथ
117.	पैन-स्टैंड
118.	पेन्सिल डिब्बा
119.	पेन्सील शार्पनर
120.	पेन्डुलम
121.	मूसल और खरल
122.	पेट्रोल पम्प
123.	फोन चार्जर
124.	तकिया
125.	अनानास
126.	करनी
127.	खाने से भरी थाली
128.	प्लेट स्टैंड
129.	हान्डी
130.	प्रेशर कुकर
131.	पंचिंग मशीन
132.	रेजर
133.	रेफ्रिजरेटर

134.	अंगूठी
135.	रोड रोलर
136.	रोबोट
137.	रूम कूलर
138.	रूम हीटर
139.	रबड़ की मुहर
140.	सेफ्टी पिन
141.	आरी (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
142.	स्कूल का बस्ता
143.	कैंची
144.	सिलाई की मशीन
145.	पानी का जहाज
146.	जूता
147.	शटर
148.	सितार
149.	कूदने की रस्सी
150.	स्लेट
151.	साबुनदानी
152.	जुराबें
153.	सोफा
154.	स्पैनर (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
155.	स्टैपलर
156.	स्टैथोस्कोप
157.	स्ट्रूल
158.	स्टम्प्स
159.	झूला
160.	स्विच बोर्ड
161.	सिरिन्ज
162.	टी.वी.रिमोट
163.	मेज
164.	चाय छलनी
165.	टेलीफोन
166.	टेलीविजन
167.	टेनिस बल्ला व गेंद
168.	टैन्ट

169.	भाला फेंक
170.	टीलर
171.	टॉफियाँ
172.	चिमटा (बिहार एवं झारखण्ड राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
173.	दाँत ब्रुश
174.	दूधपेस्ट
175.	ट्रे
176.	त्रिभुज
177.	ट्रक (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
178.	तुरही
179.	ट्यूब लाइट
180.	टाईपमशीन
181.	टायर
182.	वैक्यूम क्लीनर
183.	वायलिन
184.	छड़ी
185.	दीवार खूंटी
186.	बटुआ
187.	अखरोट
188.	तरबूज
189.	पानी का टैंक
190.	कुआँ
191.	हाथ रेहड़ी
192.	सीटी
193.	खिड़की
194.	सूप
195.	ऊन व सिलाई
196.	नागरिक
197.	कूड़ादान

आदेश से,
दिलीप के. वर्मा,
प्रधान सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road,

No.56/2021/PPS-III

Dated : 23rd September, 2021
1 Asvina 1943 (Saka)

NOTIFICATION

WHEREAS, the Election Commission of India has decided to update its Notification No.56/2019/PPS-III, dated 15th March, 2019, as amended from time to time, specifying the names of recognised National and State Parties, registered-unrecognised parties and the list of free symbols, issued in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968;

NOW, THEREFORE, in pursuance of paragraph 17 of the Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968, and in supersession of its aforesaid notification No.56/2019/PPS-III, dated 15th March, 2019, as amended from time to time, published in the Gazette of India, Extra-Ordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (iii), the Election Commission of India hereby specifies: -

- (a) In Table I, the National Parties and the Symbols respectively reserved for them and postal address of their Headquarters;
- (b) In Table II, the State Parties, the State or States in which they are State Parties and the Symbols respectively reserved for them in such State or States and postal address of their Headquarters;
- (c) In Table III, the registered-unrecognized political parties and postal address of their Headquarters; and
- (d) In Table IV, the free symbols.

TABLE – I

NATIONAL PARTIES

Sl. N.	Name of the Party	Symbol reserved	Address
1.	2.	3.	4.
1.	All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bengal)

2.	Bahujan Samaj Party	Elephant [In all States/U.T.s except in the State of Assam, where its candidates will have to choose a symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission]	4, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi – 110001
3.	Bharatiya Janata Party	Lotus	6-A, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi – 110002
4.	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi – 110002
5.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer, Sickle and Star	A.K.Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi - 110001
6.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi – 110011
7.	Nationalist Congress Party	Clock	Bungalow No.-1, Canning Lane (Ravi Shanker Shukla Lane), Near Ferozeshah Road, New Delhi-110001
8.	National People's Party	Book	Plot No.90A, Lachauviere District, East Khasi Hills District, Shillong-793001

TABLE – II

STATE PARTIES

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Andhra Pradesh	1. Telangana Rashtra Samithi	Car	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh-500034
		2. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh)
		3. Yuva Jana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad- 34, Andhra Pradesh-500034

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
2.	Arunachal Pradesh	1. People's Party of Arunachal	Maize	K. Ringu Complex, G-Extension Road, Naharlagun-791110 (Arunachal Pradesh)
		2. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003
		3. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001
3.	Assam	1. All India United Democratic Front	Lock & Key	No.3 Friends Path, Hatigaon, Guwahati-781038 (Assam)
		2. Asom Gana Parishad	Elephant	Gopinath Bordoloi Road, Guwahati- 781001 (Assam)
		3. Bodoland Peoples Front	Nangol	Head Office Kokrajhar, B.T.C., P.O.-Kokrajhar, Distt.Kokrajhar, Assam, Pin-783370
		4. United People's Party, Liberal	Tractor Chalata Kisan	J.D.Road, Ward No.4, P.O.-Kokrajhar, District – Kokrajhar, BTAD, Assam - 783370
4.	Bihar	1. Janata Dal (United)	Arrow	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001
		2. Lok Jan Shakti Party	Bungalow	12, Janpath, New Delhi – 110 011
		3. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi -110001
		4. Rashtriya Lok Samta Party	Ceiling Fan	Mouza – Dhakkanpura, Mohalla – Mohanpur Punaichak (Near Hartali Morh), Boring Kainal Road, Patna, Bihar-800001

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		5. Communist Party of India (Marxist-Leninist) (Liberation).	Flag with Three Stars	U-90, Shakarpur, Delhi-110092
5.	Chhattisgarh	Janta Congress Chhattisgarh (J)	Farmer Ploughing (within Square)	Shri Balaji Complex, Near Gandhi Maidan, Khamtarai, Raipur, Chhattisgarh- 492001
6.	Goa	1. Maharashtrawadi Gomantak	Lion	Flat No.102, Block-1, Dukle Heaven, ST-Inez, Panaji – 403001
		2. Goa Forward Party	Coconut	Sheesh Mahal, 2 nd Floor, Office 4, Comba, Margao, Goa - 403601
7.	Haryana	1. Indian National Lok Dal	Spectacles	No.80, Sector – 9, Chandigarh – 160009
		2. Jannayak Janta Party	Key	S.C.O. 20, Second Floor, District Commercial Centre, Huda Market, Sector- 56 , Gurugram, Haryana- 122001
8.	Jammu & Kashmir	1. Jammu & Kashmir National Conference	Plough	(i) Sher-e-Kashmir Bhavan, Residency Road, Jammu (J&K)-180001 (ii) Nawai Subh Complex, Zero Bridge, Srinagar (J&K)-190001
		2. Jammu & Kashmir National Panthers Party	Bicycle	17, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001
		3. Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party	Ink Pot & Pen	2-Emporium Lane, Residency Road, Srinagar-190001
9.	Jharkhand	1. AJSU Party	Banana	H-59, Harmu Housing Colony, PS-Argora, PO-Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002
		2. Jharkhand Mukti Morcha	Bow & Arrow	Bariatu Road, Ranchi-834008 (Jharkhand)
		3. Rashtriya Janata Dal	Hurricane Lamp	13, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi - 110001

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
10.	Karnataka	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003
11.	Kerala	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi – 110003
		2. Kerala Congress (M)	Two Leaves	State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala)-686001
		3. Indian Union Muslim League	Ladder	Quaid-e-Millath Manzil, 36 Maraikayar Lebbai Street, Chennai-600001, Tamil Nadu
		4. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street, (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal)
12.	Maharashtra	1. Maharashtra Navnirman Sena	Railway Engine	Krishna Kunj, M.B.Raut Road, Shivaji Park, Mumbai-400028, Maharashtra.
		2. Shiv Sena	Bow and Arrow	Shivsena Bhavan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai-400028 (Maharashtra).
13.	Manipur	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. People's Democratic Alliance	Crown	Ragailong, Imphal-795 001, Manipur.
14.	Meghalaya	1. United Democratic Party	Drum	Mawlai Nonglum, Shillong-793008 (Meghalaya).
		2. Hill State People's Democratic Party	Lion	Kench's Trace, Laban, Shillong 739004. (Meghalaya)
		3. People's Democratic Front	Candles	H.No.-7/63, Lachumiere, Shilong, Meghalaya-793001

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
15.	Mizoram	1. Mizo National Front	Star	General Headquarters, Zarkawt, Aizawl (Mizoram)-796001.
		2. Mizoram People's Conference	Electric Bulb	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
		3. Zoram Nationalist Party	Sun (without rays)	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
16.	Nagaland	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. Nationalist Democratic Progressive Party	Globe	House No. 155(1), Ward No. 4, Chumukedima, Dimapur, Nagaland – 797103.
17.	N.C.T. of Delhi	Aam Aadmi Party	Broom	206, Rouse Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002
18.	Odisha	Biju Janata Dal	Conch	Naveen Nivas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Odisha).
19.	Puducherry	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. All India N.R. Congress	Jug	65/6, East Coast Road, (Next to Badmavathi Petrol Bunk), Pakkamudaiyanpet, Puducherry-605008
		3. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		4. Pattali Makkal Katchi	Mango	63, Nattu Muthu Naiken Street, Vanniya Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
20.	Punjab	1. Shiromani Akali Dal	Scales	Building No.6, Sector-28 B, Madhya Marg, Chandigarh – 160028.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
		2. Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi – 110002
21.	Rajasthan	Rashtriya Loktantrik Party	Bottle	Plot No. 26-27, Out of Khasra No. 170/151, Teja Colony, Near Sheetla Mata Temple, Manasar, District-Nagaur, Rajasthan-341001.
22.	Sikkim	1. Sikkim Democratic Front	Umbrella	Upper Deorali, Gangtok, East Sikkim-737101.
		2. Sikkim Krantikari Morcha	Table Lamp	Convoy Ground, P.O.-Tadong, Gangtok, East Sikkim, Sikkim-737102
23.	Tamil Nadu	1. All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	‘Anna Arivalayam’ 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		3. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam	Nagara	125/7, Jawaharlal Nehru Salai, (100 Ft. Road), Koyambedu, Chennai-600 107, Tamil Nadu.
24.	Telangana	1. All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	Kite	Darussalam Board, Hyderabad (Telangana)-500001.
		2. Telangana Rashtra Samithi	Car	House No. 8-2-220/110/1/3, Road No.14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.
		3. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh).
		4. Yuva Jana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No. 2, Banjara Hills, Hyderabad-500034, Andhra Pradesh.

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
25.	Tripura	Indigenous People's Front of Tripura	Dao	Old Kali Bari Road, Krishnanagar, Agartala-799001, Tripura.
26.	Uttar Pradesh	1. Rashtriya Lok Dal	Hand Pump	406, V.P. House, Rafi Marg, New Delhi-110001.
		2. Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi-110001.
27.	West Bengal	1. All India Forward Bloc	Lion	Netaji Bhavan, T-2235/2, Ashok Nagar, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005
		2. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal).

TABLE – III
REGISTERED UNRECOGNISED PARTIES

Sl. No.	Name of the Registered Unrecognised Political Party	Headquarters Address
1	2	3
1	Aadarsh Bharat Nirman Dal	Village- Bhaini Bheron, Teshil- Meham, District- Rohtak, Haryana-124112
2	Aadarsh Janata Sewa Party	Ranjit House, Didwara Raod, Salwan, District – Karnal, Haryana
3	Aadarsh Janhit Party	Hathi Wali Gali, H. No. 22, Ward No. 9, Asfabad, Firozabad, Uttar Pradesh – 283203
4	Aadarsh Mithila Party	At & P.O. Thahra Gopalpur, Via – Dighra, District – Samastipur, Bihar – 848115
5	Aadarsh Sangram Party	D/S- 1252, Sector- D, L.D.A Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226012.
6	Aadarshwaadi Congress Party	E.W.S. – 04, Kausalpuri Colony, Phase-2, Near of Water Tank, Gramsabha–Gaddopur, Vikas Khand – Masoadha, Tahsil – Sadar, District – Faizabad, Uttar Pradesh.
7	Aadhi Aabadi Party	D-1385/7, D- Block, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
8	Aadi Bharat Party	116, Bopal Haat & Homes, Inside Sun city, Bopal, Ahmadabad, Gujarat- 380058
9	Aadijan Mukti Sena	‘First Floor’, 21, Durgesh Vihar, J.K. Road, Bhopal, Madhya Pradesh
10	Aadim Samaj Party	H. No. 84, Village – Mawai Kala, Post – Naribari, Shankargarh, Allahabad, Uttar Pradesh
11	Aadivasi Sena Party	At & Post – Rupvel (Nishal Falia), Tal. Vansada, Distt. Navsari-396321, Gujarat.
12	Aajad Bharat Party (Democratic)	Village+Post – Behta Buzurg, Vikas Khand – Bhitargaon, District – Kanpur, Uttar Pradesh.
13	Aam Aadmi Mukti Morcha	4 U.F. Babar Place, Todarmal Road, Near Bengali Market, New

		Delhi-110001.
14	Aam Aadmi Sangharsh Party (S)	D- 489, Street No.- 7, Mukandpur Extension, Part- 1, New Delhi-110042.
15	Aam Adhikar Morcha	Manoj Mandal, Adarsh Nagar, Chethariya Peer, Ward No. 15, P.O. & P.S.-Kahalgau, District- Bhagalpur, Bihar - 813203
16	Aam Bharat Party	C/o Arvind Kumar Dikshit, No. 3rd Floor, 2nd Building, Ambika Complex, Damodar Area, Taluk-Idar, district-Sabarkantha Gujarat-383430.
17	Aam Bhartiya Party	103-Radio Colony, Indore, Madhya Pradesh-452001
18	Aam Dal	Plot/Bhawan No. 191, Budha Enclave, Lohia Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
19	Aam Hindustani Party	Village Bhagauti Dubey ka Bhiswan, Post- Chauri Chaura, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh-273201.
20	Aam Jan Majdoor Party	Bhadpar Chauraha, Bhadpar, Tehsil-Laharpur, District- Sitapur, Uttar Pradesh-
21	Aam Jan Niti Party	Ward No. 8, Sector No. 12L, Near G.G.S.Public School, Hanumangarh Junction, District- Hanumangarh, Rajasthan- 335512
22	Aam Jan Party (Secular)	Meena Vatika, Maa Durganagar, Village- Chaksakra, Post- Chandralya, P.S- Hajipur sadar, District- Vaishali BIHAR
23	Aam Janata Party	Village – Jigina, P.O. – Manjhariya Vikram, District – Basti, Uttar Pradesh.
24	Aam Janata Party (Sarvajana Hitaya)	243-244, 2nd Floor, Radha Chambers, Plot No. – 9, G – Block, Community Centre, Vikaspuri, New Delhi – 18.
25	Aam Jankranti Party	Village & Post – Bhagipur, Shikohabad Road, Near Modern English School, District – Etah, Uttar Pradesh – 207001.
26	Aam Janmat Party	HIG Flat No – 7HF/25, Bahadurpur Housing Colony, Patna, Bihar-800026
27	Aam Janshakti Party	WZ-J-62, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
28	Aam Janta Party (India)	Behind Ranipurwa Primary School, Janki Nagar, Post – Bus Stop, District – Gonda, Uttar Pradesh.
29	Aam Janta Party Democratic	House No. 1403, Bela, Ward No. 4, Gram Panchayat Bela, Tehsil-Umred, District- Nagpur, Maharashtra- 441115
30	Aam Janta Party Rashtriya	Flat No. 804, 8th Floor, Gharouda Complex, Jagdeo Path More, Bailey Road, Patna, Bihar - 800014.
31	Aam Lok Party United	House No. 328, Street No. 4, Neta ji Park Haibowal, Kalan, Ludhiana, Punjab-141001
32	Aam Nagrik Party	Village- Baulla Mazupur, Post- Kiratpur Nimana, Block-Gonda, Tehsil- Eglash, District- Aligarh, Uttar Pradesh.
33	Aam Nagrik Yuva Party	Village- Nalhad, Post office- Nalhad, Tehsil and District- Nuh, Haryana- 122107
34	Aamjan Ekta Party	Mohalla-Munshipura, Near Tehsil-Kasba-Nakud, Tehsil & Thana-Nakud, District-Saharanpur, Uttar Pradesh-247342
35	Aanaithinthiya Jananayaka Pathukappu Kazhagam	1/47B, JSM Cathedral Road, Itteri, Distt.-Tirunelveli Tamil Nadu - 627007
36	Aap Aur Hum Party	Ward No. 24, House No. 714/647, Mohalla- Basanti Gali, District-Muzaffarpur, Bihar
37	Aap Sabki Apni Party	Vinayaka Height at Main Road, Tarbahar, Ward No.15, Bilaspur, Chhattisgarh – 495001
38	Aapka Gantantra Party	Venkat Ward -13, Gali No.2, Shastri Colony, Katni, Madhya Pradesh-483501
39	Aapka Hamara Party	Gram – Mahudar, Post – Rewali, District – Hazaribagh, Jharkhand – 825301.
40	Aapki Apni Adhikar Party	H.No.381/5, New Parvatiya Colony, Saran School Road, Mahadev Chowk, Village – Saran, NIT Faridabad, Haryana.
41	Aapki Apni Party (Peoples)	Khasra No. 19/26, Near Amrit Vihar, Main Road Burari, Burari,

		New Delhi- 110084
42	Aapna Punjab Party	H.No. 2442, Phase- 11, Sector – 65, S.A.S. Nagar, Mohali, Punjab.
43	Aapni Sarkar Party	6/Shantikunj Society, Opp- Gayatri Temple, National Highway, Kalol, District- Gandhinagar, Gujarat- 382721
44	Aapni Democratic Party	Dhani Amrud Ke Baag Wali, Dhaulatpur Road, Village- BhodiaKhera, Tehsil & District- Fatehabad, Haryana- 125050
45	Aapsi Sahyog Party	E-737,E-Block,J.J. Colony,Mangolpuri,Delhi- 110083
46	Aarakshan Virodhi Party	DT-146, Tirkha Colony, Ballabgarh, Faridabad, Haryana – 121004.
47	Aarthik Samanta Party	189, B-Block, Gali No. 4/6,Karawal Nagar,Delhi-110094.
48	Aarthik Vikas Party	Nil Kanth Dham Math Jinda Naga Samadhi, Gram- Kittukhedi, Post- Zarda, Tehsil- Malhargarh, District- Mandsaur, Madhya Pradesh- 458553
49	Aarthik Vyavastha Parivartan Party	House No. 166, Village- Teja Ka Pura, Abdalpur Khas, Post- Harisen Ganj, Mau, Aaima, Thana- Soraon, Tehsil- Soraon, District- Allahabad, Uttar Pradesh – 226020
50	Aas Punjab Party	1901,1902,Chowk Shakti Nagar,Amritsar,Punjab-143001
51	Aasra Lokmanch Party	Mhada Colony, Gala No. 683, Gut No. 74, Devlai, Tq. and District – Aurangabad, Maharashtra - 431 001.
52	Aawaam Adhikar Jagran Party	Village – Sarokhanpur, Near Govt. Hospital (CHC), Post – Badlapur, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222125.
53	Aazad Samaj Party (Kanshi Ram)	H. No. 180,Gali No. 3/22,(Khasra No. 265),Gokul Pur Village,Haqa Shahdara,Delhi-110094
54	Aazadi Ka Antim Aandolan Dal	M.I.G.D. – 27, Shailendra Nagar, Raipur-492001 Chhattisgarh.
55	Abhay Samaj Party	Village – Andhya, Post – Harpur Tiwari,Tehsil – SadarMaharajganj, District - Maharajganj, Uttar Pradesh.
56	Abhinav Rajasthan Party	C-14, Gandhi Nagar, Merta City, District- Nagaur, Rajasthan- 341510
57	A-Chik National Congress (Democratic)	Dakopgre (Opp. office of Inspector & School), Tura, West Garo Hills,Meghalaya – 794 101.
58	Action Party	Village and Post- Maigalganj, Main Market, Near Haricharneshwar Mahadev Mandir, Block- Pasgawan, Distrtct- Lakhimpur (Khiri), Uttar Pradesh.
59	Action Party for Peoples Progress	No. 13/7, Aishwarya Building, Shop No. 11, 3rd Cross Street, Trustpuram, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu- 600024
60	Adarsh Jan Shakti Party	H.No. 10204, Araie Wali Gali, Maan Auto Stand,Durga Puri, Haibowal Kalan,Ludhiana, Punjab.
61	Adarsh Jankalyan Dal	Village-Chanduwara,P.O.-Jatdumri,P.S.-Punpun,Distt.-Patna Bihar- 804453
62	Adarsh Janta Party	Gram – Kudhi, P.O. - Katnaharsha, Adarsh Nagar, Shikohabad, District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283135
63	Adarsh Lok Dal	Abu Nagar, Opposite Police Station Fatehpur City, Distirt, Fatehpur Uttar Pradesh.
64	Adarsh Manavtawadi Party	D. S. /919, Sector-C,Sitapur Road Yojna,Janakipuram, Lucknow,Uttar Pradesh.
65	Adarsh Nyay Rakshak Party	Village and Post- Matool, Tehsil- Khargapur, District- Tikamgarh, Madhya Pradesh-472115
66	Adarsh Political Party	405, Kundan Bhawan Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110 033.
67	Adarsh Rashtriya Vikas Party	H.No. 1369, Suraksha-1, Sector –4,ELDECO, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh
68	Adarsh Samaj Party	B-505, Kamla Nagar, Agra, Uttar Pradesh.
69	Adarsh Vyawastha Party	Sugahi Ward No.12, Village- Banjaria, Town Area Salempur, District- Deoria, Uttar Pradesh- 274509.
70	Adarshwadi Dal	Jawahar Road, Khurja-203136,Distt. Bulandshahr, Uttar Pradesh

71	Adarshwadi Party (Loktantrik)	H.No.81, Mohalla-Chitrasai, Near Ashok Inter College, Sadar Jaunpur, Uttar Pradesh- 222001
72	Adhikar Party	234, Khirki Alibeg, Rekabganj, Faizabad, Uttar Pradesh-224001.
73	Adhikar Vikas Party	Shivala Chhaya House No. 10/571, Arun Nagar, Alpo Aaya Varg Society, Ward No. 10, Tehsil – Huzur, District – Rewa, Madhya Pradesh
74	Adhunik Bharat Party	299A, Nankari IIT, Kanpur Mahanagar, Kanpur Uttar Pradesh-208016
75	Adhunik Vikaswadi Party	D-1/425, Sector-H, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
76	Adim Bhartiya Dal	Beldar Bhawan, Kuri Bazaar Marg, (Balua) Kuri Bazaar, Distt. Gorakhpur – 273404, Uttar Pradesh.
77	Adivasi Jan Kalyan Party	C/o Dakshin Gujarat Gamit Samaj Seva Trust Panwadi, Near Gujarat Traders, Vyara, District- Tapi, Gujarat-394650.
78	Advait Ishawasyam Congress	Guruaaiyanwari Ashram, Riva Naka, Meher, Distt. Satna, Madhya Pradesh.
79	Agar Jan Party	V-949, Aggarwal Wali Gali, Near Main Krishna Gali, Moujpur, Delhi-110053.
80	Agila India Makkal Kazhagam	No.3, Second Cross, Vallalar Nagar, Pethuchettipet, Lawspet Post, Puducherry- 605008.
81	Ahila India Dhayaga Makkal Munnetra Katchi	No.1/407, Iyer Colony, Thanakkankulam, Tirunagar, Madurai, Tamil Nadu – 625006
82	Ahimsa Socialist Party	D. No. 5/125, West Palapatty, Post- Sellappampatty, Taluk and District- Namakkal, Tamil Nadu-637019.
83	Ahinsa Dal	Sikarwar Sadan, L-1/108, 109 Sector-B, Priyadarshini Colony, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
84	Ahinsa Samaj Party	Priyadarshni Colony, Near of Vridha Ashram, Ward No.47, Chhindwara, Tehsil and District- Chhindwara, Madhya Pradesh-480001.
85	Ahinsawadi Janata Party	Near N.T.P.C. Main Gate, Noufari, Village – Lodhai, Shamshabad Road, Agra, District – Agra, Uttar Pradesh.
86	Aihra National Party	1/24, S.F., KMT Bhawan, St. # 2, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
87	Aim Political Party	543, Babasheb Ambedkar Society, Room No.179, CEN No. 301, Capt. Prakash Pethe Marg, Cuffe Parade, Colaba, Mumbai, Maharashtra – 400005.
88	Aims Party	Azad Chowk, Piprahi Bazaar, Post – Piprahi, Distt. - Sheohar BIHAR-843334.
89	Ajeya Bharat Party	A-14, Mohan Estates, Mathura Road, New Delhi.
90	Akahand Bharat Maha Sangh Sarvahara Krantikari Party	Sunfool, Kota-1, (Rajasthan).
91	Akali Dal (1920)	296, Sector 10-A, Chandigarh-160010.
92	Akhand Bharat Chetna Dal	Plot No. 9, Khasra No. 114/2, Sai Colony, Bhaijan Rikshe Vale Ke Peeche, New Colony, Garha, Jabalpur, Madhya Pradesh- 482003
93	Akhand Bharat Janpriya Party	Ganesh Sharma, Road No. -3, Bajrangpuri, Bhagat Singh Path, Guljarbagh, Patna, Bihar-800007
94	Akhand Bharat National Party	22-3-947/33/A/1/1, Mega City No.125, Purani Haveli, Opp. Setwin Office, Hyderabad-500002, Andhra Pradesh.
95	Akhand Bharat Party	47 – Rukmani Vihar, Opposite to Mandi Samiti, Bye-Pass, Mathura, Uttar Pradesh – 281001.
96	Akhand Bharat Samaj Party	E-14, First Floor, DDA Mini Market, Sultan Puri, Delhi – 110086
97	Akhand Bharat Samrajya Party	F 305, Rajharsh Colony, Kolar Road, Akbarpur Bhopal, Madhya Pradesh- 462042.
98	Akhand Bharat Swatantra Party	Village- Patni, Post and Thana- Chiklana, District- Saharanpur,

		Uttar Pradesh.
99	Akhand Bharat Vikas Party	Plot No. 100, Transport Nagar, Saharanpur, Uttar Pradesh-247001
100	Akhand Bharatheeya Aawaaz	A – 54, Manek Nagar CHS Ltd., M.G. Road, Kandivali (West), Mumbai – 400067 Maharashtra.
101	Akhand Bharatiya Kavach Party	B-33, Ashok Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
102	Akhand Bhartiya Yuva Party	421/6, Block-B, Laxmi Vihar, Burari, New Delhi- 110084
103	Akhand Desham Party	6, Dwarkapuri, Sector-8, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
104	Akhand Hind Party	B-13, Rafiq Compound, Kishan Nagar, West Durgati Marg, Dahisar (East), Mumbai, Maharashtra-400068.
105	Akhand Jharkhand People's Front	At & P.O.- Gidhaur, Distt. Jamui, Bihar – 811305.
106	Akhand Manav Party	House No.C-20, Nilbad Bala jee Nagar, Phase-I, Tehsil-Huzur, District-Bhopal, Madhya Pradesh-462044
107	Akhand Rashtrawadi Party	7/5/67/2, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh - 226002.
108	Akhand Rashtriya Rakshak Party	B/267, Shree Jivrajpark, Near Narayan Nagar, Post-Khodiarnagar, Ahmedabad, Gujarat- 382352
109	Akhand Samaj Party	2/45, Baloo Aada, Sanjay Gandhi Nagar, P.N.Road, P.S-Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
110	Akhand Samta Party	Flat No. R-202, Teera Green, Alwar by Pass Bhiwadi, Tehsil-Tijara, District- Alwar, Rajasthan- 301019.
111	Akhil Bharat Hindu Mahasabha	Mandir Marg, New Delhi-110001.
112	Akhil Bharat Samagra Kranti Party	Rajendra Pandey's House, In front street of Dr. Saleem Ahmad, Katra, Basti, District Basti, Pin Code No.272001, Uttar Pradesh.
113	Akhil Bharatiya Aman Committee	1/9986, West Gorakh Park, Shahdara, Delhi-110032.
114	Akhil Bharatiya Ashok Sena	117/0/117, Gita Nagar, Kanpur-208025 (Uttar Pradesh).
115	Akhil Bharatiya Atyant Pichhara Sangharsh Morcha Party	Transformer Lane, North Nawada, Ara, District – Bhojpur, Bihar- 802301.
116	Akhil Bharatiya Azad Lokhit Congress Party	Khari Mohalla, Khatikon Ka Chowk, Bhiwani, Haryana.
117	Akhil Bharatiya Azad Party	Phawwara Tiraha, Nai Sarak, Shajadpur, Akbarpur-224122 Janpad-Ambedkarnagar, Uttar Pradesh.
118	Akhil Bharatiya Congress Dal (Ambedkar)	Ch-1, Kumbha Nagar, Housing Board, Chittorgarh-312001 (Rajasthan).
119	Akhil Bharatiya Dalit Utthan Party	A-201/2, Gali No. 1, Vikas Marg, Shakarpur, Delhi-110092.
120	Akhil Bharatiya Desh Bhakt Morcha	Puranderpur G.P.O., Patna (Bihar).
121	Akhil Bharatiya Gareeb Party	Village-Kurana, Post Simmaivali, Distt. Ghaziabad (U.P.).
122	Akhil Bharatiya Gorkha League	Mahabir Building, Ladenla Road, Darjeeling – 734101 (West Bengal).
123	Akhil Bharatiya Hind Kranti Party	Krishna Bhavan, Semriya Chowk, Satna, Madhya Pradesh.
124	Akhil Bharatiya Jan Sangh	T-14, Okhla Industrial Area, Phase-II, New Delhi-110020
125	Akhil Bharatiya Jan Shakti Party	2538, Hudson Line, GTB Nagar, Delhi-110009
126	Akhil Bharatiya Kisan Mazdoor Morcha	Shri Mahatma Gandhi Vichar Kendra, Uldan, Jhansi. (Uttar Pradesh).
127	Akhil Bharatiya Kranti Dal	7, Prem Colony, Pragati Path, Ist Floor, Kalyan Nagar, Behind Hanuman Mandir, Tonk Road, Jaipur – 302011, Rajasthan.
128	Akhil Bharatiya Loktantra Party	Vill & P.O.Dattavali, Distt. Meerut (U.P.).
129	Akhil Bharatiya Manav Adhikar	1602, D.D.A. Janta Flats, G.T.B.Enclave, Delhi-110093.

	Dal	
130	Akhil Bharatiya Manav Seva Dal	A-74, Sector-12, Noida (U.P.).
131	Akhil Bharatiya Manavata Paksha	Manavata Bhavan Pentry (Koke), Teh. Sindevahi, Distt.-Chanderpur, Maharashtra.
132	Akhil Bharatiya Muslim League (Secular)	Khari Kuan, Mughalpura Ist, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
133	Akhil Bharatiya Rajarya Sabha	Adarsh Gurukul Shahi, District Pilibhit-262001 (Uttar Pradesh).
134	Akhil Bharatiya Ram Rajya Parishad (Prem Ballabh Vyas)	Shri Krishna Bodh Dham, 7, Shankracharya Marg, Civil Lines, Delhi – 110054.
135	Akhil Bharatiya Revolutionary Shoshit Samaj Dal	Vaishali Nagar, Sidheshwar Ves, At. & Post : Latur, Distt. Latur, 413512 (Maharashtra).
136	Akhil Bharatiya Samajwadi Congress	C-31, Hauz Khas, August Kranti Marg, New Delhi- 110016.
137	Akhil Bharatiya Sangharsh Dal	Nangli Bhattha, Fethegharh Choorian Road, Amritsar-143001, Punjab.
138	Akhil Bharatiya Sena	Om Kala Niketan Sankalap, Co-op. Housing Society, Anandgar, Vikhorli Park Site (West), Mumbai-400079 (Maharashtra).
139	Akhil Bharatiya Shivsena Rashtrawadi	Akhil Bharatiya Shivsena Bhawan, Gur Mandi, Ludhiana (Punjab).
140	Akhil Bharatiya Socialist Party	3, Circular Road, Prayagraj, Uttar Pradesh-211001
141	Akhil Bhartiya Aamjan Party	Mukam, Post Ladpura, Via-Gagwana, District-Ajmer, Rajasthan-305023'.
142	Akhil Bhartiya Aapki Apni Party	F-2, Ground Floor, Rajendra Park, Nangloi, New Delhi-110041
143	Akhil Bhartiya Aarakshit Samaj Party	392B, Sector-B, Sarvdharm Colony, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462042
144	Akhil Bhartiya Apna Dal	1372, Ganesh Nagar, Malik Mau Aima, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229010
145	Akhil Bhartiya Ekata Party	Jadhavwadi Road, Hanuman Chowk, Tehsil & District-Osmanabad, Maharashtra- 413501
146	Akhil Bhartiya Gondwana Party	263, Rahul Nagar, Kolar Road, Bhopal-462003, MADHYA PRADESH.
147	Akhil Bhartiya Jan Morcha	House No. 960, Pratap Nagar, Bhanpur, Bhopal, Madhya Pradesh-462037.
148	Akhil Bhartiya Janadesh Party	House No.43, Village-Delhua near Berubarvari, Main Road, Shuukhpura, Bansdih-Road, District-Ballia, Uttar Pradesh-277301
149	Akhil Bhartiya Janata Sahara Party	7/96-97, Vikas Nagar, Lucknow (Uttar Pradesh).
150	Akhil Bhartiya Janhit Party	Post – Sajani, Taluk – Hatkanagale, District – Kolhapur, Maharashtra – 416115.
151	Akhil Bhartiya Jansatta Party	60, Chaudharana, Post- Jais, District- Amethi, Uttar Pradesh-229305
152	Akhil Bhartiya Jharkhand Party	Village – Kinudeeh, Post – Karandeeh, Jamshedpur-831002, Distt. – Poorvi Singhbhoom, Jharkhand.
153	Akhil Bhartiya Kalyan Party	Mohalla- Mirdhan South, Post- Dariyabad, District- Barabanki, Uttar Pradesh- 225403
154	Akhil Bhartiya Kisan Majdoor Party	Village-Faridpur, Tehsil-Tigaon, District-Faridabad, Haryana-121101
155	Akhil Bhartiya Kranti Sena Paksh	Shop No. 01 in Maharana Pratap Chowk, Opp Bhagat Singh School, Bajaj Nagar, Waluj MIDC, District-Aurangabad, Maharashtra-431001
156	Akhil Bhartiya Lok Dal	A-1, Main Road, Gokal Puri, Near Aggarwal Sweet Corner, Shani Sai Mandir, Delhi – 110094

157	Akhil Bhartiya Lokadhikar Party	Shop No. 9, 'B' Wing, Bhuraj Enclave, Samarth Wadi, Near Mankhurd Station (E) Road, Mumbai, Maharashtra – 400088.
158	Akhil Bhartiya Loktantrik Congress	F-3, Park Road, Lucknow (U. P.).
159	Akhil Bhartiya Manavadhikar Vichar Manch Party	Ballia(Jilebiamore), Sultanganj, Deoghar Road, Post – ManjhaliMatihani, Via – Belhar, District – Banka, Bihar.
160	Akhil Bhartiya Mithila Party	Vilas Rai Complex, Sitamarhi Road, N.H.-77,Near S.S.B.Head Quarters, Rusulpur, Muzaffarpur, Bihar-842004.F.No.56/10/PPS-III/2017
161	Akhil Bhartiya Nagrik Sewa Sangh	Plot No. 98, Ratan Lal Nagar,Kanpur – 208022, Uttar Pradesh.
162	Akhil Bhartiya Naitik Party	Moh. Kanhaipurwa, Near Bilgram Chungi, Janpad – Hardoi, Uttar Pradesh – 241001.
163	Akhil Bhartiya Navnirman Party	Village- Sikatiya, Post- Langri, Thana- Hata, District- Kushinagar, Uttar Pradesh- 274203
164	Akhil Bhartiya Parivar Party	A-37,Pocket-11,Bhuthal,DDA Janta Flat,JASOLA,Delhi- 110025
165	Akhil Bhartiya Rashtriya Parivar Party	B-19/70-4, Dyodhiabeer, Bhelupur, Varanasi, UTTAR PRADESH.
166	Akhil Bhartiya Sarvadharm Samaj Party	72, Bajrang Nagar, Road No.6, Manewada Road, Post-Parvatinagar, Nagpur, Maharashtra- 440027
167	Akhil Bhartiya Sarvjan Hit Party	448/986, Mallahi Tola-1,Nagaria,Lucknow,Uttar Pradesh – 226003
168	Akhil Bhartiya Sawarn Party	177/Q/94, LIC Society, Sharda Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh - 208024.
169	Akhil Bhartiya Sudhar Party	House No. 2389, 1st Floor, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-110009.
170	Akhil Bhartiya Swarajya Dal	H. No. 22/178, Manjh Khore Ramedi, Tarous Chauraha, Hamirpur, Uttar Pradesh
171	Akhil Bhartiya Vikas Congress Party	S-7,Vikasdeep Basement, Station Raod, Lucknow -226001 Uttar Pradesh.
172	Akhil Hind Forward Bloc (Krantikari)	Ward No.36, Holding No. 711/499, Railway Hunder Road, Upadhyay Lane, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna Bihar – 800003.
173	Akhil Jan Vikas Dal	50A/1A, Nahar Pur, Rao S.K. Shopping Complex, Sector-7, Rohini, Delhi-85.
174	Akhil Rashtrawadi Party	Moharvati Sisoudiya Bhawan, Near Dak Bangla, Nadri Gate, Kasganj, District Eta (Uttar Pradesh).
175	Akhila Bharatiya Rytha Party	No. 127, Shravanabelagula Town, Bangaluru Main Road, Channarayapatna Taluk, Hassan District, Karnataka-573135.
176	Akhila India Jananayaka Makkal Katchi (Dr. Isaac)	No. 171, Kannan Nagar, Winterpet, Arakonam, Vellore Distt., Tamil Nadu.
177	Akhila Kerala Trinamool Party	House No. 161, Swathi Nagar, Edaikkode Desam, Pallichal Village, Nemom Post Office, Thiruvananthapuram, Kerala – 695020
178	Akhila Vijaya Party	D-591,5th Floor, Hubdown Market,Geeta Mandir,Bus Stop,Ahmedabad,Gujarat- 380022
179	Akhilandra Mahadesam	Door No. 2-9-53, Nawabpet,Medak – 502 110, Medak District, Andhra Pradesh.
180	Akila India Vallalar Peravai	43, Pillayar Koil Street, Veera Ragavapuram,Chennai – 600 077, Tamil Nadu.
181	Akila Inthiya Makkal Marumalarchi Kazhakam	144/82,Mariamman Kovil Street,Thuvakudi-Post,Thiruvurumbur-Taluk,Trichirappalli-District Tamil Nadu- 620015
182	Al-Hind Party	B-2/40, Safdarjung Enclave, New Delhi-110029.
183	All India Ambedkar Makkal Munnetra Kazhagam	104, Walja Road, 3rd Floor, Arivu Mani Arangam, Triplicane, Chennai, Tamil Nadu 600002
184	All India Athithanar Makal	H.O. 24, Thangam Colony, Annagar Weat, Chennai-40, Tamil

	Katchi	Nadu
185	All India Azaad Congress Party	H. No. 5-9-30/C, Madison House, Basheer Bagh, Hyderabad, Andhra Pradesh
186	All India Babu Jagjivan Ram Baba Saheb National Congress	C-22, Basement, Chirag Enclave, New Delhi-110048
187	All India Bahujan Samman Party	107, Tikri Kalan, New Delhi-110041
188	All India BC, OBC Party	H.No. 1-1-109/18, Ramdas Nagar, Kapra, ECIL, Ranga Reddy District, Andhra Pradesh – 500062
189	All India Bharti Jug Party	Near Luxmi Narain Mandir, Grain Market, Mansa – 151 505, Punjab
190	All India Christian Democratic and Backward People's Party	Block A-1, Flat 2, Kolkata-700054 (West Bengal)
191	All India Dalit Welfare Congress	Flat No. 44, Sector B-4, Narela, Delhi
192	All India Democratic Party	M – 77, Sector - 9A, Saket Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh – 462024
193	All India Disabled Party	Plot No. 57, Bhagavan Sri Sesasthiri Nagar, Malapatti Road, Don Bosco College Backside, Balakrishnapuram Panchayat, Dindigul, Tamil Nadu- 624003.
194	All India Federal Bloc	Malekkudy, Elembakapilly P.O., Koovappady, Ernakulan District, Kerala- 683544
195	All India Forward Bloc (Subhasist)	49-M, Mothilal, 1st Street, Madurai- 625010, (Tamil Nadu)
196	All India Hindustan Congress Party	191-C, Chandranagar A, Nau Dukan, Kalwad Road, Govindpura, Jhotwada, Jaipur, Rajasthan – 302012
197	All India Jaihind Party	D.No. 22-77, Bhagat Singh Nagar, 6th Line, Yanamalakuduru, Vijaywada, Andhra Pradesh- 520007
198	All India Jan Congress Party	A-1B/110A, Krishna Apartments, LIG Flats, A-1B, Paschim vihar Delhi- 110063
199	All India Jan Samasyanivaran Party	Ward no.1, At Post & Tehsil - Kalmeshwar, District - Nagpur, Maharashtra – 441501
200	All India Jana Andolan Party	Khadalay, Pudung Busty, Relly Road, Kalimpong Khasmahal, Post and Police Station- Kalimpong, Dist- Darjeeling, West Bengal- 734301
201	All India Jananayaka Makkal Kazhagam	No. 137, Kesava Garden, 3rd Block, Demellous Road, Channai, Tamil Nadu- 600012
202	All India Janaraksha Party	K.No. 1403/VS-17/1404/VS 18, Gangadharapura, Doddaballapura Town, Bangalore Rural - District, Karnataka
203	All India Kisan Janatha party	Door No. 2-221, Jayapuram Village, Kudair Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh, Andhra Pradesh- 515751
204	All India Kissan Mazdoor Morcha	Gali Gujjar Singh Wali, Inside Bagdadi Gate, Firojpur City, Punjab- 152002
205	All India Krantikari Congress	184/1469, Moti Lal Nagar-1, Goregaon (West), Mumbai-400104, Maharashtra
206	All India Labour Party	34/1-A, Lower Range, Kolkata, West Bengal- 700019
207	All India Legal Rights Party	D. No. 27, New No. 8j, Kalayanavainayagar Koil street, Pandian Nagar, Thirunagar, Distt.-Madurai, Tamil Nadu –625006
208	All India Liberal Party	Plot No. 48, Near Vinayaka Temple, Sector-6, M.V.P. Colony, Visakhapatnam-530017, Andhra Pradesh
209	All India Lok Raj Party	Village-Meharban, Tehsil & District-Ludhiana (Punjab)
210	All India Mahila Democratic Front (AIMDF)	House No.6-1-57/62, Secretariat Road, Saifabad, Hyderabad- 500004, Andhra Pradesh
211	All India Mahila Empowerment	D.No. – 9-4-135/35/A, 9-4-135/35, Plot No. – 35, Survey Nos. 206,

	Party	207, 210, 199, 198, 195/2, Aruna Colony, Tolichowki, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500008
212	All India Majlis-E-Inquilab-E-Millat	No. 23-1-1009/13, Moghalpura, Hyderabad, Telangana- 500002
213	All India Makkal Nalvalvu Katchi	No. 2/259, Ondibadanayakanpatti, Palakkanuthu Post, Dindigul District, Tamil Nadu- 624619
214	All India Makkal Rajya Kazhagam	Plot No.6-7, Sheikh Mohamed Nagar, Alundur, Srirangam-Taluk, Distt.-Tiruchirapalli, Tamil Nadu-620012
215	All India Manavadhikar Rajnaitik Dal	Village & Post – Rajapur, Thana – Cholapur, Tehsil & District – Varanasi, Uttar Pradesh - 221101
216	All India Manchi Party	Flat No. F-5, Sai Apartment, Katuru Road, Vuyyuru, Krishna District, Andhra Pradesh.
217	All India Mazdoor Party (Rangreta)	H.No. 2453, Bagh Wala Khuh, Jandiyala Guru, District – Amritsar, Punjab
218	All India MGR Makkal Munnetra Kazhagam	Flat No.- A-4, Srinivas Arcade, No. 1/2, Arunachalam Road, Chennai, Tamil Nadu- 600093
219	All India Minorities Front	148, South Avenue, New Delhi-110001
220	All India Moovendar Munnani Kazhagam	Lake Area, Melur Road, Madurai-625107, (Tamil Nadu)
221	All India Mukti Dal Party	Plot No. 158/1, H. No. 37-93/55/1, Road No.3, Mathuranagar, Neredmet 'X' Roads, Secunderabad-500094, Andhra Pradesh.
222	All India Muttahida Qaumi Mahaz	# H. No. 19-2-23/M/J/5/E, 1st Floor, Bahadurpura, Mecca Colony, Hyderabad-500053, Andhra Pradesh.
223	All India Party for the Protection of Civil Rights	100 A/5, 11th Sector, 66th Street, Ponnambalam Salai, K.K. Nagar, Chennai – 600 078
224	All India Pasumpon Munnetra Kazhagam	No. 47B/2, Sorgavasal Street, C.N.Graman, District- Tirunelveli, Tamil Nadu- 627001
225	All India Pattali Munnetra Katchi	No.-90, Gandhi Road, Kallakuruchi, Viluppuram (DT), Tamil Nadu – 606202
226	All India People Development Party	D. No. 1/119-B, North Street, Aanaikutt Dam (Post), Thiruththangal(Root), Sivakasi (Taluk), District-Virudhunagar, Tamil Nadu- 626130.
227	All India Peoples' Front (Radical)	B.P.- 18, 40- Feet Road, Patel Nagar, Mugal Sarai, Chandauli, UTTAR PRADESH.
228	All India Pichhada Jan Samaj Party	475/15 Ka, Kadam Rasool, Daliganj, Lucknow, Uttar Pradesh
229	All India Praja Party	H.No.- 5-1-240, 2nd floor, Jambagh, Street No.- 17, Near Flower Market, Hyderabad, Telangana- 500095
230	All India Puratchi Thalaivar Makkal Munnetra Kazhagam	D. No. 33, Kannadasan Main Road, 1st Floor, S.S. Colony, Madurai, Tamil Nadu-625010
231	All India Rajiv Krantikari Congress	B- 58, Gali No. 18, Jitar Nagar, New Delhi – 110051.
232	All India Raksha Party	Post Box No. 136, Main Post Office, Karnal-132001, Haryana.
233	All India Ravidas Samata Party	Bhagwat Singh Bhawan No. 10, Sector – 11, Shastrinagar, Meerut, Uttar Pradesh.
234	All India Samata Party	H.No. 23-8/3, Millennium Township Shadnagar, Farooqnagar Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 509216
235	All India Samathuva Makkal Katchi	2, Kalyani Nagar, Kattivakkam, Chennai – 600041, Tamil Nadu
236	All India Sathyajothi Party	Ongarakudil, 19, Extension, Thuraiyur, Trichy District, Tamil Nadu - 621010.
237	All India Secular Front	Furfura, Post-Furfura, P.S.-Jangipara, District-Hoogly, West Bengal – 712706.
238	All India Shiromani Baba Jiwan Singh Mazhabi Dal	Village & P.O. Majitha, Amritsar (Punjab).

239	All India Singaravelar Munnetra Kazhagam	No. 2/305, Singaravelar Nagar, Neelangkarai, Chennai –600 041, Tamil Nadu.
240	All India Tafsili United Party	Village Simulpur, Post-Thakur Nagar, Distt. 24-Parganas (N) (West Bengal).
241	All India Tamil Makkal Munnetra Kazhagam,	No. 25, Veerapandi Street, Perambur, Chennai-600 039,Tamil Nadu.
242	All India Tribes And Minorities Front	Windrush Hill Annexe, Shimla-2 (Himachal Pradesh).
243	All India Ulama Congress	No 20-24, Jafferabad Village, Gulbarga Taluka, District - Gulbarga, Karnataka
244	All India Uzhavargal Uzhaippalargal Katchi	Door No.55, First Floor,Sinavar Street, Tiruppattur-635601,Tamil Nadu,CHENNAI.
245	All India Women Democratic Freedom Party	No. 36, Ganesh Nagar, Near Ambedkar Nagar Bus Stop, 200 Feet Road, Kolathur, Chennai, Tamil Nadu – 600099.
246	All India Women United Party	Room No-1, 4th Floor, A-117, Shubrati Apartment, Okhla Village, Jamia Nagar, New Delhi - 110025.
247	All India Youth Development Party	4/286,Kallipuram Vattam,Vella Kuttai Village,Vaniyambadi Taluk,Vellore District,Tamil Nadu – 635752.
248	All Indian Rajiv Congress Party	41/238, Alapur House, Radhakrishna Mandir Lane, Narhi, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
249	All Indian Republican Party	Shop No. 4 in Street No. 33, Plot No. 2814, Mauja Bhanapeth, M.G. Road, Tehsil & District- Chandrapur, Maharashtra- 442401
250	All Indians Party	Door No. 30-3-11, Assam Gardens, Visakhapatnam, Andhra Pradesh- 530020
251	All Indians' Gandhi Congress	212, Kalika Nagar, Andrahalli, Main Road, Bangaluru-560058, Karnataka.
252	All J & K Kisan Majdoor Party	Standard Hotel, Saheed Chowk, Jammu, Jammu & Kashmir.
253	All J & K Peoples Patriotic Front	Jawaharnagar, House No.97, Police Station, Ragh Bagh, Srinagar (Jammu & Kashmir).
254	All Jammu & Kashmir Liberal Democratic Party	M.P. Gali, Raj Bagh, Srinagar, Jammu & Kashmir.
255	All Jammu and Kashmir Republican Party	1464, Mohalla Khwaja Bazar, Near Power Station, Anantnag, Pin Code -192101, Jammu and Kashmir.
256	All Pensioner's Party	No.12D, PavodumThoppu, Nellorepet, Gudiyattam,Vellore District, Tamil Nadu - 632602.
257	All Peoples Party	Door No. 1-138, Pallegunta Village. & Post,Gurazala Rural Mandal, Guntur District. Andhra Pradesh.
258	Alpjan Samaj Party	Dak Bangala Market Parishar, 1st Floor, Shop No. 28, Dak Bangla Market, P.O. – Sasaram, P.S. – Sasaram, Distt. Rohtas, Bihar – 821115.
259	Aman Aur Shanti Tehreek-E-Jammu & Kashmir	JK-E-Khdmak Markaz, K.P. Chowk, Khanabal, Anant Nag, Near Govt. Higher Secondary School, Jammu & Kashmir- 192101
260	Aman Party of India	83, Sushila Vihar Phase – 1, Ward No. 2, Bhoad, Bulandshahr, Uttar Pradesh.
261	Aman Samaj Party	V-1452, Street No. 4, Vijay Park, Delhi – 110053.
262	Ambedkar Bahujana Samatha Party	08-7, Timmajipet (Vill. & Mandal), Nagarkurnool, Telangana - 503001
263	Ambedkar Janatha Party	No. 57/1, Savimana Enterprises, Badrappa Layout, Kodigehalli, Nagashettyhalli, Main Road, Bagalore-560092, Karnataka.
264	Ambedkar Kranti Dal	Shanti Homeopathic Store, Arya Samaj Chowk, Badayun, Uttar Pradesh.
265	Ambedkar National Congress	8-3-323, Amreetpet Cross Road, Hyderabad (Andhra Pradesh).
266	Ambedkar National Makkal Katchi	Door No. 53, Gandhi Road, (formerly Peeran Lane), Thirupattur, Vellore District, Pin-635601 Tamil Nadu.

267	Ambedkar Peoples Movement	39. Saravana Street, T. Nagar, Chennai- 600017 (Tamil Nadu).
268	Ambedkar Political Party	D.No.321/1S,S.Meenakshipuram,Sowdarpatti(P.O.),Thirumangalam(T.K.),Madurai(D.T.),Tamilnadu-625704
269	Ambedkar Pragatisheel Republican Dal	Dr. Lohia Colony, Shahjhapur, Pin-242001 (Uttar Pradesh).
270	Ambedkar Samaj Party	304, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019.
271	Ambedkar Samaj Vikas Party	H.No.- 49, Mohalla- Tilak Nagar, Yamuna Nagar, Tehsil- Jagadhri, District- Yamuna Nagar, Haryana- 135003
272	Ambedkar Sena Party	Village-Kabri,Near Ravidas Mandir,Tehsil and District-Panipat,Haryana-132013
273	Ambedkar Vikas party	Village-Rohta,Indira Awas Colony,P.S.Sadar Bazar,Agara,Uttar Pradesh-282009
274	Ambedkar Yug Party	240/71 F/3, Stainly Road, Kamla Nagar, Allahabad, Uttar Pradesh.
275	Ambedkarbadi Party	136/1,Diamond Harbour Road, Kolkata-700063 (West Bengal).
276	Ambedkarist Republican Party	Behind Rashtrabhasha Prachar Sammittee, Wardha-442001, Distt. – Wardha, Maharashtra.
277	Ambedkarite Party of India	API, Central Secretariat, Plot No.1672, Near Buddha Vihar, Nara Road, Indora (Warpakhad), Nagpur-440014, Maharashtra
278	Amma Makkal Munnettra Kazagam	New No.15, Old No. 8, Ground Floor, West Cott Road, Royapettah, Chennai-600 014,Tamilnadu
279	Amra Bangalee	No.2, Ballav Street, Kolkata-700004 (West Bengal).
280	Anaithindia Samudaya Munnetra Kazhagam	No.7/13, East Meda Street, Thiruvathipuram & Post Cheyyar Taluk – 604 407, Thiruvannamalai Distt., Tamil Nadu.
281	Anaithindiya Samuthaya Makkal Katchi	80, Kuzhandhai Velan Lane, Main Road, Dindigul, Tamil Nadu – 624001.
282	Anaithinthiya Thamizhaga Munnetra Kazhagam	10/2, Nalvar Nagar, Kalveerampalayam, Bharathiar University (Post) Coimbatore-641048 (Tamil Nadu).
283	Anaithu India Makkal Katchi	No. 176/9, 37D, Taluk Office Road, Opp. To Police Quarters Hosur, Krishnagiri District, Tamil Nadu- 635109
284	Anaithu Makkal Arasiyal Katchi	No 1/111,East Coast Road,Injambakkam,Chennai,Tamil Nadu-600115
285	Anaithu Makkal Katchi	No. 44, 2nd floor, Narayanasamy Street, Pulianthope, Near Perambur Barrack Road, Chennai, Tamil Nadu- 600012
286	Anaithu Makkal Munnetra Kazhagam	D. No. 199/416 (RS No. 177-1B), 1st Floor, Arcot Road, Vadapazhani Chennai-600 026 Tamil Nadu.
287	Anaithu Makkal Puratchi Katchi	No. 268, Amman Koil Street, Aladi Post- Viruthachalam(TK), Cuddalore(DT), Tamil Nadu - 606115
288	Anaithu Ulaga Tamilargal Munnetra Kalagam	No.17,Ezhil Nagar,perumalpuram,Palyamkottai,Tirunelveli,Tamil Nadu-627007
289	Anaithumakkal Neethi Katchi	D. No.11, Ground Floor, 8th Street Extension, Ahimsapuram, Sellur, Madurai,Tamil Nadu - 625002.
290	Anarakshit Samaj Party	H. No. 371, 1st Floor, Mohalla - Sadhvada, Kaimganj, Distt. - Farrukhabad, Uttar Pradesh.
291	Anbu Udhayam Katchi	12/11, Subash Illam, Theni – Gudalur – 625518, Tamilnadu.
292	Andaman & Nicobar Janta Party	Garacharma Village, TTI Road, Tehsil - Port Blair, District - South Andaman, Andaman & Nicobar Islands - 744103.
293	Andhra Chaitanya Party	Door No. 12-20-3, Gudu Street, Bheemunipatnam, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh- 531163
294	Andhra Pradesh Rashtra Samaikya Samithi Party	H. No. 11-8-118/2(Old), 11-8-99/84(New), Narsimhapuri Colony, Ashtalakshmi HYD-VIJAYAWADA Highway,Hyderabad-500 035,Andhra Pradesh.
295	Andhra Pradesh Navodaya Praja Party	No.3-11, Thukkuguda, Village, Maheshwaram Mandal, Mankhal Post, Ranga Reddy District (Andhra Pradesh).
296	Andhra Pradesh Rashtra Samithi	Door No. 15-8-158/B, Jakeer Hussain Nagar, 3rd Lane,

		Nandivelugu Road, Old Guntur, Guntur District, Andhra Pradesh-522001
297	Andhra Rastra Praja Samithi	Behind AC Stadium, Koneyapalem Gate, Dargamitta, Nellore, Andhra Pradesh-524001
298	Angika Samaj Party	Aanand Ashraya, P.O.- Old Jute Mill, Sharifganj, Ward No. 42, District- Katihar, BIHAR-854105.
299	Anjaan Aadmi Party	House No. 391/117A/1, Radha Nagar Colony, Phulwariya Road Daraganj, Allahabad Uttar Pradesh.
300	Anjuman Party	House No. 95, Nijaatpura, Nazarali Marg, Kotwali Road, Ujjain, Madhya Pradesh- 456006.
301	Anna Democratic Human Rights Movement Party of India	Amla Bhavan, thrikkannamangal, Kottarakkara, P.O.- Kollam, Kerala- 691506
302	Anna Dravidar Kazhagam	No. 8/1, Cutchery Road, Thiruthuraipoondi, District- Thiruvarur, Tamil Nadu- 614713
303	Anna M.G.R. Jayalalitha Dravida Munnetra Kazhagam	1/213, Thirusakthimutram, Keelaveethi, Patteshwaram, Kumbakonam (Taluka), Thanjavur (District), South India, Tamil Nadu - 612703
304	Anna Makkal Katchi	No.20C, Railway Station Road, Chinnasalem Vilupuram, Tamil Nadu-606201
305	Anna MGR Dravida Makkal Kalgam	No.150, 3rd Cross Street, Srilakshmi Nagar, Alwarthirunagar, Chennai, Tamil Nadu-600087
306	Anna MGR Dravida Munnetra Kazhagam	H. No. - 176, Ward No. - 5, East Street, Palodai Colony, Aanaimalaiyanpatty, Uthamapalayam - Taluk, Theni - District, Tamil Nadu - 625526.
307	Anna Puratchi Thalaivar Amma Dravida Munnetra Kazhagam	No. 1/424, Thotathupalayam, Lakshmi Nagar, Pooluvapatti (Post) Tiruppur, Tamil Nadu- 641602.
308	Anna YSR Congress Party	D.No. 7/2-2, Chilakalabavi Street, Kadapa, Andhra Pradesh-516001
309	Annadata Party	Village- Baghala, Post- Dubha (Via- Jasara), P.S. Lalapur, Tehsil- Bara, District- Prayagraj, Uttar Pradesh- 212107
310	Annan Tamilaga Rising Kazhagam	223, GST Road, Chromepet, Chennai, Tamil Nadu-600044
311	Anndata Karigar Party	Ganiyare- Badhan, District- Singrooli, Madhya Pradesh- 486886
312	Antarrastriya Swarn Congress Party	Village & Post - Sarakara Vishnoi, Vikas Khand - Dilari, Tehsil - Thakurdwara, District - Moradabad, Uttar Pradesh - 244401.
313	Anti Corruption Dynamic Party	Plot no. 52, Ganesh Nagar, Veppampattu - Village, Thiruvellur- District, Tamil Nadu- 602024
314	Anti Reservation Party of India	H.No. 1184, Sector-21-B, Chandigarh.
315	Apna Dal Balihari Party	Village- Mahakharpur, Post- Raghavapur, Tehsil- Harraiya, District- Basti, Uttar Pradesh-272155
316	Apna Adhikar Party	Masiha Drug House, Line Bazaar, Purnia, BIHAR.
317	Apna Bharatiya Sanatan Party	Jay Shesh Market, Village Kirtar Tara, Post- Birshahpur, Distt.- Mirzapur, Uttar Pradesh- 231001
318	Apna Dal	1/2A.P. Sen Road, Lucknow, (U.P.).
319	Apna Dal (Kamerawadi)	126/17-B.B.N. Road, Lalbagh, Distt.-Lucknow Uttar Pradesh-226001
320	Apna Dal (Soneylal)	Village - Atrampur Nawabganj, Post- Atrampur District- Allahabad, Uttar Pradesh- 229412
321	Apna Dal United Party	Village - Siswa, Post & P.S. - Kasya, District - Kushinagar, Uttar Pradesh - 274402
322	Apna Desh Party	H. No. - 457, Majorganj, District - Sultanpur, Uttar Pradesh
323	Apna Kisan Party	Amla Tola, Ward No- 30, Hotel Jai, New Market, Katihar, Bihar-854105
324	Apna Raj Front	House No.1096, Sector-7, Bahadurgarh, Haryana.
325	Apna Samaj Party	SCF- 49, Phase 3B2, Mohali, Punjab- 160059

326	Apni Janta Party	735/4,(1286/60),Gali No.13,Siddharth Puram (Chauhan Puri),Nai Basti,Lallapura,Distt.Meerut,Uttar Pradesh-250002
327	Apni Jantantrik Party	H. No. 234-K,Sankat Mochan Bhawan,Village and Post-Amarpur Aun,District-Unnao,Uttar Pradesh- 209827
328	Apni Party (Secular)	Village - Unchi Dankaur, Town - Dankaur, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 203201
329	Apni Party India	F-4/149, 2nd Floor, Sector-16, Rohini, New Delhi- 110089
330	Apni Zindgi Apna Dal	A-119, Ground Floor, Near- Angel Mega Mall, Kaushambi, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010.
331	Appamma Makkal Kazhakam	3/59, Mariyamman Kovil Street, Ammapalayam Post, Perambalur Tk. & Dist., Tamilnadu - 621101.
332	Arjak Adhikar Dal	No.128/169/26A,K-Block,Kidwai Nagar,Kanpur,Uttar Pradesh-208011
333	Arunachal Congress	G- Extension, Naharlagun (Arunachal Pradesh)
334	Arya Dal	Central Camp Office – 775, Shanti Colony, Itawa, Uttar Pradesh.
335	Arya Sabha	7, Jantar Mantar Road, New Delhi-110001.
336	Aryavart Party	Village & Post – Barsaina, Thana – Ahirauli, District – Kushinagar, Uttar Pradesh – 274207
337	Asankhya Samaj Party	A-490, Gali No. 22,Shyam Colony, Buddh Vihar, Phase –2, Delhi-110086.
338	Azad Kranti Party	H.No. 559, Block- G, Scheme No. 40, Panki, Gangaganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208020
339	Azad Kranti Party	C-48, South Extension, Part-I, New Delhi- 110049
340	Asli Deshi Party	Shop No. 10, First Floor, B- Block, Central Market, Dilshad Garden, Delhi- 110095
341	Asom Gana Parishad Pragatisheel	H.O.-G.S. Road, Ulubari,Guwahati-781 007, Assam.
342	Asom Jana Morcha	Ward No. 25, Village- Azad Nagar, P.O.- Chutahaibor, Mouja- Nij Sahar, P.S & District- Nagaon,Assam- 782002.
343	Asom Songrami Mancha (Asom)	H.No.5A,Rajgarh Bye Lane No.4,Guwahati,Assam-781003
344	Assam Dristi Party	Doom Dooma Pather Gaon, P.O.-Hansara, District- Tinsukia, Assam- 786790.
345	Assam Jatiya Parishad	First floor of house no. 33,Lamb Road, Uzan Bazar,Guwahati, PS. Latasil,PO. Uzan Bazar,District – Kamrup(M), Assam – 781001
346	Atal Janshakti Party	Village- Yarta, Post- Sikandarpur, Tehsil- Hariya, District- Basti, Uttar Pradesh- 272190
347	Ati Picchara Party	Mohalla- Badi Pahadi, PO-Sohsarai,Thana-Laheri, Zila-Nalanda-803118,Bihar.
348	Ati Pichhda Varg Mahasangh	3/1274, Jankipuram Vistar, Sitapur Road, Lucknow, Uttar Pradesh.
349	Ati Pichhra Jan Dal	Village: Rampur Bakli, Post & Distt. Bijnor, Uttar Pradesh.
350	Atulya Bharat Party	91, Pili Kothi,Near Guruharikishan Public School,Hari Nagar,New Delhi-110064.
351	Autonomous State Demand Committee	Rongniheng, Diphu-782460, Karbi Anglong (Assam).
352	Awami Aamjan Party	New Adarsh Nagar, Ashapurna Colony, Jalore, District-Jalore, Rajasthan-343001
353	Awami Party	E-11/77, New Colony, Hauzrani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
354	Awami Samta Party	Building No.631/135, Pani Gaon, Sector – 9, Post – Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
355	Awami Socialist Party of India	Bukhara, Bakshiwalla Road,Bijnaur – 246 701 (Uttar Pradesh).
356	Awami Vikas Party	606/607, Zayfreen Chambers, Oil Depot Road, Opp. Sewree

		Railway Station, Sewree (E), Mumbai, Maharashtra - 400015
357	Ayya Munnetra Kazhagam	Door No.180/128,Thirugnanasambandar Road,Race course,Coimbatore Tamil Nadu - 641018
358	Azad Bharat Congress	218, Second Floor, LSC Market, Block -A, Samarat Enclave Pitampura, New Delhi- 110034.
359	Azad Bharat Party (National)	Village- 50 Kutiya Rampur, Pargana & Tehsil- Narwal, District-Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 209401
360	Azad Bharat Party (United)	D-59/14A/-1/A, Shivpurva, Rathyatra Road Mahmoorganj, Varanasi, Uttar Pradesh- 221010
361	Azad Hindustan Party	E Block - 265, Yadav Nagar,New Delhi - 110042.
362	Azad Janata Party	208, Dhillan Complex,Akashganga Supaila,Bhilai, District - Durg, Chhattisgarh.
363	Azad Mazdoor Kissan Party	D-4, Prem Nagar-III, Shani Bazaar Road,Kirari Nahar, Nangloi,New Delhi-110086.
364	Azad Party	Khanuhath , Block- Motigarapur, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228132
365	Azad Samaj Party	Village - Mandusara Bujurg, Post - Fatehpur, P.S. - Ranipur, District - Mau, Uttar Pradesh - 276402.
366	Azhagu Tamil Desiyam	TI,Third Floor,Land Marvel Apartments 30,Sadayappan Street,Mandaveli,Chennai Tamilnadu - 600028
367	B.C. Bharatha Desam Party	H.No.12-13-426, Street No.1,Tarnaka,Hyderabad - 500 017Andhra Pradesh.
368	B.C. United Front	15, Saptagiri Nagar, Rethi Bowli, Hyderabad - 500 028, Andhra Pradesh.
369	Baaratha Samuthaya Munnetra Munnani	400/12, Ist Floor, Township Commercial Complex, Kamarajar Nagar Main Road, Avadi, Chennai - 600 071, Tamil Nadu.
370	Backward Classes Democratic Party, J&K (BDP)	Peer Bagh Colony, Opp. Army Gate,Sunjwan Road, Jammu,Jammu & Kashmir - 180 004.
371	Badavara Shramikara Raitara Congress Party	1/A, Parvathi Nagar Main Road, Bellary-583103 Karnataka
372	Bahadur Aadmi Party	S-11/37-38A,Chaukaghat,Varanasi,Uttar Pradesh-221002
373	Bahujan Andolan Party	Shahajipura,Saraytareen Sambhal,Near Prathama Bank,District Sambhal,Uttar Pradesh- 244302.
374	Bahujan Awam Party	H. No. 52/42/A/2, Edmasten Road, Tashkand Marg, Civil Line,Allahabad, Uttar Pradesh.
375	Bahujan Azad Party	Village- Sagram Fandah, Post Office & Police Station- Riga, District- Sitamarhi, Bihar-843327
376	Bahujan Bal Party	D.S.-50/G-II, LDA Colony, Kanpur Road, Lucknow, Uttar Pradesh
377	Bahujan Bharat Party	Vatsalabai Mohan Kamble,Dharavi Kumbharvada,90 Foot Road,V.O.C.,Mumbai City,Maharashtra- 400017
378	Bahujan Dravida Party	House No. 6659,Block No. 9,Dev Nagar,Karol Bagh,New Delhi- 110005
379	Bahujan Ekta Party (R)	Suraj Bhawan, R.D.-136A, Dhram Pura Ex, Najafgarh, New Delhi- 110043.
380	Bahujan Gondwana Party	Ward No. 8, Behind Ram Janki Temple, Burhar, District- Shahdol, Madhya Pradesh- 484110
381	Bahujan Hasrat Party	Village- Kharuwanwa, post- Kunwar Pur, Tehsil- Machhlishahar, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222202
382	Bahujan Kisan Dal	Kisan Bhawan, Rishabh Vihar, Circular Road, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
383	Bahujan Kranti Party (Marxwad-Ambedkarwad)	Village - Dhansua, Post - Central Jail, Fatehagarh, Distt. Farrukhabad, Uttar Pradesh - 209 601.
384	Bahujan Lok Dal	Nadraganj Ramsagar Road,Masjid Gali (Bdi Daha),Gaya,Bihar- 823001

385	Bahujan Lokrajya Party	Maitra Niwas, Tembhorni Road, Kurduwadi Tal - Madha, District-Solapur, Maharashtra- 413208
386	Bahujan Loktantrik Party	G-161, J.J.Colony, Wazirpur, Delhi-110052.
387	Bahujan Maha Party	B-245, Street No. 2, Mandawali, Fazalpur, Near Sadbhavna Apartment, Back of Mother Dairy, Delhi-110092.
388	Bahujan Mazdoor Party	Khasra No. 249, Village- Sikrari, Tehsil- Tundla, P.S. Pachokhra, Janpad/District- Firozabad, Uttar Pradesh- 283204
389	Bahujan Mukti Party	Flat No. 14, Aasha Pushp Vihar, Sahkari Aavas Samiti, Sector – 14, Kaushambi, Gazhiabad, Uttar Pradesh.
390	Bahujan Nyay Dal	596/1, New Paharpur, Police Colony, Thana- Gardnibagh, Post- Anisabad, District- Patna, Bihar- 800002
391	Bahujan Party	125/98, New L.I.G. Barraha –7, Kanpur-208027 Uttar Pradesh.
392	Bahujan Rayat Party	198K-E, Datt Ho, Sosa Rabade Colony, Kolhapur, Maharashtra – 416001.
393	Bahujan Republican Ekta Manch	Hardas Nagar, Kamptee, District Nagpur, Maharashtra.
394	Bahujan Republican Socialist Party	4/17, B.D.D, Worli, Mumbai, Maharashtra-400018.
395	Bahujan Sadan Morcha	Isari Bazar, Post - Isari Bazar, District – Giridih, Jharkhand-825107.
396	Bahujan Samaj Mukti Morcha	H. No. B-198, Gali No. 11, Ground Floor, Bhajanpura, Delhi-110053.
397	Bahujan Samaj Party (Ambedkar)	H.No.- B-33/103, Mohalla Shehrian, Kapurthala, Punjab’.
398	Bahujan Samaj Party (Ambedkar-Phule)	H.No. V-25, Sandhya Venus Apartment S.P.Nagar, Moula-ali, Hyderabad, Andhra Pradesh
399	Bahujan Samaj Vikas Party	20-B.D.S. Commercial Market, Village – Sadarpur, Sector- 45, Post Office- Arun Vihar, Sector – 37, Noida, Janpad – Gautambudhnagar, Uttar Pradesh.
400	Bahujan Samajwadi Party (Baba Saheb)	53-54, 1st Floor, Commercial Complex, South Patel Nagar, In Front of Metro Pillar No. 190, New Delhi - 110008.
401	Bahujan Samyak Party (Mission)	83K/1, Rithora, Bareilly, Uttar Pradesh- 243122
402	Bahujan Sangharsh Dal	Opposite Padav Police Station, Laxmanpura, P.O. Laskar, (Gwalior), Madhya Pradesh.
403	Bahujan Sangharsh Party (Kanshiram)	Bahujan Bhawan, Khabbhashpur, Post-Malikpur, Zila-Ropar, Punjab.
404	Bahujan Sena	124A/G-1, Sector-6, Vaishali, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201012
405	Bahujan Sewa Party	899, Phoolbag Colony, Kursi Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226021
406	Bahujan Shakti	Mines Resque Station Camps, Post – Dhansar, Distt. – Dhanbad, Jharkhand.
407	Bahujan Suraksha Dal	1/7, G.H. Board, Hardasnagar, Stadium Road, Old Bapunagar, Ahmedabad-380024 Gujarat.
408	Bahujan Uday Manch	Village: Chalakpur, Post – Jameen Rasoolpur, Distt. Ajamgarh, Uttar Pradesh.
409	Bahujan Utthan Party (G)	Village- Lonapur, Mazra-Vilai Kheda, Near Purva Madhyamik School Lonapur, Post- Laulai, Tehsil/Pargana - Sadar, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226028
410	Bahujan Vijay Party	98/5, Post Office Gali, Village – Khutbhar, Post & Tehsil – Khajani, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273212.
411	Bahujan Vikas Aaghadi	A-301, Arti Apartment, Vartak Raod, Virar (West), Taluka – Vasai, District – Thane, Maharashtra-401 303.
412	Bahujana Desham Party	Door No. 4/32, Gaddameeda Harijana Wada, Singareddy Palli, Penagalur Mandal, Y.S.R., Kadapa- District, Andhra Pradesh- 516127

413	Bahujana Left Party	H.No. 6-73, SC Wada, Peddalingapur Village, Mandal Illanthakunta, District-Rajanna Sircilla, Telangana State- 505405
414	Bahujana Raajyam Party (Phule Ambedkar)	H.No- 4-33-163, Venkateshwara Nagar, Kukatpally, Pipe line Jagadgirigutta, Balanagar Mandal, Medchal District, Hyderabad, Telangana- 500037
415	Bahujana Rashtra Samithi	Plot No. 34/2, Lalithanagar, West Marredpally, Secunderabad, Telangana- 500026.
416	Bajjikanchal Vikas Party	Sahjanand Nagar, Bhagwanpur, N.H. 28, Muzaffarpur – 842002 (Bihar).
417	Baliraja Party	Plot No. 1, Commercial Complex, Prithviraj Nagar, Belatrodi road, Nagpur, Maharashtra- 440034.
418	Bam Party	538 K/780, Triveni Nagar-II, Lucknow, Uttar Pradesh.
419	Banchita Swaraj Party	117, No., Dr. B.R. Ambedkar Road,P.O. and P.S.-Nalhati,District-Birbhum-737220,West Bengal.
420	Banga Bharat Party	Vill.- Ghanashyampur,P.O.- Purandarpur,P.S. Kandi,Distt.- Murshidabad,West Bengal - 742140
421	Bangali Nabanirman Sena	C/o Supriya Das, Chengkuri Road, Eastern Bye Lane, P.O. – Ambicapatty, P.S. – Silchar Sadar, District – Cachar, Assam - 788004.
422	Bangla Bikashbadi Congress	Yusufgnaj Afaque Nagar, Near Golghar-Chabutara House, P.O & P.S- Islampur, District- Uttar Dinajpur, West Bengal- 733202
423	Barak Valley Territory Demand Committee	Swaraj Bhawan, Silehar Road, P.O. P.S. and District – Karimganj, Pin-788711, Assam.
424	Begumpura Sanjha Front	193, New Rasila Nagar, Basti Danishmandan, Jalandhar, Punjab.
425	Bengaluru Nava Nirmana Party	101,Brigade Paramount,5,Old Madras Road,C.V. Raman Nagar,Bengaluru - 560093
426	Berojgar Aadmi Adhikar Party	D-2/329, Shiv Durga Vihar, Lakkarpur, Faridabad, Haryana.
427	Best Class Party	House No. 94, Mohalla Alwal,Sadar- Azamgarh,Uttar Pradesh- 276001.
428	Bhaarat Mahashakti Party	11A, DDA Flats, Priyadarshni Vihar, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
429	Bhaarateeya Janashakthi Congress	D.No. 4-148/A, Paniyoor Road, Udupi - District, Uchila, Karnataka-574117
430	Bhagidari Kranti Dal	Village & Post – Mawai Padiyana, Block – Sarojni Nagar, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226008.
431	Bhagidari Party(P)	30/5B/4,South Lokpur,Naini,Distt – Prayagraj,Uttar Pradesh- 211008
432	Bhapase Party	Village – Massa (Khn), Tehsil – Kalam, District – Usmanabad, Maharashtra - 413507.
433	Bharastachar Apraadh Mukta Nyay Dal	H. No. – A-1061, Sector- I, L.D.A.Colony, Kanpur Road, Post- L.D.A. Colony, District- Lucknow, Uttar Pradesh- 226012
434	Bharat (Integrated) Rakshak Party	H. No. - B-98, Mayfield Garden, Sector -50, Gurugram, Haryana - 122018.
435	Bharat Abhyudhaya Party	6-6-35, Anasuya Nilayam, Kavadiguda Main Road, Kavadiguda, Secunderabad, Andhra Pradesh – 500380
436	Bharat Bachao Party of India	S – 528, Greater Kailash Part-I, New Delhi –110048.
437	Bharat Bhavishya Party	House No. 94 S, Village -Mugeeshpur, P.S. - Taarun, Post – Chandrikaganj, District – Faizabad, Uttar Pradesh – 224141.
438	Bharat Bhoomi Party	House No. 48, Village- Khapri (Taandpara), Post Office- Pakaria, Tehsil – Pamgarh, Thana- Mulmula, District- Janjgir-Champa, Chhattisgarh- 495553
439	Bharat Bhrashtachar Mitao Party	New House No.4, Ground Floor,Begam Vihar, Block – A, Khasra No. 16/19, Village – Begampur, Near Bhairon Mandir,DELHI - 110086.
440	Bharat Dal	Bharat Sevadham Arnayak, Krantideep Mourana, Nurpur, Distt. Bijnaur (U.P).

441	Bharat Desam Party	Door No. 8-3-270/1, Nehru Nagar, 9th Line, Main Road, Guntur – 522 001, Andhra Pradesh.
442	Bharat Deshbhakt Sangathan	19/460, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
443	Bharat Gaurav Party (India)	13/543, Sector-13, Indiranagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016
444	Bharat Jago Janta Party	New Market, Sahara India Bank Building, High School Para, Katihar, Patna, Bihar- 854105
445	Bharat Jan Aadhar Party	Flat No. 4, Kurla Amar CHS Society, Opp. Janseva Petrol Pump, Kale Marg, Kamani, Kurla (West), Mumbai, Maharashtra- 400070
446	Bharat Jan Jagran Dal	Ward No. -5, Nara Parsauni, Bhairoganj, West Champaran, Bihar- 845106
447	Bharat Jan Party	324, Kailash Nagar, Ghaziabad (Uttar Pradesh).
448	Bharat Jan Shakti Party	H.No. 15/281, Shakti Nagar, Shukla Ganj, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209861
449	Bharat Jansangram Party	H. No. 366, Ahilya, New Shangani Nagar, Post- HVPM, Amravati, Maharashtra- 444605.
450	Bharat Janta Dal (Tughlaq)	Village- Nirmani, Post- Nirmana, Block- Baghra, Thana- Shahpur, Dist-Muzaffarnagar. Uttar Pradesh.
451	Bharat Ka Kisan Majdoor Party	Village-Baliyan (Nayan Nagar), Post – Baliyan, Maharajganj, Siwan, Bihar-841506.
452	Bharat Kalyan Party	Village – Mevli, Tehsil – Kheragarh, District – Agra, Uttar Pradesh- 283115
453	Bharat Kaumi Dal	Village – Lathardeva Hoon, Post – Jhabreda, District – Haridwar, Uttarakhand.
454	Bharat Ki Lok Jimmedar Party	3/250, Vishwas Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010 (Uttar Pradesh).
455	Bharat Kranti Rakshak Party	Barakkatpur, Post-Badagaon, Distt.-Koshambi, Allahabad, Uttar Pradesh.
456	Bharat Labour Praja Party	4-25, Seethanagar Colony, Somulagudem (P), Palvanha (M), Khammam District-507115, Andhra Pradesh.
457	Bharat Lok Sewak Party	Shop No. 16, D-Block Market, Pushpanjali Enclave, Pitampura, New Delhi- 110034
458	Bharat Mahaparivar Party	1286, Ground Floor, DDA Market, New Meena Bazar, Seemapuri, Delhi- 110095
459	Bharat Mangalam Parishad	Jamo Bazar, Hospital Chowk, P.O. Jamo Bazar, District Siwan, Bihar.
460	Bharat Mata Party	Village & Post – Katka, District – Mirzapur, Uttar Pradesh
461	Bharat Mata Saput Party	Village- Dehariya Daya Ram, Post- Lohara Khas, District- Bhadohi, Uttar Pradesh-221303
462	Bharat Nav Nirman Party	A – 2, Nitesh Villa, Vivekanand Colony, Nayakhera, Ambabari, Jaipur-23, RAJASTHAN.
463	Bharat Navnirman Voter Sena	1255-F, Basantvihar, Kanpur-208021 Uttar Pradesh.
464	Bharat Nirman Party	High School Road, P.O.-Triveniganj, Distt.-Supaul-852139, Bihar.
465	Bharat Nyay Dal	N. H. – 58, Delhi By-Pass Road, Gopal Vihar, H. No. 48, Meerut, Uttar Pradesh.
466	Bharat Parivar Party	Bharat Hridya Aashram, Mohalla- Karaccha, Jawalapur, Haridwar, Uttarakhand- 249407.
467	Bharat Peoples Sena	Plot No. 6-4-787, Phule Nagar, Somnathpur Road, Taluk- Udgir, District- Latur Maharashtra.
468	Bharat Prabhat Party	105, 1st Floor, A.G.C.R. Enclave, Near Karkardooma Court, Delhi- 110092
469	Bharat Punarnirman Dal	K.J. – 116, Kavi Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
470	Bharat Rakshak Party (Democratic)	Village Post Pakka Saharna, Tehsil Zila Hanumangarh, Rajasthan.

471	Bharat Swabhiman Party	55/1/228, Ground Floor, Bhavapur, G.T.B.Nagar, Karelie, Prayagraj, Allahabad, Uttar Pradesh- 211016
472	Bharat Uday Mission	C-3/4, Suman Nagar, V.N. Purav Marg,Chembur, Mumbai – 400071.
473	Bharat Utthan Party	Village- Harni Ausari, Pragana-Hissampur, Post- Arai Umri Tehsil- Kaiserganj, District-Bahraich, Uttar Pradesh - 271904.
474	Bharat Vahini Party	Matrimandir, Plot No. E-185, Ram Path, Shyam Nagar, Jaipur, Rajasthan- 302019.
475	Bharat Vikas Morcha	Sekhpura Road, Madhupur, Distt. Devghar, Jharkhand.
476	Bharat Vikas Party (Secular)	Kh. No.21/25, Near HP Petrol Pump, Upkar Properties, A-Block, Himgiri Enclave, Burari, Delhi-110084.
477	Bharat Vishal Party	A/6A, DDA Flat, Munirka, New Delhi – 110067.
478	Bharateeya Bahujana Praja Rajyam	D. No. 956, Arundelpet, 10th Lane, Guntur-522 002 Andhra Pradesh.
479	Bharateeya Manavadhikar Party	21, Rajendra Mullick Street,Kolkata – 700007, West Bengal.
480	Bharath Dharma Jana Sena	Building No.V/489, Mararikkulam North Panchayat, East of Kanichikulangara Temple, Mararikkulam North Village, Cherthala Taluk, Alappuzha (Dist), Kerala - 688544
481	Bharath Praja Spandana Party	D.No. 2-42, Kalavacharla Village, Nidadavole Mandal, West Godavari District, Andhra Pradesh.
482	Bharatha Makkal Katchi	Near Door No. 44 & 45 (Old Door No.38), S.S. Colony, Ponmeni Narayanan Street, Distt.-Madurai,Tamil Nadu - 625016
483	Bharatha Sevai Katchi	No. 1 & 2 Gooms road,Parrys, Chennai,Tamil Nadu - 600001
484	Bharatheeya Chaithanya Party	D. No. 9-186/7, High School Road, Venkat Nagar, Kadiyam, East Godavari District, Andhra Pradesh – 533103
485	Bharatheeya Sadharma Samsthapana Party	House No.3/17, Dorasani Palli, Proddatur Mandal, Kadapa District, Andhra Pradesh.
486	Bharathiya Praja Seva Party	D.No. 6-3-360/1,Sri Krishna Devaraya Nagar,Badvel townl,YSR Kadapa - District,Andhra Pradesh- 517124.
487	Bharathiya Belaku Party	No. 54, Govt. School Road, Village- Gopanahalli, Taluka- Maddur, District- Mandya, Bengaluru, Karnataka- 571422
488	Bharathiya Dravida Makkal Katchi	2036, 15th Main Road, Anna Nagar West,Chennai – 600 040, Tamil Nadu.
489	Bharathiya Jana Shabdth	331(311), Ward No. 1, Kallara House,Mundella (P.O.), Vellanadu,Thiruvananthapuram – 695 543, Kerala.
490	Bharathiya Nethaji Party	3857, 4th Cross, Gayathri Nagar, Bangalore-560021 (Karnataka).
491	Bharathiya Pragnavantha Congress	No. 60c, 80 Feet Road, ITI Layout, Mallathahalli, Nagarrabhavi Ward, Bangalore, Karnataka- 560056
492	Bharathiya Praja Shakti	No. 931,932, Karabala Maidana,Railway Station Cross Road,Channapattna Town & Taluk,Ramanagara District, Pin-571501 KARNATAKA.
493	Bharathiya Yuvatha, Samatha, Rashtriyatha Congress Party	Flat No. G1, Ground Floor,ARK Residency Plot No. 304,Survey No. 153,154,163 and 143,Boduppal, Village & Gram Panchayat – Ghatkesar (Mandal), Rangareddy (District), Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
494	Bharatiya Aam Awam Party	Saristabad, Indrapuri Path, Gali No. E, Gardanibagh, Patna, Bihar-800001
495	Bharatiya Aamjan Party (Vivekanand)	150, Ganesh Colony, Gali No. 8, Near Jain Mandir, Jhothwada, Jaipur, Rajasthan-302012
496	Bharatiya Aavaam Ekta Party	23C, Sector A, SainikVihar, Nanda Nagar, Kuraghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
497	Bharatiya Atragami Dal	44,Sri Krisna Nagar,Road No.1,P.S.Budha Colony,Patna,Bihar-800001
498	Bharatiya Ambedkar Party	Main Bazar, Krishna Nagar, Jaura Fatak, Amritsar (Punjab).

499	Bharatiya Apna Samaj Party	LIG-A/LGF-03,Yashodhara Kunj Awasiya Yojna,Gorakhpur,Uttar Pradesh- 273016.
500	Bharatiya Asha Party	H. No. 590,Village-Bharan,Near Govt. High School,Tehsil-Meham,District-Rohtak,Haryana- 124111
501	Bharatiya Asht Jan Party	151, C Sector, Second Floor, Room No. 203, Inder Puri, Bhopal – 462022 (M.P.).
502	Bharatiya Awaj Party	Milan Committee Sewa Sangh,Santosh Nagar, Behram Bagh,Jogeshwari West, Mumbai-440102, Maharashtra.
503	Bharatiya Awam Taaqat Dal	Village- Sujanidih (Rampur), Post- Sohansa (Mungara Badshapur), Tehsil- Machhlishahar, Distirct- Jaunpur, Uttar Pradesh-222204
504	Bharatiya Backward Party	71, Surya Apartments, Fraser Road, Patna –800001 (Bihar).
505	Bharatiya Bahujan Congress	117, Khodiyar Krupa Soc.,Nr. Kantareshwar Mahadev Temple, Katargam, Surat, Gujarat
506	Bharatiya Bahujan Parivartan Party	Khasra No. 139/2, Vill. – Lakhwaya Rasoolpur, Rohta Road, Meerut, Uttar Pradesh.
507	Bharatiya Bahujan Party	156, Bharauli, Shahganj, Jaunpur,Uttar Pradesh.
508	Bharatiya Bahujan Samta Party	Village & Post- Surjannagar, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244602.
509	Bharatiya Berojgar Party	Village-Kanta Karaundi , Post- Meerak Nagar, Police Station-Nigoha, Tehsil- MohanlalGanj, District- Lucknow, Uttar Pradesh-226302
510	Bharatiya Berozgar Mazdoor Kisan Dal	Bansal Gaon, P.O.Dheghat, Patti Malla, Chackaut, Distt- Almora (Uttaranchal).
511	Bharatiya Bouddhik Vichar Party	Village – Ballanagla Patti,Post – Shahpur Kheri, Tehsil – Dhampur, Distt. – Bijnour, (Uttar Pradesh).
512	Bharatiya Chhatrasangh Bharat	Premghan Marg, Badli Ghat, Mirzapur, Uttar Pradesh-231 001.
513	Bharatiya Congress (M)	16, Batra Colony,M.T.X. (Sonepat), Harayana.
514	Bharatiya Congress Paksha	Kasba Peth, In Front of Linbuwali Sawari, Post-Barshi,District-Solapur,MAHARASHTRA.
515	Bharatiya Democratic Socialist Alliance Party	H.No.198, Mohalla- Katchhpura (Shakya Nagar), Ward No.8, P.O-Raja ka Rampur, District- Etah Uttar Pradesh.
516	Bharatiya Development Party	Building No.14/54,S B Building,Opposite Sree Krishna temple,Asramam,Kollam,Kerala-691002
517	Bharatiya Dr. B.R. Ambedkar Janata Party	No.18, 12th Cross, MTS,Layout, Kengeri Upanagara,Bangluru-560060KARNATAKA.
518	Bharatiya Eklavya Party	Village and Post Belhar Kalan, Tehsil Mahdawal, District Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh.
519	Bharatiya Ekta Dal	189, Basant Apartment, Vasant Vihar, New Delhi – 57.
520	Bharatiya Gana Parishad	House No. 3, Bye Lane No.4, Ward No. 16, Bishnu Rabha Path, Lalganesh (Odalbakhra), P.S- Dispur,District- Kamrup Metro, Guwahati, Assam -781034
521	Bharatiya Gaon Taj Dal	Village-Kuka, P.O. – Maqsdumpur, District Kapurthala, (Punjab).
522	Bharatiya Grameen Dal	Aryavart Prakashan Mandir, Bus Stop Gosaiganj, Janpad-Lucknow, Uttar Pradesh.
523	Bharatiya Hindu Sena	G-17,Ridhi Sidhi Tower,Sector-5,Plot No.4,Near Sun and Moon Tower,Vidhadhar Nagar,Sikar Road,Jaipur,Rajasthan-302023.
524	Bharatiya Hitrakshak Party	No.33 Meera Niwas, Pushkar Park, Baben, Near Baben Prathmik Shala, Taluka – Barodoli, District – Surat, Gujarat- 394601
525	Bharatiya Inqalab Party	Village – Rana Pratap Nagar, Islampur,Post & P.S. – Islampur,Distt. – Nalanda,Bihar.(Pin – 801303)
526	Bharatiya Jagriti Dal	RZ-21D, Gali No.4, Syndicate Enclave, Near Dabri Mode, Delhi - 110045.
527	Bharatiya Jai Bheem Party	1304, Bhantlaiya, Sindhi Camp,Distt. Jabalpur, Madhya Pradesh.

528	Bharatiya Jan Berojgar Chhatra Dal	Near R.T.O. Office, Hussainganj, Siddharth Nagar, Uttar Pradesh.
529	Bharatiya Jan Jagriti Party	Brijdham Ashram, Ranhera, Tehsil-Chhata, District-Mathura (Uttar Pradesh).
530	Bharatiya Jan Kisan Party	1080C, Babaji Bag, Tilak Road, Balua Ghat, Allahabad, Uttar Pradesh
531	Bharatiya Jan Kranti Dal (Democratic)	F-23, Sainik Society, Shakti Nagar, Jabalpur, Madhya Pradesh.
532	Bharatiya Jan Morcha Party	Ward No.-1, Satna Road, Amarpatan, District – Satna, Madhya Pradesh - 485775
533	Bharatiya Jan Sabha	C/o Raja Ram Yadav, Raghuvir Nagar, New Colony, Devaria (U.P).
534	Bharatiya Jan Samajwadi Party	A-62, J. J. Colongy, Khanpur, New Delhi-110062.
535	Bharatiya Janchetna Dal	No.70, LIG Indra Nagar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208026
536	Bharatiya Jankranti Party	12/17, Chakkhuwala, Dehradun, Uttarakhand.
537	Bharatiya Jantantra Sanrakshan Vikas Party	Village – Panditpur, P.S. and Anchal - Piprakothi, District – Purwi Champaran, Bihar – 845429
538	Bharatiya Janvadi Party	A-559, Shastri Park Extn., Buland Masjid, Delhi-110053.
539	Bharatiya Karyasth Sena	121, Vishnu Colony, Shahganj, Agra-282010. Uttar Pradesh.
540	Bharatiya Kisan Parivartan Party	Nagla Dakhal, Kotla Road, Ferozabad-283203, District Ferozabad, Uttar Pradesh.
541	Bharatiya Kisan Rajnaitik Dal	Plot No-04, Khasra No. 151/01, Semra Gaudhi, Madigawn, Sita Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226021
542	Bharatiya Kisan Sena Loktantrik	House No. 392/1, Chak Raghunath, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh.
543	Bharatiya Krantikari Dal	A-5, Priyadarshini Vihar, NEW DELHI - 110092.
544	Bharatiya Liberal Party	C-79, 1st floor, Gali No. 4, Radhey Shyam Park Extension, Radhey Shyam Part Exnt. Colony, Ghondli Ward, Krishina Nagar, Delhi-110051
545	Bharatiya Lok Kalyan Dal	Area/Post/Tahsil Bikabur, Distt. Faizabad, (Uttar Pradesh).
546	Bharatiya Lok Sena	Lower Ground Floor, Office No. – 2, Building No. – A.- 212-C, Tirupati Plaza, Street No. -1, Shakarpur Vikas Marg, Delhi-110092.
547	Bharatiya Loktantrik Party (Gandhi-Lohiawadi)	Satyawati Niwas, Ram Das Path, Meethapur B- Area, Patna - 800001, Bihar.
548	Bharatiya Majdoor Janta Party	Village – Lalpura, Post – Kukthari (Pinahat), Tehsil – Bah, District – Agra, UTTAR PRADESH - 283123.
549	Bharatiya Manavata Vikas Party	133/4, Qutub Enclave, Phase-II, New Delhi-110016.
550	Bharatiya Minorities Suraksha Mahasangh	410, Arcadia Building, Sir J.J.Road, Opp. J.J.Hospital Mumbai-400008 (Maharashtra).
551	Bharatiya Momin Front	174, Anand Puri, West Boring Canal Road, Patna-800001 (Bihar).
552	Bharatiya Mool Niwasi Samaj Party	77/129, Bhagat Singh Colony, Tarla Adhoiwala, Dehradun, Uttarakhand.
553	Bharatiya Nagrik Party	Village Kanasi, P.O. Kanasi, Distt. Farukhabad-207501 (Uttar Pradesh).
554	Bharatiya National Janata Dal	701 A, 7th Floor, Meghmalhar Complex, Sector No.11, Gandhinagar, Gujarat – 382010.
555	Bharatiya Nav Kranti Party	Village- Makhmailpur, Post-Saraikhwaja, Distt.- Jaunpur, Uttar Pradesh.
556	Bharatiya Navyuvak Chetna Party	429/263, Near Amber Marriage Hall, Mojjamnagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
557	Bharatiya Navyuvak Party	H. No. 572, Bye Saheb Ki Pared, Near of Priya Bread Factory, Laxmiganj, Lashkar, Gwalior, Madhya Pradesh.
558	Bharatiya New Democratic Party	Village and Post- Dara, P.S- Joynagar, District- South 24 Parganas, West Bengal- 743337

559	Bharatiya Nyay-Adhikar Raksha Party	Purbo Bishnupur, P.O. - Ramakanta Nagar, P.S - Mandirbazar, District - 24 Paragna (South), West Bengal - 743395
560	Bharatiya Parivartan Congress	126, Adivasi Colony, Near Rashtra Sant Tukdoji Maharaj, Cancer Hospital, Manewada Road, Nagpur-440027, Maharashtra.
561	Bharatiya Parivartan Party	70-A, DDA Flat, Pandav Nagar, Near Metro Station Shadipur, New Delhi - 110008.
562	Bharatiya Peoples Party	House No. T-9, 595/16/11, Shivshakti Nagar, Syed Chincholi Road, Filter Bed, Gulbarga, Karnataka-5851004.
563	Bharatiya Pichhra Dal	Village - Khujri, Post - Sagar, Via - Chakarmatha Camp, Distt. Bilaspur, Chhattisgarh - 495 220.
564	Bharatiya Praja Paksha	No.374/A, I-Floor, I-Block, I-Cross, Ravindranath Tagoor Nagar (R.T.Nagar), Bangalore-560032 (Karnataka).
565	Bharatiya Praja Surajya Paksha	A/P- Khandaj, Taluka- Baramati, District- Pune, Maharashtra-413116.
566	Bharatiya Prajagala Kalyana Paksha	No. 23, Flat No. 401, 4th floor, Everjoy, Nandanavana, 3rd Cross, Dwarka Nagar, Channasandra, Bangalore, Karnataka- 560098.
567	Bharatiya Prajashakti Party	29/3, Panchkuiyan, Jhanshi, Uttar Pradesh.
568	Bharatiya Prajatantrik Shudh Gandhiwadi Krishak Dal	Misda, Distt. Janjgeer, Vikas Khand Navgarh, Chhattisgadhandchal, Chhattisgarh.
569	Bharatiya Purvanchal Party	E-68, Premchand Colony, Pandeypur (1), Varanasi, UTTAR PRADESH.
570	Bharatiya Rashtravadi Paksha	12, Juna Power House, Behind Rotary Hall, Jail Road, Mehsana (Gujarat) Pin-384002.
571	Bharatiya Rashtravadi Samanta Party	F-402, Road No. 9-F, Vishwakarma Industrial Area, Jaipur-302013.
572	Bharatiya Rashtriya Bahujan Samaj Vikas Party	G-96, Shantipuram, Phaphamau, Allahabad, Uttar Pradesh
573	Bharatiya Rashtriya Janhit Party	C-2968, Sapna Colony, Lucknow-226017 (Uttar Pradesh).
574	Bharatiya Rashtriya Mahila Sarvodaya Congress	No.2, 1st Floor, Vayuputra Arcade, Ward No.15, Near NTT, P.B. Road, Dharwad, District - Dharwad, Karnataka - 580001
575	Bharatiya Rashtriya Mazdoor Dal	Naya Sarafa, Gwalior-474001 (Madhya Pradesh).
576	Bharatiya Rashtriya Morcha	D-6, Pratap Bagh Colony, New Hanuman Mandir, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
577	Bharatiya Rashtriya Swadeshi Congress Paksh	308, Ramnagari, 2/C, 3rd Floor, Alandi Road, Bhosry, Pune-411039, Maharashtra.
578	Bharatiya Ravidas Party	Moh. Kundigarh, Post-Sadar, Ajamgarh, Uttar Pradesh.
579	Bharatiya Republican Paksha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
580	Bharatiya Sadbhawana Samaj Party	Khan Manjil Khaparganj, Bilaspur, Chhattisgarh.
581	Bharatiya Samaj Dal	85, Chowk Makandu Ganj, Pratapgarh, Uttar Pradesh.
582	Bharatiya Samaj Kalyan Party Bharat	Ravender Electronics, Purani Chungi, Agra Road, Hathras, Distt. Aligarh (U.P.).
583	Bharatiya Samajwadi party (Loktantrik)	Moh. Chahshiri, Punjab & Sindh Bank Lane, Civil Lines, Bijnor, District-Bijnor, Uttar Pradesh-246701
584	Bharatiya Sampuran Krantikari Party	A-1/150, Aman Vihar, Nangloi, New Delhi - 110041.
585	Bharatiya Samrat Subhash Sena	Village - Ajitpur, Post - Kankhal, Laksar Road, Haridwar, Uttarakhand - 249408.
586	Bharatiya Samta Samaj Party	Gram - Dehramau, Post - Gosainganj, Zila - Lucknow - 227 125 (U.P.)
587	Bharatiya Samtawadi Party (A)	Near Khan Atta Chakki, Opposite Devi Lal Colony, Saraswati Vihar, Mehlana Road, Tehsil & District- Sonapat, Haryana- 131001

588	Bharatiya Sangharsh Morcha	C4/33,EWS Vishwa Bank Colony,A.D.A,Naini,Tehsil-Karchana,Prayagraj,Uttar Pradesh-212301
589	Bharatiya Sanghathit Party (S)	Sai Green City, Ator Road, Near Morti, Rajnagar Extension, NH-58, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201 017)
590	Bharatiya Sangram Parishad	48, Bank Street, Khatau Building, Ground Floor, S.B.S Road, Opposite Old Custom House, Fort, Mumbai, Maharashtra - 400001
591	Bharatiya Sant Mat Party	Bahu Jholri Road,V.P.O. – Nahar, Tehsil – Kosli,Distt. – RewariHARYANA.
592	Bharatiya Sarvjan Vikas Party	Village- Harshpur (pure Ralhi), Post- Kotwashukulpur, Tehsil-Lalganj, P.S. Sangipur, District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230136
593	Bharatiya Sarvkalayan Kranti Dal	2/643/C, Rambagh Colony, Ramghat Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
594	Bharatiya Sarvodaya Kranti Party	113, Malikpur, G.T.B. Nagar, Delhi-110009'.
595	Bharatiya Satya Vijayee Party	C- 120, Begam Vihar Extension, Begampur, Delhi-110086.
596	Bharatiya Satyarth Sangathan	Bharat Nagar, Prem Vidyalaya, Railway Crossing, Opposite Radhapuram Housing Colony, Near Birla Mandiar, Varindavan Road, G.T.V – 3, Mathura-281003, (U.P.)
597	Bharatiya Shakti Sena	Shakti Sena Bhawan, Bariar No. 6, Audyaugik Kshetra Bahadarabad, Haridwar – 249402, Uttarakhand.
598	Bharatiya Shramik Dal	L-238, Vikash Pradhikaran Colony, Indira Nagar, Rai Bareilly (U.P.).
599	Bharatiya Subhash Sena	Vill. & Post Office: Bankasiya Shivratan Singh, Janpad-Gonda - 271302. (U.P.).
600	Bharatiya Suheldev Janata Party	Village and Post- Chitbaragaon, House No. 885B, Ward No. – 8, Indira Nagar, Tehsil – Balia, Balia, Uttar Pradesh – 221713
601	Bharatiya Suraaj Dal	Sinha Bhawan, Exhibition Road, Behind Reserve Bank of India, Patna, Bihar – 800001
602	Bharatiya Swajivi Nagrik Party	Village- Kukuriha, Post- Rudrapur Korwa, Thana- Rudrapur, Tehsil- Rudrapur, District- Deoria, Uttar Pradesh.
603	Bharatiya Swatantra Party	Village- Naugai, P.O. – Raghunathnagar,Teh. –Vadrufnagar, Distt.-Sarguja, Chhattisgarh
604	Bharatiya Uttam Sena	Village & Post – Kheddhain, Thana – Aander, Distt. – Siwan, Bihar.
605	Bharatiya Yuva Party (Democratic)	Ward No. 54, Circle No. 71, Biscoman Golambar, Near B.S.N.L Telephone Exchange, Post Office- Gulzarbagh, Kumhrar, Patna, Bihar- 800007.
606	Bharatiya Yuva Shakti	Haveliyo ka Vaas, Gram Panchayat – Kosewal, Tehsil – Sumerpur, District – Pali, Rajasthan.
607	Bharatrashttra Democratic Party	Shop No. 22, CSC-II, DDA Market, I.P. Extension, Patparganj, Delhi-110092.
608	Bharipa Bahujan Mahasangha	Dr. Ambedkar Bhawan, Gokuldas Pasta Road, Dadar, Mumbai-400014 (Maharashtra).
609	Bharosa Party	H.No. 8-233, Pocharam Grama Panchayat, Ghatkesar Mandal, District- Medchal, Telangana – 500088
610	Bharteey Samajvadi Morcha	3/1108, Dehradun ChowkSaharanpur-247 001 (Uttar Pradesh).
611	Bharti Jan Suraksha Party	Head Office, Dholwha Road,Near Heera Colony, Town & P.O. Haryana, Distt. Hoshiarpur, Punjab -144208
612	Bharti Lok Lehar Party	136, Ajit Nagar, Amritsar (Punjab).
613	Bharti Samudaya Party	7C-10, Vrindavan Yojana, Raibareli Road, P.S. – P.G.I., Tehsil - Lucknow, District – Lucknow, Uttar Pradesh – 226002.
614	Bhartiya Aam Aadmi Parivar	1000 Jay Ambey Apartment, DDA LIG Flates, New Kondali, Mayur Vihar Phase -3, Delhi-110096
615	Bhartiya Aam Janta Vikas Party	Village and Post- Dulma, Thana- Madhuban Motihari, District- East Champarn, Bihar

616	Bhartiya Ahinsa Party	728, Nirala Nagar, Ayodhyapuri, Raebareli, Uttar Pradesh.
617	Bhartiya Amrit Party	Khasra No. 661/3, Kachhariya, Bhopal road Biaora, District-Raigarh, Madhya Pradesh-465674
618	Bhartiya Anarakshit Party	House No.08, Anandvan, NH-2, Nawada, Post- Aurangabad, District- Mathura, Uttar Pradesh-281006
619	Bhartiya Anarya Party	Rajvanshi Market, Bus Stand, Rajgir, Thana. & P.O. Rajgir, Distt. Nalanda, Bihar-803116
620	Bhartiya Antyodaya Party	8-Preet Vihar, Phase-II, Indira Gandhi Marg, Niranjapur-Dehradun, Uttarakhand-248171
621	Bhartiya Apna Adhikar Party	Near Kirar Hostel, Rampuri Aou Khana Kala Shabad, Pratap Aashram, Gwalior, Madhya Pradesh - 474012
622	Bhartiya Arakshan Mukti Dal	291, Agnipotra Nagar cackdikheda, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208017
623	Bhartiya Arya Kranti Manch	83 Ram Vatika Colony, Behind Geeta Palace, Shyamganj, Bareilly, Uttar Pradesh – 243005
624	Bhartiya Asmita Party	H. No. 302, Village-Katbav, Dahagaon Road, Pst-Vashind, Taluka-Shahpur, District-Thane, Maharashtra- 421601.
625	Bhartiya Awaam Activist Party	Village-Keshru, P.S. – Chandauti, District – Gaya, Bihar - 823002.
626	Bhartiya Awam Party (Rastriya)	House No. 30, (B.P.20) Bechupur, Patel Nagar (40 Feet Road), Mughalsarai, District – Chandauli, Uttar Pradesh- 232 101.
627	Bhartiya Azad Sena	15 No. Chowk, Barkagaon, District- Hazaribagh, Jharkhand-825311
628	Bhartiya Bahujan Kranti Dal	Sevagadh Building No. 02, Azadegaon, Dombivali East, District-Thane, Maharashtra-421201
629	Bhartiya Bhaichara Party	H. No. 61/3, Village- Chhalera Bangar, Ambedkar Vihar, Sector-37, Pargana & Tehsil- Dadri, Noida, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh - 201303.
630	Bhartiya Chaitanya Party	B – 97, Panchsheel Vihar, Near Sheikh Sarai, Community Centre, New Delhi.
631	Bhartiya Chatrapati Sena	Shagun Row House D3, Behind Udyog Bhawan, Ayodhya Nagar, Sinner, Nasik, Maharashtra – 422103
632	Bhartiya Chetna Party	Surat Ganj, Ward No. 15, Thana Nagar, madhubani, Madhubani-District Bihar- 847211.
633	Bhartiya Dalit Congress	Chopara Para, Behind of Kali Mandir, Ambikapur, Distt. – Sarguja, CHHATTIAGARH- 497001.
634	Bhartiya Dalit Party	Khata No. 269, Mohalla- Vijaynagar, Post- Vijaynagar, Anchal-Banka, District- Banka, Bihar.
635	Bhartiya Damitjan Party	Village – Govindpur, Post- Seohara, Tehsil-Dhampur, Disst.- Bijnor Uttar Pradesh- 246746.
636	Bhartiya Deshbhakt Party	92/H/2, Pratap Market, Munirka (C/o Somu Press), New Delhi-110067.
637	Bhartiya Deshbhakt Sangh (Brajesh)	Shop No. 1, Khasra No. 1494, Nehru Enclave, Bank Wali Gali, Alipur, Delhi – 110036.
638	Bhartiya Dharmanirpeksha Party	H.No. 146, Village- Kharagpur, Post-Chaubepur, Thana-Chaubepur, District- Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-209203
639	Bhartiya Drishtigochar Party	H.No. 54, Gram - Mausandi, Post- Suratganj, District- Barabanki, Uttar Pradesh- 225304
640	Bhartiya Ekta Manch Party	Shabab Building , Tagore Marg, Nadava Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
641	Bhartiya Gadar Party(S)	Village-Odera, Post-Rautmau, Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh-276406
642	Bhartiya Gandhiwadi Party	Village & Post – Garwar, District – Ballia, Uttar Pradesh.
643	Bhartiya Gantantra Party	H. No.5, Ganga Dham, Kundan Nagar, Bagh Mughaliya, Hoshangabad Road, Bhopal, MADHYA PRADESH.
644	Bhartiya Garibmazdoor Party	Pachtaki Ram, P.O. Pachtaki Yadu, P.S. Bairgania, District-Sitamarhi, Bihar - 843313

645	Bhartiya Gorkha Janashakti	26/2, H.D. Lama Road, Darjeeling-734 101, (West Bengal).
646	Bhartiya Gram Nagar Vikas Party	Ekta Vihar, Lane No. -1, Gramsabha – Aaamwala Talla, P.O. - Kandoli, Sahastradhara Road, Dehradun, Uttarakhand – 248 001.
647	Bhartiya Gramin Samaj Party	Bhawan No. 15/357, Near Bharoshi ki Dharamshala, Pancham Wali Gali, Duttapura, Morena, Madhya Pradesh-476001
648	Bhartiya Gramvasi Party	Village – Vikrampur Banspar (Mani Chouraha), Post – Baitalpur, District – Deoria, Uttar Pradesh
649	Bhartiya Harit Kranti Dal	Village & P.O. – Sonta, Via – Alipur, Kheri, Distt. Mujaffar Nagar, Uttar Pradesh.
650	Bhartiya Harit Party	Near Hans Prakatik Chikitsalaya, Meerapur Road, Jansath, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251314.
651	Bhartiya Himachal Jan Vikas Party	V.P.O. Badalthore , Tehsil - Dehra, Distt. - Kangra, Himachal Pradesh - 177105.
652	Bhartiya Hind Ekta Dal	Defence Colony, Anil Shaheed Nagar, Izatnagar, Nainital Road, Bareilly - 243122, Uttar Pradesh.
653	Bhartiya Hind Fauj	UGF-07, Chitransh Dream Society, R.K.Puram, Govindpuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201013
654	Bhartiya Imaandar Party	Sindholi, Tehsil – Puwayan, Shahjahanpur, Uttar Pradesh
655	Bhartiya Indian Secular Party	Hamdard Nagar- B, Jamalpur, Mafi, Tahsil-Coal, District Aligarh, Uttar Pradesh- 202001.
656	Bhartiya Insan Party	N-84, 4th Floor, Batla House, Near Khalilullah Masjid, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi – 110025.
657	Bhartiya Jagaran Party	Poorvi Nawada, Arrah, Bhojpur-802 301, Bihar.
658	Bhartiya Jan Adhikar Party	Village-Bhim, Hospital Road, P.O.-Bhim, Distt.-Rajsamand Rajasthan-305921
659	Bhartiya Jan Hit Vikas Party	220, Indrapuri, Jacobpura Road, Gurgaon, Haryana – 122001
660	Bhartiya Jan Hitkari Party	Plot No. 31-32, Shivnagar, Tonk Road, Sanganer, Jaipur, Rajasthan
661	Bhartiya Jan Jagrook Party	Survey N0. 171, Village- Chainpura, Post-Shivgarh, Tehsil- Megh Nagar, District- Jhabua, Madhya Pradesh - 457777
662	Bhartiya Jan Jan Party	Shop No. 8 & 9, 2nd Floor, Goyal Plaza, Faizabad Raod, Lucknow, Uttar Pradesh.
663	Bhartiya Jan Manas Party	H. No. 262 Gha, Sarsawan, Arjunganj, P.S. – Arjunganj, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh- 226002.
664	Bhartiya Jan Manch	361, Street No. 13, BuddhVihar, (Behind Senior School), Mandoli Gaon, Nand Nagri, Delhi-110093.
665	Bhartiya Jan Nayak Party	C-17-18, Sector-15, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201012
666	Bhartiya Jan Parishad	FF/108, Shantivila Complex, Opp. H.P. Petrol Pump, Dahegam Road, Naroda, Ahmedabad, Gujarat- 382330
667	Bhartiya Jan Pragati Dal	H.No. 134, Village- Ramraipur (By Pass Road), Post- Ramraipur, Tehsil- Bhadohi, District- Bhadohi, Uttar Pradesh- 221314.
668	Bhartiya Jan Sahyog Party	8/6, Juhi Safed Colony, Kanpur, Uttar Pradesh- 208014.
669	Bhartiya Jan Samadhan Party	411, Spectrum, Near Yasharian, Swami Vivikanand Circle, Memnagar, Ahmedabad, Gujarat-380052
670	Bhartiya Jan Samaj Party	L.G.F.123, Khazana Complex, Ashiyana, Lucknow, Uttar Pradesh- 226012
671	Bhartiya Jan Samman Party	Flat No. 32, Krishina Apartment, Block- BH East, DDA Flats, Ground Floor, Shalimar Bagh, Delhi- 110088
672	Bhartiya Jan Sampark Party	House No. 3616, Sharda Niwas Katra, Aadhartal, Jabalpur, Madhya Pradesh.
673	Bhartiya Jan Samrasata Party	5081, Vishwkarma Nagar, Plot No.80, Ward No.14, Dwarkapuri, Rameshwari Road, Near Radha Mandir, Parvati Nagar, Nagpur, Maharashtra-440027
674	Bhartiya Jan Samrat Party	Khasra No. 719, Property No. X-9/10, Old No. X-6/12, Village- Ghonda Gujran Khadar, Gali No. 9, X- Block, Brahampuri, Delhi- 110053

675	Bhartiya Jan Sanmati Party	Village – Harola, Sector – 5, Noida, Uttar Pradesh.
676	Bhartiya Jan Satta Party	House No. 11, Mukhya Gram + P.O - Bhaadvaasi, Via Katrathal, District- Sikar, Rajasthan-332024
677	Bhartiya Jan Seva Party	Sharif Market, Hardoi Road, Sikrori, Post: Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh-227 107.
678	Bhartiya Jan Swaraj Party	CC- 1/24, Ansal, Avantika , Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201001
679	Bhartiya Jan Yug Party	Heera Nagar, Purani Chhawani, Laskhar, Gwalior, Madhya Pradesh –474010.
680	Bhartiya Jana Congress (Rashtriya)	113/70B, Lal Bahadur Shastri Nagar, Patna-800023 (Bihar).
681	Bhartiya Janata Samajsevi Party	Old House No,116RPG/844 Present H. No.116/839 Rawatpur-2 Kalyanpur Kanpur,
682	Bhartiya Janata Vikas Party	D-4/2, Sector- 20, Rohini, Delhi- 110086
683	Bhartiya Janhit Congress Party	A-3, Room No. 602, 6th Floor, R.N.A Park, Vashi Naka, R.C. Marg, Chembur, Mumbai, Maharashtra – 400074
684	Bhartiya Janhit Dal	D-1/535 J.J. Cluster, Bhalaswa Dairy, New Delhi - 110042.
685	Bhartiya Janjagran Gandhiwadi Party	Khata No. 112, Khesra No. 1196, Village- Hesmi, P. S- Mandar, District- Ranchi, Jharkhand- 835214
686	Bhartiya Janmukti Party	Village – Dundur, P.O. Latheya, P.S. - Chhatarpur, District – Palamau, Jharkhand – 822116.
687	Bhartiya Janraj Party	H.No. 653, Ward No. 14, Shiv Nagar, Near Shiv Mandir, Hisar, Haryana- 125001
688	Bhartiya Jansamanta Adhikar Party	Kothi No. – 2, Poornagiri Vihar, Patel Nagar, Post – Izzatnagar, Janpad – Bareilly Uttar Pradesh
689	Bhartiya Janseva Congress	Kothi No. 768, Ward No. 17, Kila Colony, Kosli Road, Jhajjar, Haryana – 124103
690	Bhartiya Janta Dal	C-16, Sanjay Vihar, Aavas Vikas Colony, Meerut Road, Hapur, Distt. Ghaziabad, Uttar Pradesh.
691	Bhartiya Janta Dal (Integrated)	H.No. 62, Gali No.16, A-1 Block, Sant Nagar, (Bengali Colony), Burari Road, Delhi – 110084
692	Bhartiya Janta Ki Ekta Party	Plot No. 29-A and 30-A, Khasra No. 20/1/1, Village Rajapura Khurd Delhi, Colony Mohan Garden, R-III, A-2, New Delhi - 110059
693	Bhartiya Janta Secular Party	Servamangala Nagar, Durpa, Ward No. 45, Post- Durpa, P.S- Kusmunda, Tehsil- Katghora, District- Korba, Chhattisgarh- 495677
694	Bhartiya Jantantra Morcha	Khata No.80, Plot No.-528, Village-Sidraul, Yugantar Bharti, P.S.- Namkum, Distt.-Ranchi, Jharkhand-834002
695	Bhartiya Jantantra Sanatan Dal	No. 752, Charitra Van, Teacher's Colony, District- Buxar, Bihar- 802101
696	Bhartiya Jantantrik Janata Dal	1, Daroga Rai Path, Patna – 800001, Bihar.
697	Bhartiya Jantantrik Party	Village- Chirota, Post- Ajayrajpura, Via- Bagru, Tehsil- Sanganer, District- Jaipur, Rajasthan- 303007
698	Bhartiya Kamgar Party	Village – Chandopara, Post - Chandopara, District – Allahabad, Uttar Pradesh - 212402.
699	Bhartiya Kautilya Sena	R-14/6(Basement), Rajnagar, In Front of Square Mall Ghaziabad, Uttar Pradesh.
700	Bhartiya Kisan Janshakti Party	House No. 600, Ward No. 5, Ghasiyari Pura Nauvagarhi, Bahraich, Uttar Pradesh
701	Bhartiya Kisan Party	E- 58, Taranagar, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan- 302012
702	Bhartiya Kisan Sena (Secular)	At-Vyara, Taluka- Vaghodiya, District-Vadodara, Gujarat- 391760.
703	Bhartiya Kisan Union Samaj Party	H.No. 332F, Near Vrindavan Gate, Rajender Nagar, Pushchim Gorakhnath, Gorakhpur, Uttar Pradesh- 272115
704	Bhartiya Kranti Vir Party	Village- Kajichak, Post and Police Station- Sandesh, District- Bhojpur Bihar-802164

705	Bhartiya Krishak Dal	197, Kaushalpuri (Sarla Bajpai Ka Bagh), South of Subhash Nagar, Janpad – Hardoi, UTTAR PRADESH.
706	Bhartiya Lok Chetna Party	Janki Niwas, Brahmpur, Post & Thana- Fulwari Sharif, Distt. Patna Bihar-801505
707	Bhartiya Lok Nayak Party	Vill.-Nauwapali, P.O. – Chakra, Distt. Siwan, Bihar-841226
708	Bhartiya Lok Satta Party	Gali No.6, Ward No. 47, Gadora ke Pura, District-Morena, Madhya Pradesh-476001
709	Bhartiya Lok Seva Dal	MC No. 9/128/D, 9/128E, Gali No. 10, Ward No.9, Near Kansal Gas Agency, Raman Mandi, Tehsil- Talwandi Sabo, District-Bathinda, Punjab- 151301
710	Bhartiya Lokmat Rashtrawadi Party	Village and Post- Saday Vigaha-165, Barahia, District- Lakhisarai, Bihar- 811302
711	Bhartiya Lokshahi Party	Khadka Road, Ramdev Baba Mandir, Tal – Bhusawal, District – Jalgaon, Maharashtra - 425201
712	Bhartiya Lokswarajya Party	Subhash Nagar, Astha Vinayak Colony, Zila Panchayat Prathmik, Shale Samor, D.P. Bhosale Collage Jawel, Sultanwadi Road, Tal-Koregoan, District- Satara Maharashtra – 415501
713	Bhartiya Mahasangh Party	No. K-2413, Nagar Palika Road, Rosera Samastipur, Bihar - 848210
714	Bhartiya Mahashakti Morcha	Jai Narayan Varma Road, Fatehgarh, District-Farrukhabad, Uttar Pradesh, Pin-209 601.
715	Bhartiya Mahila Party (Sheetal Verma)	H.No.- 12/2, B- Block, Phase-2, Goyla Vihar, Near Thomas School, Dwarka Goyla Dairy Road, New Delhi- 110071.
716	Bhartiya Manav Kalyan Party	E- 49/1, Raj Harsh Colony, Kolaar Road, Bhopal, Madhya Pradesh-462042
717	Bhartiya Manav Samaj Party	Village & Post- Oina, Tehsil- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222146.
718	Bhartiya Manavta Party	Srirampur Tola (Bihta), P.O.+P.S.- Bihta, District Patna, Bihar-801103
719	Bhartiya Manvadhikaar Federal Party	154/17, Raj Chambers (Fakhruddin Manzil), Alibhai Premji Marg, Grant Road, Mumbai, Maharashtra- 400007.
720	Bhartiya Mazdoor Kisan Congress Party	D-40, Meerut Road, Industrial Area, Ghaziabad-121003 Uttar Pradesh.
721	Bhartiya Mitra Party	Circle-10, Holding No.-79A/64, Mohalla- Gola Road, Bakarganj, District- Patna, Bihar - 800004.
722	Bhartiya Muhabbat Party (All India)	H.No.18184, Chandsar Basti, Bhatinda-151001 (Punjab).
723	Bhartiya Nagrik Suraksha Party	No.13, New Ketan Society, Near Uma Shikshan Tirth, Bh. Bhagyoday Society, Naroda, Ahemdabad, Gujarat-382325
724	Bhartiya Naujawan Inklav Party	2/26, Mandauli Extension, Mandauli Chungi, Shahdara, Delhi-110093
725	Bhartiya Nav Vikas Party	60, Seeda Mohalla, Chilla Village, Near Sai Mandir, Mayur Vihar Phase-I Delhi- 110091.
726	Bhartiya Navjawan Sena (Paksha)	Shri Mourya Park, Shop No. 4, Somnathnagar, Near Somnath Temple, Vadgaonsheri, Pune – 411014 Maharashtra.
727	Bhartiya Navodaya Party	Village- Aheria, Post- Chakarnagar, Chakarnagar Chauraha, District- Etawah, Uttar Pradesh.
728	Bhartiya New Sanskar Krantikari Party	Village and Post- Sahasrawan, P.S- Bhagwanpur Hatt. District- Siwan, Bihar - 841408
729	Bhartiya Niwas Party	Village- Sarbasi, P.O.- Barhni, Gopalpur (Unawal), District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273406.
730	Bhartiya Nojawan Dal	H.No.882, Street No.16, Phase - 4, Pushkar Vihar, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi – 110094
731	Bhartiya Panchayat Party	D-15/674, Street No.- 5, Ganesh Nagar – 2, Shakarpur, Delhi-110092 .

732	Bhartiya Panchayati Raj Party (Loktantrik)	B-247,3rd Floor,Priyadashni Vihar,Delhi- 110092
733	Bhartiya Panchsheel Party	B-71,Indira Nagar,Raebareli,Uttar Pradesh- 229001.
734	Bhartiya Party	New Colony, Post – Neem Ka Thana, District – Seekar, Rajasthan - 332713.
735	Bhartiya Party (Loktantrik)	A-12, Ansa Plaza, R.B.S.S. Sahay Road, Bhagalpur, Bihar-812001
736	Bhartiya Pragatisheel Congress	D-43, Rajdhani Park,Nangloi, Delhi – 110041.
737	Bhartiya Praja Jan Party	Narayanpur Road, Kasba Bansoor, District – Alwar, Rajasthan.
738	Bhartiya Prajatantra Nirman Party	7/7/47-A,New Colony Lal Bagh,Post Office, Faizabad, UTTAR PRADESH
739	Bhartiya Public Labour Party	357/3, Shyam Nagar, Gali No.1, Kali Mandir Back Side, Foyasagar Road, Ajmer, Rajasthan – 305001
740	Bhartiya Rajnitik Vikalp Party	Village – Nayatola Bariapur, Panchayat – Champapur, Ward No. 13, Thana – Bakhtiyarpur, District - Patna, Bihar.
741	Bhartiya Rashtrawadi Party	J-74A, Gali No-14, Khasra No. 6/14, Swaroop Nagar,Delhi - 110042.
742	Bhartiya Rashtriya Dal	C- 6/52, Yamuna Vihar, Delhi- 110053
743	Bhartiya Rashtriya Jagruk Dal	E-2548, Rajajipuram, Lucknow, Uttar Pradesh- 226017.
744	Bhartiya Rashtriya Jansatta	127, 1st Floor, Vardhman Tower, Preet Vihar, Delhi 110092
745	Bhartiya Rashtriya Lok Manch Party	Plot No.2. Gali No.2, Chouhan Patti, Near Mangal Bazar, Karawal Nagar, Delhi- 110094.
746	Bhartiya Rashtriya Tantra Party	N/502,Madhuvan Glory,Near St. Marya School,Naroad,Ahmedabad,Gujarat- 382330
747	Bhartiya Republican Party (Insan)	Village - Mahuari, Post – Jangiganj, District - S.R.N. Bhadohi, Uttar Pradesh.
748	Bhartiya Rozgar Party	E-77, Old Jasola Village, Near Metro Pillar No.141, Jasola, Near Jamia Co-operative Bank, New Delhi - 110025.
749	Bhartiya Sabka Dal	Moh. Golwar Tola, P.O, P.S & Tehsil - Mohammadabad Gohna, District- Mau, Uttar Pradesh- 276403
750	Bhartiya Sablog Party	Mauja Digha,Rajiv Nagar,Road No. 25 E,P.O.-Kesrinagar,Thana-Phulwari,Patna,Bihar-800024
751	Bhartiya Samaj Sewa Party	H.No.01, Village - Vanupur Pukhta, P.O.- Malikpur (Soro), Distt.- Kasganj, Uttar Pradesh.
752	Bhartiya Samajik Ekta Party	16, Village- Nandora, Tehsil- Goharganj, District- Raisen, Madhya Pradesh- 464990
753	Bhartiya Samajik Kranti Dal	Village – Suwari, Post – Danganj,Distt. – Varansi, Uttar Pradesh.
754	Bhartiya Samajik Nyay Morcha	Ward No.3, Vikas Nagar, Robertsganj, Janpad – Sonbhadra, Uttar Pradesh – 231216
755	Bhartiya Samajik Nyay Party	Village & P.O. Sersa, Tehsil & District – Sonapat, Haryana.
756	Bhartiya Samajik Party	6, Bus Stand, Alirajpur, District – Alirajpur, Madhya Pradesh – 457887
757	Bhartiya Samajvadi Sena	Bhawan No. S- 2/525, Mohalla-Sikraul, Post- Cantonment, District - Varanasi, Uttar Pradesh -221002
758	Bhartiya Samanta Party	Chitrakoot Dhaam,Third Floor,60-B,Panki Road,Kalyanpur,Kanpur Nagar,Uttar Pradesh- 208017
759	Bhartiya Samta Party	173D, Radha Krishna Chauraha, Rampuram Shyam Nagar, Kanpur, Uttar Pradesh- 208013
760	Bhartiya Sangam Party	230/5, New Menhdauri, Post – Teliyarganj, District- Allahabad, Uttar Pradesh- 211004.
761	Bhartiya Sangharsh Samiti	H.No.4684,Nisar Nagar,Infront of Krida Sankul,Jambhrun Road,Sangwan,Buldana,Maharashtra-443001
762	Bhartiya Sanskrit Virasat Party	H.No. 338, Village and Post- Lakhaura Khurd, P.S- Kurawali, District- Mainpuri, Uttar Pradesh
763	Bhartiya Sanvaidhanik Janhit Party	Virk Gold Farm, Village – Sarayjoga, Post- Kantha, Nawabganj, Unnao, Uttar Pradesh.

764	Bhartiya Sanyukt Kisan Party	Bhusahi Bazar, Yadav Market, Kamle Baliya, Bhusahi, Bochaha, Muzaffarpur, Bihar-843103
765	Bhartiya Sarvjan Hitay Samaj Party	Anant Vihar Colony, Daldal Shivni Marg, Mowa, Raipur, CHHATTISGARH.
766	Bhartiya Sarvjan Party	Village -Rampur, Hata Marg, Post - Gauri Bazar, District – Dewaria - 274202, UTTAR PRADESH.
767	Bhartiya Sarvodaya Party	152/126, Patel Nagar (West), Dehradun-248001 Uttarakhand.
768	Bhartiya Sarvsamaj Party	Lal Singh Kachri Wala, Shani Bazar Wali Gali, Tunda Nagar, Johri Pur, Delhi.
769	Bhartiya Satya Sangharsh Party	Village – Bijhinya, P.S. – Mandla, District – Mandla, Madhya Pradesh.
770	Bhartiya Sewak Party	Hqrs/Office-Near Utarakhand Grameen Bank, Biuggawala (Main Market) Haridwar, Uttarakhand- 247662
771	Bhartiya Shakti Chetna Party	Ward No.18, Village - Khamdar, Post - Mau, Tehsil - Vyouhari, Dist. - Shahdol, Madhya Pradesh
772	Bhartiya Shakti Dal	D – 236, Vivek Vihar, Delhi - 110095.
773	Bhartiya Shanti Kranti Party	1/80, Ratan Vihar, Kiradi, Nangloi, New Delhi – 110041.
774	Bhartiya Shramik Dal Socialist	Baman Nagar, Pateri, Sector – 20, District - Satna, Madhya Pradesh.
775	Bhartiya Shramik Party	79/4, Juhi Safed Colony, Saket Nagar, Kanpur Nagar – 208014, Uttar Pradesh.
776	Bhartiya Swadeshi Congress	12/303, Max City park Sapphire, Ramprastha Greens, Sector-9, Vaishali Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201010
777	Bhartiya Swarajya Kranti Party	Tryamboli Nagar, Kasaba Bawada, District-Kolhapur, Maharashtra-431124
778	Bhartiya Swarn Samta Party	201- C Block, Goyal Enclave, Faizabad Road, Chinhut Lucknow, UP.
779	Bhartiya Swarnim Yug Party	40, Laxmi Nagar, Ratneshwar Road, Ratlam, Madhya Pradesh-457001
780	Bhartiya Swatantra Panch Party	Naurangia Chwraha Se 50 Meter Koni Marg, Post-Koni, Nehru Chowk Khalilabad, Janpad Sant Kabir Nagar, Uttar Pradesh- 272175
781	Bhartiya Tarak Samaj Party	465A Binauli, Tehsil- Baraut, District- Baghpat, Uttar Pradesh-250645
782	Bhartiya Tribal Party	PO- Chanderia, Taluka- Valia, District- Bharuch, Gujarat
783	Bhartiya Vanchitsamaj Party	Village- Bhudiya, (Faguha), Tehsil & Distt.- Kannauj, UTTAR PRADESH.
784	Bhartiya Veer Dal	Khewat/Khasra No.- 39/56, Mustil No.- 14, Moja- Ghurason, Post-Tigaon, Ballabgarh, Faridabad, Haryana- 121101
785	Bhartiya Veer Kisan Party	Village - Khaparkheda, Taluka- Jafrabad, District- Jalna, Maharashtra.
786	Bhartiya Vikas Party	139-B, Tamur Nagar, New Friends Colony, New Delhi.
787	Bhartiya Vikash Dal United	House No. SM.0011-0425, Village- Chhota Bariyarpur, Ward No. 38, Post- Motihari Court, P.S. Chhatauni, District- East Champaran, Bihar – 845401
788	Bhartiya Vistarwadi Party	Village – Shyampur, Post – Dugarei, District – Fatehpur, Uttar Pradesh.
789	Bhartiya Yuva Ekta Shakti Party	H.No.63, Rampur Road, Manpur Uttar, Haldwani, Nainital, Uttarakhand-263139
790	Bhartiya Yuva Janshakti Party	Rozy Anima XTTI, Near Akhand Jyoti Hospital, Digha, Patna, BIHAR- 800011
791	Bhartiya Yuva Kranti Party	E-Block Surajdeep Complex, Near Dainik Jagran Chauraha, Jopling Road, Lucknow, Uttar Pradesh-2260001
792	Bhartiya Yuva Party	Evershine App., Nr. Jalaram Society, Opp. Royal Park, Nr. Park Evenue, Janagadh, Gujarat- 362001

793	Bhartiya Yuva Party (Rashtrawadi)	H.No. 139, Sonbarsa Bairia, District- Ballia, Uttar Pradesh- 277208
794	Bhartiya Yuva Sena	House No. 1-407, Kasba Vibhag, Kille Dharur, Tq. – Dharur, District – Beed, Maharashtra - 431124.
795	Bhartiya Yuva Swabhimani Party	19/769, Mohalla – Narayanpur, Shukla Aata Chakki Ke Pass, Govind Nagar, Auraiya, Uttar Pradesh - 206122
796	Bhartiye Manavata Nirman Party	Lala Lajpat Nagar, Post -Pundag, P.S.- Jagannathpur, District- Ranchi, Jharkhand – 834004.
797	Bhrashtachar Mukti Morcha	Chandra Nagar, Kurud Road, Kohka, Bhilai, Tehsil & District – Durg, Chhattisgarh.
798	Bhrashtachar Virodhi Dal	R.Z.D- 120C, Nihal Vihar, (Nangloi), Delhi-110041.
799	Bhrastachar Ka Ant Party	64/189, Gadaria Mohal, Kanpur, Uttar Pradesh-208001.
800	Bhumisantan Adhikar Party	Village-Taluk Ranaghata, P.O.-Purba Ranaghata, P.S.- Mathurapur, Distt.-South 24 Parganas West Bengal-743338
801	Bihar Janta Party	Village: Jail Shahar, Old Remand Home, Dharmnath Mandir Road, Daulatganj, Saran, Bihar – 841301
802	Bihar Justice Party	Plot No. 2251, Yadhuvanshi Nagar, Digha Ashiana Road, Patna, Bihar-800011
803	Bihar Lok Nirman Dal	Mohalla – Noongola, Thana Nagar & Post – Hazipur, District – Vaishali, Bihar-844101
804	Biju Swabhimani Dal	Plot No-40, Umapada, Stadium VIP Road, PO – FC Project, Kalinga Nagar, Jajpur Road, Jajpur, Odisha – 755020.
805	Bira Oriya Party	C/o Shri P.Samantaray, IAS(Retd.), At/P.O. Madhupatna, Cuttack-10(Orissa).
806	Bolshevik Party of India	C/o- Dr. Shashikant Waikar, 9, Bhupeshnagar, Gorewada Road, Nagpur- 440013, Maharashtra.
807	Brabar Samaj Saanjhi Party	House No. 698, Village – Arniawali, Tehsil – Nathusari Chopta, District – Sirsa, Haryana- 125055
808	Braj Party	Beswan Morh, Aligarh Mathura Road, Post – Beswan, Gram Panchayat – Nayabaas, Tehsil – Iglas, District – Aligarh, Uttar Pradesh – 202145
809	Braj Vikas Party	A-193, Trans Yamuna Colony, Phase-II, Agra-286002, Uttar Pradesh.
810	Brihattar Bharat Prajatantra Sewa Party	Behind of the Palace, Kishorganj Panna, Distt. – Panna, Madhya Pradesh.
811	Brij Kranti Dal	16, Haryana Bhawan, Dyal Bagh, Agra-5, Uttar Pradesh.
812	Buddhiviveki Vikas Party	R(U)-9, 2nd Floor, Pitampura, Delhi – 110088.
813	Bundelkhand Aikrit Party	Bundeli Sadan, Gram & Post - Satari, Zila – Mahoba, Uttar Pradesh
814	Bundelkhand Congress	56. Jwala Heri Market, Sarbati Complex, Paschim Vihar, Delhi-63
815	Bundelkhand Kranti Dal	House No.40, Mohalla- Khai, New Basti, Jhansi Uttar Pradesh - 284001.
816	Bundelkhand Mukti Morcha	Sh. Sukhlal Ice Factory Bhavan, Elite Chouraha, Jhansi-284001(Uttar Pradesh).
817	Bundelkhand Vikas Dal	C/o Shiv Narayan Khare (Advocate), 116/3 Shivalaya Kishor Ganj, Town Area, Kulpahar, District - Mahoba, Uttar Pradesh-210426
818	C/o Lok Kalyan Party	No. 4th F/403, Akashrath B/H Ratnam Op. C G Road, Ahemdabad, Gujrat – 380009
819	Challengers Party	Durgesh Nivas, Opp. Vithoba Temple, 68/XX, Tailor Street, Cowl Bazaar, Bellary, Karnataka- 583102.
820	Chandigarh Ki Aawaz Party	H.No. 2207, Ground Floor, Sector- 45C, Chandigarh- 160047
821	Chandigarh Vikas Party	House No.230, Sector 9-C, Chandigarh-160009.
822	Chennai Youth Party	H. No. 2595, TNHB, Ayappakkam, 1st Floor, Chennai, Tamil Nadu 600077

823	Chhatrapati Shivaji Bhartiya Garib Party	Village Fatehpur (Khauda), Post – Katauna, District - Varanasi, Uttar Pradesh- 221208
824	Chhattisgarh Ekta Party	H.No. 182/2, Ward No. 08, Bade Padarmooda Road, Jamgahan, Tehsil- Malkharoda, District- Janjgir Champa, Chhattisgarh-495691
825	Chhattisgarh Mukti Morcha	P.O.Dalli Rajhara, Distt-Durg –491228 (Chhattisgarh).
826	Chhattisgarh Navnirman Sena	C. R. – 12, R.D.A. Building, Gurunanak Market, Sharda Chowk, Raipur, Chhattisgarh.
827	Chhattisgarh Samajwadi Party	Ramanujganj Road, In front of Sanjay Park, Ambikapur, Chhattisgarh - 497001.
828	Chhattisgarh Sanyukt Jatiye Party	Bajrang Nagar (Tatyapara Ward), Raipur, Chhattisgarh.
829	Chhattisgarh Swabhiman Manch	21, Battis Bangla, Bhilainagar, Distt. – Durg-490006, Chhattisgarh.
830	Chhattisgarh Vikas Ganga Rashtriya Party	Khongapani, District – Korea, Chhattisgarh – 497447
831	Chhattisgarh Vikas Party	A-12, Flash Vihar, New Purena, Post Office – Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
832	Chhattisgarhi Samaj Party	Handipara, Azad Chowk, Raipur-492001 (Chhattisgarh).
833	Chhattisgarhiya Party	House No. 93, Village – Dhanrash, Post – Chhuri, Tehsil – Katghora, District – Korba, Chhattisgarh.
834	Children First Party of India	703-704, Devatha Plaza, 132, Residency Road, Bangluru-560025. Karnataka.
835	Christian Democratic Front	No.9, Rosary, Church Road, San Thome, Chennai (Tamil Nadu).
836	Christian Mannertra Kazhagam	93, Thaiyappa Mudali Street, Chennai-600001 (Tamil Nadu).
837	Citizen Party	H.No.53, Survey No. 620, Bajanaikoil Street, Madhanankuppam Kolathur, Chennai Tamil Nadu- 600099.
838	Civil Rights Party	Flat No. D-89, Ground Floor, Block-16, Shivjot Enclave, Kharar SAS Nagar, Mohali, Punjab – 140301
839	Communist Marxist Party Kerala State Committee	Kunnukuzhy, Trivandrum-695037(Kerala).
840	Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star	C-141, Sainik Nagar, New Delhi-110059.
841	Communist Party of Telangana (Marxist-Ambekarist)CPT(MA)	H. No. 2-2-1106/B/SBK/1, Shanti Nagar, Amberpet, Distt.-Hyderabad, Telangana-500013
842	Congress (Secular)	Ram Raj Bhavan, Manikkath Road, Cochin-16. (Kerala).
843	Corruption Abolition Party	House No. – 219, VPO – Sheriya, Tehsil – Beri, District – Jhajjar, Haryana.
844	Daksha Party	I/1102, Raheja Vistas, Raheja Vihar, Chandivali, Andheri East, Mumbai, Maharashtra- 400072
845	Dalit Kranti Dal	Jati Meghwale, Gaon Post – Dholipal, Teh. & Zila – Hanumangarh (Rajasthan)
846	Dalit Mazdoor Kishan Party	E-11/77, New Colony, Hauz Rani, Malviya Nagar, New Delhi-110017.
847	Dalit Samaj Party	Navchetna Path, Shiv Puri P.O. Anishabad, Patna-800 002 (Bihar).
848	Dalit Soshit Pichhara Varg Adhikar Dal	Village – Hasanpur Jagir, Post – Sikandrabad, District – Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203205.
849	Dalit Vikas Party (Bharat)	Behind of High School, Ward No.3, Village & Post – Ghunwara, Tehsil – Maihar, Distt. – Satna, MADHYA PRADESH
850	Dalita Bahujana Party	4-1-1215, Street No.3, Boggulakunta, King Kati Road, Hyderabad – 500001.
851	Delhi Janta Party	Y-200, Camp No.-1, Nangloi, Delhi-110041
852	Delhi Parivartan Party	E-37, Tagore Garden Extension, New Delhi – 110 027.

853	Democratic Bharatiya Samaj Party	Gali No-7, Guru Nanak Pura(East),Near Chintpurni Mandir, Jalandhar, Punjab.
854	Democratic Congress Party	291, Odeon Wali Gali, Near Gopal Mandir, Majitha Road, Amritsar (Punjab).
855	Democratic Corruption Liberation Front	2F/1A Neduganvilai, Ponnappa Nadar Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu – 629004.
856	Democratic Human Rights Movement Party	Thunduvila Veedu, Panjiyoor, Venjaramood P.O., Thiruvananthapuram, Kerala – 695607.
857	Democratic Insaf Party	D-62, G.T.B.Nagar (Kareli), Allahabad (Uttar Pradesh).
858	Democratic Janta Dal (J & K)	344 EP, Cristen Colony (Shaheedi Chowk), Jogi Gate, Jammu (Jammu & Kashmir).
859	Democratic Labour Party	D. No. 3/78,P.O. Elamkunnapuzha,Dist - Ernakulam,Kochi,Kerala-682511
860	Democratic Organisation for Socio-economic Transformation of India Party	Plot No. 749,Basement,Sector-39,Gurgaon Haryana- 122003
861	Democratic Organization of Nation Party	MannarayathuThekkethilVeetil,(PadeerayathuPuthenveedu),Pallisserickal,P.O. Sasthamcotta,Kollam,Kerala- 690521
862	Democratic Party of India	162,Anandrao Umra Marg, Ashok Nagar, Nagpur-17 (Maharashtra).
863	Democratic Party of India (Ambedkar)	MohallaTaj Pura, Rahon, Teshsil - Nawanshahr, S.B.S. Nagar, Punjab – 144517.
864	Democratic Prajakranthi Party Secularist	Ummathur Post & Village, Hunsur Taluk, Mysore District Karnataka-571105.
865	Democratic Secular Party	At. Kohinoor Bakery, Umred Road, Tajabad, Aulia Nagar, Nagpur –24, (Maharashtra).
866	Democratic Social Justice Party	Thiruvonam,NLRA-140,NeerazhiLane (No.7/242),Trivandrum Corporation,Uloor,Medical College,PO-Trivandrum,Kerala-695011
867	Democratic Socialist Party (Prabodh Chandra)	63- Ananda Plit Road, 1st Floor, Kolkata-700014, West Bengal.
868	Democratic Socialist Party of India	359, West Kodalia, New Barrackpore, P.S. – Ghola, District – North 24 Parganas, Kolkata,West Bengal – 700131.
869	Democratic Swaraj Party	Arya School Road,V.P.O. Sohana, SAS Nagar, Punjab- 140308.
870	Desa Makkal Munnetrak Kazhagam	3/172, Veerachelliyapuram Colony, Valliyur (Post), P. Kumaralingapuram, Amathur (Via), Taluk & District – Virudhunagar, Tamilnadu-626005.
871	Deseeya Praja Socialist Party	N.S. Bhavan, Vellayani, P.O. Nemom, Thiruvananthapuram-695020, Kerala.
872	Desh Bachao Jan Morcha	D-6/171, Sector-31, Noida-201301 (Uttar Pradesh).
873	Desh Bachao Party	223/A,Kewalpuri,Ahilyabai Road,Muzaffarbagar,Uttar Pradesh-251001
874	Desh Bhakt Party	B-114, Preet Vihar, Delhi- 110092.
875	Desh Hit Party	Plot No. 467, Village- Jamuni, Post- Tarkulwa, District- Deoria, UTTAR PRADESH.
876	Desh Janhit Party	Plot No. 78, Vinayak Co. Housing Society Bidipeth, Behind Power House, Narsala, House No.4430/78, Mouza Bidipeth, Nagpur-30, Maharashtra.
877	Desh Seva Party	No. A-2,Adhana Bhawan,Village- Morna,Sector- 35,Noida,Uttar Pradesh- 201303.
878	Desh Shakti Party	14/39, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
879	Desha Dal	Manas Ranjan Mishra Khatian No.466/90,Tehsil No.198,Anand Vihar,Sarbahal,Near Hanuman Mandir,PO & PS-Jharsuguda,District-Jharsuguda,Odisha-768201
880	Deshbandhu Party	Village – Meharban Nagar, Near Primary School, Meharban Nagar,

		Bye-Pass Road Nanpara, Post – Balha, Tehsil – Nanpara, District – Bahraich, Uttar Pradesh
881	Deshbhakt Nirman Party	Sultanpur Barahganva, Post & Tehsil – Madhuban, Janpad – Mau, Uttar Pradesh
882	Deshi Kisan Party	House No. 1624, Ward No. 52, Lakhibag Manpur, District – Gaya, Bihar.
883	Deshvadi Party	House No.2184, D-Block, Indira Nagar, Janpad- Lucknow, Uttar Pradesh- 226016
884	Desia Pathukappu Kazhagam	“ARIVAGAM’ 33, Ramakrishna Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai-600 093 (Tamil Nadu).
885	Desiya Forward Bloc	No.5, M. P. Avenue, Majestic Colony, Saligramam, Chennai-600093, Tamil Nadu.
886	Desiya Makkal Periyakkam	Plot No. 19, K.K. Nagar, Nannilam-610 10 Nannilam (Post) and Taluk, Thiruvavur, District, Tamil Nadu- 610105.
887	Desiya Makkal Sakthi Katchi	New No.21, Old No.11, Venkatraman Street, Mint, Chennai, Tamil Nadu - 600079.
888	Desiya Sirupanmayinar Makkal Iyakkam	S. John, No. 7, Pavunjur, Main Road, Keeralvadi- Village, Puliyaranan Kottai, Panjayat, Zamin, Endathur- Post, Madurantakam- Taluka, Kancheepuram- District, Chennai, Tamil Nadu- 603311
889	Desiya Uzhavar Uzhaipalar Kazhagam	2/52, C.C.Road, E.B.office Opposite, Kilpallipattu Village, Vellore Taluk, Vellore District, Tamil Nadu- 632311
890	Dhanwan Bharat Party	Flat No. 002, D Wing, Shree Ganesh CHS, Shanti Vidyanagari, Mira Road (East), Taluka & District- Thane, Maharashtra- 401107
891	Dharam Nirpeksh Dal	24/42, Loknath Chowk, Allahabad (Uttar Pradesh).
892	Dharamarajya Paksha	601/602, Bldg. No. 7, Shubharambh Phase-1, Konkanipada Marg, Off GB Road, Manpada, Thane-400610, Maharashtra.
893	Dhesia Eliya Makkal Nala Katchi	No.8/166, Maruthampatti Colony, Kathalapatti (PO) Karur, Tamil Nadu- 639007
894	Dhesiya Makkal Kazhagam	Door No. 1/239-3, Main Road, R.C. Chettipatty, Kottamettupatty Village, Dharmapuri Omalur Taluk, District - Salem, Tamil Nadu - 636455.
895	Digital Organization of Nation Party	Ward No. 25, Property No. 35, Plot No. 3776, Motinagar Pusad, Taluka Pusad, District- Yavatmal, Maharashtra- 445204.
896	Digvijaya Bharatha Party	#5 (40G), 21st Main Road, Marenahalli, (Standard English School), Vijayanagar, Bengaluru, Karnataka-560040
897	Do Jama Panch Mudde Jan Party	Village – Asan, Tehsil & District – Rohtak Haryana
898	Dogra Swabhimani Sangathan Party	No. 9&10, Block- D, Sector- C, Gandhi Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir - 180004
899	Dr. Ambedkar People's Revolution Movement	No.4, 11th Street, Kumarappa Nagar, Dharapadavedu, Katpadi, Vellore District, Tamil Nadu – 632007.
900	Dr. Ambedkar People's Party	106, 4th Cross, K.H. Ranganath Colony, Opposite BHEL Factory, Mysore Road, Bangalore-26, Karnataka
901	Dr. Ambedkar Samajvadi Democratic Party	Venkataiahna Chatra, Haradanahalli Hobli, Chamarajanagara Taluk & District, Karnataka.
902	Dr. Bhimrao Ambedkar Dal	Village – Kothideeh, Tehsil – Pargana Navabganj, Janpad – Barabanki – 225001, Uttar Pradesh.
903	Dravida Murpokku Makkal Katchi	No. 5/762, Sabari Road, Madipakkam Chennai Tamil Nadu- 600091
904	Dravida Peravai	69, Rangapillai Street, Pondicherry-605001.
905	Duggar Pradesh Party	Driving Institute Complex, Janipur, Jammu – 180007, Jammu and Kashmir

906	Eklavya Samaj Party	53, B - Block, Old Darulshapha, Lucknow, Uttar Pradesh – 251 001.
907	Ekta Kranti Dal U.P.	C/o Satyapal Sagar, Amanjai Jalal Nagar, Opp. Chhotti Line, Shahjahapur (Uttar Pradesh).
908	Ekta Samaj Party	6898, Neem Street, Ahata Kidara, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
909	Ekta Shakti	Jhanjhadi, Post – Bhaini Khurd, Tehsil – Nilokheri, Distt. Karnal, Haryana.
910	Ekta Vikas Mahasabha Party	Sinha Sadan, L.C.T. Ghat, East Mainpura, Thana- Pataliputra Colony, Post-G.P.O, Sadar- Patna, District- Patna, Bihar-800001
911	Elatchia Dhiravida Munnetra Kazhagam	'ELATCHIAGAM' 4-A, Hindi Prachar Sabha Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
912	Eluchi Desam Party	Old No.-1/46, New No. – 34, Vadivalpuram, Post – Vadukatchimathil, Taluk – Nanguneri, District – Thirunelveli, Tamil Nadu – 627102
913	Engineers Party	Bhoothana Hosur, Post- Sunagahalli, District - Mandya, Karnataka-571403
914	Ezhuchi Tamilargal Munnetra Kazhagam	5/197, Chinna Managalakudi, Uthangudi Post, Madurai, Tamil Nadu -625107
915	Fauji Janta Party	H.No- 104, Village - Manobas, Post Office- Baral, Tehsil – Secunderabad, Dist- Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203001 .
916	Fauji Kisan Party	Village- Serahwa, Post office- Murali, Via Harinagar, District- West Champaran, Bihar- 845103
917	Federal Congress of India	Holmbi Khurd, Village & P.O. – Holmbi Kalan, Delhi – 110 082.
918	Federal Democratic Party	No. 244B, Kathmorwa, P.O. – Madainiya, Distt. – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh – 224147
919	Forum For Presidential Democracy	B-145-146, Mittal Towers, Nariman Point, Mumbai-400021 MAHARASHTRA
920	Forward Bloc (Socialist)	Temple Street, P.O. & Distt. Jalpaiguri-735101 (West Bengal).
921	Forward Democratic Labour Party	Ward No.5, Opposite Rest House, Ganesh Nagar, Murmadi, Post and Tehsil- Lakhani, District- Bhandara Maharashtra – 441804.
922	Freedom Party	F-2/260, Top Floor, Sunder Nagri, Nand Nagri, Shahadara, Delhi-110093
923	Freethought Party of India	121, Dharma Vihar, P.O. Khandagiri, Bhubaneswar, Odisha – 751030
924	Front of Revolutionised Creative Efforts	Shree Goverdhan Palace, Dhar Road, Udampur – 182101 Jammu & Kashmir.
925	Gadar Party	House No.32, Near Ramlila Ground, Padav Ward, Post Makandruganj, Distt. Pratapgarh, Uttar Pradesh-230001.
926	Gana Suraksha Party	Village-Disghlipur Tamulpur, P.S.-Tamulpur, Sub-Division- Baksa, District-Baksa, Assam- 781367
927	Ganasangam Party of India	D.No. 6/786, Sakya Manzil, Ponvila Nagar, Trichy Road, Namakkal, Tamil Nadu – 637001.
928	Gandhi Ekta Party	K-63/01, Bhootbhairav Nakhas (Kashipura), Varanasi, Uttar Pradesh
929	Gandhi Prakash Party	House No.-126, Khata No.-236, Plot No.-637, Village-Sikathi, Post-Akhalashpur, P.S. – Bhabhua, District- Kaimur, Bihar.
930	Gandhiwadi Rashtriya Congress	Teachers Colony, Tehsil Road, Mahoaria, Post Mahoaria Town and Distt. Mirzapur (Uttar Pradesh).
931	Gandhiya Makkal Iyakkam	9-1, Thadagam Road, Kavundampalayam, Coimbatore, Tamil Nadu – 641030.
932	Gandhiyan Peoples Party	C-1255, Indira Nagar, Lucknow-226016, Uttar Pradesh.
933	Gantantrik Janhit Party	C/o Vedvati Devi, West Lohanipur, Kadamkuan, Patna, Bihar-800003

934	Gareeb Aadmi Party	R-21, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi – 110059
935	Gareeb Jankranti Party	Ward – 12, Holding No. – 747/642, Daudpur Kothi, In front of MIT Gate, Laxmi Chowk, Brahmapura, Muzaffarpur, Bihar - 842003
936	Gareeb Kranti Party	House No. 7, Mukarpur Khema, Nawabka Ahata, Tehsil and District- Bijnor, Uttar Pradesh-246701.
937	Gareeb Samana Party	H.No. 399, Aawas Vikas Colony, District- Mirzapur-231001, Uttar Pradesh.
938	Gareebjan Samaj Party	706/A-6, Tirkha Road, Jagrati Vihar, Garh Road, Meerut-250004, Uttar Pradesh
939	Garib Berozgar Vikas Party	Village- Champatpur, P.O- Ballia, Tehsil- Aawla, Vikas Khand-Alampur Jafarabad, District- Bareilly, Uttar Pradesh - 243402
940	Garib Ekta Party	A-71 Group, Vazirpur Industrial Area, Vazirpur, Delhi – 110052.
941	Garib Janata Party	Rajinder Nagar, Main Bazar, P.O. Vijay Nagar, Batala Road, Amritsar (Punjab).
942	Garib Janshakti Party	Kumar Market, Akhadaghat Road, Holding No.17/15, Ward No.17, Near to Balughat Dhalan, Muzaffarpur, Bihar-842001
943	Garib Janta Dal (Secular)	Mitra Mandal Colony, Ward No.11, Located Holding No. 470, Saket Vihar, Anishabad, Patna-2 Bihar.
944	Garib Raj Party	H. No. 748A, Jharkhandi Kayasthwada, Sikandrabad, District – Bulandshahar, Uttar Pradesh.
945	Garib Samaj Party (Shoshit)	Hajipur Malipur Road, Near Ram Janaki Mandir, Shankargarh, P.S. & Tehsil – Jalalpur, District – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh-224149.
946	Garib Vikas Party	Professor's Colony, Belbanwa, Motihari, Bihar – 845401.
947	Garibi Mukta Bharat Party	H.No. 185, Baliya Dev Nagar, Vadodara, Gujarat- 390001
948	Garo National Council	New Tura, West Garo Hills (Meghalaya).
949	Garvi Gujarat Party	No. 112, Gheewali Chali, Chamanpura, Asarwa, Ahmadabad, Gujarat- 380016
950	Global People Peace Party	1 No. Anandanagar, P.O. – Anandanagar, P.S.-Kalyani, District – Nadia, West Bengal - 741245.
951	Goa Nationalist Party	House No. 442, Chinchmala, Wada Parye, Sattari, Goa- 403505.
952	Goa Praja Party	Classic Apartments, House No. – 69, Ella, Old Goa, Tiswadi, North Goa, Goa – 403402.
953	Goa Su-raj Party	383-A, Pirazona, Moira, Bardez-Goa (Pin-403514).
954	Goa Suraksha Manch	Shop No. 644/1, Ward No. 4, Ground Floor, Ahilyaram Niwas, Opp. Panchayat, Savaiverem, Ponda-Goa.
955	Goa Vikas Party	Laxmi Sadan, Ground Floor, Opp. Assembly Complex, Near Journalist Colony, Porvorim, Goa-403507.
956	Goemcarancho Otrec Asro	H. No. 780/A, Mugally, Sao Jose de Areal, Salcete, Goa.
957	Gokula Makkal Katchi	New No.7, Old No. 3, Venkatraman Street, Teynampet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
958	Gondvana Gantantra Party	Village & P.O. Tiverth, Tehsil Kutghora, District-Bilaspur (Chhattisgarh).
959	Gondwana Congress Party	Shahapura, A-121, B.D.A. Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
960	Gondwana Mukti Sena	M-2, Poorvanchal Phase-I, Khazurikala Road, Bhopal-462 021, Madhya Pradesh.
961	Gorakha National Liberation Front	Dr. Zakir Hussain Road (Jalpahar Road), P.O. and District- Darjeeling, Darjeeling Gorkha Hill Council (West Bengal).
962	Gorkha Democratic Front	Shahi Niwas, Chandrabani, Post – Mohabbewala, Dehradun, Uttarakhand.
963	Gorkha Janmukti Morcha	North Point, Singamari, Darjeeling – 734104, West Bengal.
964	Gorkha Rashtriya Congress	9, K.B. Road, P.O. Ghoom, P.S. Jorebunglow, District Darjeeling, West Bengal.

965	Gramanchal Party	3/A, Satya Nagar, In Front of Central School, Bhubaneswar-7, Orissa.
966	Gramin Vikas Party	Shiv Gram, Plot No. 323, (Khata No. 1161/1314), Entkal No. 5678, Kila No. 10/02, (1-0), Choma, Palam Vihar Extension, Tehsil & District- Gurugram, Haryana- 122017
967	Great India Party	D.No.1-1334, Devasthanam Road, Mangalagiri-522503, Guntur District, Andhra Pradesh.
968	Green Party of India	36-C, Govindpuri, Ramnagar, Sodala, Jaipur, Rajasthan-302006
969	Gujarat Janta Panchayat Party	City Survey No. 966, Rameshwar Mandirkepaas, Dili Fali, Bokhira, Porbandar, Gujarat – 360577.
970	Gujarat Yuva Vikas Party	C/o Darbar Kruba Transport, Near Bus Station, Vadnagar-384355, District-Mehsana (Gujarat).
971	Gurgaon Residents Party	C-1927, Sushant Lok-I, Gurgaon – 122 002, Haryana.
972	Guru Chand Mukti Morcha	G-52, Aruna Nagar, Majnu Ka Tilla, Civil Lines, Delhi-110054.
973	Haakim Apna Party	Mohalla Mehmood Khan, Sarai Nakhasa Chauraha, Sambhal, Tehsil & District – Sambhal, Uttar Pradesh – 244302.
974	Hamara Dal	C-112, Sector-G, L.D.A. Colony, Kanpur Road, Lucknow-12, Uttar Pradesh.
975	Hamara Sahara Party	Sanand Bhawan, Village and Post – Masaurha, P.S. – Paliganj, District - Patna, Bihar – 801110
976	Hamari Apni Party	Survey No. 75/1, Indrayani Vihar, Sant Nagar, Lohgaon, Pune, Maharashtra – 411047
977	Hamari Janmanch Party	1/12, New Chukuwala, Dehradun, Uttarakhand.
978	Hamdard Party	Mohalla - Sayyadvada, Post- Satti Masjid, City – Ghazipur, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233001
979	Hamdardi Janrakshak Samajvadi Vikas Party (Jansevak)	Village- Udhura, Post office- Dallupur, P.S- Brahampur, District- Buxar, BIHAR-802130
980	Hamro Sikkim Party	Om Shanti Niwas, Lower Marchak, Rani Pool, East Sikkim, Sikkim – 737135
981	Haq Insaaf Party	No.3037, Talab Khatikan, Jammu, Jammu & Kashmir-180001
982	Hardam Manavtawadi Rashtriya Dal	No. 3-10-18, Pattabhipuram, Guntur, Andhra Pradesh- 522006
983	Harit Pradesh Party	H. No. 349, Village & Post – Bilsuri, Distt. – Bulandshahar, Uttar Pradesh - 203205.
984	Harit Pradesh Vikas Party	House No. 34, Gram – Tabela Gadhi, Tehsil – Baraut, District – Bagpat, Uttar Pradesh – 250622
985	Haryana Democratic Front	No. 549, Mathura Nagri, Ambala City Haryana- 134003
986	Haryana Hitkari Dal,	Village-Brahman Majra, P.O.-Bhadaur, Tehsil-Panipat, District-Panipat, Haryana- 132103
987	Haryana Insaaf Congress	Farm House, Near Bhagwat Bhakti Ashram, Rampura, Rewari – 123401 Haryana.
988	Haryana Jan Chetna Party (V)	Kothi No. 118A, Circular Road, Model Town, Ambala City, Haryana – 134003.
989	Haryana Janhit Vikas Party	531A, Sector-4, Rohtak, Haryana- 124001
990	Haryana Janrakshak Dal	249/3, Park Road, Adarsh Nagar, Gohana, Distt. Sonapat, Haryana.
991	Haryana Janta Party	Village & Post Office – Risalu, Tehsil & District – Panipat, Haryana – 132103
992	Haryana Kranti Dal	Babain Road, Ladwa, District – Kurukshetra Haryana
993	Haryana Lokhit Party	Shop No.8, SCO-2, Old Judicial Complex, Jharsa Road, Sector – 15, Gurgaon, Haryana – 122001
994	Haryana Navnirman Sena	101, Village – Silokhra, Gurgaon, Haryana.

995	Haryana Samajik Nyay Party	Kothi No. 239, Sector-7, Urban Estate, Kurukshetra-136118, Haryana.
996	Haryana Sarvajan Party	H. No. 236, Ward No. 2, Gram Panchayat Radaur, District – Yamuna Nagar, Haryana.
997	Haryana Swatantra Party	House No. 154, Village & P. O. – Jakhauda, Tehsil – Bahadurgarh, Distt. – Jhajjar, Haryana.
998	Himachal Jan Kranti Party	H.No.435, Ward No.10, Sham Nagar, Dharamshala, District-Kangra, Himachal Pradesh- 176215
999	Himachal Lokhit Party	Shastri Bhawan, Devnagar, Kasumpti, Shimla-171009, Himachal Pradesh.
1000	Hind Congress Party	C-6, South Side, GT Road, Industrial Area, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1001	Hind Ekta Mission	Village – Leduwawar, Post – Kauragahani, Tehsil – Phulpur, Distt. – Azamgarh, Uttar Pradesh.
1002	Hind Jan Congress	72, Pyarelal Compound, Nagra, Jhansi, Uttar Pradesh.
1003	Hind Jan Swaraj Party	Village-Kishanpur, Post-Benipur, Police Station-Bahera, Darbhanga, Bihar-847208
1004	Hind Kisan Mazdoor Party	31/419, Kela House, Maharana Pratap Nagar, Agra-4. (U.P.).
1005	Hind Morcha	Samaj Sudhar Ashram, Siraspur, Delhi.
1006	Hind Raksha Sena	WZ-13 B, First Floor, Mukhram Park Extn. Tilak Nagar, New Delhi-110018
1007	Hind Rashtriya Ekta Party	Plot No.104, Anguri Palace, Wazirabad Road, Pasunda, Garima Garden, Sahibabad, Ghaziabad, U.P.-201 005.
1008	Hind Samarpit Party	156, Shahbiswa Jalalpur, Raghunathpur, Muradanagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201206
1009	Hind Samdarshi Party	F-64, Galaxy Apartment, Sector – 43, Gurgaon, Haryana – 122002.
1010	Hind Samrajya Party	512/695K/1, Walda Road, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh-226007.
1011	Hind Swarajya Ganatantra Party	S-41, Panchsheel Park, New Delhi-110017.
1012	Hind Vikas Party	P.O. Sri Harbhagwan Nagar, Tapakalan, Near Kali Mandir, Jalesar Road, Ferozabad (Uttar Pradesh).
1013	Hindu Ekta Andolan Party	Hindi Ekta Karyalay, Malhar, Khan Bhag, Police Chowki, H.No.927/1, Sangli-416416, District Sangli, Maharashtra.
1014	Hindu Samaj Party	Rashtrawadi Dharma Satta, 26-A, Khurshedbad, Lucknow - 4, Uttar Pradesh
1015	Hindustan Action Party	156, Khanna Nagar, Loni, Ghaziabad-201102, Uttar Pradesh.
1016	Hindustan Ekta Party	Shop No. 132/2, Kesho Ram Complex, Sector - 45 C, Chandigarh-160047.
1017	Hindustan Hamara Party	555A/1, Mumfordganj, Allahabad, UTTAR PRADESH-211002
1018	Hindustan Inquilab Party	Mahesh Prasad Mandal, Village-Jhitki, P.O.-Hisar, Thana No. 32, Block-Harlakhi, Bajrang Bazaar Jhitki Distt. Madhubani, Bihar-847230
1019	Hindustan Janmorcha	House No. 1, Village & Post – Tekua, District - Deoria, Uttar Pradesh – 244182.
1020	Hindustan Janta Party	M/s Sono Sales Corporation, Subji Mandi, Khokadpura, Aurangabad (Maharashtra).
1021	Hindustan Kranti Dal	Village – Tundlaka, Panchayat – Goudhola, P.O & Tehsil – Punahana, Distt. – Mewat (Nuh), Haryana.
1022	Hindustan Krantikari Dal	A-65, Sector – 34, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1023	Hindustan National Party	No. 103/68, College Road, Nanganallur, Chennai-600 114, Tamil Nadu.

1024	Hindustan People's Party (Democratic)	H. No. 57,(Sky Sadam),Plot No-34/392/B8/C,Vill-Palbagan,Ward-4,Mihijam Jamtara,Jharkhand – 815354.
1025	Hindustan Peoples Party (Rajpal)	85A-Mohiley Nagar, Allapur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1026	Hindustan Samaj Party	Village & Post- Jagdishpur,Deeh- Raebareli,Uttar Pradesh- 229310.
1027	Hindustan Sampoorna Azad Party	Gram-Senduari Purushottam Ward No.8, Post-Bakhri, Thana-Anchal-Motipur,Muzaffarpur,Bihar-843111.
1028	Hindustan Shakti Sena	H. No. 1113/11, Darshan Singh Nagar, Alipur Road, Patiala, Punjab
1029	Hindustan Swaraj Congress Party	Shewar Bangla A.B. Nair Road, Juhu, Mumbai-4000491, Maharashtra
1030	Hindustan Tehreek-E-Insaaf	H.No. 1-12-386, Rajahawdi, Patvadi Naka Bahar Bhuj, Tahsil-Bhuj, District- Kachchh, Gujarat – 370001
1031	Hindustan Utthan Party	House No. 438, Village- Ravanikateri, Post- Bugrasi, Tehsil- Syana, District- Bulandshahr, Uttar Pradesh-245403
1032	Hindustan Vikas Dal	Karman Tola, Arah,District – Bhojpur - 802301Bihar.
1033	Hindustani Awaam Party	H. No. 202A/104, Jawahar Nagar, Near Hathi Park, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.
1034	Hindustani Awam Manch (United)	Village-Dakhner,Post-Paraiya,Thana-paraiya,Distt.Gaya,Bihar- 824209
1035	Hindustani Awam Morcha (Secular)	Maa Shabari Kutir, Godawari, P.S. - Rampur, District – Gaya, Bihar-823001.
1036	Hindustani Gareebwadi Party	61, Aggarwal Chambers, Vikas Marg, Veer Savarkar Block, Shakarpur, Delhi-110092.
1037	Hindustani Swaraj Party	69, Ashok Mohalla, Nangloi, Delhi – 110041.
1038	Hindustanwadi Party (Jaihind)	H.No.102,Village-Ramdattpur,Post-Pandaypur,P.S.Cantt,Varanasi,Uttar Pradesh-221007
1039	Hindusthan Nirman Dal	House No. 100, Gali No. 5,Krishna Nagar, Safdarjang Enclave,New Delhi.
1040	Hindusthan Praja Paksha	7/702, 'C' Wing, Sheetal Dhara Complex, Plot No. 28, Sector-7, Kamothe, Navi Mumbai – 410209, Maharashtra.
1041	Hindusthan Suraksha Party	North East Zone, Berpeta Road,Near Tourists Lodge, Ward No.6, District Berpeta (Assam).
1042	Hindvi Swarajyay Dal	No. 167,Ambikanagar, Bhchau-7,Bhachau-Ta Chachau,District-Kachchh,,Gujarat- 370140.
1043	Hitech Party	B-85, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1044	Hmar Peoples Convention	C/o Lalauva, House No. A/56, Bawngkawn Chimveng, Aizawl – 796 014 (Mizoram).
1045	Hum Bhartiya Party	House No. 1-3-3227, Harshrush, Behind Mukta Lawns, Jijau Nagar, Barshi Road, Beed, MAHARASHTRA- 431122.
1046	Hum Ek Hai Party	House No. 212,Khasra No.15/21,Rashid Nagar, Nal Saheb Road,Nagpur,Maharashtra-440018
1047	Hum Kisan Party	House No. 1699/G-25/A1, Vidya Nagar, Road No. 1, Harmu, Ranchi, Jharkhand – 834002
1048	Hum Log Party	H.No. B-170, Priyadarshini Vihar, Delhi- 110092
1049	Hum Sabki Party	Village – Mahimapur (Jalalpur Chaumuhani), Post – Jalalpur, District - Jaunpur, Uttar Pradesh – 222136
1050	Human Democratic Party	D.No.2/42,Boosipalli Village,Thenepalli Post,Vepanapalli Panchayathi,Puthalapattu Mandal,Chittoor District,Andhra Pradesh-517124
1051	Humanity Universal Motion Party	C/o Shamik Banerjee,#Holding No.84/1,Inda Rabindrapally,Ward No.02,Near Prantik Club,Kharagpur,District-Paschim Medinipur,West Bengal-721305
1052	Ilantamilar Munnani Kazhagam	1/159, Periyar Nagar, Thirisulam, Chennai, Tamil Nadu- 600043

1053	Independent Indian Congress	At/Post Pimpalgaon By Mahalunge, Tal. – Ambegaon, Dist. – Pune, Maharashtra – 410503
1054	Independent People's Party	House No.63, Kargil Colony, Narwal Bala, Jammu, Jammu & Kashmir.
1055	Indhia Kudiarasu Katchi	11, Karpagambal Nagar, III Street, Kottivakkam, Chennai – 600 041. Tamil Nadu.
1056	Indhu Dravida Makkal Katchi	No.14, Balaji Nagar, Chikkarayapuram, Mangadu, Chennai, Tamil Nadu - 600069
1057	India Dravida Makkal Munnetra Katchi	Door No. 15/1, Ward No. 21, Sarojini Nagar, Towerline Colony, Erode Corporation Zone II, Erode-638011, Tamil Nadu.
1058	India Greens Party	104, Vardhman Complex, 1st Floor, LSC, Savita Vihar, Delhi-110092
1059	India Janshakti Party	Plot No. 20, 21 & 22, Nai Basti, Nahar Road, Saidpur Jagir, Near Bhuiyan Devi Mandir, Lucknow, Uttar Pradesh- 226062
1060	India Makkal Munnetra Katchi	95, Cauveri Street, Bhavani – 638301, Erode District, TAMIL NADU.
1061	India Praja Bandhu Party	H. No. 18-1-317/A/68/1, Shivaji Nagar, Uppuguda, Hyderabad, Telangana- 500053
1062	India Rising Party	H.N. 39, Fatehpur, Kapoorapur-1, Tehsil- Tirwa, Dist- Kannauj, Uttar Pradesh- 209723
1063	India Samadhan Party	H.No. 129, Village & Post- Chauradev, P.S.-Gagalhedi, District- Saharanpur, Uttar Pradesh- 247669
1064	India Suyarajya Party	No. 48, Cholan Street, Praksah Nagar, Ambattur, Chennai, Tamil Nadu-600053
1065	Indian People Association Party	H.No. 2-74, Village- Venkatapur, Laxmi Narasimha Swamai Temple, Town/Mandal- Velpur, District- Nizamabad, Telangana State-503311
1066	Indian Aarthik Sudhar Party	H. No.- 1, Manjit Nagar, Basti Sheikh, Jalandhar, Punjab.
1067	Indian Alliance Party	Shop No. 6, L/1/21/6/83, Alnoor Society, Ahmedabad Road, Balasinor, District- Mahisagar, Gujarat- 388225
1068	Indian Bahujan Samajwadi Party	2/3, Ambedkar Nagar, Post-Nagina, Distt. Bijnaur-246762 (Uttar Pradesh).
1069	Indian Bahujan Sandesh Party (Kanshiram)	B-525, Guru Harikishan Nagar, New Delhi.
1070	Indian Believers Party (IBP)	Old H. No. Central Office:8-3-168, Flat No. 201, 2nd Floor, Bhanu Towers, ESI Hospital, Metro Station, S.R.Nagar, Hyderabad, Telangana State- 500038.
1071	Indian Business Party	1207, Pragati Tower, 26-Rajendra Place, New Delhi-110008.
1072	Indian Christian Front	LIG-289, Anna Nagar, Opp Velankanni Church, Madurai- 625020, Tamil Nadu.
1073	Indian Christian Secular Party	Plot No. 8, Wahab Nagar, Sikh Village, Secunderabad – 500 009.
1074	Indian Citizens' Party	At: Markata Nagar, Sector-10, Plot No. C-43, P.O. – Abhinaba Bidanasi, Cuttack-753014 Orissa.
1075	Indian Democratic Congress	Vill.-Babu Sankar Nagar, Mouja- Bhalucksundi, J.L.No: 22, Post- Aligarh, P.S.- Rajnagar, Dist- Birbhum, West Bengal- 731130.
1076	Indian Democratic Party	D – 978, Jan Kalyan School Road, Bhajan Pura, Delhi – 110054
1077	Indian Democratic People's Party	Babugachh, P.O. Gendagachh, P.S. Chopra, Islampur, District- Uttar Dinajpur, West Bengal- 733207
1078	Indian Democratic Republican Front	House No.-404, Sanjay Colony, Arthala Mohan Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1079	Indian Federal Democratic Party	1, Balwant Rai Mehta Lane, K.G. Marg, New Delhi – 110 001.
1080	Indian Gandhian Party	Kuriyakott Building, Thekkumpadam Road, Pattikkad P.O., Thrissur District, Kerala-680509.
1081	Indian Indira Congress (R)	1-Roop Rajat Nagar, Behind New Bus Stand, Pali, Rajasthan – 306401

1082	Indian Justice Democratic Party	TC/25/25(3), GBNRA-63, Kalpalayam Lane, Gandharamman Covil Road, Thiruvananthapuram, Kerala- 695001
1083	Indian Justice Party	5, Pusa Road, IIIrd Floor, Karol Bagh, New Delhi –110 005.
1084	Indian Krantikari Lehar	Mohalla Dhudi Wala, Bazigar Basti, Faridkot, Distt. – Faridkot, Punjab.
1085	Indian Labour Party (Ambedkar Phule)	D.No.26-28-118, 1st Line, Netaji Nagar, A.T. Agraharam, Guntur, Andhra Pradesh – 522004.
1086	Indian Lovers Party	No.-23, B-Block, 2nd Street, Bhoopathy Nagar, Kodambakkam, Chennai, Tamil Nadu - 600024.
1087	Indian Makkal Kalvi Munnetra Kazhagam	No.3, Deenadayalau Street, T. Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
1088	Indian Milan Party of India	Golbazar, Post- Akot, District- Akola, Maharashtra- 444101
1089	Indian Minorities Political Party	D. No. 9-4-51/35/48,Hakeempet (I.A.S.) Colony,Towli Chowki,Post – Golkonda Fort,Hyderabad – 500008,Andhra Pradesh.
1090	Indian Movement Party	No.-65,Mantappa Village,Bannergatta Road,Jigani Hobli,Anekal Taluk,Bangalore Karnataka- 560083
1091	Indian National Green Party	A/44, Paryavaran Complex, Saidulazaib, New Delhi-30.
1092	Indian National League	No.7, Balwant Rai Mehta Lane, Kasturba Gandhi Marg Cross, New Delhi-110001.
1093	Indian National Manavadhikar Party	Plot No. 429/(R),Rani Durgavati Chowk,N.I.T. Complex Binki Layout,Nagpur,Maharashtra- 440017
1094	Indian National Parivartan Party	C-316A, Vashi Plaza, Plot No. 80/81, Sector- 17, Vashi, Navi Mumbai, Maharashtra- 400703
1095	Indian National Secular Democratic Party (of India)	Virk Farm,Near Main Canal Bridge,Verowal Road,Jandiala Guru,District-Amritsar,Punjab-143115
1096	Indian National Youth Party	No.68-B,Devasandra,K.R.Pura,Bengaluru,Karnataka-560036
1097	Indian National Yuva Jana Party	H.No.9-14,Prashant Nagar,Boduppal,Ghatkesar Mandal,Ranga Reddy District,Telangana-500092
1098	Indian Nationalist Alliance Party (India)	C/ 1061/5,Indranagar,Lucknow,Uttar Pradesh- 226016
1099	Indian New Congress Party	Office No. 107, 2nd Floor, 1st Cross, 'A' Block, A.K. Colony Road, Ghousia Nagar, Mysore City, Karnataka- 570 019.
1100	Indian Oceanic Party	K-316, M.B.Road, Lado Sarai, New Delhi-110030.
1101	Indian People's Conference Party	H/o Makhdoom Sahib, House No. 51, Rainawari, Srinagar, Kashmir, Jammu & Kashmir.
1102	Indian People's Congress	79, Lawyers Chambers, Supreme Court, New Delhi-110001.
1103	Indian People's Forward Bloc	Tangra Housing Estate, Block-L/1, Flat -5, 40/1,Trangra Road, Kolkata-15, West Bengal.
1104	Indian Peoples Green Party	19, Shubham Enclave,C-Scheme, Jaipur,Rajasthan.
1105	Indian Praja Congress	Mathrudevobhava, Shop No. 1, Ground floor, Liberty Plaza, Door No. 3-6-365/UG/3-4, Himayath Nagar, Hyderabad, Telangana-500029
1106	Indian Public Federation Party	220, Vardhman Fortune Mall, (Opp. Mahendru Enclave), G.T. Karnal Road, Delhi- 110033
1107	Indian Public Party	B-1, Raj Complex, Sanskar Mandal, Bhavnagar – 364002, Gujarat
1108	Indian Rakshaka Nayakudu Party	House No. 4-279, Basaveshwara Colony, Makthal, District-Mahabub Nagar, Telangana State-509208
1109	Indian Sarvahit Party	6-B/138, Gopesh Kunj, Vrindavan Yojna, Raebareli Road, Lucknow, Uttar Pradesh- 226025.
1110	Indian Savarn Samaj Party	H. No. 0053, Daudpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh
1111	Indian Secular Congress	202, Pocket-B, SFS (DDA Flats), Sukhdev Vihar, New Delhi – 110025.

1112	Indian Unity Centre	Vill. & P.O.Somruk,P.S.Uluberia,Distt.Howrah,Pin-711316,West Bengal
1113	Indian Vikas Party	Khasra No. 327, Khoda Hajari Buteshwar Bagichi Road, Tehsil & District- Hathras, Uttar Pradesh- 204101
1114	Indian Voters Welfare Party	No. 608, 14th Main, Gokula 1st Stage,Bangalore – 560 054, Karnataka.
1115	Indian Youth Party	7/545, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1116	Indians Front	37-12-62, NGGO's Colony, P.R. Gardens,Visakhapatnam – 530 007 Andhra Pradesh.
1117	Indians Victory Party	3/261-2, Anandan Nagar, Asaripallam-629201, Kanyakumari District, Tamil Nadu
1118	Indigenous Nationalist Party of Twipra	Abhoyanagar, Agartala-799005 (Tripura).
1119	Indiya Jananayaka Katchi	No.9, 3rd Avenue, 34th Street,Ashok Nagar, Chennai-600083, Tamil Nadu.
1120	Inqalab Party of India	Mohalla Paschimi Lakhpeda,Town & Post – Mohammadi,Distt. Lakhimpur Khiri – 262 804Uttar Pradesh.
1121	Inqalab Vikas Dal	92, Village Gawandi, Near Sardar Patel Park, Ghonda, Delhi.
1122	Inqlabi Party	Behind B.T.I. School, Mahavir Nagar, Bhind, Madhya Pradesh, Pin – 477001.
1123	Insaafwadi Party	Village & post – Piyari, P.S. – Chaubeypur, District – Varanasi, Uttar Pradesh - 221104.
1124	Insaniyat Lok Vikas Party	Plot No. 1938/447/2,C/o Hind Scrap Store,Street No.-2,Janta Nagar,Near PNB,Ludhiana,Punjab-141003
1125	Insaniyat Party	H. No. 262/1, Gannayak Bhavan, At & P.O. Sanali, Taluka Mahudha, Distt. Kheda , Gujarat - 387330.
1126	International Party	Block-B-5, Flat No.-111, Yamuna Vihar, Delhi-110053
1127	Islam Party Hind	Mohalla: Rajde Pur, Post-City Janpad, Gazipur, Uttar Pradesh.
1128	Istatantra Parisad	At Village/Mouza – Dibyasinghapur, Khata No. 638, Plot No. 1343, P.O. Rayagurupur, P.S. – Gadisagoda, District – Puri, Odisha
1129	Ittehad-E-Millait Council	93, Sodagaran, Dargah Aala Hajrat,Bareilly, Uttar Pradesh.
1130	J & K Citizen's Party	Heera Building, Abi Guzar, Lal Chowk, Srinagar,Jammu and Kashmir.
1131	J & K Peoples' Movement	Sheikhpura,Humhama,Tehsil & District- Budgam,Jammu & Kashmir- 191111
1132	Jaago Bharat Front	D – 185 B, Mohan Garden, Uttam Nagar, Delhi - 110059.
1133	Jaganmay Nari Sangathan	Sector-21/5, Indira Nagar, Lucknow,Uttar Pradesh.
1134	Jagat Kalyan Morcha	Village-Nanni,P.O.-Matiana,Tehsil-Theog,Disrict-Shimla,Himachal Pradesh-171212
1135	Jaghat Telugu Munnetra Kazhggam	No.33, Halls Road, P.A. Tower, F-9 & 10, Egmore, Chennai-600008, Tamil Nadu.
1136	Jago Bharat Jago Party	14A/ 84, WEA, Karol Bagh, New Delhi-110005.
1137	Jago Hindustan Party	H. No. 368, Mohalla- Kalyani Devi Civil Lines, District- Unnao, Uttar Pradesh-209801
1138	Jago Party	9-1-108/1, 2nd Floor, Tata Chary Compound, S.D. Road, Secundrabad – 500 026, Andhra Pradesh.
1139	Jagrat Bharat Party	101, Vidhayak Niwas,Rajender Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1140	Jagrook Janta Party	Village- Dilawarpur, P.O. & P.S.-Bihta, District- Patna, Bihar-801103
1141	Jagte Raho Party	C/o Ms. Kshama R Desai,2, Vatika Bunglows, Near Sabari School,Vasna Road, Baroda,Gujarat.
1142	Jai Andhra Party	D. No. – 14-71, Chagalnadu Steels, Morampudi Junction, Rajahmundry, East Godavari District, Andhra Pradesh - 533105.
1143	Jai Bharat National Party	H.No. 22/630, DDA Flat, Madangiri, New Delhi- 110062

1144	Jai Bharat Party	RZH-710E (E/54), Raj Nagar II (Near Dev Hospital), Palam Colony, New Delhi-45.
1145	Jai Bharat Samanta Party	A-36/54-V-1, Samanata Shakti Bhawan, Kajjakpura, Koniya Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
1146	Jai Bharath Jena Sena Party	D. No: 42-64-1/1, Luna Centre, Opp. M.K. Baig Municipal Corporation High School, Singhnagar, Vijayawada, Krishna District, Andhra Pradesh – 520015
1147	Jai Chhattisgarh Party	10, 2nd Floor, Shaheed Veernarayan Singh Compound, Nagar Ghari Chowk, G.E. Road, Raipur, Chhattisgarh – 492 001.
1148	Jai Hind Congress Party	Shop No. 34, Ridhi Sidhi Colony, Rawla- Mandi, Tehsil- Gharsana, Sriganganagar, Rajasthan- 335771
1149	Jai Hind National Party	A2/135, Darshanam Antica, Danteshwar, Vadodara, Gujarat-390004
1150	Jai Hind Party	Kharail Punarvas, Ward No.16, Nagar Parishad, Supaul, Bihar.
1151	Jai Hind Samaj Party	Village - Kharhara (Bind Valia) Post – Dubiha, Janpad – Ghazipur, Uttar Pradesh.
1152	Jai Hindustan Party	H.No.22-13-47, Block No. 13, Ambedkar Colony, Tirupati, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517507
1153	Jai Janata Janardan Party	Mohalla-Manohari Ganj, Mardan Naka Shahar Banda, Paragna & Distt. – Banda, Uttar Pradesh.
1154	Jai Janseva Party	14/43, Sambhaji Chowk, Ichalkaranji, Tehsil –Hatakanangale, Distt:- Kolhapur, Maharashtra-416115.
1155	Jai Janta Party	Ward No. 18, Holding No. 27, Bhabhua (Kaimur), Near of Agarwal Petrol Pump, Bihar – 821101.
1156	Jai Jawan Jai Kisan Mazdoor Congress	WZ-553-A/3, Soni Kunj, Nangal Raya, New Delhi-110046.
1157	Jai Jawan Jai Kisan Party	First Floor, H. No. – 60, Street No.7, Virk Colony, Near DCW, Patiala, Punjab - 147001.
1158	Jai Lok Party	F-2/5, Mayur Vihar, Ashoka Garden, Bhopal, Bhopal, Madhya Pradesh-462023.
1159	Jai Maha Bharath Party	Jai Mahabharath Bhawan, Shri Mahaavykuntha Puram, Vill.-Bukkapuram, Tehsil – Alampuram, Distt. – Mahabub Nagar, Andhra Pradesh, Pin – 509 652.
1160	Jai Manavta Party	H. No. 1, Samriddhi Parisar, Near of Sahu Aata Chakki, Lalita Nagar, Kolar Road, Bhopal, Madhya Pradesh.
1161	Jai Prakash Janata Dal	190, Pratap Nagar, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi – 110091
1162	Jai Samaikya Andhra Party	D. No. 4-86, Kammavari Veedhi, Machavaram Gram Panchayat Limits, Rayavaram Mandal, District – East Godavari, Andhra Pradesh – 533 214.
1163	Jai Samaj Bharatiya Samaj Party	Town Area Sadat, Post – Sadat, District – Gazipur, Uttar Pradesh.
1164	Jai Samta Party	Rakba Sher Nagar BiBipur, Kallarpur, Jansath Road, Tehsil-Sadar, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh- 251001
1165	Jai Sewalal Bahujan Vikas Party	Flat No. 2, Plot No. 31, Himalaypushpa Building, Swapnanagri Garkheda Area, Aurangabad, Maharashtra- 431005.
1166	Jai Swaraj Party	10-105/1/B/2, First Floor, Road No.- 2, New Gaddiannaram Colony, Dilsukh Nagar, Hyderabad, Telangana - 500060
1167	Jai Vijaya Bharathi Party	Chinnagottigallu P.O., Chittoor District, Andhra Pradesh.
1168	Jamat -E- Seratul Mustakim	P.O. Chhotto Sujapur, P.S. Kaliachak, Distt. Malda, West Bengal – 732206
1169	Jammu & Kashmir Awami National Conference	3-R.C. Quarters, Press Enclave, Pratap Park, Srinagar-190001 (J & K).
1170	Jammu & Kashmir National United Front	Post Office Building, Amphalla Chowk, Karan Nagar, Jammu Tawi – 180 005, Jammu & Kashmir.

1171	Jammu & Kashmir People Conference	General Office, Old Secretariat Road, Sri Nagar-190001 (Jammu & Kashmir).
1172	Jammu & Kashmir Pir Panjal Awami Party	Near Police Station Poonch, C/o District Court Poonch, Jammu & Kashmir
1173	Jammu & Kashmir Save Srinagar Front	Naib Mufti Azam Manzil, Tailbal Road, Habak Crossing, Srinagar – 190 006. Jammu and Kashmir.
1174	Jammu and Kashmir Apni Party	Kohinoor House,7 Sheikh Bagh,Srinagar,Jammu and Kashmir-190001
1175	Jammu and Kashmir Awami League	B-24, Indra Nagar, Srinagar-190001, (Jammu & Kashmir).
1176	Jammu and Kashmir Democratic Party Nationalist	Kursoo Rajbagh, Srinagar-190 008, Kashmir.
1177	Jammu And Kashmir National Democratic Front	168, Rawalpura Housing Colony, Srinagar (Jammu & Kashmir).
1178	Jammu and Kashmir People Democratic Front (Secular)	Rajbagh, Near Little Angels School, Srinagar, Kashmir.
1179	Jammu Kashmir People's Party (Secular)	96/9, Nanak Nagar, Jammu, Jammu & Kashmir – 180004
1180	Jammu Kashmir Save Party	Rawalpura Village, Srinagar, Jammu & Kashmir
1181	Jammu State Morcha (Progressive)	8, Old Dry Fruit Market, Jewel Chowk, Jammu – 180 001, Jammu & Kashmir.
1182	Jan Aawaj Party	Jhinhak, Kanpur Dehat, Uttar Pradesh- 209302.
1183	Jan Adesh Akshuni Sena	House No.117, Patharia Mohalla, Padua Chauraha, G.T. Road Bhongaon, Mainpuri, Uttar Pradesh
1184	Jan Adhikar Manch	9 Shivakhand, Jhilmil, Delhi-110095.
1185	Jan Adhikar Party	House No. 331, Sarvodaya Nagar, Chandi Road, Pilkhuwa, Uttar Pradesh.
1186	Jan Adhikar Party (Loktantrik)	Ward No. 05/14, Vardhman Hata, Arjun Bhawan, Arjun Nagar, Post office- Purnea, P.S- Sahayak k. Haat, District- Purnea, Bihar- 854301.
1187	Jan Andolan Morcha	A-8/18, 1st Floor, Block-A, Pocket-8, Sector-17, Rohini, Delhi - 110085.
1188	Jan Awaz Vikas Party	H.No. 631, Second Floor, Main Road, Mukherjee Nagar, Delhi.
1189	Jan Bhavana Party	C-103, Ganesh Nagar, Pandav Nagar Complex, New Delhi – 110092.
1190	Jan Chetna Kranti Manch	Suvir Kumar Pardeshi,Khemneechak,Behind Jakariyapur Krishna Niketan School,Police Station Aalamganj,Distt.- Patna,Bihar-800007
1191	Jan Chetna Party	Chamber No.475, Western Wing, Tis Hazari Courts, Delhi-110054.
1192	Jan Congress Party	Ward No. 1. House No. 395, Bokakhat Town, District- Golaghat, Assam- 785612.
1193	Jan Ekta Dal	Gher Katebaz Khan,Near Masjid Kale Khan, Rampur, Distt. Rampur – 244 901, Uttar Pradesh.
1194	Jan Ekta Party	147/5, Behind ITI,Shamsherpur,Paonta Sahib,Himachal Pradesh.
1195	Jan Jagaran Yuva Manch	No. 2528/2649,at Ratnadeep Hospital,Nagar Road,Jamkhed,Taluka Jamkhed,Dist.Ahmednagar,Maharashtra-413201
1196	Jan Jan (United) Party	Shantipuram, Phaphamau, Opposite B.B.S Engineering College, Near Navjeevan Hospital, District- Prayagraj, Uttar Pradesh-211013
1197	Jan Jan Party	Gali No. – 7, Village – Mamura, Sector – 66, Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
1198	Jan Kalyan Party	Fatehpur-Sahabpur, P.O- Kasenda, Tehsil- Chail, District- Kaushambi, Uttar Pradesh.

1199	Jan Kranti Party, Andaman & Nicobar	C/o Harsh Mehra Traders, Opposite: CBI Office, Ranchi Basti, Port Blair - 744103.
1200	Jan Kranti Swatantrata Party	226/27, Street No.-6, Mahavir Nagar, Firozabad, Uttar Pradesh.
1201	Jan Lok Kalyan Party	Village & Post: Butrada, Tehsil: Shamli, Distt. Muzaffar Nagar, Uttar Pradesh.
1202	Jan Lokmat Party	2, Hasrat Building, Adhyatmik Nagar, Beneath Rly. Fly Over, Dasna, Ghaziabad-201302 Uttar Pradesh.
1203	Jan Man Party	D.409, Pratik Mall, Raysan, Gandhinagar Gujarat- 382007
1204	Jan Mithila Vikas Party	Village Samdhiniya, Post Garri, P.S.-Jale, Darbhanga, Bihar-847303
1205	Jan Morcha	1, Teen Murti Marg, New Delhi-110001.
1206	Jan Raajya Party	110/F/10A/1A, Kanahipur Village, Dhoomangunj, Allahabad-211001, Uttar Pradesh.
1207	Jan Raksha Party	Bhithauli, Sitapur Road, Lucknow-226020 Uttar Pradesh.
1208	Jan Sadharan Party	House No – 04, Dr. Fatehullah Lane, Main Road, Ranchi, Jharkhand – 834001
1209	Jan Sahara Party	Flat No.2, UG Floor, A-1/B, Advocate Compound, Old Jasola Village, Delhi-110025
1210	Jan Samanta Party	B-125, Navjiwan Camp, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
1211	Jan Samarthan Dal	12, Krishna Vihar, Jwala Nagar, Rampur, Uttar Pradesh.
1212	Jan Samman Party	G-238, Main Road, Gali No.- 6/28, Bal Gyan School, West Karawal Nagar, Delhi- 110094.
1213	Jan Samwad Party	319, Amkhera Road, Gohalpur, Jabalpur, Madhya Pradesh-482004
1214	Jan Sangh Party	A-90, Sector-21, Jalvayu Vihar, Noida, Gautambudh Nagar-201301, Uttar Pradesh.
1215	Jan Sangharsh Dal	Near Choti Masjid, Main Road, Lauriya, West Champaran, Bihar-845453
1216	Jan Sangharsh Virat Party	Street No. 2, Near of Bhuteshwar Mandir, Sant Ravidas Ward, Sagar, Tehsil & District – Sagar Uttar Pradesh.
1217	Jan Sangram Party	House No. 482, Sector – 3 A, Awas Vikas Colony, Bodla, Agra -7, UP.
1218	Jan Satya Path Party	1st Floor, Madhav Complex, Opp. City Pulse Theatre, Raipur, Ahmedabad, Gujarat- 380022.
1219	Jan Seva Sahayak Party	Village – Tal Mahawar, Tehsil – Bilaspur, District - Rampur, Uttar Pradesh
1220	Jan Seva Sangharsh Party	Village & Post - Pilimandori, Tehsil- Bhattu Kalan, District- Fatehabad, Haryana - 125053.
1221	Jan Sevak Party	L.I.G. 63, Shekhpura, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh,
1222	Jan Sewa Driver Party	Flat F-201, Krish Exotica, Opp. Rajipa Greet Land, B/h, Shyamved, Residency, Nicol, Ahmedabad, Gujarat- 382350
1223	Jan Sewak Kranti Party	AT-772, Bhim Nagar New Railway Road, Gurugram-122001
1224	Jan Shakti Dal	Shivaji Nagar, Street No. 1, Near Kailtan School, Line Paar, Muradabad-244001, Uttar Pradesh.
1225	Jan Shakti Ekta Party	Village – Mandanpur, Post- Meerganj, District – Bareilly, Uttar Pradesh – 243504.
1226	Jan Shakti Party of India	7107, Street No.3, New Vishwakarma Nagar, Focal Point, Ludhiana, Punjab-141 010.
1227	Jan Shanti Sangathan	AA-14, Chandan Van, Phase –1, Mathura, Uttar Pradesh-281001
1228	Jan Srijan Party	15-D, Kaushalpur, Khargapur, Vikas Khand – Chinhat, Gomtinagar, Pargana, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh .
1229	Jan Surajya Shakti	Janasampark Karyalaya, Warananagar, Tal. Panhala, Distt. Kolhapur, Maharashtra-416113.
1230	Jan Swabhavik Party	636/09 Budh Vihar Colony, Phase I, Takrohi, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226016

1231	Jan Vikas Party Secular	1/97, Vishesh Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1232	Jana Dwani Party	D. No. 3-PC/18, Lakshmi Narayana Estates, Miyapur, Hyderabad, Telangana – 500 049
1233	Jana Hitkari Party	A/13-14, Industrial Estate, Rasulgarh, Bhubaneswar-751 010, Orissa.
1234	Jana Priya	A/2, Kastel, 5, Cornwell Road, Bangalore-560025 (Karnataka).
1235	Jana Rajyam Party	H.No.8-217/16, Dharmareddy Arcade, Flat-T1, Gayatri Nagar, Laxminagar Colony, Road No.3, Jillela Guda Municipality, Balapur Mandal, Rangareddy District, Telangana State-500097
1236	Jana Sahayaka Sakthi	Door No. 27-85/1, Cobaldpet, 4th Lane, Guntur, Andhra Pradesh-522006
1237	Jana Samanyara Party (Karnataka)	Sri. Veerabhadra Swamy Nilaya, 1st Main, 5th Cross, Vijaya Nagar, Tumkur, Karnataka – 572102.
1238	Jana Samrudhi Party	Kashipur-Balarampur, Unit-18, P.O.- Keonjhar, P.S- Town, District- Keonjhar, Odisha- 758001.
1239	Jana Shankhaaraavam Party	H.No.4-1-216/54/502, Karthikeya Nagar, Nacharam, Uppal, Medchal Malkajgiri District, Telangana State-500076
1240	Jana Spandana Party	No. 60, 1st Floor, Veerapillai Street, Shivajinagar, Bangalore, Karnataka- 560001
1241	Jana Swarajya Party	H.O. 83/A, 3rd Ward, Kamma Bazar, Sandur-583119, Karnataka.
1242	Jana Unnayan Mancha	C/o Dolphin Engineering Co., 39, Shakespeare Sarani, Kolkatta-700017 (West Bengal).
1243	Jana Vaahini Party	Door No. 28-5-37A, 12th Road, Santhi Nagar, Eluru, West Godavari District, Andhra Pradesh-534001
1244	Janadesh Party	Radhey Niwas, Jarimari, Jagtap Wadi, Kurla Andheri Road, Mumbai – 400072.
1245	Janadhar National Party	63, R.R.Avenue, Tulsi Nagar, Mahalaxmi Nagar Road, Indore, Madhya Pradesh- 452010
1246	Janadhipathiya Kerala Congress	Near Jawahar Balbhavan, Building No. 641, Ward No. 21, Kottayam Municipality, District – Kottayam, KERALA.
1247	Janadhipathya Samrakshana Samithi	Kerala State Committee Office, Iron Bridge P.O., Alleppey-688011, Kerala.
1248	Janahitha Paksha	D. No. 109, 2nd Ward, Kamma Street, Bellary, Karnataka – 583101.
1249	Janam Manam Party	13-24/A, Pandurangavaripalli Village, Ithepalli Post, Chandragiri Mandal, Chittoor District, Andhra Pradesh- 517102
1250	Jananayaha Munnetra Kazhagam	No.32, New Tank Street, Nungambakkam, Chennai-600034, (Tamil Nadu).
1251	Janapaalana Party (Democratic)	8-2-703/2/B, Plot No.2, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500034.
1252	Janasena Party	House No. 8-2-293/82/HH/91/A/201, Huda Heights, MLA Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500033 .
1253	Janata Congress	278A, 1st Floor, G.K.Complex, Main Road Okhla, Jamia Nagar, New Delhi-110025 .
1254	Janata Congress National Movement Party	No. 8-2-293/82/J/III, Road No. 79, Jubilee Hills, Hyderabad, Telangana -500033
1255	Janata Dal (Ahinsawadi)	201, BHEL Extension, 9th Cross, Stage-II, Rajarajeshwari Nagar, Bangalore, Karnataka-560098.
1256	Janata Party	G/42, Purvi Vinod Nagar, Delhi – 110091
1257	Janata Uday Party	860, Gali No.4, Sanjay Enclave, Chacha Chowk, Parvatiya Colony, N.I.T. Faridabad, Haryana.
1258	Janata Vikas Manch	C/216, Awas Vikas Colony, Meera Bhawan, Pratapgarh, UTTAR PRADESH.

1259	Janata Vikas Party	Abashek Bhavan, Udainagar Colony, Sagar Road, Vidisha(Madhya Pradesh).
1260	Janhit Bharat Party	730, Arra Nai Basti, Naubasta, Yogendra Vihar, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208021
1261	Janhit Dal	R.M.S. Colony, Road No. 2, Kankar Bagh, Patna-20, Bihar.
1262	Janhit Kisan Party	Ward No. 24, Saxena Nagar, Nagar Palika Parishad – Maharajganj, Janpad – Maharajganj – 273303 Uttar Pradesh.
1263	Janhit Lokshahi Party	Room No. – 41/3, Gaondevi Road, Pavanegaon, Navi Mumbai, Maharashtra – 400705.
1264	Janhit Vikas Party	Village-Kapasi , Post- Hasanpur, Block- Baliakhedi, District-Saharanpur, Uttar Pradesh-247111
1265	Jankranti Samaj Party	House No. 16, Sadarpur Colony, B.D.S. Market, Som Bazar, Sector-45, Noida, Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh.
1266	Janlok Rashtriya Party	452, Sector –19,Dwarka,New Delhi.
1267	Janlok Vikas Party	House No.124,Ward No.22,Kasai Tola,Gorya Asthan,P.O.-Rasra, Distt.-Ballia,Uttar Pradesh-221712
1268	Janmangal Paksh	Ram Pratap, Geeta Nagar, Main Road, Near Gurukul, Rajkot – 360 002 (Gujarat).
1269	Janmat Party	Office No.-101,First Floor,B-37, B-Block, Gali no.-14,Madhu Vihar Delhi – 110092
1270	Janmat Vikas Paksha	Post – Saswad, Purandhar, Maharashtra - 412301.
1271	Jannayak Yuva Shakti Party	H.No.587/20,Near Khasa Chowk ,Rameshwar Puram Colony, Kabirpur,Sonipat,Haryana-131001
1272	Jan–Nyay Dal	301, Sri Devraha – Complex,Mata Madia Choraha, Vijay Takeej Road,Motinagar Ward, Teh. & Zila – Sagar, Madhya Pradesh.
1273	Janral Samaj Party	Surat Printing Press,Dana Mandi Road, Bathinda, PUNJAB.
1274	Jansamuday Party	57, 1st Floor, Stadium House, Stadium Cross Road, Navrangpura, Ahmedabad, Gujarat - 380009.
1275	Jansatta Dal Loktantrik	Village & Post- Majhilgaon (Babuganj), Tehsil- Kunda, District-Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230204
1276	Jansatta Party	L-14, Mahendra Park,Adarsh Colony, New Delhi-110 003.
1277	Janseva Gondwana Party	Plot No.36,Jayaswal Lay Out,Near Bhoyar College Girls Hostel, Nalwadi,Wardha,Teh. And Distt. – Wardha,Maharashtra- 442001
1278	Janshakti Janta Dal	Rajni Complex,Khagaul Road,Near Dayanand Girl's High School,Mithapur,Patna 800001
1279	Janshakti Party (Rashtriya)	Plot No. 38, Ground Floor, Opp. KDK Public School, Main Road, Mandawali, Fazalpur, Delhi- 110092.
1280	Janshakti Vikas Party (Democratic)	At-PO-Numar,PS-Barhat,District-Jamui,Bihar-811313
1281	Janshoshit Samaj Party	A-618/7, Street No. – 8, Bhajanpura, Delhi - 110053
1282	Janta Brigade Party	R-142,Jawalapuri,Camp No. 5,New Delhi- 110087
1283	Janta Dal Hindustani	Khata No. 64 (Old), Plot No. 370 (Old), New Plot No. 838, 839, 744, 745, Thana No. 314, Village- Aabgila, Thana- Mufsil, Anchal-Manpur, District- Gaya, Bihar-823003
1284	Janta Dal Rashtravadi	House No. 55/1, Haroon Nagar Colony, Sector – 1, P.S. & P.O. Phulwari Sharif, Patna, Bihar - 801505.
1285	Janta Kranti Party	Bharat Vihar Colony, Opposite of Big Shiv Mandir, Mandavar Road, Bijnaur, District – Bijnaur, Uttar Pradesh- 246701.
1286	Janta Kranti Party (Rashtravadi)	No. 29, Kantipuram Part-2, Behind Shivpuri Power House, Ganeshpur, Rahmanpur, Deva Road, Chinhath, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1287	Janta Raj Party	House No. 43, Village – Tejapura, Post – Indore, District – Ghazipur, Uttar Pradesh – 233226
1288	Janta Raj Vikas Party	Village- Chakfaij, Post- Sukki, P.S- Patepur, Distirt- Vaishali, Bihar-843114.

1289	Janta Samta Party	Village-Dumri Ekhalas, P.O.-Hetimpur, Thana-Rampur Karkhana, Tehsil & District-Deoria, Uttar Pradesh- 274206
1290	Janta Sarkar Party	I-4/39, Ground Floor, Sector – 16, Rohini, Delhi-110089
1291	Janta Sena Rajasthan	Mukam Post: Vallabhnagar, District – Udaipur, Rajasthan – 313601.
1292	Janta Swabhimani Party	Katghara Dehati, Haveli, Sadar, Jaunpur, Uttar Pradesh-222002
1293	Jantantra Party	3rd Floor, Taksal Theatres Building, Nadesar, Varanasi – 221002, Uttar Pradesh.
1294	Jantantrik Lokhit Party	Sushma Nawal Kunj, NTPC Colony, R.K. Nagar, Ward No.32, Circle No.8, P.O.Now Jaganpura, P.S.Rak Nagar, District-Patna, Bihar-800027
1295	Jantantrik Samta Party	H.No. 100, Ward No. 4, Ludhupara, Jaswant Nagar, Etawah, Uttar Pradesh- 206245
1296	Jantantrik Vikas Party	201, P.Mall, Second Floor, Exhibition Road, District- Patna, Bihar-800001
1297	Jantawadi Congress Party	161/B, Opp. Shivaji Garden, Swadeshi Mill Road, Chunabhatti (E), Mumbai, Maharashtra – 400037.
1298	Janvadi Party (Socialist)	B-32/2, Behind Jain Mandir, Nariya, Varanasi, Uttar Pradesh.
1299	Jateeya Sama Samajam Party	1-24, Dinnadevarapadu Village, Kurnool Mandal, Kurnool – District, Andhra Pradesh- 518002
1300	Jathiya Telugu Abhivrudhi Seva Samuham	# 171, Kesavaigunta, Near S.G.S. Arts College, Tirupati -517501, Chittoor District, Andhra Pradesh.
1301	Jatiya Mahila Party	6-3-B-922, N.G.O's Colony, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana- 500070
1302	Jawan Kisan Morcha	Qr. No. L.I.G.H.-1/7, Housing Colony, Dalpatpur (Chandva), Aara, Bihar-802312.
1303	Jay Hind Jay Bharat Party	N – 106, HIG Flat, Sanjay Nagar, Sector – 23, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1304	Jebamani Janata	No.33, Second Street, East Abiramapuram, Mylapore, Chennai-600004, (Tamil Nadu).
1305	Jharkhand Anushilan Party	Vill + Post – Jhilimili, P.S.– Barikul, Distt – Bankura, West Bengal – 722135.
1306	Jharkhand Azad Party	C/o Jaleshwar Karmali H. No. 153A, Khata No. 40, Plot No. 293, Mauj Hombai, Village – Hombai, Post – Nevri Vikas, Thana – Sadar Ranchi, District – Ranchi, Jharkhand – 835217
1307	Jharkhand Disom Party	12, Road No.21, Kadma Farm Area, Jamshedpur-831005, Jharkhand.
1308	Jharkhand Jan Kranti Morcha	House No. 36, Dinkar Nagar, P.O. – Hatia Railway Colony, PS – Jagannathpur, Ranchi, Jharkhand.
1309	Jharkhand Jan Morcha	IInd Floor, Ajmeri Tower, Mallah Toli, Ranchi – 834001, Jharkhand.
1310	Jharkhand Janadhikar Manch	Bhubaneshwari Lok, Kali Mandir Road, Vardman Compound, Ranchi – 834 001 (Jharkhand)
1311	Jharkhand Janadhikar Party	Opposite Holi Cross School, Lalpur Peace Road, Ranchi – 834 001, Jharkhand.
1312	Jharkhand Ki Krantikari Party	23, Purvi Jail Road, Ranchi-1, (Jharkhand).
1313	Jharkhand Mukti Morcha (Ulgulan)	C/o - Shri Om Prakash Singh, Village & Post - Madhukam, Road No.4, Thana - Sukhdev Nagar, District - Ranchi, Jharkhand - 834001
1314	Jharkhand Party	Anand Suwani Niwas, Airport Road, Hinoo, Ranchi Jharkhand-834002.
1315	Jharkhand Party (Naren)	At-Raghunathpur, P.O.Jhargram, District- Midnapur-721507 (West Bengal).
1316	Jharkhand Party (Secular)	Village – Unideeh, Post – Raja Ulatu, Thana - Namkum, District-Ranchi, Jharkhand.

1317	Jharkhand People's Party	P.O.Laubasa, Jamshedpur, P.S. Gobind Pur, Distt. Singhbhum (East) (Jharkhand).
1318	Jharkhand Vananchal Congress	5, Ratu Road, Ranchi-834005, Jharkhand.
1319	Jharkhand Vikas Dal	273, Lake Avenue, Kanke Road, Ranchi, Jharkhand.
1320	Jindabad Kranti Party	31/83A, 3rd Floor, Gali No.5, Bhikam Singh Colony, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi-110032
1321	Johaar Party	Village- Dadha Tand, P.O. & P.S. Itki, District- Ranchi, Jharkhand-835301
1322	Justice and Development Party	Vill. & P.O.-Ahiran, P.S.- Suti, Distt.-Murshidabad, West Bengal-742223.
1323	Justice Party	Village- Diktan Khera, P.O- Harchandpur, District- Raebareli, Uttar Pradesh-229303
1324	Jwala Dal	H. No. 247B, Mo. Jangal Tulsiram, Post – Bichhia P.A.C. Camp, P.S. – Shahpur, Distt. – Gorakhpur-273014, Uttar Pradesh.
1325	Kaivinayger Munnetra Kazhagam	Sri Visweswara Bhavanam, 76, Millers Road, Kilpauk, Chennai-600010. (Tamil Nadu).
1326	Kalinga National Front	At-Parabil, P.O.-Kandarpur, Dist-Cuttack-754100, Odisha.
1327	Kalinga Sena	19A, Madhusudan Nagar, Unit-4, Bhubaneswar-751 001, Khurda, Orissa.
1328	Kalyana Kranthi Party	#57, 2nd Floor, 3rd Main Adithyanagar, 8th Phase, JP Nagar, Bengaluru, Karnataka-560062
1329	Kalyankari Jantantrik Party	B 4/260A, Keshavpuram, New Delhi - 110035.
1330	Kalyanwadi Party	16, Pandey Tola, Paintepur, Mahmudabad, Sitapur, Uttar Pradesh-261203
1331	Kamarajar Adithanar Kazhakam	6-E, Sasthan Koil Street, Pudhukudieruppu, Nagercoil-629001, Tamil Nadu.
1332	Kamarajar Deseeya Congress	7-Velayudha, Raja Street, Raja Annamalaipuram, Mandaveli, Chennai-600028 (Tamil Nadu).
1333	Kamatapur People's Party (United)	Village & Post- Bhandani, P.S- Dhupguri, District- Jalpaiguri, West Bengal-735210
1334	Kamera Samaj Party	Ward No. 3, Lala Ka Purva, Shankargarh (Near Patti Devi School), Shankargarh, Post-Shankargarsh, District-Prayagraj, Uttar Pradesh- 212108.
1335	Kamgaar Kisan Party	Rahul Bhawan H.No.51 Manas Nagar, Ziyamau, Hazratganj, Distt.- Lucknow, Uttar Pradesh-226001
1336	Kamgar Samaj Dal	H. No.9/237, Mohalla : Raidopur, Post & Distt. Azamgarh, Uttar Pradesh.
1337	Kamtapur Progressive Party	'Chilla Roy Bhawan' Village - Bidhanpally, P.O. Kadamtala, Distt. Darjeeling – 734433, West Bengal.
1338	Kannada Chalavali Vatal Paksha	154, Rangswamy Temple Street, Bangalore-560053 (Karnataka).
1339	Kannada Deshada Paksha	No. 20, Bandarlhalli Village, Kamasamudram Hobli, Bangarpet Taluk, Distt.-Kolar, Karnataka- 563129.
1340	Kannada Naadu Party	54, Ground Floor, Parasana Colony, Basaveshwar Nagar, Gokul Road, Hubli – 580030, Karnataka.
1341	Kannada Paksha	No. 259/1, 1st Floor, Rangswamy Temple Street (Opp. to Jain Temple) Bangalore-560053 (Karnataka).
1342	Kanoon Raj Party	D-1/1045, Gali No.27, Harsh Vihar, Shahdara, Delhi-110093
1343	Kanshiram Bahujan Dal	Khata No. 208, Ka Araji No. 159M/0.0810, Village- Ali Khanpur, P.S.- Line Bazar, Tehsil- Sadar, Pargana- Haveli, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222132
1344	Karma Party	Shop No. – 1, HUDA Market, Leisure Valley Park, Opposite Kingdom of Dreams, Sector – 29, Gurgaon, Haryana - 122002

1345	Karnataka Janaseve Party	Old PID No.36,Khata No.151,Survey No.42,Kaveripura Main Road,No.587,Near Mahadeshwara,Temple Road,Ranganathapura,Kamkshipalya,Bangaluru,Karnataka-560079
1346	Karnataka Jantha Paksha	# 11, 12th Main 17th Cross, Malleshwaram, Bengaluru – 560055, Karnataka
1347	Karnataka Karmikara Paksha	No. 120, 1st Floor, St. Johns Church Road, Near Coles Park, Bangalore, Karnataka-560005
1348	Karnataka Kranthi Dal	No.240, 16th Main, 6th Cross, Ist Phase, 2nd Stage, BTM (EWS) Layout, Bangalore-560076(Karnataka).
1349	Karnataka Makkala Paksha	H.O. No. 09, Block-4 JSS Employee's Layout, Sathagalli, Nazarabad Mohalla, Mysore, Karnataka-570011
1350	Karnataka Pragnyavantha Janatha Party	No.23, 2nd "A" Main Road, 7th Cross, Muneshwara Layout, Srigandhanagar, Bengaluru, Karnataka – 560091
1351	Karnataka Praja Party (Raitha Parva)	Flat No. 104, Adith Apartment, SJCE Collage Road, Telecom Layout, Vagdevinagar, Mysuru, Karnataka-570009.
1352	Karnataka Praja Vikas Party	No. 15 Sampangiramaiah Layout, Sidedahalli, Yashwantpur Hobli, Nagasandra Post, Bengaluru North Taluk, Bengaluru District, Karnataka- 560073
1353	Karnataka Rajya Ryota Sangha	636, Ideal Homes Layout, Rajarajeshwarinagar, Bangalore-560098 (Karnataka).
1354	Karnataka Rashtra Samithi	No.31/2,8th E Main,4th Block,Jayanagar,Bengaluru,Karnataka-560011
1355	Karnataka Samata Paksha	No. 718, S.Kalledar Plot, Tiriapur, Navalgund, District- Dharwad, Karnataka- 582208
1356	Karnataka Swabhimani Raithara Karmikara Party	Khatha Assessment No. 565/7782/6536, C.K.Pura, Main Road, Chitradurga, Karnataka-577501
1357	Karnataka Swarajya Party	No. 2082, Chidambar Krupa, Sai Nagar, Raibag, Dist-Belgaum, Karnataka – 591317.
1358	Karnataka Thamizhar Munnetra Kazhagam	No.6, IInd Floor, Chick Bazar Road Cross, Shivaji Nagar, Bangalore-560051 (Karnataka).
1359	Kartavya Rashtriya Party	H. No. - 46, Lala Mohamadpur, Kankar Khera, Meerut, UTTAR PRADESH.
1360	Karunaadu Party	Sa-13/2,No:7th Mallathahalli, Nanjappa Garden, Bangalore-560056 Karnataka.
1361	Karunadaga Thamizhar Katchi	No.15,Nidharsanam,JV.Shetty Road,Ramasamy Palya,MS Nagar Post,Bengaluru,Karnataka-560033
1362	Kashmir Development Front (J&K)	House No. 254 – Main Road,Near Post Office, Jawahar Nagar, Srinagar, Jammu & Kashmir.
1363	Kathor Shasan Party	75, B-3, Jatan, Bhagwati Bhawan, P.O. & District - Bijnor, Uttar Pradesh - 246701.
1364	Kendriya Janvikas Party	Plot No. - 179, Ayurvedic Layout, Bhande Plot, Umrer Road,Sakkardara, Dist- Nagpur, Maharashtra- 440024.
1365	Kerala Congress	67, Kumaranasn Nagar, Kadavanthara, P.O. Ernakulam, Kerala.
1366	Kerala Congress (B)	P.T. Chacko Smarka, Mandiram, S.S. Kovil Road, Thampanoor, Thiruvananthapuram-695001 (Kerala).
1367	Kerala Congress (Jacob)	Ward XIII, Building 346, T.B. Road, Kottayam (Kerala) - 686001
1368	Kerala Congress (Skariah Thomas)	Chingavanam in Building No. 711, Ward No.6, Kottayam Municipality, Kottayam, District- Kottayam, Kerala
1369	Kerala Congress Secular	Kerala Congress Secular State Committee Office, Bharath Building, Pulimood Jn., Kottayam - 1, (Kerala).
1370	Kerala Janapaksham	PURA-36, Shyamala Nivas,Poojappura P.O., Thiruvananthapuram - 695012.
1371	Kerala Janapaksham (Secular)	T.C. 16/882(13), Sreekrishna Nagar, Jagathy – Post, Thiruvananthapuram, Kerala- 695014

1372	Kerala Janatha Party	Mulakulam Panchayath, Ward No. 12, Building No.2, Poozhikol P.O, Kaduthuruthy, Kerala- 686604
1373	Kerala Kamaraj Congress	Building No.- NMC XII/342D, Neyyattinkara, Thiruvananthapuram, Kerala- 695121.
1374	Kerala Revolutionary Socialist Party (Leninist- Marxist)	No. 19/1347, Sasthamcotta Gramapanchayath , Kollam, Kerala- 690521
1375	Kerala Vikas Congress	EP. III/468, Eruvessi Village, P.O- Chemperi, Taliparamba Taluk, Kannur District, Kerala.- 670632
1376	Khandesh Vikas Congress Party	Building No.2, 15/16, First Floor,Khandesh Mill Shopping Complex,Jalgaon – 425 001.
1377	Khun Hynnietrip National Awakening Movement	Jaiaw Lower Lansonlane, House No.32 & Ward No.14 and holding No.65, Shillong, East Khasi Hills District, Meghalaya - 793002
1378	Khushhal Kisan Party	House No.- 125, Anaj Mandi ke Paas, Nagar Road Deeg, Tehsil-Deeg, District- Bharatpur, Rajasthan- 321203
1379	Khusro Sena Party	I-4/95, Sashtri Nagar, District- Bareilly, Uttar Pradesh.
1380	Kisan Adhikar Party	A/1-104, First Floor, Suryanjali Residency, Opp. Sanskar Residency, Cross Road, Amroli, Surat, Gujarat- 394107
1381	Kisan Garib Nagrik Party	203, Markaz View, 2nd Floor,24, Opposite Carrit Cinema,Jogeshwari (West), Mumbai-400103, MAHARASHTRA.
1382	Kisan Kranti Dal	Nangla Sukhdev, Neemkhera – Jalesar,Distt: Etah (Uttar Pradesh).
1383	Kisan Majdoor Berojgar Sangh	Village-Jaitpur,Post-Phaphund, Oraia,Uttar Pradesh
1384	Kisan Majdoor Praja Party	A X - 223/224, Rajharsh Colony, Nayapura, Kolar Raod, Bhopal, Madhya Pradesh.
1385	Kisan Majdoor Suraksha Party	House No. 45, Village- Kheria Hairat Khan, PO- Kulwath, Tehsil-Gabhana, District- Aligarh Uttar Pradesh-202001
1386	Kisan Mazdoor Bahujan Party	J-1/2, Dali Bagh Colony, Lucknow(Uttar Pradesh).
1387	Kisan Mazdoor Sangharsh Party	Bharosa City, Village-SarosaBharosa, Post- Maunda, Block-Kakori, District- Lucknow, UTTAR PRADESH – 226008
1388	Kisan Party (Loktantrik)	Srikrishna Chikistalaya,Sida,Sata Hariya,Post-Pawara,District-Jaunpur Uttar Pradesh- 222202
1389	Kisan Party of India	Ward No. 01, Janakpur Road,Nageshwar Sthan, P.S- Pupri, District-Sitamarhi Bihar -843320.
1390	Kisan Raj Party	Junior L.I.G. 358, Vindhya Vihar Colony (Padra), District- Rewa, Madhya Pradesh- 486001
1391	Kisan Raksha Party	529/A & New House No.807, Pathoriyan Outside Datiya Gate, Tehsil & District- Jhansi, Uttar Pradesh- 284001
1392	Kisan Samaj Morcha	Bichola Bhood, Post – Patriya, Tahsil – Gunnaur, Badayun, Uttar Pradesh.
1393	Kisan Samaj Party (S)	Jhinnapurva, Post – Dhakherva Nankar,Tehsil – Nighasan,Distt. – Lakhimpur (Khiri),Uttar Pradesh.
1394	Kisan Sangharsh Samiti	Chhariari,Makhdumpur,Jahanabad,district-Jahanabad,Bihar-804422
1395	Kisan Sena	101, Koliyan Vishungarh Road, Chhibramau,Kannouj,UTTAR PRADESH.
1396	Kisan Shakti Jantantrik Party	H.No. 12/445, Majhola Awas Vikas, Tehsil-Sadar, Distt.-Muradabad, Uttar Pradesh.
1397	Kisan Vishwa Party	Village & Post-Safipur,Thana-Devan,District-Barabanki,Uttar Pradesh-225301
1398	Kisan Vyawasayee Mazdoor Party	Prakash Bhavan, Narhi Bazar, Lucknow (Uttar Pradesh).
1399	Kishore Raj Party	L-2/601, Vineet Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
1400	Kongu Desa Marumalarchi Makkal Katchi	301/14, Alagarasan Nagar, Pachampalayam, Anthiyur, Erode, Tamil Nadu – 638501.

1401	Kongu Nadu Munnetra Kazhagam	320, Best Complex, Kumaran Road, Tirupur-641601, Coimbatore (District), Tamil Nadu.
1402	Kongunadu Jananayaga Katchi	“Irai Arul” No. 24, Metha Layout, Laxmipuram, Peelamedu (PO), Coimbatore, Tamil Nadu – 641004.
1403	Kongunadu Makkal Desia Katchi	No. 5/54, East Street, Post - Kokkarayan Pettai, Taluk - Tiruchengode, District - Namakkal, Tamil Nadu-638007
1404	Kosal Janata Dal	Plot No-JC-02, Phase-01, Chhend Colony, Rourkela, District-Sundargarh, Odisha- 769015
1405	Kosal Kranti Dal	Telephone Exchange Road, Rugudi Para, Balengir – 767 001, Orissa.
1406	Kosal Party	G.M. College Road, Sambalpur-768004 (Orissa).
1407	Koshal Mukti Morcha	Railway Station Road, Titilagarh, District-Bolangir, Odisha.
1408	Kosi Vikas Party	Machhli Bhawan, Dr. Ambedkar Marg, At.+P.O. & Distt. Khagaria, Bihar – 851204.
1409	Kranti Dal	132, Babujanj, Lucknow (U.P.).
1410	Kranti Janshakti Party	1058, Yadav Pura, In front of Purani Vidhan Sabha, Ward No. 34, Zone No.8, Tehsil – Hujur, Bhopal, MADHYA PRADESH
1411	Kranti Parishad	House No.2019, Mistrikhan Road, Nahargarh Road, Jaipur (Rajasthan).
1412	Krantikari Jai Hind Sena	C/o Advocate R.N. Kachave, Near Devi Prasad Hotel, M.I.D.C., Central Road, Andheri (E), Mumbai-400093, Maharashtra.
1413	Krantikari Kisan Sena	C-221, Old Meenal Residency, Raj Homes, J.K. Road, Bhopal-462023, Madhya Pradesh.
1414	Krantikari Parivartan Party	Devyani Marg, Near Sixway Bypass, Ashok Nagar (East), Etawah, Uttar Pradesh-206001
1415	Krantikari Samyavadi Party	MLA Flat No.26, Veerchand Patel Path, Patna. (Bihar).
1416	Krantikari Shetkari Party	Shop No. 20, Tirupati Complex, Sonai- Rahuri Road, Sonai, Taluka- Newasa, District- Ahmednagar, Maharashtra- 414105
1417	Krantikari Vikas Dal	78/09C, Mohalla- Birsa Adivasi Colony, Post- Guljarbagh, P.S.- Alamganj, Distt.- Patna-800007, Bihar.
1418	Krantikari Yuva Party	H.No. 318, Old Rohtak Road, Gujjar Gujjar Gali, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi- 110035.
1419	Krantisena Maharashtra	5-A, Jyotisadan Shitladevi, Temple Road, Mahim, Mumbai, Maharashtra.
1420	Krishak Bharti Party	Shop No. 841, Gali No. 11, Haripur, Sectore-4, Panchkula, Haryana-134112
1421	Krupaa Party	Plot No. 452, Khata No. 69, Santi Vaban, Village- Pahana, P.O.-Tikanpur, G.P.- Ramchandrapur, P.S.- Patakura, District-Kendrapara, Odisha- 754153
1422	Kuki National Assembly	Grace Cottage, Paiteveng, Kwakelthel, P.O. Imphal, Pin-795001, (Manipur).
1423	Kunbi Bahujan Sawraja Party	H. No. 114, A-2, Village & Post Khadi Lolvan, Taluka-Sangameshwar, District-Ratngiri, Maharashtra- 415801.
1424	Kushal Janta Party	Pupri, Ward No. 2, P.O.-Janakpur Road, District- Sitamarhi, Bihar-843320
1425	Labour And Job Seeker's Party of India	66, Royapettah High Road, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
1426	Labour Party (Secular)	382/4, Gali Hardev, Sant Nirankari Colony, Delhi-110009.
1427	Labour Party of India	A-160, 2nd Floor, Vikas Marg, Shakarpur, Near Metro Pillar No.42, Delhi – 110092
1428	Labour Samaj Party	Chamber No. 91, Civil Court, Rajnagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1429	Laghujan Samaj Vikas Party	Badapura, Lalitpur, Uttar Pradesh.
1430	Lakshya Ghar Ganatantrik Party	Puruni Basti, Chowkidarpada, P.O.- K.M.Road, Jharsuguda-2, Dist. – Jharsuguda, Odisha
1431	Lal Morcha	RZC-113, Vishnu Garden, Khayala, New Delhi – 110018

1432	Latchiya Jananayaka Katchi (LJK)	No. 18, Aravind Bliss, Amman Kovil, First Cross Street, Srinivasa Nagar, Perungalathur, Chennai, Tamil Nadu – 600063
1433	Lattin Congress	Bavali, Post-Khash, Distt. Meerut-250621 (Uttar Pradesh).
1434	Laukik Samaj Party	C/o Chitra Convent School, Village – Deopar (Veersinghpur), P.O. Madanpur, Tehsil – Barhaj, District – Deoria, Uttar Pradesh- 274205
1435	Lenin Communist Party	20, Bharathinagar, Alagappapuram, Karaikudi – 630003, Tamil Nadu.
1436	Liberal Democratic Party	Village – Santipur (Mirza), Post Office – Mirza, Police Station – Palashbari, District – Kamrup, Assam - 781125.
1437	Liberal Party of India	6/12, Sarvapriya Vihar, New Delhi- 110016.
1438	Log Jan Party - Secular	Shivpuri, Navchetna Path Anisabad, Patna, Bihar-800002
1439	Log Party	33/2, Stanley Road, Allahabad, Uttar Pradesh- 211001.
1440	Lohia Sanyukta Samajwadi Party	H-Block, H.No. – 359, Sector – 9, Old Vijay Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1441	Lok Awaz Dal	Holding No. 20/11, Circle No. 264, Ambedkar Chowk, Vishnu Puri, Patna-800002, Bihar.
1442	Lok Bhalai Party	5-FF, Raj Guru Nagar, Ferozepur Road, Ludhiana, Punjab.
1443	Lok Bharati	A/702, Vedant Unnat Nagar No. 2, Goregaon (W) Mumbai-400062.
1444	Lok Chetna Dal	Village - Pakari Jalal, P.O. – Shubhankarpur, District – Muzaffarpur, Bihar – 843113.
1445	Lok Dal	Central Office, 8, Mall Avenue, Lucknow (Uttar Pradesh).
1446	Lok Ekta Party	S-8/188, Sudhakar Road, Khazuri Cant., Varanasi – 221 002, Uttar Pradesh.
1447	Lok Gathbandhan Party	No. B – 16-A, Basement of Alisha Apartment (Utraula House, 27/6, Ram Mohan Rai Marg) Madan Mohan Marg, Near Krishi Bhawan, 3 Way Road, Lucknow, Uttar Pradesh - 226001
1448	Lok Hit Rashtriya Vikas Party	Grain Market, Longowal, District – Sangrur, Punjab.
1449	Lok Insaaf Party	B-XXVII/208/403-D/5 Guru Ramdaas Complex, Dugri Road, Ludhiana Punjab - 141001.
1450	Lok Jan Sangharsh Party	Village- Jamunaha, Post- Sounkhia, Vikas Khand Bankeganj, District- Lakhimpur Khiri, Uttar Pradesh- 262802
1451	Lok Jan Vikas Morcha	Kachahri Road, Thana-Kotwali, PO. Ranchi, Zila-Ranchi-834001, Jharkhand.
1452	Lok Janhit Party	Village – Daloopur Sultanpur, Post – Prempur, Janpad – Kannauj, Uttar Pradesh.
1453	Lok Manavadhikar Party	C. 32/27-16A, Vidyavihar Colony, Chhittupur, Varanasi-221002, Uttar Pradesh.
1454	Lok Nirman Dal	2, Aradhana Enclave, Surakhpur Marg, Phase-II, Delhi.
1455	Lok Paritran	"Saubhagya" 12-13 Tilak Nagar -II, Mahamandir, Jodhpur-342010 (Rajasthan).
1456	Lok Parivartan Party (DC)	Bhapra Road, opposite Police Chowki, G.T. Road, Samalkha District-Panipat, Haryana.
1457	Lok Raksha Party	Village & Post Office Sirsa, District – Etawah, Uttar Pradesh.
1458	Lok Rashtriya Party Secular(S)	Avantibai Nagar Bhogaon, Distt.-Mainpuri Uttar Pradesh- 205262
1459	Lok Samaj Party	B-1756, Gali No. 25, First Pushtha, Sonia Vihar, Delhi- 110090
1460	Lok Samya Party	Plot No. 179, Ramchandrapur R.C. Thakurani, P.O. Haridevpur, Kolkata - 700104
1461	Lok Sangharshsheel Party	Premises No.1004Z0864894, Shastrinagar Chotila, Tal. Chotila, District-Surendranagar, Gujarat- 363520
1462	Lok Satta Party	Flat No.801, Srinivasa Towers, Beside ITC Kakatiya Hotel, Begumpet, Hyderabad-500016, Telangana’.
1463	Lok Sena Party	Ahmed Nagar Road, House No.1-4-2956, Gulshan Nagar, Balepir, Beed, Maharashtra- 431122
1464	Lok Sewa Dal	Post: Badhiya, Tehsil: Lakhi Sarai, Bihar-811 302.

1465	Lok Shahi Party (Secular)	187-H, 6/2, Jivan Nagar, Near Ashram Chowk, Opposite Maharani Bagh Bus Stand, New Delhi-110014.
1466	Lok Shakti	83, Lodhi Eastate, New Delhi-110003.
1467	Lok Shakti Party (Loktantrik)	House No.2,3rd Floor,Shakarpur Khass,Delhi-110092
1468	Lok Swarajya Party	Premalata Govindrao Bramhankar,Ward No. -5,Village-Sangadi,P.O.-Sangadi,Tehsil-Sakoli,Distt.-Bhandara,Maharashtra-441802.
1469	Lok Vikas Manch	Shop No. - 159, 2nd Floor, Shopping Centre, Near R-World Cinema, Sector – 21, Gandhinagar, Gujarat .
1470	Lok Vikas Party	41, Vigyan Vihar, Delhi-110092.
1471	Lokjagar Party	Plot No.17, Mehfil, Sanmarg Nagar, Hudkeshwar Road, District-Nagpur, Maharashtra- 440034
1472	Loknayak Party	172/3 C, East Moti Bagh,Sarai Rohilla, Delhi-110 007.
1473	Loko Sanmilon	P.O.-Jaleswar, Distt.-Goalpara, Assam.
1474	Lokpriya Samaj Party	Prajapati Dharmshala Mandir Shri Kalkaji, Nehru Place, New Delhi-110019.
1475	Lokrajya Janata Party	No. 1001A/1B,Plot No. 58,A Ward,Laxmithek Colony,Sane Guruji Vasahat,Kolhapur,Distt.-Kolhapur,Maharashtra-416012
1476	Loksangram	H.No. 1321, Lane No.4,Dhule – 424001, Maharashtra.
1477	Loksena	63/H/S, Madan Mohan, Burman Street,Kolkatta-700007, West Bengal.
1478	Lokshahi Nirman Party	No. 6, Prime Rose,Queens Park,Behind Deepak Hospital,Mira Bhayandar Road,Mira Road,District- Thane,Maharashtra- 401107
1479	Lokshahi Satta Party	‘Panchvati’ Boradipa, Near Ramaji Mandir, Bavla, Taluk – Bavla, District – Ahmedabad, Gujarat - 382220.
1480	Lokshakti Vikas Party	Udantpuri (Killapar),Biharsharif,Nalanda,Bihar-803101
1481	Lokshasan Andolan Party	259, Village Guha, Tal. Rahuri, District – Ahmednagar, Maharashtra – 413705.
1482	Lokshasan Party of India	S.No. 67, Plot No. 25,Pratik Building, Flat No. 3, Vidyanagar,Pune -411032,MAHARASHTRA.
1483	Loktanter Suraksha Party	Khasra No. 21/9/1 and 10/2, Mangolpuri Industrial Area, Phase- I, Opp. TVS Agency, Near IBP Petrol Pump, Mangolpuri, New Delhi-110083
1484	Loktantra Congress Party	E-1, 21/7, New Rajendra Nagar, P.O. Ravigram, Raipur, Chhattisgarh.
1485	Loktantra Kalyan Party	Vill.- Khirikone,Post-Tar,P.S.- Agiawan Market,Block-Piro,District-Bhojpur,Bihar-802207
1486	Loktantra Vikas Party	Village & Post Shahpur Bamhaita,Thana Kavinagar, Distt. Ghaziabad,Uttar Pradesh- 201009
1487	Loktantrik Chetna Party	Mumtaj Manjil, Azad Nagar, Baanda. (Uttar Pradesh).
1488	Loktantrik Jan Swaraj Party	Savita Sadan, Dhumnagar, (Kachari Tola), Post- Belbag (Bettiah), Thana- Nautan, District- West Champaran, Bihar-845438
1489	Loktantrik Janata Party (Secular)	Main Road, Firozpur, Post Office-Aander, Distt.- Siwan, Bihar-841231.
1490	Loktantrik Janshakti Party	H. No. 107,Keshar Colony, Haldauni, Greater Noida, District – Gautambudh Nagar, Uttar Pradesh- 201306
1491	Loktantrik Janta Dal	H.No. 861 P, Sector- 15, Part –II, Gurugram, Haryana- 122001
1492	Loktantrik Janwadi Party	S- 25/51A-9B-1, Gautam Bihar Colony, Sarsauli, District-Varanasi, Uttar Pradesh- 221002
1493	Loktantrik Manavatavadi Party	Shop No. 5, SD 366, Shastri Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1494	Loktantrik Rashtravadi Party	E-2, Old Society, Near Saijpur Railway Station, Saijpur Bogha, Ahmedabad, Gujrat- 382245.
1495	Loktantrik Samajik Nyay Party	H. No. E-5, Indira Gandhi Marg, East Vinod Nagar, Delhi – 110091.
1496	Loktantrik Samajwadi Party	27-A, D.D.A.Flats, Mata Sundri Road, New Delhi-110002.

1497	Loktantrik Samata Dal	D-104, Daroga Prasad Rai Path, Patna-800 001. (Bihar).
1498	Loktantrik Sarkar Party	C/o P.K. Kharia, Advocate, Shatabdi Chamber No. 1, District Court, Mandla – 481 661, Madhya Pradesh.
1499	Loktantrik Sarvjan Samaj Party	B-103, Sapna Apartment, Ramnagari, Ashiyana Nagar, Patna-800025 Bihar.
1500	Loktantrik Yuva Shakti Party	No.5, HIG-160, 100 Feet Road, Nehru Enclave, Agra, Uttar Pradesh -282001.
1501	Loktantrik Janata Front	E-13/307, Press Complex, Jawahar Park, Vikash Marg, Laxmi Nagar, Delhi – 110092
1502	Maa Telangana Party	8-2-540/4, Road No.4, Banjara Hills, Hyderabad, (Andhra Pradesh).
1503	Maanavvaadi Janta Party	Village- Dogi, Post Office- Gorour, P.S. – Chhabilapur, Via – Rajgir, District- Nalanda, Bihar-803116.
1504	Maanila Konghu Peravai	No.41, Narayanaguru Road, Saibaba Colony, Coimbatore-641011, Tamil Nadu.
1505	Madhya Pradesh Jan Vikas Party	New Ward No. 72, H. No. 4872, Plot No.123, Phase – 2, Star City, Katangi Road, Jabalpur, MADHYA PRADESH.
1506	Madhya Pradesh Nav Nirman Sena	2983, Prince Colony, New Kanchanpur, Adhartal, Jabalpur-482004. Madhya Pradesh.
1507	Maha Loktantra Party	Shop No. 4, Basant Ganga Market, H. No. 762/ 648, Purana Katra, Allahabad – 211002, UP.
1508	Mahabharath Mahajan Sabha	Plot No, 10, Vivekananda Nagar, Inner Ring Road, Kolathur, Chennai-600099 (Tamil Nadu).
1509	Mahagujarat Janta Party	A-203, Satyamev-1, S.G. Road, Opp. High Court, Ahmedabad, Gujarat.
1510	Mahajana Mandali Party	H. No. 1-8-27/20, GHMC-1483, Street No. 12, Chikkadpally, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500020.
1511	Mahajana Rajyam Party	7/347-2P-A3, Simhapuri Colony, 4th Road, Near RTC Bus Stand, Kadapa – 516002, Kadapa District, Andhra Pradesh.
1512	Mahajana Socialist Party	Door No. 1-14-297/1, Balamrai, Rasoolpura, Secunderabad, Hyderabad, Andhra Pradesh
1513	Mahakaushal Vikas Party	'Shanti Kutir' 281, Sanjivani Nagar, Jabalpur (M.P.).
1514	Mahakranti Dal	Village-83 Awahadpur, Post- Koilari, Tehsil and Paragna- Kerakat, District- Jaunpur, Uttar Pradesh- 222148.
1515	Mahamukti Dal	Village Usarav, Post Office – Itayen, Tehsil – Mariahu, District - Jaunpur, Uttar Pradesh.
1516	Mahan Bhartiya Sangathan Party	Village & Post- Jangral, Police Station- Vagdod, Tehsil- Saraswati, District- Patan, Gujarat.
1517	Mahan Dal	A-218 D, Dhiraj Nagar Extn., Atmadpur, Near Fauji Dhaba, Sector-30, Faridabad, Haryana.
1518	Mahan Samtawadi Party	H. No. 571, Gali No. 10, Adarsh Colony, Bihariपुरा, Near Khilluram Academy, Vijaynagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201009
1519	Mahanayak Sardar Patel Sangh	52/98, IInd Floor, Chittaranjan Park, New Delhi-110019.
1520	Mahanwadi Party	Village & Post – Kutubpur Chanora, District – Firozabad, Uttar Pradesh.
1521	Maharana Kranti Party	H. No. 698, Ward No. 14, Opposite Baba Ramdev Mandir, Purani Abadi, Sriganganagar, Rajasthan.
1522	Maharashtra Bahujan Sanman Party	At Keskarwadi, Post Bhalawani, Tal. Pandharpur, District- Solapur, Maharashtra- 413310.
1523	Maharashtra Bahujan Vanchit Agadi	10 B, Karanje Turf, Plot No. 7, Satara, Maharashtra – 415002.
1524	Maharashtra Kranti Sena	W.No. 20, Ho. No. 920, Plot No. 58, Mahavir Housing Society, Near Gujrati Bhavan, Ichalkaranji, Tehsil- Hatkanangale, District- Kolhapur, Maharashtra- 416115
1525	Maharashtra Parivartan Sena (T)	Village – Mangvadgaon, Taluk – Kej, District – Beed, Maharashtra

1526	Maharashtra Swabhimaan Paksh	Sukhsagar Real Estate Pvt. Ltd., 101, Sai Pooja, 1st floor, 16th Road, Near Hotel Mini Punjab, Bandra (West), Mumbai, Maharashtra- 400050
1527	Maharashtra Vikas Aghadi	Govindagraj Sadan, Shyam Nagar, Latur, Maharashtra.
1528	Mahasankalp Janta Party	Shop No. 22, Sun Shine Complex, Refinery Road, Panchvati Gorwa, Vadodara, Gujarat – 390016
1529	Mahathma Makkal Munnetra Kazhakam	Old No. 56/11-N, New No. 24, Dr. Ambedkar Nagar, Railway Road, Kanchipuram District, Tamil Nadu- 631502
1530	Mahatma Gandhi National Labour Party	3/366 G, Kuthukal Street, Paramakudi, Ramanathapuram District, Tamilnadu - 623707
1531	Mahatma Makkal Sevai Periyakkam	Office No. 45, Suba Agila Nagar, Airport – PO, Tiruchirappalli, Tamil Nadu – 620007
1532	Mahila & Yuva Shakti Party	H. No. 45, New Abadi, Sector- 23, Tehsil- Sonipat, District- Sonipat, Haryana- 131001
1533	Mahila Adhikar Party	29-A, Naharpur, Sector-7, Rohini, Delhi-110085.
1534	Mahila Pradhana Paksha	1261, 16th Main, 20th Cross, A Block, Sahakara Nagara, Bangalore - 560092, Karnataka.
1535	Mahila Sashaktikaran Party	UGF- 63, Udyan Plaza, Utrathiya, Raibareili Road, Lucknow, Uttar Pradesh – 226025
1536	Mahila Swabhimani Party	Village–Gumati No. 5, Sarai Karora, Gosainganj, District – Lucknow, Uttar Pradesh - 227125.
1537	Mai Hee Bharat	2A, “Royal” Hastings Park Road, Kolkata, West Bengal.
1538	Maidani Kranti Dal	Headquarters Masjid Wali Gali, Mazra, Dehradun (Uttaranchal).
1539	Majdoor Kisan Akali Dal	Village – 75 GB, Post Office – 72 GB, Via Ramsinghpur, Tehsil – Anoopgarh, Distt. – Ganganagar, Rajasthan.
1540	Majdoor Kisan Union Party	459/1, Moh. Sarvat (Basant Vihar), Post Office-Khas, Distt. & City- Muzaffarnagar, Uttar Pradesh – 251 001.
1541	Majlis Bachao Tahreek	16-4-593/A, Chenehalguda, Hyderabad-500024 (Andhra Pradesh).
1542	Majlis Markaz-e-Siyasee Party	10-5-391/54/182/A, Ground Floor, Kashan-e-Ghousia Aleem, Sayed Nagar, Opp: 95A, MLA's Colony, Road No.12, Banjara Hills, Hyderabad – 500028, Andhra Pradesh .
1543	Majloom Samaj Party	Village – Maudkhurd, Tehsil – Mawana, District – Meerut, Uttar Pradesh, Pin Code – 250404
1544	Makkal Aalum Arasiyal	No.2,N.S.K. 1st Street, Nelvayal Nagar, Perambur, Chennai, Tamil Nadu- 600011
1545	Makkal Arasial Katchi	3/463 Paalkara Duraisamy Vattam, G P. Polytechnic Near ,G.P. Nagar, Palnangkuppam Village, Elagiri Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu – 635601
1546	Makkal Congress Vazhapadiyar	18, Telugu Brahmin Street, Velacheri, Chennai-600 042, Tamil Nadu.
1547	Makkal Desiya Jananayaka Katchi	245/6, R.K. Mutt Road, Mylapore, Chennai – 600004, Tamil Nadu.
1548	Makkal Desiya Katchi	137, Kakkan Colony, Nungambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600034
1549	Makkal Kootamaipu Katchi	No. 348A, Cape Road, Ettukadai Bazar, Near T.M.B. Bank, Edalakudy, Kottar Post, Vaiveeswaram Village, Agasteeswaram Taluk, Nagercoil, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629002.
1550	Makkal Marumalarchi Munnetra Kazhagam	No. 13A, 1st Floor, Thiagarajan Nagar, Kodungaiyur, Chennai - 600118, Tamil Nadu.
1551	Makkal Masotha Katchi	No. 480, R.K.V. Compound, Thethakudi, Kathiruppu Post, Sirkali TK, Nagapattinam District, Tamil Nadu- 609109
1552	Makkal Munnetra Congress	No. 12, 1st Cross Street, Balaji Nagar, Puducherry- 605013
1553	Makkal Munnetra Katchi	No. 62/77, Perumal Puram, Kamaraj Nagar, 2nd Street, Bhavani, Erode-District, Tamil Nadu- 638301

1554	Makkal Munnetra Peravai	Door No. 61E, Pondy Road, Koliyanur Village, District – Villupuram, Tamilnadu – 605103
1555	Makkal Nala Kazhagam	No. 30, Ward-2, Nethaji Nagar, Thathanavalasai, Kodumapalli Post, Tiruppattur Taluk, Tirupattur Distt., Tamil Nadu- 635653.
1556	Makkal Nalvaazhvuk Katchi	Flat No. G3, Vetri Flats, No. 7 (Old No. 3A), Kaveri Street, Gandhi Nagar, Saligramam, Chennai, Tamil Nadu- 600093
1557	Makkal Needhi Maiam	New # 4 Old# 172, Eldams Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
1558	Makkal Neethi Katchi- India	No. 112 A3, Vaddakku Theru, (Parveen Complex), Ground Floor, Trichy Main Road, Thuraimangalam Post, Taluk & District-Perambalur, Tamilnadu- 621220.
1559	Makkal Rajjiyam Katchi	No. 1/427, Kadur Main Road, Pudhuvettaikudi Post, Kunnam Taluk, Perambalur District, Tamil Nadu- 621716.
1560	Makkal Sakthi Katchi	New No. 41, Old No. 15, Bazaar Lane, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai – 600015, Tamil Nadu.
1561	Makkal Sananayaga Kudiyaarasu Katchi	No.3/123, Gengai Amman Kovil Street, South Malayambakkam Village, Kunrathur, Chennai, Tamil Nadu – 600069.
1562	Makkal Sevai Katchi	No. 10, Balaji Nagar, Ernavor, Chennai, Tamil Nadu- 600057
1563	Makkal Thilagam Munnetra Kazhagam	D. No. 6/431-Punnaiyapuram, Chokkampatti, Kadayannallur Taluk, Tenkasi, Distt.-Tirunelveli, Tamil Nadu- 627855.
1564	Makkalatchi Katchi	No. 57, Jagajeevanram Street, Parumbu Alwarkurichi, Ambasamuthiram Taluk, Thirunelveli District, Tamil Nadu- 627412.
1565	Makkalatchi Munnetra Kazhagam	5/187, Dr. J.J. Street, Kaspapuram, Agaramthem, Chennai, Tamil Nadu- 600126
1566	Malwa Congress	133 Sneh Nagar, Sapna-Sangeeta Road, Indore, Madhya Pradesh- 452001
1567	Mana Desam Party	A1, 1st Floor, Ananta Sai Apartments, Vivekanand Nagar Colony, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh- 72
1568	Mana Party	5-4-719, Kattalamandi, Nampally, Hyderabad-500 001, Andhra Pradesh.
1569	Mana Telangana Rashtra Samaikya Party	MIG OG Block Ist Floor No.6, Bhaglingampally, Above Apollo Pharmacy, Opp.TSSPDCI, Office and Electric Substation, Near Sundaraiah Vignana Bhavan and Park, Hyderabad, Telangana- 500044
1570	Manav Adhikar Raksha Party	36 Daryasthan Street, Ground Floor, Office No.3, Katawala Bldg. (Gopmani Chambers), Mumbai, Maharashtra – 400003.
1571	Manav Awaz Party	Mohalla – Nalapur, Ward No. 6, Narnaul, District – Mahendergarh, Haryana- 123001
1572	Manav Ekta Party	Dadusingh Colony, Plot No. 53, Sirpur, District – Dhule, MAHARASTRA.
1573	Manav Hit Party	575/1, Sector-24, Tubewell Colony, Agra Road, Etah, Uttar Pradesh- 207001
1574	Manav Jagriti Manch	552, Bank Colony, Devli Village, New Delhi – 110062.
1575	Manav Kalyan Manch	Sa. 6/186, M.X. – 1. Aktha, Varanasi, Uttar Pradesh.
1576	Manav Kranti Party	New Sarrafā Bazar, Nagar Panchayat Khaga, Ward No. 11, District-Fatehpur, Uttar Pradesh- 212655
1577	Manav Mukti Morcha	Hameedganj Ward No. – 13, Ahead the Patthar Mill, P.O. Medini Nagar – 822 101, Distt. Palamu (Jharkhand).
1578	Manav Samaj Party	9538, Gausala Baradari, Kishanganj, Delhi-110006.
1579	Manav Sangharsh Party	H. No.-54, Village & Post-Mania, Block-Bhadora, Distt.-Gazipur, Raebareli, Uttar Pradesh- 233001
1580	Manava Party	G-23, Eureka Towers, Kittur, Chennamma Circle, Hubli-580029 (Karnataka).

1581	Manavadhikar Janshakti Party	J-6/7-B-D, Near Police Station, Jaitpura, Varanasi, Uttar Pradesh-221001
1582	Manavtawadi Kranti Dal	Manav Bhawan, Kullikhera, Ahmama, Post – Arjunganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1583	Manavtawadi Samaj Party	638/307, Village – Jarahra, Indira Nagar, Lucknow - 05, Uttar Pradesh.
1584	Manipur Democratic People's Front	Lairik Yengbam Leikai (South), Opposite-33KV Electric Sub-Station, Near K.M. Tower, Tirupati Lane, Imphal East - 795010 Manipur.
1585	Manipur National Democratic Front	Koijam Apartment, VIP Colony-107/109, Babupara, Imphal West, Manipur- 795001
1586	Manipur People's Party	People's Road, Imphal 795001 (Manipur)
1587	Manipur People's Party (Democratic)	Qtr. No.1, Type-IV, Babupara, Imphal-795001 (Manipur).
1588	Manitha Urimaigal Kalaagam	14/41, Goods Shed Street, Madurai-625001 Tamil Nadu.
1589	Manithaneya Jananayaga Katchi	124, Kamarajar Road, Moula Complex, First Floor, Ilayangudi, District - Sivagangai, Tamil Nadu- 630702.
1590	Manithaneya Makkal Katchi	3rd Floor, No. 6, Vada Maraicoir Street, Chennai- 600001, Tamil Nadu.
1591	Manuvadi Party	201, Birhana Pandeyganj, Subhash Marg, Lucknow-226004, Uttar Pradesh.
1592	Manvadhikar National Party	12, 2nd Floor, Swagat Complex, Rambaug Road. Maninagar, Ahmedabad, Gujarat- 382443
1593	Manviya Bharat Party	Village & Post – Rampur Naddi, Tehsil – Madhiyahu, District – Jaunpur, Uttar Pradesh - 222105.
1594	Maraland Democratic Front	Saiha-796901, Chhimtuipui District (Mizoram).
1595	Marathwada Janta Paksha	Mauje Pakhar Sangvi, Gut No. 39, Near of Sant Tukaram Vidyalaya, Tq. & District - Latur, Maharashtra – 413512.
1596	Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam	'THAYAGAM' No. 141, Rukmani Lakshmi Pathi Salai, Egmore, Chennai-600008 (Tamil Nadu).
1597	Marumalarchi Janatha Katchi	62/5, Pillayar Kovil Street, Pappireddipatti- PO & TK, Dharmapuri- District, Tamil Nadu- 636905
1598	Marxist Communist Party of India (United)	# 1-8-742/2/3, Bagh Lingampally, Achaiah Nagar, Hyderabad-500044, Telangana
1599	Marxist Co-ordination	Temple Road, Purana Bazar, Dhanbad, Distt. Dhanbad, Jharkhand-826001
1600	Marxist Leninist Party of India (Red Flag)	Door No. 828, 2nd Floor, Aroma Building, Pudukad PO, Thrissur District, KERALA- 680301.
1601	Marxwadi Janata Party	33, Kundan Pura, Muzaffarnagar, Uttar Pradesh - 251002.
1602	Maryadi Dal	Gram Chhoukarwada, Tehsil – Vair, District – Bharatpur, Rajasthan.
1603	Matra Bhakta Party	Raghunath Farm, Village + Post – Kundli, Sonapat, Haryana.
1604	Matra Bhoomi Vikas Party	C/o Shri Kashi Nath Tripathi, Aspathal Road Mau Chibee, Bandha-210209 (Uttar Pradesh).
1605	Mazdoor Dalit Kisan Mahila Gareeb Party (Hindustani)	Garhi Ashraf Khan, Jasmai Road, Farrukhabad, Uttar Pradesh
1606	Mazdoor Ekta Party	No. B-2/208, Nand Nagri, Shahadara, Delhi- 110093
1607	Mazdoor Kirayedar Vikas Party	Plot No. 116, Municipal No. 500/3E/4, Block No.30, Gali No. 6, Vishwas Nagar, Shahdara, Delhi- 110032
1608	Mazdoor Vikash Dal	At-Qtr. No. Plot-E/124, Phase- I, Chhend, Rourkela, Dist- Sundargarh, Odisha-769015
1609	Meenavar Makkal Munnani	No. 51, Old No. 24, Thambu Lane, Royapuram, Chennai, Tamilnadu -600013.
1610	Megh Desham Party	Meghvansh Bhawan, E-70B, Bajrang Vihar Tirtiya, Harmada Ghati, Jaipur, Rajasthan.

1611	Meghalaya Democratic Party	Mission Compound, Mawkhar, Shillong-793001, Meghalaya.
1612	Mera Adhikaar Rashtriya Dal	House No. 531/62, Bhindia Tola, Bada Chandganj, Pratap Singh Marg, P.S. Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh- 226024
1613	Mera Gaon Mera Desh Party	H. No. 142, Village – Islampur, P.O. – South City – II, Gurgaon, Haryana - 122018
1614	Mera Watan Party	D.No. 23-4-227/5, Near Ashok Pillar, Sultan Shahi, Hyderabad, Telangana - 500065
1615	Meydhaa Party	13E/10A, Rajeev Nagar (Suturkhana), P.O. Teliarganj, District-Allahabad, Uttar Pradesh.
1616	MGR Makkal Katchi	No. 6,4th Cross Street, 1st Main Road, Gopalapuram East, Pattabiram, Chennai, Tamil Nadu- 600072
1617	MGR Thonderkal Katchi	No.18/33A, Vattavilai, Kappiyarai Post, Kanyakumari District-629156, Tamil Nadu.
1618	Mihir Sena	Nagar's Choice, S-47, South Side, G.T. Road, Lal Kuan, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1619	Minorities Democratic Party	13, Hydry Road Complex, Mominpura, Nagpur-440018, (Maharashtra).
1620	Minority People's Party	PP No. 55,56,DAG No.22,23,Vill-Dhingarati,Mouza-Laharighat,P.O.-Laharighat,P.S.-Laharighat,District-Morigaon,Assam - 782127
1621	Mithilanchal Mukti Morcha	Supoul Bazaar, College Road, Vandevi Nagar, Biroul, Darbhanga, Bihar – 847203.
1622	Mithilanchal Vikas Morcha	Mahuar, Gaura Bauram, Post – Aasi, District - Darbhanga, Bihar – 847203.
1623	Mithilawadi party	Village-Paliwar, Post-Ranti, P.S.- Rajnagar, Ward-8, Near Hanuman Temple, Madhubani, Bihar-847211
1624	Mizoram Congress Party	Headquarters: Aizawal, Mizoram – 796 001.
1625	Moderate Party	Village – Khakhari (Maghara Chauraha) P.O. Balepur Kalan, District – Devariya, Uttar Pradesh.
1626	Momin Conference	47/26, Waris Plaza, Hussain Ganj, Vidhan Sabha Marg, Lucknow-226001, Uttar Pradesh.
1627	Mool Bharati (S) Party	House No. 25, Near Khooni Masit Moga Mehla Singh Moga-142001 Distt. Faridkot (Punjab).
1628	Mooljan Shakti Party	H.No.394,Gali No.18,Near Vishwakarma Mandir,Karan Vihar,Karnal,Haryana-132001
1629	Moolniwasi Samaj Party	Village – Maghaipur, Post – Maharajganj, Janpad – Ajamgarh - 276137Uttar Pradesh.
1630	Most Backward Classes of India	Paraspur-Kudwar, Sultanpur-228155,Uttar Pradesh.
1631	Mother India Party	Khasra No. 143, Kurre ke bad bana No. 143/3, Gram - Jaunsamana, Pargana & Tehsil - Dadri, District - Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh.
1632	Mother Land National Party	Survey No. 20+21,Duplex No. 05,Noman Duplex,Near Iqbal Avenue,Near Canal, Fatehwadi,Ahmedabad,Gujarat-380055
1633	Moulik Adhikar Party	Biroli-Motinagar, Faizabad, Uttar Pradesh-224201.
1634	Mulnibasi Party of India	Village and Post- Basantpur, District- Murshidabad, SD and PS-Dumkal, West Bengal-742406
1635	Mulnivasi Adhikar Party	R/o. S-96, UPSIDC, Sector-5, Jagdishpur, Amethi., Uttar Pradesh-227817
1636	Mundadugu Praja Party	D.No. 32-13-1/1, Lavanya Apartments, Flat No. B3, Mogalrajpuram, Vijayawada, Andhra Pradesh- 520010
1637	Musalsal Iman Samaj Party	261, Chakki Wali Gali, Railway Road, Bazaria, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1638	Muslim Majlis Uttar Pradesh	Sultan Manzil, Takia Peer Jaleel, Lucknow (Uttar Pradesh).

1639	My India Party	No. 447/265, 2nd floor, Poonamallee High Road, Amnjikarai, Chennai, Tamil Nadu- 600029
1640	Naadaalum Makkal Katchi	4/330, Ground Floor, Duwaraga Nagar, Phase-I, Manali New Town, Chennai Tamil Nadu- 600103.
1641	Naam Indiar Party	73F/1A, Polepettai, Thoothukudi, Tamil Nadu- 628002
1642	Naam Tamilar Katchi	Door No. 7, Plot No. 8, Hospital Road, Senthil Nagar, Cinna Porur, Chennai – 600 116 Tamil Nadu .
1643	Naba Bharata Nirmana Seva Party	Plot No.145/245/1141/1356,Khata No.50/4873,Hati Pathar Lane,Near Trinath Temple,Raniguda Farm,District-Rayagada,Odisha-765001
1644	Naga National Party	Hd.Qtrs. Aja Daily Office, Church Road, Dewlahland, Imphal, Manipur.
1645	Nagaland Congress	H. No. 202, Fellowship Colony, Near IMC Hall, Dimapur, Nagaland - 797112.
1646	Nagrik Adhikar Party	Nandlalpur, Post- Nandlalpur, Via- Mathurapur, District-Bhagalpur, Bihar- 813222
1647	Nagrik Adhikar Shakti Sewa Party	A-63, JantaJeevan Camp, Tigri, Khanpur, New Delhi- 110062
1648	Nagrik Chetna Party	Sarvodaya Nagar, Teachers Colony,Pilakhua, Ghaziabad,Uttar Pradesh.
1649	Nagrik Ekta Party	3/305,Vishal Khand,Gomti Nagar,Lucknow-226010,Uttar Pradesh
1650	Nagrik Sewa Party(R)	4, Tayal Vihar Colony, Gate No. – 2, Aishbagh Road, Haidarganj, Lucknow, UTTAR PRADESH - 226004.
1651	Nagrik Vikas Party	728,ABC,Ekta Nagar,Opp. Professional Courier,Near Modi Hundai Show Room,Sativali,Vasai Road,Vasai (E),District-Palghar,Maharashtra – 401208
1652	Nai Kranti Party	Baba Mritunjaynath Mandir, Kumharan Tola First, Gola Gokarannath, Distric- Likhampur- Kheri, Uttar Pradesh-262802
1653	Naitik Party	314, City Center, Near Press Club,Hazratganj, Lucknow,Uttar Pradesh.
1654	Naki Bharatiya Ekta Party	Ward No. 1, Mohalla- Harijan Wala,Kithore, Meerut,UTTAR PRADESH
1655	Nalvazhikkazhagam	Kathiravan Illam, 94/2, Kalavai Chetty Street, Chintadripet, Chennai, Tamil Nadu – 600002.
1656	Nam India Naam Indiyar Katchi	H. No. 9/8,Flat No. 3 Swagath Apartment,Chellappa Street,Otteri,Chennai,Tamil Nadu- 600012
1657	Namadhu Dravida Iyakkam	SCC Anthony Pillai Illam, New No.41, Old No.18, 7th Cross Street, Shenoy Nagar West, Chennai – 600030, Tamil Nadu.
1658	Namadhu Makkal Katchi	No.3, Pillayar Kail Street, Kasba, Vellore-632001, Tamil Nadu.
1659	Namathu Kongu Munnetra Kalagam	5F Sanjith Plaza, Thiru.V.Ka. Street, Tirupur Road, Kangayam, Tirupur District, Tamil Nadu - 638701
1660	Namma Congress	No.98, Varthur Main Road, Bangalore East, Bangalore – 560087 Karnataka.
1661	Narayani Sena	Niwas-Gram, Post-Malipur, Zila-Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh.
1662	Nasha Mukht Bharat Party	Tejaswi House, VivekVihar Colony, Farrukhabad Road, New Mandi, Etawah, Uttar Pradesh- 206001
1663	Nation First Democratic Party	House No. 99, Ward No. 39, Gangotri, Ganga Vihar, R.P.S. Road, Danapur, District- Patna, Bihar- 801503
1664	National Adhikar Insaf Party	House No. – 230, Street No. – 7, S.A.S. Nagar, Abohar Road, Sri Muktsar Sahib, Punjab
1665	National Aman Party	Moh. Punjabiyan, Nagina, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246762
1666	National Apni Party	D-1, 242/9, Main Circular Road, Sonia Vihar, Delhi-110094.
1667	National Awami United Party	H.No. 62, Priyadarshani Lane, Patta Bohri, Jammu & Kashmir-180002

1668	National Backward (Mool), Dalit, Minorities Kranti Dal	1st E-17, Jai Narayan Vyas Colony, Bikaner, Rajasthan – 334003.
1669	National Bhrashtachar Mukta Party	576/2, Punjabiyan-5, Khurja, Bulandshahr, Uttar Pradesh-203131
1670	National Black Panther Party	Shop No. 1, Hill Park, Tirupati Apt., Kokanipada, Kurar Village, Mumbai, Maharashtra - 400097.
1671	National Confederacy of India	63, Southern Avenue, Flat No. – 9, Kolkata, West Bengal – 700029.
1672	National Dalitha Dhal Party	7/398-8, Balijapalli (HC), Revenue ward No. 7, Mannur (SO), Rajampet Mandal, Kadapa- District, Andhra Pradesh- 516126
1673	National Democratic Front	House of Jangbahadur Yadav, Village – Maulanipur Bazar, Post – Tarwan, Tehsil – Lalganj, District – Azamgarh, Uttar Pradesh.
1674	National Democratic Party	Central Office-Changanacherry-2, Kottayam District (Kerala).
1675	National Democratic Party (Indian)	H.No. 83, Mohalla- Ustad, Jammu, Near Jambulochan Community Hall, Jammu & Kashmir- 180001
1676	National Democratic Party (Secular)	TC. 28/1628, Pullamadom Compound, Sreekandeswaram, Thiruvananthapuram, Kerala- 695023
1677	National Democratic Party of South India	21/7,Naveen Flats,Meenakshi Street,Perambur,Chennai,Tamil Nadu- 600011.
1678	National Democratic Peoples Front	C-4D, 42 B, Janakpuri, New Delhi.
1679	National Development Party	House No. A-8-2, Multani Colony,Bidar – 585 401, Karnataka.
1680	National Federal Party	House No. 80/3A, Ground Floor, Basant Village (Basant Gaon), Vasant Vihar, New Delhi – 110057.
1681	National Fifty Fifty Front	H.No. 77, Garden City Colony, Post- Shahamat Ganj, District-Bareilly, Uttar Pradesh-243005
1682	National Future Party	Deoria House, Behind GPO, Purani Mandi, Ajmer, Rajasthan.
1683	National Inquilab Party	E1/576,Street No.-12,(Near Mazar),33 Futa Road,Nehru Vihar, Mustafabad,Delhi- 110094
1684	National Jagaran Party	H.O.-14, Montessory School lane, Near Maruti Auto Mobiles, Boring Road,Patna, Bihar - 800001.
1685	National Janhit Congress (AB)	043A/5 Piarey Lal Building, Near Government College, Mehrauli Road, Gurgaon, Haryana.
1686	National Jankranti Dal	K-316, Near Bus Terminal,Opposite Qutub Minar, M.B. Road, Lado Sarai, New Delhi – 110030.
1687	National Jansatta Party	Tejaji Chenchya Wali Dhani, Post – Khor, Tehsil – Shahpura, District – Jaipur-303103 Rajasthan.
1688	National Janta Party (Indian)	Plot No. 385, Khata No. 105, Village – Mohammadpur Hari, P.O. & P.S. – Bhagwanpur, District – Vaishali, Bihar – 844114.
1689	National Labour Party	D-22, Office No. 11, D-Block, Pandav Nagar, Delhi-110092.
1690	National Lokhind Party	C-1375, Rajajipuram, Lucknow-226017, Uttar Pradesh.
1691	National Lokmat Party	Village - Jisauri, Post - Mundali, District - Meerut, Uttar Pradesh
1692	National Loktantrik Party	46, Gulista Colony, Lucknow-226001(Uttar Pradesh).
1693	National Nava Kranthi Party	D.No.- 1-236, Vill.- Gangavaram, Mandal- Gurazala, Dist- Guntur, Andhra Pradesh- 522 415.
1694	National Organisation Congress	No.1, Jeevananandam, Salia, K.K.Nagar, Chennai-600078(Tamil Nadu).
1695	National Party	Rudain Badayun-202 524 (Uttar Pradesh).
1696	National Peace Party Secular	Village – Rasoolpur Biur, Post-Awadhan, Tehsil – Chaayal, District – Kaushambi,Uttar Pradesh - 212218.
1697	National People's Congress	H.No. 3-6-200, Flat No. 105, Arunodaya Apartment, Street No.15, Himayatanagar, Hyderabad- 500029, Andhra Pradesh
1698	National Progressive Party	House No.1080, Block-P/1, Sultan Puri Colony, New Delhi – 110041
1699	National Republic Party of India	N-51/1, Flat No. 2, Upper Ground Floor, Rajpur Khurd, Hargovind Enclave, Tehsil- Hauz Khas Mehrouli, New Delhi- 110068

1700	National Republican Congress	Holding No. 223, House No. 6, Ward No. 26, Located at Pragati Path, Near Rajdhani Masjid, Dispur Guwahati, Assam -781006.
1701	National Samajwadi Congress	No.42,Naidu Layout,Kuvempu Nagar,Bangalore,Karnataka-560014
1702	National Sarvasamaj Party	H. No. 66,Khasra No. 1995, Iqbal Colony, Near of Sana Masjid, Village – Pasaunda, Pargna – Loni, Tehsil & District – Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201001
1703	National Secular Conference	MISFA, Koduvally (P.O.), Kozhikode DT.,Kerala - 673572.
1704	National Secular Party	C-20/B, 1st Floor, Green Park Extention,New Delhi-110 016.
1705	National Socialist Party (United)	Flat No. 6, Ist Floor, Sai Kripa Housing Society, 45/6, Hospital Colony, Talegaon, Dabhade, Taluka- Maval, District- Pune, Maharashtra- 410507
1706	National Students Party	16/2, Karaneeshwarar Pagoda Street, Mylapore, Chennai-600004 (Tamil Nadu).
1707	National Target Party	No. 158/A, Tehkhand, Okhla Phase-I, New Delhi- 110020.
1708	National Tiger Party	Central Head Office- Sarojnagar, Post office- Kalgiganj, Vai/Thana- Kahalgaon, District- Bhagalpur- Bihar- 813203.
1709	National Unionist Zamindara Party	129, New Dhaan Mandi, Sriganganagar, Rajasthan-335001.
1710	National Vikas Party (India)	B-40/A-11, Ganapati, Paradise Central Spine, Vidhya Dhar Nagar,Jaipur-302023,Rajasthan.
1711	National Welfare Party	16, Nehruji Nagar, Karupparayan, Koil Street, Samundipuram South, Tripur - 641603, Tamil Nadu
1712	National Women's Party	H.No.2-247, Sri Sai Nagar, (Near Venkateshwara Swamy Temple), Jilleguda Saroor Nagar, Hyderabad - 500097, Andhra Pradesh
1713	National World Life Panchatatva Party	Patidar Colony, Bhelkheri Road, Shujalpur Mandi, District – Shajapur, Madhya Pradesh
1714	National Youth Party	Flat No. A-202, Yuro Apartment, Sector – 5, Rajendra Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh
1715	Nationalist Charity Congress	Bishop House, Gabriel Compound, Panavilai Thuckaley-629175, Kanniyakumari District, Tamil Nadu.
1716	Nationalist Janshakti Party	Abhinav Niwas, Rapatpur, Belghat, Gorakhpur, Uttar Pradesh - 273404.
1717	Nationalist Justice Party	No. 1525/1, Street No. 33, Preet Nagar, New Shimlapuri, Ludhiana, Punjab- 141003
1718	Nationalist People's Front	S-8, Divya Mall, Tonk Road, Lal Kothi, Jaipur (Rajasthan)
1719	Nationalist Power Party	L-1st 1100/2,Gali No. 25,Sangam Vihar,New Delhi- 110062
1720	Nationalist Trinamul Congress Party	A9/124, Kalyani, PS & PO-Kalyani, District-Nadia, West Bengal- 741235.
1721	Nationalistic Telangana Rashtra Samithi	23-6-431/1, Gowlipura,Hyderabad – 500265, Andhra Pradesh.
1722	Nature Mankind Friendly Global Party	Ward No.1, Kathua (Jammu & Kashmir).
1723	Nav Bharat Democratic Party	Chherawal and Associates, F6/35, United Apartments, East Street, Pune- 411001, (Maharashtra).
1724	Nav Bharat Jagran Party	At Golechha Building,Opposite Railway Station,Phalodi,District-Jodhpur,Rajasthan- 342301
1725	Nav Bharat Rashtriya Congress Party	B- 100, New Ashok Nagar, New Delhi- 110096
1726	Nav Chetna Party	Mohalla – Jagat Nagar, Kasba & Post – Bhongaon, District – Mainpuri, Uttar Pradesh - 205262 .
1727	Nav Jankranti Party	B – 11/42, Ahata Rohila, Gauriganj, Varanasi, Uttar Pradesh – 221001
1728	Nav Yuvak Dal	Village - Tikra, Post – Ghunghter, Tehsil – Fatehpur, District - Barabanki, Uttar Pradesh – 225302

1729	Nava Bharat National Party	Survey No.627, Bhairava Gutta, Ravalkole Village, Medchal Mandal, Ranga Reddy District. Andhra Pradesh.
1730	Nava Nirmana Nagarika Samithi	6/7/8, Shankarmutt Road, Basavanagudi, Bangalore-560004 (Karnataka).
1731	Nava Praja Rajyam Party	Old H.No.10-30, New H.No.11-54, Harijanawada(P&M) Utnoor, District - Adilabad, Andhra Pradesh -504311
1732	Nava Samaj Party	House No. 5-7, Buddharam Village, Gopalpeta Mondal, Wanaprhty District, Telangana- State.
1733	Nava Telangana Party	House No. 8-2-598/B, Road No.8,Banjara Hills, Hyderabad – 500 034.
1734	Navam Disha Dal	4/684, Vihav Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226010
1735	Navarang Congress Party	D.No. 866/1, Pedavadlapudi Village, Mangalagiri Mandal, Guntur District, Andhra Pradesh- 522302
1736	Navataram Party	D.No. 26-37, Subbaiah Thota, Chilakaluripet, District – Guntur, Andhra Pradesh - 522616
1737	Navbahujan Samajparivartan Party	185, Sahyadrinagar, G – Ward, AT/Post – Lonavla, Tehsil – Maval, District – Pune, Maharashtra – 410401.
1738	Navbharat Ekta Dal	Dhiman Bhawan, Nagrota Surian, Tehsil- Jawali, District- Kangra, Himachal Pradesh- 176027
1739	Navbharat Nirman Party	30, DSIDC Complex, Mata Sundri Road, New Delhi-110 002.
1740	Naveen Samajwadi Dal	133/4C/1C, Teliarganj, Allahabad, Uttar Pradesh.
1741	Navin Bharat Nirman Manch	Pipalawali Khadki, At. & Po. Kasor- 388205, Ta. & District Anand, Gujarat.
1742	Navjawan Sangharsh Morcha	D/711, Township, Bhavnathpur, Garhwa, Jharkhand-822112.
1743	Navlok Samaj Party	Located 24B,Renuka Bagh,New Avadheshpuri Karmayogi,Agra,Uttar Pradesh- 282010.
1744	Navnirman Party	Plot No. 1588-P, Sector- 5, Urban Estate, Tehsil- Thanasar, K.D.B Road, District- Kurukshetra, Haryana- 136118
1745	Navodayam Party	D.No. 4-96/2, Near Rama Mandir, Nallakavari Street, Etukuru Village, Guntur Rural Mandal, Guntur District,Andhra Pradesh.
1746	Navsarjan Bharat Party	House No.- 492, Fal Faliya, Opp. Krishna Petrol Pump, Vaghadhra Road, Dadra, Dadra & Nagar Haveli- 396193
1747	Navyug Party	1-Ground Floor, Begumpur, Malviya Nagar, New Delhi – 110017.
1748	Nawan Punjab Party	52-E, Hira Nagar, Patiala, Punjab-147001
1749	Naya Bharat Party	8- Bapu Sabji Mandi, Nagar Palika Road, Sumerpur, Rajasthan – 306902
1750	Naya Daur Party	A-406, Defence Colony,New Delhi-110024.
1751	Naya Savera Party	Plot No. J-2-530.8,J-2 Block,Gupta Colony,Sangam Vihar,New Delhi- 110062
1752	Nehru Janhit Congress	Sainipura Mohalla, Badshahpur,Tehsil & Distt. – Gurgaon,Haryana.
1753	Nelopa (United)	B.D.O. Building, Durga Devi Marg,Sheesh Mehal, Hussenabad Chowk,Lucknow (Uttar Pradesh).
1754	Netaji Adarsh Party	298, Kuttiyani, 28 – Thodupuzha, Idukki District, Kerala – 685584.
1755	Netaji Congress Sena	Ranga Place, Ground Floor, S.No.48/2/10, Waghjal Nagar, Ambegaon Khurd, Katraj P.O., Pune-411046, Maharashtra.
1756	Netaji Subhash Chander Bose Rashtriya Azad Party	Mohalla – Gayatri Nagar,City & Post – Banda,Distt. - Shahjahanpur, Uttar Pradesh – 242402
1757	Netaji Subhash Party	Shajanwa, Distt. Gorakhpur (Uttar Pradesh).
1758	New All India Congress Party	A-138, Main Vikas Marg, Shakarpur, Delhi – 110092.
1759	New Bhartiya Kranti Party	Vill.-Sungulpur,Post & Thana- Khedtasray,Tahsil- Sahganj,District- Jaunpur,Uttar Pradesh- 222139
1760	New Democratic Party of India	2nd Floor, 9A/83, W.E.A., Karol Bagh,NEW DELHI-110005.

1761	New Generation People's Party	30-C1, Ambu Nagar, Edayarpalayam Post, Coimbatore, Tamil Nadu- 641025
1762	New India Party	H. No. 20-3-314, Vidyanagar Godavarikhani,-505209, Distt. Karimnagar(Andhra Pradesh).
1763	New India United Party	No. 4, Second Floor, Second Cross, D.R.Bendre Layout, Gubbi Cross, 350/1/4, Kothanur, Bangalore, Karnataka-560077
1764	New Labour Party	Room No. 8/249, Perumbillissery, P.O.-Cherpu, Thrissur District, Kerala- 680561
1765	New Life People's Party	No.15/16, 'Judie Flats', No. 13, Rosary Church Road, Santhome, Chennai-600004, Tamil Nadu.
1766	New Mother Land Party	F-111, South City, Rai Bareilly Road, Lucknow, Uttar Pradesh-226025
1767	New Rashtriya Samaj Party	H.No. 167/2/5/F/4, 1st Floor, Bramhanand Nagar, Tadali Road, Kamatghar, Bhiwandi, District- Thane, Maharashtra – 421305
1768	New Socialist Movement	104, Maharana Pratap ComplexOpp. Ellisbridge, P.O. – Ellisbridge, Ahmedabad – 380 006. Gujarat.
1769	News Congress	Baimahal, 2nd Floor, Wadia Street, Tardeo, Mumbai – 400 034, Maharashtra.
1770	Nirbal Indian Shoshit Hamara Aam Dal	House No. 105T, Mohalla- Jungle Salik Ram, Bypass Road, SangramChowk, Padri Bazar, Gorakhpur, Uttar Pradesh -273014
1771	Nirbhay Bharteey Party	27, Sahajanand Bunglows, Motera, Ahmedabad, Gujarat-380005
1772	Nirdhan Samaj Party of India	11A, Rajiv Vihar, Near Bandi Baba Mandir, Machhariya, Naubasta, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh – 208011
1773	Nirjatita Samaj Biplabi Party	Village –Durgapur P.O. Haritala (Bagula), Distt. Nadia, West Bengal, Pin 741502
1774	Nirmal India Party	SA 6/8 H-15, Satsang Nagar, Benipur, Pahadia, Varanasi-221007, Uttar Pradesh.
1775	Niswarth Seva Rashtra Seva Party	House No. 56, Indalpur, Post- Dandi, Naini, Allahabad, Uttar Pradesh- 211008
1776	Niswarth Sewa Party	Ved Ayurvedic Store, Near Bus Stand, Mahendregarh, Haryana.
1777	Niz Goenkar Revolution Front	H.No. 9/222, Patrong, Baina, Vasco-Da-Gama, Goa.
1778	Noorie Party	102, Kadodra – Bardoli Road, Surat, Gujarat.
1779	North Bengal People's Party	Village-Rabindrapally, P.O.-Mohanbati, P.S.-Raiganj, District-Uttar Dinajpur, West Bengal–733134
1780	North East India Development Party	Sagolband Tera Loukrakpam Leikai, Imphal West, Manipur-795001
1781	North East Social Democratic Party	Mawlai Mawdatbaki, Dong Nongpathaw, Shillong-793008, East Khasi Hills District, Meghalaya.
1782	Nyay Party	No. 319, Swamipada, Budhana Gate, Meerut City, Uttar Pradesh-250002
1783	Nyaydharmsabha	Pragativihar, Jagjitpur, Kankhal, Hardwar, Uttarakhand- 249408
1784	Odisha Jan Morcha	Plot No.17, Village Nakhaur, PO Gopinathpur, District – Khurda, Bhubaneswar – 751002, Odisha.
1785	Odisha kalyan Party	Plot No.44 (1st Floor), P.O.-Satyanagar, P.S.-Kharabela Nagar, City-Bhubaneswar, Distict-Khordha, Odisha-751007
1786	Odisha Pragati Dal	Khatian No. 99/180, Plot No. 420/1360, Brundamal, P.O.- Badmal, P.S.- Katarbaga, Tehsil- Jharsguda, District- Jharsuguda, Odisha-768202.
1787	Ojaswi Party	Flat No. 38, Plot No. 36, Ajanta Apartment, Patparganj, Delhi-110092.
1788	One India Party	D-46A, Krishan Vihar, Delhi- 110086
1789	Open people's Party	Pawar House, Near Saibaba Temple, Mangal ragho Nagar, Tisgaon road, Kalyan (E), District-Thane, Maharashtra- 421306.
1790	Orissa Communist Party	MLA Colony, Unit-4, Bhubaneswar (Orissa).
1791	Orissa Gana Parishad	A/52, Kharvela Nagar, Unit-III, Bhubaneswar-751001.

1792	Orissa Mukti Morcha	15, Bhouma Nagar, Unit-IV, Bhubaneswar-751 001, Orissa.
1793	Orissa Socialist Party	Municipal Compound, Choudhury Bazar, Cuttack-753009 (Orissa).
1794	Our Mahathma National Party	No. 62(II Floor), Pillaiyar Koil Street, Kamaraj Street, Gandhi Nagar, K. K. Nagar Post, Tiruchirapalli, Tamil Nadu – 620 021
1795	Pachai Tamizhagam Katchi	12/143 Idinthakarai, Harijancolony, Vijayapathy, Radhapuram(TK), Tirunelveli(DT), Tamil Nadu - 627104.
1796	Pachchasi Parivartan Samaj Party	H.No. 98, Kalyani Vihar, Near Prashant Public School, Kamta, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226028
1797	Pahachan Mangalkari Party	L-II-56, Madangir, Delhi-110 062.
1798	Pahadi Party	Village-Talli Bagi, Patti-Sarjula, Post-Bhagirathpuram, Vikas Khand-Chamba, District-Tehri Garhwal, Uttarakhand-249145
1799	Panch Party	Kailash Chandra Meena House at Khodki Dhani, Village & Post-Raisana, Tehsil- Nadoti, District- Karuli, Rajasthan-322215
1800	Panchpauniya Samaj Party	Village & Post – Aunta Mujeeb Nagar, Ward No.8, P.S.-Hathida, Distt- Patna, Bihar-803303
1801	Panthers Republican Party	‘Anandvan’, Mahatma Phule Nagar, Peer Bazar, Osmanpura, Aurangabad, Maharashtra - 431005
1802	Paradise Party	Kabita Apartment, Sriniketan Road, P.O.-Bolpur, District-Birbhaum, West Bengal - 731204
1803	Param Digvijay Dal	H. No. 7/297/7, Vikas Nagar, Sector – 7, Lucknow, Uttar Pradesh
1804	Parbatiya Prajatantrik Party	39/A, Lebong Cart Road, Near Maheswari Petrol Pump, Darjeeling West Bengal-734301
1805	Parcham Party of India	1-Rahmat Bano Market, Medical College Road, Civil Lines, Aligarh-202002, Uttar Pradesh.
1806	Parivartan Party of India	Monu Rawat, Pohri Bye Pass, Intercity Bus Walon Ke Peeche Wali Gali, Rajpura, Circular Road Circuit Housing Tiraha, Tehsil and District- Shivpuri, Madhya Pradesh- 473551
1807	Parivartan Samaj Party	Gande Wali Sarak, Laskar, Gwalior-474001, Madhya Pradesh.
1808	Party for Democratic Socialism	183, Jodhpur Park, Kolkata-700068, West Bengal.
1809	Party Kisan Mazdoor Vyapari	Railway Road, Hathras Junction, Mahatma Prakritic Chikitsalya, Nangla Hira, Hathras Junction, Mahamaya Nagar, Hathras, (Uttar Pradesh).
1810	Party of United Indians	Bunglow No. 1, Akshay Co. Operative Housing Society, Near H.P Gas Godown, Badlapur (East), Taluka- Ambarnath, Thane, Maharashtra- 421503
1811	Paschim Banga Rajya Muslim League	129, Collin Street, Kolkata-700016 (West Bengal).
1812	Paschimanchal Vikas Party	Qr. No. 10 E, In front of St. Joseph School, At. Sakhipara, Distt. – Sambalpur, Orissa- 768001.
1813	Paschimi Prajatantra Morcha	386, Shahnatthan, Meerut, Uttar Pradesh
1814	Paschimi Uttar Pradesh Swaraja Party	Sardhana Road, Kankar Khara, Meerut (Uttar Pradesh).
1815	Pashchimi Uttar Pradesh Vikas Party	H. No. 1, Kasana Niwas, Village – Morna, Sector – 35, Noida, District – Gautambuddh Nagar, Uttar Pradesh – 201308.
1816	Pasumpon Makkal Kazhagam	Door No.102, L.B. Road, Adyar, Chennai, Tamil Nadu – 600 020.
1817	Patriot	28-Appavu Street, Cuddalore Port, Pin-607003, Tamil Nadu.
1818	Patriotic Party of India	4/28, Vishal Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226010, Uttar Pradesh.
1819	Peace & Freedom party	CTS No. 5214, Plot No. 180, Nagar Parishad Colony, Kothlaj Road, Near Parival Mall, Distt.-Hingoli, Maharashtra- 431513
1820	Peace Party	Johra Complex, Barhalganj, PO- Barhalganj, Zila – Gorakhpur, Uttar Pradesh.
1821	Peasants And Workers Party of India	Hari Kharude Niwas, Mahatma Phule Road, Naigaon, Dadar, Mumbai (Maharashtra).
1822	Pedala Party	D.No. 18-131(A), Village - Katurivaripalem, Mandal – Podili, District – Prakasam, Andhra Pradesh – 523240.

1823	Pedarikam Nirumulana Party	D No. 66-1-3/A.S. Atchuthapuram, Kakinada-533004, East Godavari District Andhra Pradesh.
1824	Pehchan People's Party	HanifManzil,ChandanChowk,Rani KhedaDarwaja,Nimbahera,Distt.-Chittorgarh,Rajasthan-312601
1825	People Liberation Party	4/611, Pughazhendhi Road, 4th Block, Mogappair East, Chennai, Tamil Nadu- 600037
1826	People's Action Party	363, Nainagarh, Prem Nagar, Jhansi, Uttar Pradesh-284003
1827	People's Justice Party	H. No. 120/209(120/096B),Ward-Hazratganj,Ram Teerath,Beldari Lane,Behind Lok Bhawan,Lalbagh,Lucknow Uttar Pradesh- 205262
1828	People's Liberal Party	104/01, Gram Gangana, Gram Panchayat Boranada, Tehsil- Luni, District- Jodhpur, Rajasthan-342012
1829	People's Party	A-23, Subhash Nagar, Roorkee, District- Haridwar, Uttarakhand
1830	People's Party for Liberty	AP 12/129, M.M.Bhavan, Madathilchira, Anad- P.O, Nedumangadu, Thiruvananthapuram, Kerala- 695544
1831	People's Party of India (Secular)	Duplex-38, Saileshree Vihar,Chandershekharapur, Bhubaneshwar-751021, Orissa.
1832	People's Party of Punjab	7112, Ward No.2, Malout Road,Gidderbaha (Mukatsar),Punjab-152101.
1833	People's Union Party	Dharmavat House, House No.1015, Shukrawar Peth, Tilak Road, Swargate, Pune-411002, Maharashtra.
1834	People's Democratic Conference of India	Bankra, Post Office – Birati,Kolkata – 700051, West Bengal.
1835	People's Democratic Forum	C-177, Sector'J', Aliganj, Lucknow (Uttar Pradesh).
1836	Peoples Democratic Party	MASS Building Ernakulam North,P.O. Cochin-18 (Kerala).
1837	Peoples Green Party	19C/1, Jeevan Jyoti Appartments, Ward No. 1, Mehrauli,New Delhi-110030.
1838	Peoples Guardian	D-302, Blue Hills, Nagar Road,Pune (Maharashtra) – 411 006.
1839	Peoples Movement of India	9/215/15, Yojna – 3, Aavas Vikas Colony, Jhoonsi, Allahabad, Uttar Pradesh – 211 019
1840	Peoples Party of India (Democratic)	111, Astha Complex,Dahej Bypass Road, Nandelav, Taluka& District- Bharuch, Gujarat- 392001
1841	Peoples Power Party	P.B.No.16, Shivaji Nagar Post Office, Mumbai-400043, Maharashtra.
1842	Peoples Representation for Identity and Status of Mizoram (PRISM) Party	A-16, Upper Republic, Aizawal, Mizoram- 796001
1843	Peoples Republican Party	Saptahik Jaibheem, Opp. Anand Talkies, Sitabadi, Nagpur-440012 (Maharashtra).
1844	Peoples Resurgence and Justice Alliance	House No. 156, Khomdram Selungbam Leikai, Thangmeiband, PO/PS: Lamphel, Imphal West, Manipur- 795004
1845	Peoples Ruling Party	Flat No.74,Gandhi Nagar,Chakali Gunta,Etukuru Road,Kamma Seshaiyah Ground,Revenue Ward-32,Guntur,Andhra Pradesh-522003
1846	Perunthalaivar Makkal Katchi	'NRD Towers', First Avenue , Ashok Nagar, Chennai-600 083 Tamil Nadu.
1847	Phule Bharti Lok Party	Main Gurudwara Road, Baba Bakala, Distt.-Amritsar, Punjab-143201.
1848	Pichhada Samanya Alpsankhyak Vyapari Kisan Party	H.No.402 Kh, NaglaKhandari, Alipur Patti, P.S- Bhongaon, Tehsil- Bhongaon, District-Mainpuri, Uttar Pradesh.
1849	Pichhara Samaj Party United	Madhariya Complex, Mukht Nagar, Pulgaon Raod, Padmanabhpur, Durg, Chhattisgarh- 491001
1850	Pichhra Samaj Party	Mohalla Jati, Nagina, District-Bijnor, Uttar Pradesh.

1851	Pichhravarg Mahapanchayat Party	Mo.-Jamalpur,(Karhan Road), Post- Mohammadabad Gohana, District- Mau, Uttar Pradesh-276403.
1852	Plains Tribals Council of Assam	P.O. & T.O. Kokrajhar, Distt. Kokrajhar (Assam).
1853	Political Essential & Accurate Council of Experts Party	Door No. 24-21, Vyshya Street, 5 Roads Junction, American Hospital Road, Narsipatnam, Vizag District, Andhra Pradesh – 531116.
1854	Political Justice Party	H.No. 796,G-3,Shalimar Garden Extension-I,Sahibabad,P.S.- Sahibabad,Ghaziabad,Uttar Pradesh- 201005
1855	Political Team India	House No. 182,Ansal Courtyard,Dehtora,Shastripuram,Agra,Uttar Pradesh- 282007
1856	Pondicherry People Rights Party	#1,Subramaniyar Koil Street,Kuvayarpalayam,Pondicherry-605013
1857	Poorna Swaraj Manch	House No. 1/328, GwalToli, Fathehgarh, District- Farrukhabad Uttar Pradesh- 209601
1858	Poorvanchal People's Party	12/391, Gali No.12, Lalita Park, Laxmi Nagar, Delhi-110092.
1859	Poorvanchal Rashtriya Congress	Plot No. 157-158, Pocket E-20, Sector-3, 1st Floor, Rohini, Delhi-110085.
1860	Prabal Bharat Party	Village-Andahara,P.O. +P.S. Parsauni,District-Sitamarhi,Bihar-843325
1861	Prabuddha Bharat Party	7A, Hospital Street, 1st Floor,Kolkata – 700072, West Bengal.
1862	Prabuddha Bharat Prajasattak Party	A/101, Panchsheel Nagar, Seva Sangh No. 3, Near Anik Depot. Sion (E), Mumbai, Maharashtra - 400022.
1863	Prabuddha Republican Party	MD-26-17/6, SRTRMCH Chanai Road, Ambajogai, District Beed-431517, Maharashtra.
1864	Pragatisheel Janta Party	Bajrang Vihar Colony, Digha Ashiyana Road, Thana-Rajiv Nagar, Post-Ashiyana Nagar, Patna-800025, Bihar
1865	Pragatisheel Lok Manch	Ishwar Sadan, Sonkar Farm, Dhaulakhera, Post – Arjunpur (Haldwani), District – Nainital Uttarakhand.
1866	Pragatisheel Magahi Samaj	H.No.605/334, Ward No. 44, Mohalla – Madaanpur(Akshayvat), Thana – Civil Lines, Distt. – Gaya, Bihar.
1867	Pragatisheel Manav Samaj Party	Village Wari (Naipurva) Post Dashrathpur-221304, Distt. Bhadohi (Uttar Pradesh).
1868	Pragatisheel Party	111, Badshah Nagar, Lucknow-226007(Uttar Pradesh).
1869	Pragatisheel Samaj Party	58/12/1D, Newada, Circular Road, Rajapur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1870	Pragatishil Samajwadi Party (Lohia)	CP-1, Vikrant Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh - 226010.
1871	Prahar Janshakti Party	H.No. 1634, Grampanchayat- Belora, Tehsil- Chandur Bazar, District- Amravati, Maharashtra- 444704
1872	Praja Adhikara Party	D.No.4/107-1,S.C.Colony,Kurnool Mondal,Panchaliagala Village,Kurnool District,Andhra Pradesh-518004
1873	Praja Bharath Party	Plot No. 106, Block`A`, Archana Appartments, East Marredpally, Secunderabad-500026 (Andhra Pradesh)
1874	Praja Chaithanya Party	1-7-578/31/2, Gemini Colony,Musheerabad,Hyderabad, Andhra Pradesh.
1875	Praja Congress Party	D - 6/6154/6, Vasant Kunj, New Delhi - 110070.
1876	Praja Ektha Party	Door No. 15-9-86 to 88,Srinivasa Nilayam, Maharajganj,Locality-Gowliguda Chaman,District-Hyderabad,Telangana State- 500012
1877	Praja Palana Party	H.No. 64-1D-8A/1, Treasury Colony, Kakinada, East Godavari District, Andhra Pradesh-533004.
1878	Praja Parivartan Party	No. 9/228, 1st Main 3rd Cross, (behind Jaibheem Petrol Bunk) Nanjappa layout, Anekal Town, Bangalore urban District, Karnataka-562106
1879	Praja Party	3-5-898/1, Himayatnagar, Hyderbad-500029 (Andhra Pradesh).
1880	Praja Raj Party	287/264/1, Meerut Bulandshahar Road, Hapur –245101, Uttar Pradesh.

1881	Praja Satta Party	1-91/24, Raghavendra Nagar, Parvathapur(V), GP – Ghatkesar Mandal, R.R. District, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500098.
1882	Praja Sena Party	H. No. 4-3-167 Gajulapet, Metpally Town and Mandal, District-Jagityal, Telangana- 505325
1883	Praja Seva Party	D.No 3-1C, Ramchandra Puram Village, Tada (P), Sathyavedu (M), Chittoor- District, Andhra Pradesh- 524401
1884	Praja Shakti Democratic Party	Survey No. 1073, C/o Vasant Vadgo, Near K-7 Circle, Gandhinagar, Randheja Road, Gandhinagar Gujarat- 382026
1885	Praja Shanthi Party	382, Aparijitha Colony, Ameerpet, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1886	Praja Vijay Paksh	First Floor, HHI-08, Abhinav Avenue Zadeshwar Chowkdi, Zadeshwar, Taluka-Bharuch, Dist.-Bharuch, Gujarat- 392011
1887	Prajaa Raita Raajya Paksha	H. No. 937, Manjunatha Nagar, Kengeri Road, Tavarakere, Bangaluru South, Karnataka- 562130
1888	Prajaa Swaraaj Party	House No. 7-2-104/11, Plot No. 11, Srikrishna Nagar, Chinthalakunta Check Post, L.B. Nagar, Hyderabad, Telangana state-500003
1889	Prajamaharashtra Paksh	New Parijat Building, 3rd Floor, Mathur Nagar, Tuling Road Nalasopara(East), Tal – Vasai, District – Palghar, Maharashtra- 401209.
1890	Prajamandal Party	Barthwal Niwas, Sheetla Mata Mandir Marg, Lower Bhaktiyana, Srinagar, Garhwal, Uttarakhand- 246174.
1891	Prajasattak Bharat Paksha	At. Shileshwar, Post – Bhadas, Tal. Mulshi, District – Pune-412108 Maharashtra
1892	Prajasattak Lokrajya Party	Village & Post – Parasi, Tehsil – Mangawan, District – Rewa, Madhya Pradesh – 486111.
1893	Prajasattak Samajwaadi Bharat Party	H. No. – 1-7-281, Yadav Niwas, Rajnagar, Post – Yashwant Nagar, Pavdewadi Naka, District – Nanded, Maharashtra- 431602.
1894	Prajashakti Party Samdarshi	Shri Ram Sadan – 40, Saraipitthu Aanshik, Nayagaon (Kesharua), Sitapur Raod, Hargaon, Janpad – Sitapur, Uttar Pradesh.
1895	Prajanantra Aadhar Party	46, Purani Fauzdar Ki Chali, Memco Char Raste Ke Pass, Naroda Road, Ahmedbad-382345, Gujarat.
1896	Prajanantra Congress Party	Station Chowk, Opposite Main Post Office, Raigarh, Chhattisgarh
1897	Prajanantra Party of India	H.No.33, Mohalla- Bambaghera, Town & P.S- Ramnagar, District-Nainital, Uttarakhand
1898	Prajanantrik Bahujan Shakti Dal	T-1, Shriram House, 117 H-2/52, Pandunagar, Kanpur, Uttar Pradesh.
1899	Prajanantrik Jansevak Party	H.No.88, Nivhara Ikhara, Post office- Barnahal, Tehsil- Karhal, District- Mainpuri, Uttar Pradesh- 205264
1900	Prajanantrik Lok Ekta Dal	3, Koutilya Marg, Patna – 800 001, Bihar.
1901	Prajanantrik Samadhan Party	Village- Hakimabad, Tehsil- Aasta, Distt.- Sihore, Madhya Pradesh.
1902	Prajanantrik Samajvadi Party	C-17, Yadav Nagar, Village – Samaypur, Delhi-110042.
1903	Prajavani Party	H. No. 11-83, Lingidivari Bhavanamu, Vinyakanagar Colony, Kuda Kuda Road, Suryapet, Telangana -508214.
1904	Prapancha Telugu Bhasha Parirakshana Party	H.No.- 5-19, Chimanaguntapally Village, Wanaparthy Mandal, Wanaparthy District, Telangana - 500089
1905	Pravasi Nivasi Party	Maha Mahal Building, T.C.-1/1502/7, Pazhaya Road, Medical College P.O, District - Thiruvananthapuram, Kerala-695011
1906	Prem Janata Dal	H. No. 1-4-524/A/7/1, Bholakpur, Near Badi Masjid, Musheerabad, Hyderabad, Andhra Pradesh.
1907	Prema Vahini Dal	Village & Post- Antarpada, Via- Balipadar, District- Ganjam, Odisha.
1908	PRISM	Top Floor, 4-CHHA-30, Vigyan Nagar, Kota-324005 (Rajasthan).

1909	Prithak Bastar Rajya Party	8, Senior H.I.G., Sector-3, Shankar Nagar, Raipur, Chhattisgarh.
1910	Prithviraj Janshakti Party	H.No. 45-A, Village- Kiratpur, Post- Pindra, Tehsil- Pindra, Police Station - Phoolpur, District- Varanasi, Uttar Pradesh.
1911	Professional Party of India	H.No. 91, Block- D-1, Shyam Vihar, Najafgarh, New Delhi-110043
1912	Progressive Democratic Party	Village and Post- Surjawali(Salempur),District-Bulandshahar-203001,Uttar Pradesh.
1913	Progressive Party	B Block, Gali No.5, Shani Bazaar Road, Amrit Vihar, Burari, Delhi – 110084.
1914	Progressive People's Party	House No. -975,976, Shyam Colony,Budh Vihar Phase-II,Near Krishna Mandir,P.S. – Vijay Vihar, DELHI- 110086.
1915	Proutist Bloc, India	C/o Shri Ramesh Kumar, H.N.A-37 (Khasra No.2167/845), Harshroop Colony, Fatehpur Beri, New Delhi – 110074
1916	Proutist Sarva Samaj	Sewa Niketan Compound,Agra Road, Etah, Uttar Pradesh.
1917	Public Development Party	Murlipur Shekh Salah Takiya, Chinhath, Lucknow, Uttar Pradesh.
1918	Public Mission Party	Sita Kunj, Opposite Godawari Appartment, Ashiyana Digha Road, Patna, Bihar-800014
1919	Public Party	Iqbal Mahal, 234-A, Atala,Allahabad-211003,Uttar Pradesh.
1920	Public Political Party	14A/57, First Floor, WEA, Karol Bagh, New Delhi- 110005.
1921	Public Utthan Party	H.No. 236,Fatehagadh,Fatehagadh,P.S.-Khargoopur,Tehsil – Gonda,Near Power House,Distt. – Gonda,Uttar Pradesh – 271204
1922	Puducherry Development Party	No. 51, Second Cross, Selva Nagar, Uruvaiyar, Puducherry- 605110
1923	Puducherry Padaippali Makkal Katchi	No. 4, First Street,Thendral Nagar,Puducherry - 605013.
1924	Punjab Democratic Party	958, Mataur, Sector – 70, SAS Nagar, Adjoining Syndicate Bank, Punjab - 160070.
1925	Punjab Ekta Party	B-XII/46, Khewat No. 125/119, Khatauni No. 235, Village Faridkot, Ward No. 10, Part-2, Tehsil – Faridkot, Harindra Nagar, District – Faridkot, Punjab – 151203
1926	Punjab Labour Party	Village and Post Office Adhniyan,Tehsil – Malot, Distt. – Muktsar, Punjab
1927	Punjab National Party	157,University Enclave phase-I,Near Guru Nanak Dev University Regional Campus,Ladhewali,Jalandhar,Punjab- 144009.
1928	Punjab People's Party	14, Sector 28, Arun Vihar, Noida-201303 (Uttar Pradesh).
1929	Punjab Vikas Congress Party	Panj Peer Chowk, Jalandhar, Punjab.
1930	Punjabi Dal	H.No. BV/30A, Ramgarhia, Gurdwara Road, Barnala-148101. Distt. Sangrur (Punjab).
1931	Puratchi Bharatham	No. 54, National Highways, Poonamalla, Chennai-56, Tamil Nadu.
1932	Puratchikara Thozhilalar Katchi	No. 3, Karikalan East, First Street, (Opp.S.P.Hospital, Anjappar Hotel), Adambakkam, Chennai, Tamil Nadu – 600088
1933	Purvanchal Navnirman Party	Village- Sirihira, P.O- Sewapuri, P.S- Kapsethi, District- Varanasi, Uttar Pradesh- 221403
1934	Purvanchal Gan Parishad	House No. 34, Pocket-28, Sector-24, Rohini, Delhi-110085.
1935	Purvanchal Janata Dal	Village and Post Office – Janadi, District – Ballia, Uttar Pradesh.
1936	Purvanchal Janshakti Party	Shree Vishveshwar Ashram Satuabhar,Post – Bihari Bujurg, Khajni, Gorakhpur-273 212, Uttar Pradesh.
1937	Purvanchal Janta Party (Secular)	Flat No. 2, DDA Flats, Pocket-I, Phase-I, Sector-12, Dwarka, New Delhi- 110078.
1938	Purvanchal Kranti Party	Yadavganj, Post – Sikrara, District – Jaunpur, Uttar Pradesh.
1939	Purvanchal Mahapanchayat	No. 601 D, Shipra Sun City, Indrapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1940	Purvanchal Rajya Banao Dal	374, Bakshipur, (Near the North of Power House),Distt.-Gorakhpur, Uttar Pradesh.
1941	Purvanchal Vikas Party	L-131, Street No.5, Mahipal Pur Extn., New Delhi-110037.
1942	Puthiya Makkal Tamil Desam	D.No.6/58,South Street, Muthulakshmi Puram,

	Katchi	Megnanapuram,Thiruchendur Taluk, Thoothukudi District,Tamil Nadu-628210
1943	Puthiya Needhi Katchi	6, North Boag Road, T-Nagar, Chennai-600017, Tamil Nadu.
1944	Puthiya Tamilagam	132, New MLAs Hostel, Govt. Estate, Chennai-600002 (Tamil Nadu).
1945	Pyramid Party of India	2-1-83, Kola Street, Tirupati-517 501,(Andhra Pradesh).
1946	Qaumi Ekta Dal	H. No. - 228, Moh. Astupura, Teh. - Sadar,District - Mau,Uttar Pradesh.
1947	Qaumi Itthehad Republican Party	No. 47/1,Chemmumiahpet,Revenue War No. 47,(Besude Hari Tower),Nagarajaupeta Kadapa,Andhra Pradesh- 516001
1948	Quami Janta Dal	9-B, Triloknath Road, Lal Bagh, Lucknow (Uttar Pradesh).
1949	Rachnatmak Jan Morcha	House No.-752,Khasra No.-146,Ground Floor,Near Kanya Vidyalaya,Buradi Village,New Delhi- 110084
1950	Radical Democrats	D. No. 4-9-771/P70, Pavangiri Colony, Hayatnagar, Hyderabad, Telangana -501505.
1951	Rahbar Party	Ward No. 2, Mohalla - Kachchi Masjid, Raysen,Tehsil & Distt. Raysen-464551,MADHYA PRADESH.
1952	Raita Bharat Party	Sector No. 31, Plot No. 31/A, Navanagar, Bagalkot, Karnataka-587101
1953	Rajasthan Dev Sena Dal	Opposite to Bus Stand,Dhamai Haveli, Dudu, Jaipur, Rajasthan.
1954	Rajasthan Jan Satta	Gramin Kanya Chhatrawas, Near Water Works, Sadulpur, Churu-331023, Rajasthan.
1955	Rajasthan Janta Party	Village- Naithla, Post-Neethari, Tehsil- Malakhera, District- Alwar, Rajasthan- 301001
1956	Rajasthan Navnirman Party	H.No. 4F, 1st Floor, Ramlal Sadan, Civil Airport Road, Pabupura, Jodhpur, Rajasthan-342001
1957	Rajasthan Vikas Party	43, Chand Bihari Nagar, Khatipura Road,Jaipur-302012. (Rajasthan).
1958	Rajdal Haryana	D/S 45, Brass Market, Bawal Road, Rewari-123401, Haryana.
1959	Rajlok Party	B-123, Street No.8, Kamal Vihar, Burari, Delhi – 110084.
1960	Rajnaitik Chetna Dal	Plot No. 78, Khata No. 93, Village- Sikariya, P.O. Sughari, P.S. Govindpur, District- Nawada, Bihar- 805126
1961	Rajnaitik Kranti Dal	House No. 55, Baduzai-2, Near Old Over Bridge, District-Shahjahanpur, Uttar Pradesh- 242001
1962	Rajnaitik Vikalp Party	204 – Shahi Bhawan, Dak Banglow, Patna – 800001 Bihar.
1963	Rajya Nojawan Shakti Party	Near Gandhinagar Police Station,Jammu, Jammu & Kashmir.
1964	Rajyadhikara Party	H.No.10-4-A/390, Addagutta, East Marredpally, Secunderabad-17, Andhra Pradesh.
1965	Rakshaka Sena	No. 604, Vayunanda Layout, Hebbal, Kempapura, Bangalore-560024.
1966	Rani Chennamma Party	Vakkalageri Dyamavvankatti, Gadag – 582 101, Karnataka.
1967	Rani Laxmibai Krantikari Party	Shop No. 6, Rahul Bazar, Commercial Complex, 1st floor, Sitaburdi, Nagpur, Maharashtra- 440012
1968	Rashtra Bhakt Dal	Baba Bajrang Das Ji Ki Bagichi,Khatipura Road, Jhotwada,Jaipur – 302 012, Rajasthan.
1969	Rashtra Hith Party	706/707, M.K. Heights CHS, 'B' Wing, C.T.S. No. 621, Opp. 'L' Ward Office,S.G. Barve Marg, Kurla (W),Mumbai-400 070Maharashtra.
1970	Rashtra Mangal Mission Party	Kamdheni Krupa, Kacho Madh, Pilaji Ganj, Sriram Chowk, Mehsana, Gujarat – 384001.
1971	Rashtra Nirman Party	D-25, Defence Colony, New Delhi-110024.
1972	Rashtra Samarpan Party	Ward No.-4,Property No.040000225,Old Property No. W 4-448(Old 225),Saoner,Taluka,Saoner,District-Nagpur Maharashtra-441107
1973	Rashtra Sewa Dal	85/40, Officer Flat, Beli Road, Patna – 800001, Bihar.

1974	Rashtra Shakti	1112, S/5 Tegore Garden, Near Bus Stand, Yamuna Nagar-135001, District – Yamuna Nagar, Haryana.
1975	Rashtra Uday Party	Khasra No. 10, Atif Vihar Colony, Near City I.T.I., Uttardhauna, Chinhat, Lucknow, Uttar Pradesh- 226001
1976	Rashtra Vahini Party	412, S.K. Shyam Heights, Sampat Hills, Bhicholi Mardana, Indore, MADHYA PRADESH- 452016
1977	Rashtra Vikas Zumbes Party	2nd Floor, Apollo Enclave, Opp. Jain Derasar, Modhera Cross Road, Mehesana, Gujarat – 384002
1978	Rashtrahit Chintak Vipaksh Party	Plot No. 177E/2, Ward No. – 2, Mehrauli, New Delhi – 110030.
1979	Rashtrasamarjit Jansamooch	H-101, Ground Floor, Chandu Park, Krishna Naga, New Delhi-110051
1980	Rashtravadi Bahujan Kranti Party	Mohalla – Chiranjilal, Town – Afzalgarh, Tehsil – Dhampur, District – Bijnor, Uttar Pradesh – 246722.
1981	Rashtravadi Communist Party	Begaria Ka Khera, P.O. Brawan Kalan, Kakori, Lucknow, Uttar Pradesh.
1982	Rashtravadi Janata Party	Anil Bharti Bhawan, 43-A, Sukhbir Nagar, Karala, New Delhi-110081.
1983	Rashtravadi Kranti Dal	Indu Niwas, Gaon Devi Road, Poisar, Kandivali (East), Mumbai, Maharashtra- 400101
1984	Rashtravadi Loktantrik Party (India)	35B, Sainik Enclave, Sector-1, Mohan Garden, New Delhi- 110059
1985	Rashtravadi Party (Bharat)	Village- Kakrana, Post- Dhaulana, District- Hapur, Uttar Pradesh- 245301
1986	Rashtravadi Pratap Sena	Village – Narayanpur Banska, P.O. – Dhaulana, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
1987	Rashtravyapi Janta Party	M.M.S. 1/84, Sector – A, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
1988	Rashtrawadi Chetna Party	House No. 16F/F, K.H.No. 28/10, Risal Garden, Nangloi, New Delhi-110041
1989	Rashtrawadi Insaan Party	18/84/6C, Pura Dalel, Tilak Nagar, Allahpur, Allahabad, Uttar Pradesh.
1990	Rashtrawadi Jan Chetna Party	A-69, Trikarnagar Section-1, Near Chowpaty Garden, L.H. Road, Surat, Gujarat- 395010.
1991	Rashtrawadi Jan Congress	Santosh Bhawan, Road No.1 Extension, Rajvanshi Nagar, Patna, Bihar - 800023
1992	Rashtrawadi Jan Samaj Party	158/33A-1, Ganga Prasad Road, Aansar Complex, Molviganj, Lucknow Uttar Pradesh – 226018
1993	Rashtrawadi Janataraj Party	A-404, Abajibapa Lake View, Opp. RAF Gate, Nirant Chokdi, Vastral, Ahmedabad, Gujarat - 382418
1994	Rashtrawadi Janlok Dal	934/1, Near- Vadi, Mota Madh, At&Po- Valam, TA- Visnagar, District- Mahesana, Gujarat – 384310
1995	Rashtrawadi Janlok Party (Satya)	Harsaru, Near Shiv Mandir, Tehsil- Harsaru, District- Gurgaon Haryana- 122505
1996	Rashtrawadi Jansangh	Pakri Gandhi Nagar More, (Katira Road), Near Jain Collage East Gate, Katira, Aara, Nawada, District-Bhojpur, Bihar-802301
1997	Rashtrawadi Jantantrik Party	Ambar Villa, 127/660, W-1, Saket Nagar, Kanpur-208014 UTTAR PRADESH.
1998	Rashtrawadi Janvikas Party	H.No. 7-G-27, Jawahar Nagar, Sri Ganganagar, Rajasthan- 335001
1999	Rashtrawadi Janwadi Manch	H.No.-160, Jodhi ka Pura, Azamgarh City, Azamgarh, Uttar Pradesh
2000	Rashtrawadi Kisan Kranti Dal	H.No. 73, Mohalla – Raysahab, Tehsil – Sirauli, Gauspur, District - Barabanki, Uttar Pradesh – 225415
2001	Rashtrawadi Labour Party	D-12/104, Sector-8, Rohini, Delhi – 110085
2002	Rashtrawadi Minority Party	Village-Kadampura, Ward-9, P.O.-Kadampura, District-Supaul, Bihar-852134

2003	Rashtrawadi Parivartan Party (L.B.)	M.C. Unit No. 4 – 467, Noonsar Johad, Patram Gate, Bhiwani, District – Bhiwani, Haryana – 127021
2004	Rashtrawadi Party of India	Village- Kalyanpur, Post- Barhalganj, Tappa Kasbe, Pargana – Chillupar, District- Gorakhpur, Uttar Pradesh- 273402
2005	Rashtrawadi Praja Dal	C-2/60, Ram Park – I, Loni, District – Ghaziabad, Uttar Pradesh - 201102
2006	Rashtrawadi Samaj Party	16/17, Civil Lines, Near PadamApartment, Kanpur, Uttar Pradesh.
2007	Rashtrawadi Samta Party	196/187 K, Village-Balipur Khurdwan, Tehsil- Gauriganj, Distt. Amethi, UTTAR PRADESH.
2008	Rashtrawadi Sena	Main Shahdra Chowk, Delhi – 110032
2009	Rashtrawadi Shramjeevi Dal	512/695N, First Street, Nishatganj, Lucknow, Uttar Pradesh-226007
2010	Rashtrawadi Swarn Ekta Party	Plot No. 11, 2nd Floor, Awadhपुरी Khand – I, Market Khargapur, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
2011	Rashtrawadi Yuva Party	ARSI House, Pragati Nagar, Chakmohabbat, P.O- Bhikhanpur, P.S- Ahiyapur, District- Muzaffarpur, Bihar-842004.
2012	Rashtriya Bahujan Party	729/4, Ambedkar Chauk, Village – Nalegaon, Taluq – Chakur District – Latur, Maharashtra- 413524
2013	Rashtriya Aadarsh Member Party	Village and Post- Udaypura Beech ke Mohalla, Tehsil- Rajnagar, Thana- Khajuraho, District- Chattarpur, Madhya Pradesh- 472339
2014	Rashtriya Aadiwasi Bahujan Party	Plot No.4, Pushpak Nagar, Junwani Road, Bhilai, Disst. Durg, Chhattisgarh-490020
2015	Rashtriya Aam Party	Office no. 19A, 2nd Floor, Om Heera Panna Mall, New Link Road Oshiwara, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra – 400053
2016	Rashtriya Aamjan Party	B-225, Old Minal, J.K.Road, Bhopal, Madhya Pradesh- 462023.
2017	Rashtriya Adarsh Party	Pitthuwalla Khurd, Chanderbani, Dehradun, Uttarakhand.
2018	Rashtriya Agraniye Dal	Village – Khamona, Post – Resipur, P.S. – Jansa, District – Varansi, Uttar Pradesh.
2019	Rashtriya Ahinsa Manch	132/1, Mahatama Gandhi Road, Kolkata – 700 007.
2020	Rashtriya Aikta Manch Party	D-197, Kunwar Singh Nagar, Nangloi, Delhi-110041
2021	Rashtriya Aman Sena	Aman House, Sanjay Gandhi Nagar, Road No. 9, Shiwaji Nagar No. 2, Govandi, Mumbai, Maharashtra-400043.
2022	Rashtriya Ambedkar Dal	Ambedkar Bhawan, Budh Vihar, Bhim Nagar, Central Jail Road, Varanasi, Uttar Pradesh.
2023	Rashtriya Antyodaya Congress	SS-III / 800, Sector – 1, Koparkhairane, Navi Mumbai, Maharashtra - 400709.
2024	Rashtriya Anyay Nivaran Sena	138, Jahagirdarwadi, P.O- Shingoli, Tehsil & Disrtict- Usmanabad, Maharashtra – 413501
2025	Rashtriya Apna Dal	House No. 232/81/4D, Tilak Nagar, Allapur, Allahabad, UTTAR PRADESH
2026	Rashtriya Arya Raj Sabha	769/2, Vijay Park, Jhang Colony, Rohtak-124001. Haryana.
2027	Rashtriya Atulya Yuva Party	Plot No. 291, Flat No. 301, Shiv Nagar-1, Murlipura, Jaipur, Rajasthan-303328
2028	Rashtriya Awami Dal	152, Kazi Tola, Sailani Road, Old City, Bareilly-243005, Uttar Pradesh.
2029	Rashtriya Azad Manch	Village&Post- Shahzadpur, Teshil- Naraingarh, Dist.- Ambala, Haryana.
2030	Rashtriya Backward Party	1/44, Shanti Nagar, Etah-207001, UTTAR PRADESH
2031	Rashtriya Bahujan Congress Party	TA-137/3, Tughlakabad Extension, New Delhi-110019.
2032	Rashtriya Bahujan Hitay Party	C-158, Captain Satish Marg, Rishi Nagar, Rani Bagh, New Delhi-110034.
2033	Rashtriya Bahujan Kranti Dal	Village – Datavli Gesupur, Jai Bheem Nagar, Garh Road, Near Medical College, Tehsil - Meerut, District – Meerut, UTTAR PRADESH.

2034	Rashtriya Balmiki Sena Paksha	Jagadguru Maharishi Balmiki Swami Mandir Marg, C.M.E. Ram Nagar Bopkhel, Pune-411 031 (Maharashtra).
2035	Rashtriya Bandhutwa Party	554, Mamfordganj, Allahabad Uttar Pradesh.
2036	Rashtriya Bhagidari Party	Sreesheepama Building, Opposite Amity University Gate No.1, Nizampur, Malhour, P.S-Chinhat, Tehsil-Sadar Lucknow, Uttar Pradesh-226028
2037	Rashtriya Bhagidari Samaj Party	Village – Garhi (Mehanda More), Tehsil-Hansi, District – Hisar, Haryana -125033
2038	Rashtriya Bhaichara Vikas Party	CP-15, RICCO Jhunjhunu, Rajasthan - 333001
2039	Rashtriya Bharatiya Akhand Party	H. No. – 14, Village & Post – Behta, Vikas Khand – Masauli, P.S. – Safdarganj, District – Barabanki, UTTAR PRADESH.
2040	Rashtriya Bharatiya Jan Jan Party	Near APS, Bishara, Dadri (Gautam Buddha Nagar), Uttar Pradesh - 203207
2041	Rashtriya Bujurg Shakti Party	House No. – 144, Village – Mangawas, Post Office – Palra, Tehsil – Beri, District – Jhajjar, Haryana.
2042	Rashtriya Bundelkhand Vikas Party	1/965, Mansarovar Park, Ramji Lal Ki Bagichi, Near Railway Line Phatak, G.T.Road, Shahadara, Delhi- 110032
2043	Rashtriya Chanakya Party	Flat No. 726FF, Block-A, Sector- MU-II, Greater Noida, Gutam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201310
2044	Rashtriya Congress (Babu Jagjivanram)	Ward No. 45, Mohalla – Baldevpuri, Janpad – Muradabad, Uttar Pradesh.
2045	Rashtriya Congress (J.) Party	Saindhri, Post-Harthala, Via Pakvarh, Muradabad, Uttar Pradesh.
2046	Rashtriya Dal United	G- 3/792, Ward No.- 69, Durga Apartment, Shalimar Garden, Extension- 1, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201005
2047	Rashtriya Dehat Morcha Party	601, Rohit House, 3-Tolstoy Marg, New Delhi-110001.
2048	Rashtriya Democratic Front	H. No. 397, Village – Sonari, Post Sonari (Ramganj), P.S. – Piparpur, Tehsil – Amethi, District – Amethi, UTTAR PRADESH - 228159.
2049	Rashtriya Deshaj Party	Tungari Toli, Argora, St. Francis School, Post - Harmu, Distt. Ranchi Jharkhand - 834012.
2050	Rashtriya Dharmanirpeksha Nava Bharat Party	108, Shankar Shah Nagar, Jabalpur (Madhya Pradesh).
2051	Rashtriya Ekta Party	H.No. 83, Ground Floor, Gali No. 4, Near Chand Masjid, Jafarabad, Delhi – 110053.
2052	Rashtriya Ekta Party (Secular)	Bhawan No. 543, Mohalla- Upadiyan, Ward No.14, Kithore, District- Meerut, Uttar Pradesh.
2053	Rashtriya Ekta Vikas Party	Near Noor Masjid, Madina Masjid Transformer Wali Gali, Ashok Vihar Ward No.42, Loni, Tehsil and District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2054	Rashtriya Garib Dal	110, Ram Nagar, Panipat, Haryana.
2055	Rashtriya Garib Utthan Party	Village – Nasopur, Post -Nagpur, Tehsil – Jalalpur, P.S. – Jalalpur, District – Ambedkar Nagar, Uttar Pradesh - 224149.
2056	Rashtriya Garima Party	B-14, Kasturba Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462001, (Madhya Pradesh).
2057	Rashtriya General Party	Ward No. 11, Aadarsh Nagar, Collectriate Road, Buxar, Bihar- 802101.
2058	Rashtriya Gondvana Party	Sarkhel House, Tiffra, Bilaspur – 495223, Chhattisgarh.
2059	Rashtriya Gram Vikas Party	62, Civil Lines, Roorkie, Janpad-Haridwar Uttarakhand
2060	Rashtriya Gramin Party	Village Chakershanpur (Kemrala), P.O. Ghorī Bachera (Dadri), District Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
2061	Rashtriya Hamara Dal	22/191, Dholi Khar, Mantola, Agra (Uttar Pradesh).
2062	Rashtriya Hind Ekta Dal	Village Nagla Bhaja, Post – Mighauli, P.S.- Vishnugarh, Tehsil- Chhibramau, District- Kannauj, Uttar Pradesh- 209721
2063	Rashtriya Hind Sena	158/1, Dev Nagar, District Firozabad - 283203, Uttar Pradesh.

2064	Rashtriya Hindustan Sena, Karnataka	Shiva Shakti, 141, Behind New Bus Stand, Vasvi Nagar, Hubli-580030, Karnataka.
2065	Rashtriya Hindustan Shakti Dal	I- 26/1, Gali No. 10, Brahmapuri, Delhi- 110053
2066	Rashtriya Hissedari Party	Village Mumtaj Jagar, Post-Mumtaj Nagar, Tehsil-Sohawal, near Samrat Medical Store, P.S.- Cantt., Distt.-Auodhya, Uttar Pradesh-224001
2067	Rashtriya Hith Congress	712, G-Block, Military Road, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
2068	Rashtriya Independent Morcha	At: Mining Road, Keonjhar (In front of O.S.M.E. Ladies Hostal), P.O./Via.: Keonjhar District – Keonjhar-758001, Odisha.
2069	Rashtriya Indira Party	Dattपुरा, Near Subzi Mandi, Morena, (Madhya Pradesh).
2070	Rashtriya Jagriti Party	Rishabh Institute, Chiraitaad Pul, Chaudhry Petrol Pump, Kankarbagh, Patna, Bihar – 800020.
2071	Rashtriya Jagrook Party	House No.- B-7/209, Satta Bazar, Kot Kapura, District- Faridkot, Punjab-151204.
2072	Rashtriya Jaihind Party	Adarsh Nagar, Kokar, P.S. Sadar, District-Ranchi, Jharkhand-834001
2073	Rashtriya Jan Adhikar Party (United)	H.No. 710, Naya Purva, Degree College Chauraha, Kachari Road, Opp. Liberty Showroom, District- Rae Bareli, Uttar Pradesh.
2074	Rashtriya Jan Awaz Party	MIG-23, Triveni Complex, TT Nagar, Bhopal, Madhya Pradesh-462003
2075	Rashtriya Jan Gaurav Party	470, Parmanatpur, (Behind-Sapna Ice Factory), P.O- Kachahari, Tehsil- Sadar, District- Jaunpur Uttar Pradesh-222002.
2076	Rashtriya Jan Jan Party	C/o Parshuram Singh, Neily Niwas, Shiv Nagar, Road Number-1, Behind Ford Hospital, Thana-Ram Krishna Nagar, PO-Ram Krishna Nagar, Khemnichak, District-Patna, Bihar-800027..
2077	Rashtriya Jan Kalyan Party	G-290, Old Seema Puri, Delhi 110095.
2078	Rashtriya Jan Kalyan Party Secular	Khata-187, Khasra-869, PS-150 Tozi No 525, Village-Chodhli, PS-Deldour, Distt.- Khagaria, Bihar-852161
2079	Rashtriya Jan Manch	Village & Post- Gurha, District- Jalaun, Uttar Pradesh- 285122.
2080	Rashtriya Jan Sagar Party	Behind Water Box, Nareda Road, Tehsil & District- Baran, Rajasthan- 325205.
2081	Rashtriya Jan Sahay Dal	112, New Connaught Place, Dehradun, Uttaranchal.
2082	Rashtriya Jan Sahyog Party	Plot No. A-40, Gaytri Puram, Near Shobhit University, Pallavpuram, Phase-2, Modi Puram, City- Meerut, Uttar Pradesh-250110
2083	Rashtriya Jan Samanatawadi (Ambedkar)	71-B, Pocket A-3, Kalkaji Extension, New Delhi-110 019.
2084	Rashtriya Jan Samarthan Party	A-122B, Ground Floor, Hari Nagar, New Delhi- 110064
2085	Rashtriya Jan Sansad	Shakti Nagar, Old G.T.Road, Khurja, Distt. – Bulandshahar-203131, UTTAR PRADESH.
2086	Rashtriya Jan Sewak Party	Village : Nangla Jamalpur, Post : Panchli Khurd, Baghpat Road, Meerut, Uttar Pradesh.
2087	Rashtriya Jan Vikas Party	Mohalla-Sundarpur Chhathi Pokhar, P.O. Lal Bagh, P.S. – L.N.M.U., District Darbhanga, Bihar-846004
2088	Rashtriya Janadhar Party	596 S.K. – 04/01/01, Sumiran Khera, Adarsh Vihar, Lucknow, Uttar Pradesh.
2089	Rashtriya Janadhikar Party	61, Mangla Puri Phase-I, Palam, New Delhi-110045.
2090	Rashtriya Janadhikar Suraksha Party	Village: Krishnapur, Post: Dhopathat Krishnapur, Distt: 24 Parganas (South), West Bengal.
2091	Rashtriya Janahita Party	No. 140, Vidyaranyapura, Narasipura, Main road, Bengaluru, Karnataka- 560097
2092	Rashtriya Jananayak Janata Party	RZ-3284/37, Tughlakabad Extension, New Delhi – 110019
2093	Rashtriya Janandholan Paksha	“Powrabhavan”, No.567(38), 60 Ft. Road, Gokula Mathikere Layout, Bangalore-560054 (Karnataka).

2094	Rashtriya Janasachetan Party (R.J.P.)	Sonarpur, Sukanta Nagar (Milanpally),(Near Shib Mandir)P.O. & P.S. Sonarpur, Kolkata-700150. West Bengal.
2095	Rashtriya Janata Janardan Party	Suraj Ka-Purva, Atarrarural, P.O. Atarra, District Banda, Uttar Pradesh.
2096	Rashtriya Janhit Party	Kothi No.75, Sector-17, Panchkula-134 109 (Haryana).
2097	Rashtriya Janhit Sangharsh Party	109-F, Najimpura, Bhoor, Bulandshahar Uttar Pradesh - 203001.
2098	Rashtriya Janhit Vikas Party	V.P.O. Khanak , H. No. 627B,Near Panchayat Ghar, Adarsh Colony, Teh. – Tosham, District- Bhiwani,Haryana- 127040
2099	Rashtriya Jan-Jagran Morcha	Raj Manzil, Ward No.12, Gopalganj, Post and District Gopalganj, Bihar.
2100	Rashtriya Jankranti Morcha	Village- Babhne Alam Nagar, P.O-Pratappur, District: Chatra, Jharkhand -825404
2101	Rashtriya Jankranti Party	5/24 H-10 (R) ITI Road, Aligarh, Uttar Pradesh – 202001
2102	Rashtriya Janmanch (Secular)	Village,Taluka -Shrirampur,Distric- Ahmednagar,Maharashtra-413715
2103	Rashtriya Janmat Party	Village – Fatuha, Post – Hanumanganj, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.
2104	Rashtriya Janmorcha	C-69/10, Gali No. 10, C- Block,Mustafabad,Delhi-110094.
2105	Rashtriya Janpriya Party	H-II-76/D, LDA Colony,Kanpur Road.Lucknow-226012,UTTAR PRADESH.
2106	Rashtriya Janraj Party	28-A, Vishal Kunj, Dehtora Road, Bodla, Agra, Uttar Pradesh - 282007.
2107	Rashtriya Janrakshak Party	Village – Birjapur, Post – Aduki,Distt. MathuraUTTAR PRADESH
2108	Rashtriya Jansabha Party	Kondagaon, Forest Colony Ward, District- Kondagaon, Chhattisgarh-494226
2109	Rashtriya Jansambhavna Party	U.K Sahni Commercial Complex, Room No.101, First Floor,Village- Rajopatti, District- Sitamarhi, Bihar-843302.
2110	Rashtriya Jansanchar Dal	600/279/031N, Sumit Nagar, Faridipur Ring Road, Dubagga, Lucknow, Uttar Pradesh- 226101
2111	Rashtriya Jansangh	Old 20, New 35, Victoria Park, Sports Colony, Meerut, Uttar Pradesh
2112	Rashtriya Jansangharsh Swaraj Party	Upper Chutia, Ranchi, Jharkhand – 834001.
2113	Rashtriya Jansena Party	Shop No. 101, Madina Complex, Kumbhartek, Shirpur, District-Dhule, Maharashtra
2114	Rashtriya Janseva-Secular Party	428, Brahman Wara, Old Ward No. 23,Ballabgharh-121004, Distt. - Faridabad,Haryana.
2115	Rashtriya Janshakti Party (Eklavya)	Post and Village :- Binjhol, Tehsil and District :- Panipat, Haryana-132103.
2116	Rashtriya Janshakti Party (Secular)	417-A, Jaina Tower-III, A-1 Block, Janakpuri, New Delhi- 110058
2117	Rashtriya Janshakti Samaj Party	Mohalla- Thok, Ward No. 4, Puranaganj, Near Railway Station, Mishrikh, District- Sitapur, Uttar Pradesh- 261001
2118	Rashtriya Janshanti Party	52/2, School Ward Chawk,Behind G.G.I.C.,Pratapgarh-230001,Uttar Pradesh.
2119	Rashtriya Jansurajya Party	House No. 953/C, Garoba Maidan, Bhandara Road, Bagadganj, Nagpur(E), Maharahstra-440008.
2120	Rashtriya Jan-Swabhiman Party	No.1-B, 223, M.I.G,Awas Vikas Colony, Rukunpur, Shikohabad, District-Firozabad, Uttar Pradesh-283135
2121	Rashtriya Janta Congress	12, Siri Fort Road, New Delhi – 110049
2122	Rashtriya Janta Party	Near of Shiv Mandir Colony,Saorkha Jahidabad, Sector – 115, Noida,Distt. - Gautambudhnagar,UTTAR PRADESH.

2123	Rashtriya Jantantra Paksh	24, Star Apartments, Vidya Vihar Marg, Sector – IX, Rohini, Delhi – 110085
2124	Rashtriya Jantantrik Bharat Vikas Party	Govind Chikitsalya, Parsiya Morh, Rasulpur, Rasraha, Balia, Uttar Pradesh.
2125	Rashtriya Jantantrik Party (Secular)	Flat No. 153-154, Vir Chand Patel Path, Patna-800001 (Bihar).
2126	Rashtriya Janutthan Party	A-655-56, Awas Vikas, Hanspuram (Kainal Road), Naubesta, Kanpur Nagar – 208021, Uttar Pradesh.
2127	Rashtriya Janvikas Party (Democratic)	Manorma Sadan, Indrapuri Sipara, Post Office- Dhelwan, Thana-Beur District- Patna Bihar 800020.
2128	Rashtriya Janwadi Party (Krantikari)	9/168, Indira Nagar, Near Pani Tanki, Luknow-226016.
2129	Rashtriya Janwadi Party (Socialist)	1/73, Shiv Katra, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh-208007
2130	Rashtriya Jatigat Aarakshan Virodhi Party	788-E/24, In Front of Union Bank, Near of old Court, Rohtak Road, Sonapat-131001 Haryana.
2131	Rashtriya Kalyan Paksha	904, Atlanta Towers, Inqalab Society Gulbai Tekra, Ahmedabad-380006, Gujarat.
2132	Rashtriya Kamgar Party	B.W – 97 D, Shalimar Bagh, Delhi – 110088
2133	Rashtriya Kamjor Varg Party	Central Office: Post Office Building, Lal Bahadur Shastri Nagar, Post Office (Upper Floor) Patna-800023 (Bihar).
2134	Rashtriya Karmyog Party	Village & P.O. – Sultanpur, Tehsil – Nilokheri, Distt. – Karnal, Haryana-132116.
2135	Rashtriya Kisan Bahujan Party	Ajinkya, Rajwada Bhawan, In front of Govt. ITI College, Tuljapur Road, Niture Nagar, Osmanabad, Tal. & Distt. – Osmanabad, Maharashtra - 413501
2136	Rashtriya Kisan Congress Party	H. No. 1-11-602, Ramamata Ambedkar Nagar, Near of Guru Govind Singh Ji Stadium, Tq. & Distt. Nanded, Maharashtra.
2137	Rashtriya Kisan Majdoor Party	W-127, 1st Floor, Greater Kailash –II, New Delhi- 110048.
2138	Rashtriya Kisan Party	Village & P.O. Dhanaundha, Teh. & Distt. Mahendragarh (Haryana).
2139	Rashtriya Kisan Samaj Party (United)	Mohalla- Pateganj, Post- Kanth, Tehsil- Kanth, District- Moradabad, Uttar Pradesh-244501
2140	Rashtriya Kisan Shramik Party	Village- Takhat Khera, Post- Akampur Bihar, Bagwant Nagar, District- Unnao, Uttar Pradesh- 209864
2141	Rashtriya Komi Ekta Party	Limda Lane, Makrani Pada, Jamnagar-361001, Gujarat.
2142	Rashtriya Kranti Party	Lodhi Pragyaapeeth, Lauh Purush Dr. Sakshi Nagar, Shikohabad Road, Etah, District: Etah – 207 001, Uttar Pradesh.
2143	Rashtriya Krantikari Dal	Gopal Nagar, Main Surakhpur Road, Najafgarh, New Delhi – 110043.
2144	Rashtriya Krantikari Janata Party	407, Durga Chambers, D.B. Gupta Road, Karol Bagh, New Delhi - 110005.
2145	Rashtriya Krantikari Samajwadi Party	House No. 65/25 K, Chhitwapur Road, Lalkaun, Lucknow, Uttar Pradesh.
2146	Rashtriya Lok Jagriti Party	Near Bk. No. 27, Opp. Budh Vihar, Bhim Nagar, Ulhasnagar – 421 001, Distt. Thane, Maharashtra.
2147	Rashtriya Lok Janta Party	H. No. 31, Village- Kamsari, Post office- Asawar, Tehsil- Muhammadabad, District- Ghazipur, Uttar Pradesh- 233225
2148	Rashtriya Lok Nirman Party	M-12, Mir Vihar, Madan Pur Dabas DELHI.
2149	Rashtriya Lok Sarvadhikar Party	H. No. –630, Village-Pasonda, Bodh Vihar Mandir, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2150	Rashtriya Lok Seva Morcha	206, Lovekush Tower, Exhibition Road, Patna-800 001, Bihar.
2151	Rashtriya Lok Sevak Party	Sampatti No.39/34A, Near Saheb Bus Adda, District – Hanumangarh Rajasthan-335501

2152	Rashtriya Lok Tantra Dal	Gram Mohalla – Nagla Kashi, Tehsil – Dhaulana, District – Hapur. Uttar Pradesh - 245301.
2153	Rashtriya Lokhit Party	A-40/35A, Amarpur Madiya, Varanasi, Uttar Pradesh.
2154	Rashtriya Lokmanch	1303, Naurang House, B-Block, 21-Kasturba Gandhi Marg, NEW DELHI-110001.
2155	Rashtriya Lokneeti Party	J-1201, Aditya Mega City, Vaibhav Khand, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201014
2156	Rashtriya Lokraj Party	H. No. 73/382, Mohalla – Vankhandi Teela, (Behind of Sahkari Bank), Mathura, Uttar Pradesh- 281001.
2157	Rashtriya Lokshahi Party	Survey No. 40/1, 40/2 & 40/3, House No. 411 & 412, Village – Beed Budhruk, Taluka – Karjat, District - Raigad, Maharashtra.
2158	Rashtriya Lokshakti Party	Arjun Nagar Colony, Gola Gokarnnath, Lakhimpur Kheeri, Uttar Pradesh - 262802
2159	Rashtriya Lokswaraj Party	Padma Farm, Village – Chhapra Khera, Near Balaji Mandir, Phusgarh, Karnal, Haryana.
2160	Rashtriya Loktantrik Sambhav Secular Party	H. No. 411, Krishna Bihari Nagar, Banda Sagar Road, Varma Tiraha, District & Tehsil – Fatehpur, Uttar Pradesh.
2161	Rashtriya Lokwadi Party	A/6A, Ground Floor, Mansarovar Garden, New Delhi – 110015.
2162	Rashtriya Machhua Samaj Party	Railway Road, Dadri, Near Ravaji Farm House, Gautam Budh Nagar (Uttar Pradesh)
2163	Rashtriya Maha Janshakti Dal	Room No.17, M. Naresh Munna Chawl, Jaihind Nagar, Pipe Line, Khar East, Mumbai-400 051, Maharashtra.
2164	Rashtriya Mahajan Shakti Party	H.No. 843/39, Shiv Utsav Vatika, New Railway Station Marg, Ater Road, Bhind, Madhya Pradesh- 477001
2165	Rashtriya Mahan Dal	108/60, Avas Vikas Colony, Village – Taimurpur, Post – Bijnaur, Distt. – Bijnaur, Uttar Pradesh.
2166	Rashtriya Mahan Gantantra Party	Village – Adda Chhinparai, Post – Chhinparai, Naujhil, Mathura, Uttar Pradesh - 281203
2167	Rashtriya Mahashakti Party	5, Rupayatan, S V Road, Vile Parle West, Mumbai-400056 Maharashtra.
2168	Rashtriya Mahila Janshakti Party	Gram Sabha – Saintha Jiginiya, Post – Kanta Guljarpur, Block – Fatehpur, Distt. – Unnao, Pin-209801 UTTAR PRADESH.
2169	Rashtriya Mahila Party	340, Swale Nagar, Rampur Road, Post- C.V.Ganj, District- Bareilly, Uttar Pradesh-243502
2170	Rashtriya Majdoor Vikas Party	H.No. 502, Yamuna Road, Ist floor, Village- Mehandipur, Tehsil & District- Sonipat, Haryana- 131001
2171	Rashtriya Manav Adhikar Party	17/700, Village-Gopalpur, Post-Azadpur (Timarpur), Delhi-110009.
2172	Rashtriya Manav Ekta Congress Party	Opp. Gurudwara, Station Road, Raipur, Chhattisgarh.
2173	Rashtriya Manav Samman Party	H. No-1485, Kidwai Nagar, Bhardwaj Puram, Allahabad-211006.
2174	Rashtriya Manav Sewa Party	Khata No.60, Khasra No.03, Mauja No.82, Shree Nagar House, Samukhiya More, Near New Police line Banka, District- Banka, Bihar- 813102
2175	Rashtriya Manav Vikas Party	House No. 249, Village- Sathalpur, P.O- Dhawarsi, Tehsil- Hasanpur, Block- Gangeswari, District- Amroha, Uttar Pradesh- 244242
2176	Rashtriya Mangalam Party	19/23, West Moti Bagh, Street No. 3, Sarai Rohilla, Delhi – 110035.
2177	Rashtriya Maratha Party	Shivneri Sinhagad Building, Shrinagar (Shivnagar) Colony, Bidar Road, Udgir, District – Latur, Maharashtra – 413517
2178	Rashtriya Marxwadi Dalit Lehar Party	Village- Chhonkarwara, Tehsil- Weir, District- Bharatpur, Rajasthan.
2179	Rashtriya Mataadhikar Party	Village & Post-Areraj, Ward No. 11, Shiv Mandir Se purav, Gayatri Traders, Distt.-Purvi Champaran, Bihar-845411

2180	Rashtriya Matdata Party	Mohalla – Sayedvada, Kasba – Malihabad, District – Lucknow, UTTAR PRADESH
2181	Rashtriya Mazdoor Ekta Party	Block-B, Sant Nagar, Gali No.57, Burari Road, Delhi –110009.
2182	Rashtriya Mazdoor Kisan Party	Aakash Bhawan, Opp. IDBI Bank, Main Road Dadri, Surajpur, Greater Noida, Vikas Khand- Visrakh, Tehsil- Sadar, District- Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh.
2183	Rashtriya Mazdoor Kisan Prajatantrik Party	Ashoka Avenue, Village-Lalganj, P.S- Sadar, District - Ranchi, Jharkhand.
2184	Rashtriya Morcha Party	H.No.57, Village – Manesar, Mohalla – Mohan Patti, Distt. – Gurgaon, Haryana-122050.
2185	Rashtriya Nagrik Party	H.No. 725, Khasra No. 40, Village- Maidangarhi, New Delhi-110068
2186	Rashtriya Naujawan Dal	20/575, D.D.A. Flat, Dakshinipuri, New Delhi – 110062
2187	Rashtriya Nav Nirman Bharat Party	No.- K-33, F/F, AB, Lajpat Nagar-II, New Delhi- 110024
2188	Rashtriya Parivartan Dal	B-4A/25, Rana Pratap Bagh, Delhi-110007.
2189	Rashtriya Peace Party	17G/322, Sector – 17, Vasundhara, Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2190	Rashtriya Poorvanchal Ekta Party	Plot No.145, Paigamberpur, Post-Rasulgarh, P.S-Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh-221007
2191	Rashtriya Power Party	101, Ashram Avenue, B/H, Kochrab Ashram, Paldi Cross Road, Ellisbridge, Ahmedabad, Gujarat – 380006
2192	Rashtriya Pragati Party	Garh Par, Nardiganj Road, Nawada, Post & Distt. Nawada – 805 110, Bihar.
2193	Rashtriya Pragatisheel Prajatantra Party	3518, Daribapan, Opposite to Sheela Cinema, Paharganj, New Delhi-110055.
2194	Rashtriya Praja Congress (Secular)	12-11-113, AB-Nageswara Rao Street, Arya Puram, Rajamundry, Andhra Pradesh.
2195	Rashtriya Prajantantrik Party	House No. 38, Gram-Janaur, Post-Kandhikala, Janpad-Jaunpur, Uttar Pradesh.
2196	Rashtriya Rajdhani Congress Delhi	8, Nath Market, Nai Sarak, Delhi-110006.
2197	Rashtriya Raksha Dal	C/o Hotel Pankaj, Sector-22A, Chandigarh.
2198	Rashtriya Rakshak Morcha	31, Alkapuri, Behind New High Court, City Center, Gwalior, MADHYA PRADESH- 474011
2199	Rashtriya Rashtrawadi Party	2/36, Ruchi Khand-1, Sharda Nagar Yojna, Lucknow, Uttar Pradesh -226012.
2200	Rashtriya Republican Party	D-26, Meerdard Road, New Delhi- 110002
2201	Rashtriya Sab Janshakti Party	Ratanchak New Tola, P.O.-Hathua, Dist-Gopalganj, Bihar-841436
2202	Rashtriya Sadbhavna Party	Village- Raghupur Narsanda, Post- Bajitpur, Thana- Patepur, District- Vaishali, Bihar- 843110
2203	Rashtriya Sadhu Vichar Council	Raidopur New, Officer Colony, Nyay Marg, Azamgarh, Uttar Pradesh.
2204	Rashtriya Saf Niti Party	Village & Post- Manoharpura, Tehsil- Bassi, District- Jaipur, Rajasthan- 303301
2205	Rashtriya Sahara Party	Jangra Market Dundahara, Gurgaon-122016, Haryana.
2206	Rashtriya Sahyog Party	F-130/4, Ground floor, Gautam Nagar, New Delhi- 110049
2207	Rashtriya Samadhaan Party	121-A, R-3/A-2, Mangal Bazar Mohan Garden, New Delhi - 110059.
2208	Rashtriya Samaj Dal (R)	H.No.193, Ward No.7, Shastri Nagar, Koraon, Allahabad, Uttar Pradesh-212306
2209	Rashtriya Samaj Paksha	C/o L.W. Kale, 17-Raghunath Dadoji Street, 4th Floor, Near Handloom House, Fort, Mumbai-400 001 (Maharashtra).
2210	Rashtriya Samajhit Dal	Moh.Devi Mandir Colony (D.M.Colony), Near Petrol Pump, Digha, Patna, Bihar-800011

2211	Rashtriya Samajwadi Apna Dal	Vill. – Basupar (Bankut), Near Shiva Nursing Home, P.O. – Jiyanpur, District – Ajamgarh, Uttar Pradesh.
2212	Rashtriya Samajwadi Jankranti Party	B-37/162, K.P.Giri Colony, Birdopur, Varanasi, Uttar Pradesh.
2213	Rashtriya Samajwadi Party (Secular)	A/104, Rajshree Avenue, B/h, Income Tax, Nr. Dinesh Hall, Ashram Road, Ahmedbad-380009, Gujarat.
2214	Rashtriya Samajwadi Party (United)	9, Community Centre, Ashok Vihar, Phase-II, Delhi-110052.
2215	Rashtriya Samajwadi Party 'Pragatisheel'	B-248, Mohan Nagar, Thatipur, Morar, Gwalior (Madhya Pradesh).
2216	Rashtriya Samajwadi Swabhimani Manch	Plot No. 33/34, Laxmi Nagar, Risali, Bhilai, District- Durg, Chhattisgarh- 490006
2217	Rashtriya Samanta Dal	8/440, Trilok Puri, Delhi-110091.
2218	Rashtriya Samdarshi Deshbakti Dal	Khushkari Sadan, Anand Nagar, Mandi Road Tiraha, Kasganj, Kanshiram Nagar, Uttar Pradesh.
2219	Rashtriya Samrasta Party	No. C-133, DDA Flats, New Ranjeet Nagar, Patel Nagar, New Delhi- 110008
2220	Rashtriya Samta Party (Secular)	H.No.- 27, Village- Veerpur Singhara, Post- Singhara, Dist.- Vaishali, Bihar- 844126.
2221	Rashtriya Samta Vikas Party	House No. 227/111, Vishnupuri Bhuteshwar, Post- Krishnanagar, District- Mathura, Uttar Pradesh- 281004
2222	Rashtriya Samyawadi Aryan Party	570/20, Virat Nagar, Alam Bagh, Lucknow-226005, Uttar Pradesh.
2223	Rashtriya Sanatan Party	Swabhimani Bhawan, Shivdham Colony, Near C Block, Sainik Vihar, Divider Road, Nangla Tasi, PS- Kankadkhera, Meerut Cantt, Meerut, Uttar Pradesh- 250001
2224	Rashtriya Sangail Party	Simdega Bhawan, Near Dangratoli Chowk, Opposite Tanveer Petrol Pump, Purulia Road, Ranchi, Jharkhand- 834001
2225	Rashtriya Sangam Dal	7B, Khyora, Nawabganj, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208002
2226	Rashtriya Sangharsh Party	Faridabad, Sujanganj, Jounpur-222201 Uttar Pradesh.
2227	Rashtriya Sant Sandesh Party	263, Vanarse Niwas, Mitra Nagar, Latur, Tq. Latur, Distt.- Latur- 413512, Maharashtra.
2228	Rashtriya Sanyukt Party	5/36, Railway Road, Near State Bank of India, District – Furrukhabad, Uttar Pradesh - 209625.
2229	Rashtriya Sanyukt Samaj Party	N8/236-R-53-1, (Ganeshdham Colony), Newada, Sunderpur, Varanasi, Uttar Pradesh - 221004.
2230	Rashtriya Sarvajan Party	124/3, Madak Khana (Khushipura), Jhansi-284001, Uttar Pradesh.
2231	Rashtriya Sarvasamaj Party (India)	Plot No. 256, Mithila Dham Rahivashi Sangh, Opp. Jery Verghese Termate Company, Gen. A.K.Vaidya Marg, malad (East), Mumbai- 400097, Maharashtra.
2232	Rashtriya Sarvjan Samaj Party	Village & Post – Mandhata, Tehsil – Sadar, Distt. – Pratapgarh, Uttar Pradesh.
2233	Rashtriya Sarvjan Vikas Party	Khasra No. 496/1, Main Wazirabad Road, Village- Pasonda, Tehsil- Loni, District - Ghaziabad, Uttar Pradesh.
2234	Rashtriya Sarvodaya Party	A-412, AG Colony, P.S. – Shastri Nagar, District - Patna, Bihar – 800025.
2235	Rashtriya Sawarn Dal	Dubey Ka Parav, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
2236	Rashtriya Sawarn Shakti Party	299, Ground Floor, Gagan Vihar, Delhi – 110051
2237	Rashtriya Secular Congress	Ashirvad Apartment, Mathura Dawaraka Road, P.O. Dispur, Sakuntala Path, 5th Bye Lane, Guwahati-6, ASSAM.
2238	Rashtriya Secular Majlis Party	Ward No.36, Village-Bihar Sharif, Badi Dargah, Nalanda, Bihar- 803101
2239	Rashtriya Shahri Vikas Party	H. No. 8/69(40,40A) Purana Quila, Babu Banarsi Das Nagar, Cantt. Road, Lucknow, Uttar Pradesh – 226001.
2240	Rashtriya Shakti Party (India)	80-A, Munirka Village, New Delhi-110067.

2241	Rashtriya Shoshit Samaj Party	Village – Lohvan, Post – Lohvan, Laxmi Nagar-Baldeo Road, District – Mathura, Uttar Pradesh.
2242	Rashtriya Sindhi Congress	437/B/1, Rubia House,B/H, Ellis Bridge Shopping Centre,Ashram Road, Ahmedabad-380 006,Gujarat.
2243	Rashtriya Surya Prakash Party	C/o Sh. Panna Lal, S/o. Sh. Bhole Shankar, Thana-Avagarh, Jalesar Road, Kasba & Post Office-Avagarh, Zila-Eta, Uttar Pradesh.
2244	Rashtriya Swarajya Sena	03,Dahisar Sanket Building,Shiv Vallabh Cross Road,Ravalpada,Dahisar (E),Mumbai,Maharashtra – 400068
2245	Rashtriya Swatantra Party	Vill& P.O. Pipriya,Word No. 3,Thana Mohania,Distt.Kaimur,Bihar-821105
2246	Rashtriya Ulama Council	3, Rashad Nagar, Gorakhpur Road,Azamgarh-276001Uttar Pradesh.
2247	Rashtriya Unnati Party	Prop. No. 12-A,Block-K4,Mohan Garden,Uttam Nagar,Delhi-110059
2248	Rashtriya Uttar Bhartiya Samaj Party	Opp. Kailash Industrial Estate,S.R.A. Building No. 1,Room No. 207,90 Ft. Road,Vikroli Mumbai- 400079
2249	Rashtriya Uttarakhand Party	124/98, Haridwar Road, Dehradun, Uttarakhand.
2250	Rashtriya Vanchit Party	H.No.525 (New), 204 (Old), Paltan Bazar Sadar, MakandruGanj District- Pratapgarh, Uttar Pradesh- 230001.
2251	Rashtriya Vikalp Party	Village – Piprauli, Post – Jahangirabad, Janpad – Barabanki, Uttar Pradesh
2252	Rashtriya Vikas Manch Party	Plot No. 58, New Colony, Tilmapur, Aashapur, Sarnath, Varanasi, Uttar Pradesh.
2253	Rashtriya Vikas Morcha	557, Pana Udyan, Narela, Delhi - 40.
2254	Rashtriya Vikas Party	195, Main Ashoka Enclave, Faridabad, Haryana.
2255	Rashtriya Vikaswadi Janta Party	Village and Post-Hariharpur Raikwari, District- Bahraich, Uttar Pradesh-271870
2256	Rashtriya Viklang Party	114, DDA Pocket –2,Sector-7, Dwarka,New Delhi-110045.
2257	Rashtriya Vyapari Party	F-25, Professor Colony,Kamla Nagar,Agra-282005Uttar Pradesh.
2258	Rashtriya Yuva Morcha Dal	Village-Baliji,Post-Phephana,District-Balia Uttar Pradesh-277503
2259	Rashtriya Yuva Samaj Party	18- Muskan Manjil, Rasulabad, Opposite Rehmat Duplax, Shah-E-Alam, Ahmedabad, Gujarat- 380028
2260	Rashtriya Yuva Sangh	B-117, Gali No. 6, East Vinod Nagar, Delhi-110091
2261	Rashtriya Yuva Swabhiman Party	Katre Township, Opp. Sawta Maidan, Junivasti Main Road, Badnera Maharashtra- 444701.
2262	Rashtriya Samvidhanwadi Party	Village-Rampura,Post-Haidarpur,District-Auraiya,Uttar Pradesh-206129
2263	Rastriya Aam Jan Seva Party	C-90, Khasra No. 770, Madanpur Khaddar Extension, Tehsil, Mehrauli, New Delhi-110076
2264	Rastriya Hind Samaj Party	H. No. Naya,Juggaur Anshik,Teh.-Lucknow,District-Lucknow,Uttar Pradesh- 226028
2265	Rastriya Insaaf Party	604, Anubhav Eledco, Udyan -2, Raibareli Road, Lucknow - 226025, Uttar Pradesh
2266	Rastriya Naba Nirman Party	Jemadevi Pentho Street, Old Berhamapur, PO- Berhamapur, PS – Bada Bazar, Dist. Ganjam, Odisha – 760009
2267	Rastriya Praja Chakravyuha Party	No. 73, Shanthinikethanam, D.K. Halli Main Road, Palar Nagar, BEML Nagar Post, Bangarapet Taluk, Kolar District, Karnataka - 563115.
2268	Rastriya Sadabahar Party	72,Tulsi Mandi, Hotel Maharani, Maharani Chowk, Post-Gulzarbagh, Thana- Aalamganj, Patna City, District- Patna, Bihar 800007.
2269	Rayalaseema Congress Party	5/62, Pedduru Road, Galiveedu Kaspas, Galiveedu Post and Mandal, Y.S.R Kadapa District, Andhra Pradesh – 516267.
2270	Rayalaseema Parirakshana Samithi	Door No. 70-125-B-71, Near Highway, Kallur, Kurnool Town, Andhra Pradesh – 518003

2271	Royalaseema Praja Samithi	H.No.5-54,Chowdeswari Bazar,Post & Mandal-Kodumur,Kurnool District,Andhra Pradesh-518464
2272	Royalaseema Rashtra Samithi	Door No.22/160, Vasanthapeta,Kadapa District, Proddatur-516360,Andhra Pradesh
2273	Real Democracy Party	37, Akshar Diamond Market, Sardar Chowk, Mini Bazar, Varachha Road, Surat, Gujarat – 395006.
2274	Regional Democratic Secular Congress	Lower Lumparing, P.O. Laban, Distt. East Khasi Hills, Shillong – 793004 Meghalaya.
2275	Republican Backward Congress	Plot No. 4, Gali No. 1, Ward No.1,M.C. Colony, Charkhi-Dadari, Disstt. Bhiwani, Haryana-127306
2276	Republican Bahujan Sena	305, Shahu Smruti Building, 3rd Floor, Mahatma Phule Nagar, Behind Meenatai Thakrey Udyan, Thane (West), Maharashtra – 400606
2277	Republican Labour Party	Block-4, House No. 236,7th Mile Chumukedima, Dimapur-797103, Post Box –354, Nagaland.
2278	Republican Paksha (Khoripa)	Ensa Hutments, 8-9, Azad Maidan, Infront of Mumbai Maha Nagar Palika, Fort, Mumbai-400 001, (Maharashtra).
2279	Republican Party of India	Satnam Mansion, 3rd Floor, Building No.245, P Dmello Road, Roll No.1393, Above Muncipal Co-operative Bank, Opposite GPO, Mumbai – 400001
2280	Republican Party of India (Athawale)	No.3/4,Insa Hutment,Azad Maidan,Fort,Mumbai,Maharashtra-400001
2281	Republican Party of India (Democratic)	Mukund Niwas, India Nagar, Latur-413512 (Maharashtra).
2282	Republican Party of India (Kamble)	A, 703, Suryakiran Co. Op. Housing Society, Plot No. 12&13, Sector-5, Ghansoli, Navi Mumbai- 400701, Maharashtra.
2283	Republican Party of India (Karnataka)	Office No. 49/1, B.Nagasandra, Yamaluru Post, Bengalore, Karnataka- 560037.
2284	Republican Party of India (Khobragade)	Gita Villa, East Marredpally, Secunderbad, (Andhra Pradesh).
2285	Republican Party of India (Rashtriya)	House No. - 67, 68, Street No. – 15, Block – 28, Vishwas Nagar, Shahdara, New Delhi- 110032
2286	Republican Party of India (Reformist)	B-12/704, Vijay Park,Kasarvadavli, G.B.Road, Thane (W), Maharashtra - 400615.
2287	Republican Party of India (Sivaraj)	10, Solai Street, Ayanavaram, Chennai-600023 (Tamil Nadu).
2288	Republican Party of India (Social)	Property No.-2618, Ward No. Tukum-2, (Old Ward 1C), Samta Colony, Opp. St Workshop, Tadobe Road, Chandrapur, Maharashtra- 442401
2289	Republican Party of India Ektavadi	B-9/667, Dev Nagar, Karol Bagh, New Delhi – 110005.
2290	Republican Party of India(A)	1/16, Sanjay Complex, T.T. Nagar, Bhopal-462003,(Madhya Pradesh).
2291	Republican Presidium Party of India	Uruli-Kanchan, Pune-412202 (Maharashtra).
2292	Republican Sena	Shop No. 6, New Nirmal Society, 189, Dhole Patil Road, Opp. Akshay Complex, Pune, Maharashtra-411001
2293	Revolutionary Communist Party of India (Rasik Bhatt)	84-Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700025 (West Bengal).
2294	Revolutionary Democratic Party of India	5221, Street No. – 115, B – Block, Sant Nagar, Burari, Delhi – 110084.
2295	Revolutionary Marxist Party of India	Shaheed Sarwan Singh Cheema Memorial Trust Building, 352/1, PhagwariMohalla, Garha, Jalandhar Punjab-144022.

2296	Revolutionary Party	SH-3/40, R.S.Vishwanathpuri Colony,Nawalpur,Varanasi,Uttar Pradesh-221003
2297	Revolutionary Socialist Party of India (Marxist)	TC 24/113, Panvila, Thycadu,P.O. Thiruvananthapuram, Pin Code-695014.
2298	Revolutionary Socialist Party of Kerala (Bolshevik) RSP.B	Kerala State Committee Office, Future Centre, Sahodara, Samajam Road, Chettikulangara, Thiruvananthapuram, (Kerala).
2299	Right India Movement Party	Central Mail Box,Sree DMK Heights,Flat No. 402,D. No. 32-10-32,Venkateswara Colony,Ward No. 65,Sheela Nagar, Visakhapatnam,Andhra Pradesh- 530012
2300	Right Party of India	Village & P.O. – Uttar Bahir Gachi, P.S. – Nakashipara, District – Nadia, West Bengal - 741126.
2301	Right to Recall Party	F-001-A, Supath-2 Complex, Opp Juna Wadaj Bus Stand, Ashram Road, Ahmedabad, Gujarat- 380013
2302	Rising People's Party	H.No.202,Ground Floor,Fellowship Colony,Dimapur,Nagaland-797112
2303	Roti Kapda Aur Makkan Party	Block D,Baba Complex,Harsh Nagar Etawah,Uttar Pradesh-206001
2304	Rythu Bidda Party	8-16-93/1, Sowbagya Colony, Sriram Nagar, Chintalkunta, Hyderabad, Telangana- 500074
2305	Saaf Party	547/229, Jalalpur, Rajaji Puram, Lucknow, Uttar Pradesh - 226017
2306	Sab Jan Vikas Rashtriya Party	Shop/House of Nabi Rasul Ansari S/o Mohammad Husen,Village & Post Baragaon,Via Kharasara,District-Balia,Uttar Pradesh -277302
2307	Sab Samaan Party	House No. 95 K, Village – Sarsanda, Post – Gopramau, Tehsil & District – Lucknow, Uttar Pradesh
2308	Sabbath Party	Shop No.3, Laxmi Niwas Building,M.N. Road, Kurla (W),Mumbai-400070,MAHARASTRA.
2309	Sabhi Jan Party	E-1/32, Deen Dayal Puram, Taudhakupur Road, Naubasta, Kanpur, Uttar Pradesh - 208021.
2310	Sabka Dal United	Village and Post- Sairpur, Raitha Road, Block- Chinchat, District-Lucknow, Uttar Pradesh- 226201
2311	Sabki Party	B-1/1, Sector-G, Jankipuram, Lucknow, Uttar Pradesh.
2312	Sabse Achchhi Party	House No.- 222, Amipur Nangola, Majra- Haidernagar, Tehsil & District- Hapur, Uttar Pradesh.
2313	Sabse Badi Party	41/48, Pocket-2, Mayur Vihar, Phase- I, Delhi- 110091
2314	Sada Haq Party	House No. 29/9/3, 29/8/2/3, VPO Mahilpur, Tehsil- Garshankar, District- Hoshiarpur, Punjab- 144527
2315	Sada Punjab Party	Shanti Nagar, Dhandari Kalan, Ludhiana, Punjab - 141001.
2316	Sadan Vikas Party	North Office Para, Gauri Shankar Nagar, House No.276, Doranda, Ranchi, Jharkhand.
2317	Sadbhavana Party	Room No.14, Ist Floor, Lucknow Hotel, Sri Ram Road Choraha, Aminabad, Lucknow-226018 (Uttar Pradesh).
2318	Sainik Samaj Party	317, Shiva Disposal Complex,Sanyukat Yatra Bus Adda Road,Chandrabhaga, Adarsh Gram,Rishikesh, Disstt. Dehradun-249201.Uttarakhand
2319	Sajag Samaj Party	Mohalla- Nasahi,Post- Zafarabad, Tehsil/ Sada/ District- Jounpur, Uttar Pradesh- 222180
2320	Sakala Janula Party	No.7-23/1,M.Venkatayapalem,Khammam Rural,Khammam District,Telangana-507003
2321	Sakhthi Baratha Desam	2/58, Vairavan Chetty Store, Pachiyamman Padithurai, Madhurai-625001, Tamil Nadu.
2322	Samaanya Praja Party	D. No. 48-11-10/4, Ashok Nagar, Opp. M.V.S Jewellers, Assilametta, Visakhapatnam, Andhra Pradesh - 530016.
2323	Samagra Utthan Party	House No. B/9, Vivekanand Park Marg, Patlitputra Colony, Patna, Bihar-800013
2324	Samagra Vikas Party	1147/8 (157), P.L. Sharma Road, Meerut, Uttar Pradesh – 250001.

2325	Samaikya Telugu Rajyam	D. No.1-39-B(Serial No. 1026A), Chayapuram Village, Vajrakarur Mandal, Anantapur District, Andhra Pradesh-515842.
2326	Samaikyandhra Parirakshana Samithi	H.No. 8-3-580/1, Yellareddyguda, Ameerpet – 500073, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2327	Samaj Adhikar Kalyan Party	Office No.822-823, 8th Floor, M/s Bajwa Development Ltd. Sunny Business Centre, New Sunny Enclave, Sector 125, Mohali, Punjab
2328	Samaj Bhalai Morcha	134/17-C, Milap Nagar, Hoshiarpur, Punjab- 146001
2329	Samaj Parivartan Party	Village – Salarpur, Post – Karaura, Tahsil – Machhlishahar, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.
2330	Samaj Rakshak Party (Bhartiya Kranti)	Niwasi-Ken, Post-Kanwar, Tehsil-Sirathu District-Kaushambi, Uttar Pradesh- 212217
2331	Samaj Seva Party	House No. 27, Bahramgarh, Tehsil- Budana, District- Muzaffarnagar, Uttar Pradesh.
2332	Samaj Sevak Party	568Kh/223, Sector – 7, Near Old Bharat gas Godam, Geetapalli, Alambagh, Lucknow, Uttar Pradesh.
2333	Samaj Sudharak Party	House No.723/2, Mangal Pandey Nagar, Sector-2, University Road, Meerut, Uttar Pradesh-250004
2334	Samajik Ekta Party	22, Housing Board Colony, Sonipat-131001 (Haryana).
2335	Samajik Insaaf Party (Rashtrawadi)	House No - 53, Village Lehari, Post Kuriyar, District – Basti, Uttar Pradesh - 272178.
2336	Samajik Jantantrik Party	Mukam Raja Market, Cinema Road, Gopalganj Nagar Palika Post, Gopalganj-841428, Distt. Gopalganj (Bihar).
2337	Samajik Nyaya Party	M-22, Mahavir Park, Marris Road, Aligarh-202001 (Uttar Pradesh).
2338	Samajik Sangharsh Party	H. No. 59, Gali No. 2, Guru Arjun Dev Nagar, Tarn Taran Road, Amritsar, Punjab-143002
2339	Samajtantric Party of India	40/1, B – Road, Bamanghachi, Howrah – 711 006, (West Bengal).
2340	Samajwadi Aam Janata Dal	Belatal Road, Laiya Place Ke Pichhe, Ward No.2, Naugaon, Chhatarpur, Madhya Pradesh- 471201
2341	Samajwadi Andolan Party	Village & Post Office-Daulat Pur Billoch Gohawar, Tahsil-Chandpur, Distt. Bijnor, Uttar Pradesh-246734
2342	Samajwadi Forward Bloc	7-5-14/B, Venkateshwara Colony, Mahboob Nagar, Telangana – 509001
2343	Samajwadi Jan Parishad	Jai Malha Prasad, Reti Bunder Road, Mahagiri, Thane (W)-400601 (Maharashtra).
2344	Samajwadi Janata Dal Democratic	90, Kautilya Nagar, B.M.P. Road, P.O. Veterinary College, Raza Bazar, Patna, Bihar-800014
2345	Samajwadi Janata Party (Chandra Shekhar)	L Extension 358, Mohan Garden, Rama Park Road, Uttam Nagar, New Delhi-110059
2346	Samajwadi Janata Party (Karnataka)	Room No.21, 2nd Floor, Hameed Shah Complex No.2, Cubbonpet, Main Road, Behind Ulsoor Gate Police Station, Bangalore-560002, Karnataka.
2347	Samajwadi Jankranti Party	A-454, Shastri Nagar, Delhi-110052
2348	Samajwadi Kranti Dal	3/197, Vidhayak Puram, Vinay Khand, Gomti Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
2349	Samajwadi Lok Parishad	Kusumpuram Colony, Natthupur Road, Post-Kurthauul, Thana-Parsa Bazar, Patna, Bihar-804453
2350	Samajwadi Samaj Party	Ward No.13, Lohia Nagar, Nagar Panchayat – Salempur, Janpad - Deoria, Uttar Pradesh – 274001
2351	Saman Aadmi Saman Party	Village- Amilwan, Post- Khutar, P.S.-Mada, District- Singrauli, Madhya Pradesh- 486886.
2352	Saman Adhikar Party	62/271, Nagla kachhiyan, (Mustafa Quarter Colony), Agra Cantt, Agra, Uttar Pradesh.
2353	Saman Bhagidari Party	538Kh/404, Dindayal Nagar, Khadra, Sitapur Road, Lucknow, UTTAR PRADESH-226020

2354	Samaniya Makkal Nala Katchi	S.F.No.1172/12A,Karur Bypass Road,Indira Nagar,Erode,Tamil Nadu-638002
2355	Samanya Janatha Party (Loktantrik)	No.- 17, House No.- 29, Basavana Durga (Koramma Camp), Gangavathi, District- Koppal, Karnataka- 583227
2356	Samarth Bharatvarsh Party	39A, DDA Flats (Old), Chilla, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091
2357	Samarth Kisan Party	Prabandhak – Mother Teresa Convent School, Village & Post – Manauri, Tehsil – Chayal, Janpad – Kaushambi, Uttar Pradesh.
2358	Samata Kranti Dal	Plot No.3547/3875, Mouza Gautam Nagar, Garage Chhaka, Temple Road, old Town Bhubaneswar – 751002, Odisha.
2359	Samata Party	220, Vitthalbhai Patel House, Rafi Marg, New Delhi – 110001.
2360	Samata Samadhan Party	E-1/150, Arera Colony, Bhopal, Madhya Pradesh.
2361	Samata Sangharsh Party	55 B, Radheypuri Extension-1, Delhi-110051
2362	Samathuva Makkal Kazhagam	139- T.H. Road, Kaladipet, Thiruvottiyur, Chennai, Tamil Nadu-600019.
2363	Sambhaji Brigade Party	Sai Complex, Gala No.7,New Mondha, Hingoli,Tehsil & District-Hingoli,Maharashtra-431513
2364	Sambidhan Bachao Party	24/A,2,S.D.Mukherjee Lane,Post & P.S.-Rishra,District-Hooghly,West Bengal-712248
2365	Samdarshi Samaj Party	Village- Manikapur Majre Saray Pandey, Post- Jauras, Pargana & Tehsil- Haidergarh, District- Barabanki, Uttar Pradesh.
2366	Samoochik Ekta Party	13/51, Parmat, Kanpur Nagar, Uttar Pradesh- 208001
2367	Sampoorn Samarpan Party	Acharya Ramchandra Shukla Nagar, Bhujauli Colony, Plot No. E.W.S. – 209-210, Deoria UTTAR PRADESH - 274001
2368	Sampoorna Bharat Kranti Party	WZ- 150, Village- Bodhela, VikasPuri, New Delhi- 110018
2369	Sampoorna Kranti Dal	Village – Khajoori Kalan, Post – Khajoori Khurd, Koraon, Allahabad, Uttar Pradesh
2370	Sampoorna Samaj Party	H. No. 464, Village & Post – Gairwah, P.S. – Sarpatahan, Tehsil – Shahganj, District – Jaunpur, Uttar Pradesh-223103.
2371	Samras Samaj Party	Raji Jarai, Mouja – Ghamroj, Tehsil – Sohna, District – Gurgaon, Haryana.
2372	Samrat Ashok Sena Party	House No. 1546, Village and Post- Belsar, Tehsil- Tarabganj, District- Gonda, UTTAR PRADESH-271401
2373	Samruddha Odisha	201, Sitalkunj Apartment,Plot No. M63, Madhusudan Nagar,Bhubaneswar – 751001, Orissa.
2374	Samta Dal (Pragatisheel)	H. No. 480, Village – Lisari, Tehsil & District – Meerut, Uttar Pradesh - 250002.
2375	Samta Samjwadi Congress Party	K - 56/114-7 (Raniphatak), Ausanganj, Varanasi - 221001, Uttar Pradesh
2376	Samta Vikas Party	House Harbhajan Jangde, Ward No. 17, Mandideep, Tehsil – Goharganj, District - Raisen, Madhya Pradesh
2377	Samtawadi Republican Party	108, Rampuram, PAC Road, Kanpur, Uttar Pradesh.
2378	Samuga Makkal Katchi	No.3 Mudalair Street, Vallam Village, Kancheपुरam Dt.Tamil Nadu – 602105.
2379	Samuga Samatuva Padai	4/388, Ram Garden,Anna Salai, Palavakkam,Chennai-600041,TAMIL NADU.
2380	Samyak Parivartan Party	Village –Janki Nagar, Behind of Ranipurwa School, Vikas Khand – Jhanjhri, Near of Mande Nala Bridge, Post – Bus Stop, Janpad – Gonda, Uttar Pradesh.
2381	Samyak Party	Village and Post- Manda, District- Allahabad, Uttar Pradesh-212104
2382	Sanatan Samaj Party	Ramanand Nagar, Begumpura, Ayodhya, Faizabad (Uttar Pradesh).
2383	Sanatan Sanskriti Raksha Dal	Village – Taraon, Post, Thana & Tehsil – Koraon, Distt. – Allahabad, Uttar Pradesh.

2384	Sangharsh Party of India	House No. 314, Shanti Niketan, D.M. Road, Bulandshahr, Uttar Pradesh - 203001
2385	Sangharsh Samaj Party	H. No. 44, Village – Dhaka, P.O. – Akha, Tehsil – Aonla, District – Bareilly, Uttar Pradesh - 243001.
2386	Sangharsh Sena	11, Sairaj Complex, Pandit Naka, Shahapur, Tq. Shahapur, District – Thane, Maharashtra – 421601
2387	Sanjhi Virasat Party	506, Chanderlok colony, Street No.- 3, Mandoli Road, Shahdra, Delhi- 110093
2388	Sankhyanupati Bhagidari Party	New Vighrapur, Mithapur, (Bus Stand) Patna-800001
2389	Sanman Rajkiya Paksha	56, Tirupati Nagar, Lohara, Taluk & District - Yavatmal, Maharashtra – 445002
2390	Sanyukt Dastkar Party	P-205, Basti Khwaja Meer Dard, Barron Road, New Delhi-110002.
2391	Sanyukt Kisan Vikas Party	Village- Suraundha, Post- Barki Basholi, P.S.- Dumraon, District- Buxar, Bihar- 802119
2392	Sanyukt Samajwadi Dal	11, Zones Lines, Agra – 282004, Uttar Pradesh.
2393	Sanyukt Vikas Party	Village – Sarsaul, Post Office – Muni, P.S. – Araniya, Tehsil – Khurja, District – Bulandshahr, Uttar Pradesh.
2394	Sanyukta Samaj Party	Village and Post-Khari, District-Bijnaur, Uttar Pradesh.
2395	Sapaks Party	144, Vidya Nagar, Hoshangabad Road Bhopal, Madhya Pradesh-462004
2396	Sarav Samaj Vikas Party	Bamba Road, Sailai, Post Office – Sailai, District – Firozabad, Uttar Pradesh.
2397	Sarav Sanjhi Party	Saggar Hospital, Near Peer Baba Maddi Shah Ji, Bassi Khuwaju, Hoshiarpur, Punjab- 146001
2398	Sardar Patel Siddhant Party	Village – Newada, Post – Bahuta, Tehsil – Patti, District – Pratapgarh, Uttar Pradesh - 230135.
2399	Sardar Vallabhbhai Patel Party	1, Olekar House, Dattapada Road, Borivali (East), Mumbai – 400 066.
2400	Sarv Jan Party (Bharat)	E-734, Behind Krishna Mandir, Shakarpur, Delhi- 110092
2401	Sarv Jan Sarv Samaj Party	2/248, TF, Subhash Nagar, New Delhi – 110027.
2402	Sarv Rajya Party	548GH/71, Teji Khera, Talkatora Road, Manak Naar, Near J.R.P.F., Lucknow Uttar Pradesh- 226011.
2403	Sarv Samaj Party	46, Rajeev Nagar, Mandi Chowk, Gadhmutkeshwar, Hapur, Uttar Pradesh- 245101
2404	Sarv Sambhaav Party	Yadav Bhawan, Puwayan Road, Village & Block- Banda, Tehsil- Puwayan, District- Shahjahanpur, Uttar Pradesh.
2405	Sarv Vikas Party	Village – Prateet Nagar, N.H. – 58, Near of Post Office, Raiwala, Dehradun, Uttarakhand - 249205.
2406	Sarva Hit Party	602-B, Khasra No. 298/199, 298/207, 298/209, Mohalla Bans, Sunar Wali Gali, Village – Ghitorni, New Delhi-110030 .
2407	Sarva Jan Samaj Party (Nand Kishore Chawla)	Chawla Properties, Laxmi Vihar, Camry Road, Hisar, Haryana.
2408	Sarva Janata Party	Central Party Office # 17, Javalli (Village), Pillangere (Post), Shimoga (Taluk), District – Shimoga – 577227 Karnataka.
2409	Sarva Samaj Janata Party	Village and Post- Oril (Khapadiya Chak), Tehsil- Phoolpur, P.S.- Pawari, District- Azamgarh Uttar Pradesh- 223222
2410	Sarva Samaj Janhit Party	Ghuripur (Jakhaon) in Gyanpur Road Gopiganj, Tehsil- Gyanpur, Distt. Bhadohi Uttar Pradesh- 221304
2411	Sarva Samaj Kalyan Party	Bijraj Bhawan, Village - Singharpur, Post – Ahamadpur, Mathura Road, Aligarh, Uttar Pradesh.
2412	Sarva Suraksha Party	Village and Post- Tilakhwar, District - Karchhana, Allahabad, Uttar Pradesh
2413	Sarvadharam Party (Madhya Pradesh)	120/1, Ashoka Garden, Tahasil – Nazul, Distt.- Bhopal - 462023, Madhya Pradesh
2414	Sarvahara Samaj Party	68-A Block, Darulshafa, Lucknow (Uttar Pradesh).

2415	Sarvajan Hitay Party	70/59, Leader Road, Allahabad, Uttar Pradesh -211003.
2416	Sarvajan Kalyan Loktantrik Party	COFFED, Meen Bhawan, 3rd Floor, New Punaichak, West Boring Canal Road, Patna, Bihar – 800023.
2417	Sarvajan Kalyan Party	In front of K-73, Hanuman Nagar, Kankarbag, Patna-800020, Bihar.
2418	Sarvajan Samaj Party (D)	Village & P.O. : Wadala Bangar, Tehsil: Gurdaspur, District: Gurdaspur-143511 Punjab.
2419	Sarvajanik Kranti Party	Surya Lodge, Road ways, Azamgarh, Uttar Pradesh.
2420	Sarve Bhavanti Sukhinah Party	Village & Post - Mamdar, Tehsil & P.S. – Rampur Naikin, District – Sidhi, Madhya Pradesh.
2421	Sarvhara Dal	Kewala Fariyatta, Via. Gidhour, Distt- Jamui (Bihar).
2422	Sarvhit Samaj Sewa Party	H. No. 177, Village & Post – Shahjahanpur Baijna, P.S. – Dadon, District – Aligarh, Uttar Pradesh-202133.
2423	Sarvjan Awaz Party	No.528, Block-B, Platinum Heights, Sector-18B, Dwarka, New Delhi-110078
2424	Sarvjan Lok Shakti Party	T.A. 184/2, Tughlakabad Extension, New Delhi- 110019
2425	Sarvjan Navyug Vikas Party	Vill.+P.O.- Bishunpur Bedaulia, P.S.- Jandaha, Distt. – Vaishali, Bihar-844505
2426	Sarvjan Samta Party	774, Geetanjali Vihar, Ward No. 28, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh – 201102
2427	Sarvjan Sanatan Party	H. No.B1/148, A-1A, Assi Varanasi, Uttar Pradesh- 221005.
2428	Sarvjan Sewa Party	163/200/1, Salari-Ka-Hata, Chikmandi, Maulviganj, Lucknow, Uttar Pradesh-18.
2429	Sarvochcha Rashtriya Vikas Mahaparishad	C-90, DDA Flat, West Gorakh Park, (New Jafrabad) Shahdara, Delhi-110032.
2430	Sarvodaya Bharat Party	B- 19, Sector- O, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh.
2431	Sarvodaya Karnataka Paksha	"Aniketana" First Floor, SJM Samudaya Bhavana, Kalidasa Road, Gandhinagar, Bangalore-560 009, (Karnataka).
2432	Sarvodaya Prabhat Party	B-3/231, Nand Nagri, Delhi- 110093
2433	Sarvpriye Samaj Party	Mohalla- Ashok Nagar Shahariya, Vishnu Puram Colony, Distt. Etawah, Uttar Pradesh- 206001.
2434	Sarvshakti Dal	D-60, Dev Nagar, Murlipura, Sikar Road, Jaipur, Rajasthan-302039.
2435	Sarvshreshth Dal	Village - Shahdaudpur or Kakorgahna, P.O. & Tehsil – Sader, District – Jaunpur, Uttar Pradesh
2436	Sarwajan Mahasabha	B-36/40, Kabir Nagar, Durgakund, Varanasi –221005, Uttar Pradesh.
2437	Sashakt Bharat Party	H. No. 345, Parashar Bhavan, Jatun Ka Mohalla, p.O. Kannauj, Tehsil-Bhadesar, Distt. Chittorgarh, Rajasthan-312613.
2438	Sathi Aur Aapka Faisala Party	Plot No. 2005, Village – Chamrahara, Mahnar Road, District – Vaishali, Bihar - 844507.
2439	Sattari Yuva Morcha	House No. 48, Kankire, Guleli, Sattari, Goa.
2440	Sattathagam Makkal Katchi	1-3/1020B, Green Garden, Vinayagam Patty, Distt.-Salem, Tamil Nadu- 636008
2441	Satya Bahumat Party	A-112, Pratap Nagar, Street No. 15, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091.
2442	Satya Kranti Party	H. No. – 176 E, Shivpur, Sahbazganj, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2443	Satya Shikhar Party	H. No. - 70-A, Village – Narharpur (Shankarapur), P.O. Miyaganj, District – Faizabad, Uttar Pradesh - 224208.
2444	Satya Vijay Party	101-C, Press House, 22, Phiroz Gandhi Press Complex, Agra – Mumbai Road, Indore – 452 008, Madhya Pradesh.
2445	Satyanishth Jan Sewak Party	House No.128, Ward No.5, Lalit Nagar, Opposite SDM's Residence, Tehsil and P.O-Sunder Nagar, District-Mandi, Himachal Pradesh-175019
2446	Satyavadi Paksh	Room No. 4-5, Oriyan Complex, Opp. Hotel Rajdhani, Railway Station Road, Aurangabad-431005 Maharashtra.

2447	Satyug Party	Village – Sukhatola, Dumri, Post – Kasya, Distt. – Kushinagar, Uttar Pradesh.
2448	Saurashtra Janta Paksha	H.No. 6/3/116, Himmat Lal Parmar Road, Wadipara, Surendra Nagar, Gujarat- 363001
2449	Savarn Samaj Party	East of Stadium, Nand Hardware, Sirmor Road, Rewa-486001, (Madhya Pradesh).
2450	Secular Alliance of India	Keswani Complex, 1st Floor, Above Navjeevan Cooperative Bank Ltd., Chopda Court Branch, Ulhasnagar – 421003. Maharashtra.
2451	Secular Democratic Congress	No. 958/D, ward No. 13, (Old No. 722/D in ward No. 10), Kelakam (Near Kelakam Police Station), P.O- Kelakam Grama Panchayat, District- Kannur, Kerala- 670674
2452	Secular Democratic Labour Party of India	6-2-44/3A, Jammibanda Street, Khammam-507001 Andhra Pradesh.
2453	Secular Inqlab Party	Ho.No.-202, Rajeev Garden, Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102
2454	Secular National Dravida Party	Kadakkavoor Buildings, Thumpara Nagar, Mundakkal, Kollam City, Kollam-691001, Kerala.
2455	Secular Party of India	House No.122-A, Ramvihar, Old Janipur, Jammu-180007 (J& K).
2456	Secular Republican Democratic Party	Adam star Complex, Room No. 132, 1st Floor, 2nd Block, Thodupuzha, Idukki District, Kerala.
2457	Sehajdhari Sikh Party	622/9, Near Telephone Exchange, Raikot, District Ludhiana, Punjab.
2458	Serv Bhalai Party	H.No. 625, New Azad Nagar, Sultanwind Road, Amritsar, Punjab - 143001.
2459	Service Adhered with Integrity Desam Party	Plot No. 29, Phase-I, Main Road, Near Police Station, Vanasthalipuram, Hyderabad, Telangana State- 500070
2460	Seva Dal	532 (Opp.126-R), C.R. College Road, Model Town, Rohtak – 124001, Haryana
2461	Seva Samrajya Party	Dhabunaik Tanda, Aanandiwadi, Tq. – Palam, District – Parbhani, Maharashtra- 431536.
2462	Shakti Sena (Bharat Desh)	Simi Bhawan, National Highway 43, Cross Lane Tiraha, Devpuri, Raipur, Chhattisgarh-492015.
2463	Shaktimaan Samaj Party	Plot No. 133, Kaushalpur, Phase-II, Near By Grammer School Road, Post-Khojpur, Distt.-Ayodhya (Faizabad) Uttar Pradesh- 224001
2464	Shane Hind Fourm	B-111/1, B-Block, Ashok Vihar Phase-I, New Delhi- 110052
2465	Shanti Morcha	X-919, Chand Mohalla, Gandhi Nagar, Delhi-110031.
2466	Shetkari Vichar Dal	49, Mamta, Anandnagar Co-op. Housing, Gulmohar Road, Savedi, Ahmednagar-414001, Maharashtra.
2467	Shining India Party	Ward No.6, Post – Deshnoke, District - Bikaner, Rajasthan – 334801
2468	Shiromani Akali Dal (Amritsar) (Simranjit Singh Mann)	Village Quilla S. Harnam Singh, P.O. Tellania, District-Fatehgarh Sahib, Punjab- 140 406.
2469	Shiromani Akali Dal (Republic)	9, Hakikat Nagar, Guru Tegh Bahadur Nagar, DELHI-110009.
2470	Shiromani Akali Dal (Taksali)	No. 30, Guru Har Rai Avenue, Opposite Khalsa College, Amritsar, Punjab- 143001
2471	Shiromani Lok Dal Party	Building No. 108, Near Krishna Mandir, Opposite Dana Mandi, G.T. Road, Amritsar, Punjab.
2472	Shiromani Youth Akali Dal (Kahlon)	5/5051, Shakti Nagar, Khandwalla, Chaharta, Amritsar (Punjab).
2473	Shivaji Congress Party	House No. 31, A/P Khakurdi, Tal. Malegaon, District – Nashik, Maharashtra.
2474	Shivrajya Party	Flat No. B/102, Deccan Apartment, Union Park, Pali Hill, Khar (West) Mumbai- 400052
2475	Shoshit Samaj Adhikar Party	Tehsil – Kole, Thana – Gandhi Park, Janpad – Aligarh, Uttar Pradesh – 202001.
2476	Shoshit Samaj Dal	Center Office : Dakshnini Mandiree, Patna-800001 (Bihar).

2477	Shoshit Samaj Party	4/8, Thyagraj Nagar (Near Safdarjung Bus Terminal), New Delhi-110003.
2478	Shoshit Sandesh Party	Gird Badgaon, Sant Ravidas Nagar, Bhadohi, Uttar Pradesh.
2479	Shram Shakti Party	J-1749, J- Block, Jahangirpuri, Delhi- 110033
2480	Shramajeevi Party	1-6-48, Old Alwal, Post – Bollaram, Secunderabad – 500010, Andhra Pradesh.
2481	Shree Bharat Vikas Paksh	220, Shreeji Complex, Near Ellisbridge Post Office, Ashram Road, Ahmedabad – 380 006(Gujarat).
2482	Shreshthatam Rashtra Party	Village – Jagsar, Post – Sarsava,Janpad – Kheeri-Lakhimpur, Uttar Pradesh.
2483	Shri Janta Party	Manda Sadan, Dwarika Nagar, Rewa, Madhya Pradesh - 486001.
2484	Shubha Karnataka	House No.1262, Kustagi Road, 1st Cross, Gajendragad, Distt. Gadag - 512114, Karnataka
2485	Sikkim Gorkha Prajatantric Party	Shimma Building, P.O. & P.S. Singtam,East Sikkim-737 134 (Sikkim).
2486	Sikkim Himali Rajya Parishad Party	Tulsikunj Building, Near Telephone Exchange, P.O. – Dara Gaon, 31-A, National Highway, Tadong Bazar, Tadong, Gangtok - 737102, Sikkim.
2487	Sikkim Jan-Ekta Party	Tinzir, Namchi, South Sikkim – 737 126
2488	Sikkim Liberation Party	Tintek, East Sikkim, Gangtok, Sikkim – 737134
2489	Sikkim National People's Party	The Dzong, MG Marg, Gangtok, East Sikkim-737101
2490	Sikkim Rajya Manch Party	Yangang Bazaar, P.T.C Road, P.O.-Yangang, P.S- Ravangla, South Sikkim, Sikkim- 737134
2491	Sikkim Republican Party	Central Pendam, Sajong Ward No.- 3, P.O.- Upper Pendem, P.S.- Rongpo, East Sikkim- 737132
2492	Sikkim Sangram Parishad	Deorali Bazaar, P.O.- Tadong, Gangtok, Sikkim- 737102.
2493	Sikkim United Front	Sapkota Building , Assam Lingzey Souraney, P/O- Assam Lingzey, P.S- Ranipool, East Sikkim- 737135
2494	Sikshit Berozgar Sena	Chandan Kumar Bahraicha, Khajurhawan, Madiyahun, Jaunpur, Uttar Pradesh.
2495	Sinh Jan Sena Party	Near Public Library, Veraval-362265 (Gujarat).
2496	Sirpanch Samaj Party	T-47, Old Nangal, Delhi Cantt-110 010.
2497	Sirupaanmai Makkal Nala Katchi	No. 16A, 9th Cross Street, Anna Nagar, Pammal, Kachipuram District, Chennai, Tamil Nadu-600075
2498	Smart Indians Party	Grampanchayat- Ghana Khamariya, Opp. Jain Building, Jabalpur, Madhya Pradesh- 482005
2499	Smast Bhartiya Party	W-6/5, DLF City Phase-III, Gurgaon – 122002, Haryana.
2500	Social Action Party	Mylackal House, Ranny, Pathanamtitta Distt. Pin-689072 (Kerala).
2501	Social Democratic Party of India	8/2, First Floor, Jangpura Extn., Hospital Road, Bhogal, New Delhi-110014.
2502	Social Justice Party of India	H. No. 2-97, Chinaravirala- Village, Hayathnagar Mondal, Ranga Reddy- District, Telangana State- 501505
2503	Social Movement Party	H.O. – 539, Lane No. – 29, Rajpura Mangotrian, Jammu, Jammu & Kashmir-180001.
2504	Socialist Janata Party	XB-1, Sah Vikas Apartment, Patparganj, Delhi – 110 092
2505	Socialist Party (India)	Lohiya Mazdoor Bhawan, H. No. 41/557, Dr. Tufel Ahmed Marg, Narhi, Lucknow, Uttar Pradesh.
2506	Socialist Party (Lohia)	Siddiqui Building, 6122, Bara Hindu Rao, Delhi-110006.
2507	Socialist Party Secular	505/506 Bhilawan, Lucknow Kanpur Road, (In front of Ajanta Hospital) Aalambagh, Lucknow -5, Uttar Pradesh.
2508	Socialist Republican Party	State Committee Office, Tutor's Lane, Statue, Trivandrum – 695001 (Kerala).
2509	Socialist Unity Centre of India (Communist)	48-Lenin Sarani (First Floor), Kolkata – 700 013, West Bengal.

2510	Socialist Workers Party	Plot No – 218, Backside of Binayak Enclave, At- Kolathia, P.O. – Aiginia, District – Khordha, Bhubaneswar, Odisha – 751019
2511	Socialistic Democratic Party	Post Box No.1089, General Post Office, Srinagar-190001, Jammu and Kashmir.
2512	Sonanchal Sangharsh Vahini	Plot No. 597,Vikas Nagar Robertsganj,Sonebhadra,Uttar Pradesh-231216
2513	South India Forward Bloc	63, Municipalayam Road, (42/4 – 68 C), Arapalayam, Kanmaikarai Main Road, Madurai, Tamil Nadu – 625016.
2514	State Samvibhajana Party	H. No. 56, Village – Sonkhas, Tq. – Ner, District – Yavatmal, Maharashtra - 445102.
2515	Studentz United For Nation Party	D. No. 12-464/4, B- Block, Tadepalli, District- Guntur, Andhra Pradesh - 522501
2516	Subhashwadi Bhartiya Samajwadi Party (Subhas Party)	F-10, Patel Nagar 111, District- Ghaziabad, Uttar Pradesh- 201003
2517	Sudesi Makkal Needhi Katchi	No. 24/38, FF2, Kutti Gramini Street, Raja Annamalai Puram, Chennai, Tamil Nadu- 600028
2518	Sudharwadi Party	Mohalla-Piuni Bag, Ward No.-32, Bettiah, Post-Bettiah, Thana-Bettiah Town, Distt.-Pashchim Champaran, Bihar-845438.
2519	Suheldev Bharatiya Samaj Party	Village - Mirangaj, Post Office - Rampur Rasda, District - Balia, Uttar Pradesh - 221712
2520	Sukhee Samaaj Party	344 Bhonjha, Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh.
2521	Sumetee Mukti Morcha	Plot No. 347(LR) 391(RS), Khatian No. 2194(LR), Mouza-Pancnai, Area 5 Decimal, P.S.- Matigara, District- Darjeling, West Bengal- 734010
2522	Sunder Samaj Party	Village + Post – Nangoi, Tahsil - Kharasia, Distt. – Raigarh, Chhattisgarh – 496665.
2523	Super Nation Party	57/1, Thathavalli Village, Kurumbhageri Post, Tirupattur Taluk, Vellore District, Tamil Nadu – 635653
2524	Super Stars Makkal Kalagam	D. No. 26, AVP Layout, 2nd Street, Gandhi Nagar, Tiruppur, Tamil Nadu- 641603
2525	Supreme Zero Party of Bharat	Ward No.6,Holding No.222,Upara Shahi,Khordha Municipality,At/PO/PS/District-Khordha,Odisha-752056
2526	Suraaj Party	6-81, Office Building, Vishal Estates, Village – Annaram, Mandal – Jinnaram, District – Medak, Andhra Pradesh – 502313
2527	Suraaj Seva Dal	Village – Ramdi Jasuva, P.O. – Fatehpur, Tehsil- Haldwani, District – Nainital, Uttarakhand
2528	Suraksha Samaj Party	Mohalla – Tarkapur (SonkarBasti), Bhawan No. 1102/1, Ward No.7, Post & Tehsil – Sadar, Janpad – Mirzapur, Uttar Pradesh - 231001.
2529	Surya Janaseva Party	,#2,Second Floor,5th Cross,Anjana Nagara,Bangalore,Karnataka-560091
2530	Sushasan Party	House No. 558, Vill. + Post – Badsī,Tehsil – Bawanikhed, Distt. Bhiwani-127032, Haryana.
2531	Svatantra Bharat Satyagrah Party	Shop No. – 7 & 8, Upper Ground Floor, Bhagwati Arcade, Jawahar Road No.-5, Udhna Udhayog Nagar, Udhna, Surat, Gujarat - 394210.
2532	Swabhimani Janta Dal	Nirbhay Cold Store, Khalwaenar, Dumrow, Buxar, Bihar-802119
2533	Swabhimani Party	31/666, New Shanti Nagar, Raipur, Chhattisgarh – 492001
2534	Swabhimani Paksha	Jaisingpur, District Kolhapur,Maharashtra – 416 101.
2535	Swachh Bharat Party	Sai Baba Mandir Bhojyavas, Bhankrota, Ajmer Road, Jaipur Rajasthan.
2536	Swachh Swasth Swawlambijan Party	H.No. 108, Payagipur, Opposite of near ITI, Sultanpur, Uttar Pradesh- 228001

2537	Swadesh Jan Sewak Party	J.P.Nagar, NaiBasti, Premchak Urf Umarganj, Ballia, Uttar Pradesh- 277001
2538	Swadeshi Ekta Manch	B-3/253,Vinay Khand-3,Gomti Nagar,In Front of Gomti Nagar Railway Station,Lucknow,Uttar Pradesh- 226010.
2539	Swadeshi Hind Party	Village & Post-Hatisa,Mathura Road Crossing ke Pass,Tehsil & District-Hathras,Uttar Pradesh-204101
2540	Swaraj (J)	Jungle Suhas Kunwari (Mahavir Chhapra), Post Office – Mahavir Chhapra,Police Station – Belipar, Tehsil – Sadar, District – Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2541	Swaraj Dal	No.4 Stop, Pattar Gudda, Post-Garaheharama, Port Blair-744101 (Andaman & Nicobar Islands).
2542	Swaraj India	Unit 109, 1st Floor, M.M. House, 59 Rani Jhansi Road, New Delhi – 110055.
2543	Swaraj Janata Party	B-79-B, Street No. 7, Shiv Vihar, Karawal Nagar, Delhi-110094
2544	Swaraj Kranti Party	B-31,Second Floor,Tejendra Complex,Opp.C.M.C.,Odhav Road,Odhav,Ahemdabad,Gujarat- 382415
2545	Swaraj Party – Yes (Subhash Chandra Bosh)	Village & P.O. Semrikhan Kot, Sidharth Nagar, Uttar Pradesh-272192.
2546	Swaraj Party (Loktantrik)	H.No. -17, Village – Mogalpura, Gram Panchayat – Mogalpura, P.O. – Bakhtiyarpur, District – Patna, Bihar – 803212
2547	Swarajya Nirman Sena	House No. 396/1, Indira Vasahat, Uttam Nagar, Pune, Maharashtra - 411023.
2548	Swarajya Party of India	B-33, Sector-C, Aliganj, Lucknow, Uttar Pradesh., PIN Code-226024.
2549	Swarajya Rashtra Nirman Sena	H. No. 797,Ward No. 01,Post-Koregaon,Bhima,Taluk-Shirur,Distt. Pune,Maharashtra- 412216
2550	Swarajya Sena (Maharashtra)	No. 586,Moh. Masurdi,Post- Taka,Tehsil- AUSA,District-Latur,Maharashtra- 413520
2551	Swarashtra Jan Party	Tarkapur, Phulwariya,P.O. Sadar,Distt. Mirzapur – 231001,Uttar Pradesh.
2552	Swarna Bharat Party	G-249 Palam Vihar, Gurgaon, Haryana – 122017.
2553	Swarna Yuga Party	No. 26, “ Amma” Ist Main Road,Dollars Colony, RMV 2nd Stage,Bangalore – 560 094, Karnataka.
2554	Swarnim Bharat Inquilab	L.G. - 22, Sunrise Tower 579, M.G. Road, Indore, Madhya Pradesh.
2555	Swatantra Adarshwadi Bhartiya Kranti Party	Village & Post- Lutuhi, Yanha Mahuli, Distt.- Sant Kabir Nagar,Khalilabad, Uttar Pradesh.
2556	Swatantra Bharat Paksha	‘Rahi’, Khokadpura, Aurangabad-431001, Maharashtra.
2557	Swatantra Indian Labour Party	Khasra No.916,At Village Dhillawal,Garhiya,Post – Bhopat Patti,P.S. Mau Darwaja,District – Farrukhabad,Uttar Pradesh - 209625
2558	Swatantra Jantaraj Party	811/1, Civil Line Anshik, Ward No. 52, Jhansi, Uttar Pradesh-284001.
2559	Swatantra Party (Jan)	195, ST Mary’s Road, Alwarpet, Chennai, Tamil Nadu- 600018
2560	Swatantra Rashtravadi Party	12-H, In front of Traffic Kotwali,Dariyaganj, New Delhi-110 002.
2561	Swatantra Samaj Party	Village & Post – Lebhri,P.S. – Darauli, Block/Circle – Mairva, Pin Code – 841 239,District – Siwan, Bihar.
2562	Swatantrata Abhivyakti Party	No.2,Mahavirnagar,Opp.Kalyan Mill,Near Chetna Hotel,Naroda Road,Shaijpur-Bogha,Ahmedabad,Gujarat-382345
2563	Swayam Krushi Party	No. 17/B,Nanjappa Complex,Ground Floor,Kanakpurmain Road,Banashankari,Shakambari Nagar,Bengaluru,Karnataka-560070
2564	Taayi Nadu Party	44/15, Kamraj Raod, Shivaji Nagar, Bangalore-560001, Karnataka
2565	Tamil Desiyak Katchi	80-A, Chamundi Shopping Complex, Salem-636007 (Tamil Nadu).
2566	Tamil Maanila Congress (Moopanar)	No.4, Ashoka Road, Alwarpet, Chennai – 600018.

2567	Tamil Maanila Katchi	No. 74, Jermiah Road, Vepery, Chennai, Tamil Nadu – 600007
2568	Tamil Maanila Quaide Milleth League	579, Anna Salai Teynampet, Chennai – 600 006, Tamil Nadu.
2569	Tamil Manila Dravida Munnetra Kazhagam	Door No.296, Ambedkar Street, Uthukkadu Village & Post, Walajabad Via Kancheepuram Taluka & District, Tamil Nadu.
2570	Tamil Manila Murpokku Dravida Kazhagam	No. 27, 1st Floor, Gudiyattam Road, Opp. Railway Kalayana Mandapam, Katpadi, Vellore- District, Tamil Nadu- 632007
2571	Tamil Nadu Ilangyar Katchi	No. 23, Ganesh Avenue, Sakthi Nagar, Porur, Chennai, Tamil Nadu- 600116
2572	Tamil Nadu Peasants & Workers Party	No. 1, Jayammal Road, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
2573	Tamil Telugu National Party	Old No. 4/51, New No. 197, Perumal Koil Street, T.Edaiyar Post, Thirukoilur Taluk, Villupuram District, Tamil Nadu- 607203
2574	Tamilaga Makkal Dravida Munnetra Kazagam	3-196, Vembarpatty(PO), Vembarpatty, Taluk & District - Dindigul, Tamil Nadu – 624008.
2575	Tamilaga Makkal Munnetra Kazhagam	563, Shanti Colony, N.K.B. Nagar, Palayamkottai, Tirunelveli, Tamil Nadu.
2576	Tamilaga Makkal Thannurimai Katchi	D.No. 4A, Mahalakshmi Nagar, Near the Court, Kattanachampatty Village, Rasipuram Taluka, Namakkal District, Tamil Nadu- 637408
2577	Tamilaga Sthabana Congress	26/1, 33E, Henry Road, Nesamony Nagar, Nagercoil, Tamil Nadu- 629001.
2578	Tamilar Desiya Munnani	119/A, Dippoline C.Pallavaram, Chennai, Tamil Nadu-600043
2579	Tamilar Makkal Katchi	Village – Thumbalahallidam, P.O. – Gendiganahalli, Taluk – Palacode, District – Dharmapuri, Tamil Nadu - 635205.
2580	Tamilina Vidiyal Pulikal Iyakkam	Annai Illam, Pallavan Nagar, Third Street, Theni Main Road, Madurai-625 016, Tamil Nadu.
2581	Tamilnadu Jananayaka Congress	327, Lloyds Road, Royapettah, Chennai – 600 014, Tamil Nadu.
2582	Tamilnadu Mahatma Gandhi Makkal Katchi	Door No. 9-2/1C, Thettivilai Veedu, Near Sree Devi Kumari Women's College, Kuzhithurai, Kanyakumari District, Tamil Nadu - 629163.
2583	Tamilnadu Makkal Nalvazhvu Periyakkam	No.6A, 10th Cross Street, Thiruvengada Nagar, Thiruninrvur, Thiruvallur District, Avadi Legislative Assembly Constituency, Thiruvallur Parliament Assembly Constituency, Tamil Nadu- 602024.
2584	Tamilnadu Makkal Urimai Katchi	43, V.O.C. Nagar, Kichipalayam, Salem, Tamil Nadu – 636015.
2585	Tamilnadu Telungu Makkal Katchi	Door No.-1/803, Opposite Karpagam University, Pollachi Main Road, Coimbatore, Tamil Nadu – 641021
2586	Tamizhaga Makkal Jananayaga Katchi	Vanavil Illam, No. 9, East 7th Street, Pudukkottai-622001, Tamil Nadu.
2587	Tamizhaga Murpokku Makkal Katchi	82/1, 5th Street, Padmanabha Nagar, Adyar, Chennai – 600020, Tamil Nadu.
2588	Tamizhaga Vaazhvurimai Katchi	13-6-54, Pillaiyar Koil Street, Samrajapettai Post, Mecheri Mettur Tk., Salem District, Tamil Nadu – 636451.
2589	Tamizhar Party	8/43, M.T.C. Road, Mattur Dam, 1, Salem District, Chennai-600017 (Tamil Nadu).
2590	Tararani Paksha	W. No. 6, H. No. 2067, Dhangar, Mal, (Shivnagar), Korochi, Tal. Hatkangale, District – Kolhapur, Maharashtra – 416109
2591	Tehreeke Inquilaab Party	Ansar Nagar, Abdul Rasheed Manzil, Tajoddin Baba Nagar, Near Ilahi Masjid, Latur, Maharashtra-413520
2592	Telangana Communist Party of India	H. No. 3-4-760/19, Beside Narayanaguda, Flyover Bridge, Barkatpura, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500027.

2593	Telangana Inti Party	14-70, V.T. Colony, Post & Mdl.- Nekirekal, District- Nalgonda, Telangana, - 508211
2594	Telangana Jaghir Party	H.No. 4-32/1, Munuganoor Village, Abdullapurmet Mandal, Ranga Reddy District, Telangana State- 501511
2595	Telangana Jana Samithi	Door No. 7-1-215/E, Balkampet, Near Nature Cure Hospital, Hyderabad, Telangana-500016
2596	Telangana Karmika Raithu Rajyam Party	Village – Bairanpally, Post – Siddapur, Mandal – Hasanparthy, District – Warangal, Telangana.
2597	Telangana Labour Party	H.No.8-2-293/82/BJR/A/1, BJR Nagar, Film Nagar, Jubilee Hills, Mandal: Shaikpet, Hyderabad, Andhra Pradesh-500096.
2598	Telangana Loksatta Party	Plot No. 46, Flat No. 201, Gunrock Teachers Colony, Trimulgherry, Secunderabad- 500015 Andhra Pradesh
2599	Telangana Minorities OBC Rajyam	17-3-4, Rein Bazar, Yakutpura, Hyderabad, Andhra Pradesh - 500023.
2600	Telangana Pragati Samithi	ADR Estate House No. 2-22-295, 2nd Floor, Bhagyanagar Colony, Above Bank of India, K P H B Main Road, Kukatpally, Hyderabad, Andhra Pradesh – 500072.
2601	Telangana Praja Samithi (Kishore, Rao and Kishan)	H.No.10-4-108, Girmajipet, Warangal-506002 Andhra Pradesh.
2602	Telangana Praja Shakthi Party	H.No.- 3-5-233, 1st Floor, Kota Gally, Shivaji Nagar, Opposite to Andhra Bank, R.R.Chowrastha, Nizamabad, Telangana - 503001
2603	Telangana Prajala Party	H.No.12-13-830/15, Gokulnagar, Street No. 1, Tarnaka, Secunderabad, Telangana- 500017
2604	Telangana Rashtra Punahnirman Samithi	H. No.1-3-186/a, Vidya Nagar, Bhongir, District – Nalgonda, Andhra Pradesh - 508116.
2605	Telangana Republican Party	H.No. 2-134, Tanedarpally Village, Marriguda Mandal, Nalgonda District, Telangana State- 508245
2606	Telangana Sakalajanula Party	H. No. 4-2-99, NFC (Nuclear Fuel Corporation Colony), Bandlaguda Jagir (Village) & (Post), Rajendra Nagar Mandal, Ranga Reddy Dist. – 500 086 Andhra Pradesh
2607	Telangana Studentz United for Nation Party	H.No. 3-85, Bowrampet Village, Quthubullapur Mandal, Ranga Reddy District, Telangana-500043.
2608	Telangana Yuva Shakti	Flat No. 404, H.No. 2-2-25A/1, Jeelani Meadows Apartment, D.D. Colony, Amberpet, Hyderabad, Telangana- 500013
2609	Telangana Independent Party	House No.5-2-13, Tirumala Nagar, Moulali , R.R. District, Kapra Circle, Hyderabad, Andhra Pradesh- 500040
2610	Telugu Bahujana Party	8/160-A, Mittapalem Street, Gudur, SPSR Nellore District, Andhra Pradesh – 524101.
2611	Telugu Congress Party	8-2-38, Opp. G.P. office, Bhavaninagar, Vemulawada, Karim Nagar District, Andhra Pradesh – 505302.
2612	Telugu Janata Party	No.70-7-16/2A,Ramnayyapeta,TSR Nagar, Road No.2,Kakinada Urban Mandal,E.G.District,Andhra Pradesh-533003
2613	Telugu Prajaa Patham Party	4-96/25/3, GF-103, Chinamusidiwada, Revenue Ward 70, Vishakahpatnam, Andhra Pradesh- 530051
2614	Telugu Rashtra Shakti Party	302, GVR, Residency, Beside GVR Towers, Gannavaram, District-Krishina, Andhra Pradesh- 521101
2615	Telugu Vijayam Party	Flat No.306,Sinivasa Towers,Near Kerala Hotel,Ibrahimpattam,Vijayawada-Krishna District,Andhra Pradesh-521456
2616	Thakkam Katchi	1/2755,Nehru Street(Old Annai Theresa Street),V.P.Singh Nagar,Pammathukulam Post,Chennai,Tamil Nadu-600052
2617	Thalli Telangana Party	Plot No.50, Road No.5, Jubilee Hills, Hyderabad-500 033,Andhra Pradesh.
2618	Thamizh Perarasu Katchi	3/6,Paari Street (Extn.),Choolaimedu,Chennai,Tamil Nadu- 600094.

2619	Thamizhaga Munnetra Congress	No. 91, Ponnusamy Nagar, 3rd Street Perambur, Division 68, Chennai-600011, Tamil Nadu.
2620	Thamizhar Munnetrak Kazhagam	2/5, Thiruvalluvar Salai, Perumal Nagar, Mogappair, Chennai, Tamil Nadu- 600037.
2621	Thanthai Periyar Dravida Munnetra Kazhagam	23, Alagappan Street, Thenkarai Periyaklam, District - Theni, Tamil Nadu - 625601.
2622	The Agrani Party	Located at Anmol House, Lichi Bagan, Pankhatoli, P.O.- Ramana, Dist.-Muzaffarpur, Bihar-842002
2623	The Future India Party	No: 2/191 B, Nethaji Street, Opp. to Elite School, M.A. Nagar, Redhills, Chennai, Tamil Nadu - 600052.
2624	The Humanist Party Of India	34, Lavina, 52A, Tagore Road Santa Cruz (West), Mumbai-400054 (Maharashtra).
2625	The Imperial Party of India	190, Shrinagar Main, Indore – 452001, Madhya Pradesh.
2626	The Indian Aspirations party	Office Unit No.- 205, Peninsula Plaza, A/16, Veer Industrial Estate, Veera Desai Road, Andheri West, Mumbai, Maharashtra- 400053.
2627	The Lok Party of India	Room No. 7, Building No. 61, 1st Floor, 2nd Lane, M.R. Road, Kamathipura, Mumbai – 400 008. Maharashtra .
2628	The National Road Map Party of India	B-145, New Ashok Nagar, Delhi- 110096.
2629	The Plurals Party	Sukhbaso Complex, 3rd Floor, Opposite Western Hotel, Plot No. 130, Danapur Khagul Road, P.O.-Danapur, Distt.- Patna, Bihar-801503
2630	The Public Welfare Party	Sonapur Complex, Alhadnagar, Ward No.14, East of Zilla Complex High School, Gadchiroli, Maharashtra - 442605.
2631	The Religion of Man Revolving Political Party of India	Kabirirtha, Kabitanagar, P.O.Bongaon, Distt. 24-Parganas (North)-743235 (West Bengal).
2632	Third View Party	203, Hill View, Plot No. 85, Lullanagar, Near Mount Carmel Convent School, Pune-411 040, (Maharashtra).
2633	Thozhilalar Party	No. 28A, Metu Street, Nemilichery, Chrompet, Chennai-600044 Tamil Nadu.
2634	Thrinamool Tamil Nadu Congress	189/1, Amaravathi Street (Near Five Roads), Reddiyur Village, District – Salem - 636004, Tamil Nadu.
2635	Tippu Sultan National Republic Party	No.24, Ist Main, 13th Cross, Bapujinagar, Mysore Road, Bangalore – 560 026 Karnataka.
2636	Tipraland State Party	Old Kalibari Road, Krisnanagar, Agartala, West Tripura, Tripura-799001.
2637	Tipu Sultan Party	56/2, Attar House Near Karbala Bes, Revivar Peth, Ambajogai, District-Beed, Maharashtra-431517
2638	Tola Party	H. No. – 56, Ward No. – 14, Andhua Patti, Hodel, (Palwal), Haryana.
2639	Total Vikas Party	C-95 A-1, 2nd Floor, Ardee City, Sector – 52, Gurgaon, Haryana – 122011.
2640	Trikalinga Congress	Palanka Koligadia, P.O.- Gunthuni Barchana, District- Jajpur, Pin-754024, Odisha.
2641	Trilinga Praja Pragati Party	B-118, Madhuranagar, S.R. Nagar post, Hyderabad-500038, Andhra Pradesh.
2642	Trinamool Gana Parishad	Ananda Plaza Complex, 4th Floor, Ganeshguri Chariali, Gawahati-781006 (Assam).
2643	Tripura Peoples Party	8/9, Jail Ashram Road, Dhaleswar, Agartala, TRIPURA- 799007
2644	Truth, Equality, Justice Applying Service Dal	B-35, Anandlok, Near Shriji Baba School, Post – Krishna Nagar, Govardhan Marg Mathura, Teh. & Dist. – Mathura, Uttar Pradesh-281004.
2645	Tuluvere Paksha	Door. No – 2-139(5), Koyyuru Cross Laila Village, Belthangady, Dakshina Kannada, Karnataka- 574214.
2646	Twenty 20 Party	Building No.IV/172, Ikkarnadu Panchayath, Kadayiruppu PO, Kunnathunadu Taluk, Ernakulam Dist., Kerala - 682311

2647	Udarwadi Samrasta Party	133/1, Harijan Basti, Gaon Samaypur, Delhi- 110042
2648	Udaya Chandra Desam Party	No.27, KamarajNeduchalai, Old Perungulathur, Chennai, Tamil Nadu-600063
2649	Ujala Party	E-26, Gali No.9, Near Water Tank, Subhash Vihar, Bhajanpura, Delhi-110053.
2650	Ujjawal Rashtra Party	Village - Ahirawan, Post – Barua, Tshsil – Sandila, District – Hardoi, Uttar Pradesh – 241304
2651	Ulaga Makkal Katchi	No. 15/24A, Methukummal Junction, Methukummal Post, Kanyakumari District, Tamil Nadu – 629172.
2652	Ulzaipali Makkal Katchy	74, Santhi Nagar, Ist Street, S.M. Nagar Post, Chennai – 600 062, Tamil Nadu.
2653	United Bodo Nationalist Liberation Front	C/o Deori Bora, Rambhapuri, Kahilipara, Guwahati, (Assam).
2654	United Citizen Party	D-29, Kondli, Delhi-110096.
2655	United Communist Party of India	29/116, Gali No.10, Vishwas Nagar, Shahdra, Delhi-110 032.
2656	United Congress Party	201/202, 2nd Floor, Sukumar Corner, 127- J.P.Road, DawoodBaug Lane, Andheri (West), Mumbai, Maharashtra- 400058.
2657	United Democratic Front Secular	539/13, Shastri Nagar, Meerut, Uttar Pradesh.
2658	United Front (Party)	Abu Fakharuddin Plaza, Langar Toli Chauraha, Bari Path, Patna-800004, Bihar.
2659	United Goans Democratic Party	1st Floor, Casa Dos Aliados, Behind Gomat Vidya Niketan, Absde Faria Road, Margao, Goa-403601.
2660	United Goans Party	Shop No.7, H.No. 18/5/6, Gramilo Apartment, Dondrem, Taleigao, Tiswadi, Goa.
2661	United India Party	No. 4-2-256/K/1, Bheemunipatnam N.T.P.C, Ramagundam (Mandal), Karimnagar, Telangana – 505215
2662	United India Peoples Party	Manjamattam, Moozhoor P.O., Kottayam Distt. (Kerala).
2663	United Indian Democratic Council	No.1205, II-Stage, Rajaji Nagar, Bangalore-560010 (Karnataka).
2664	United Minorities Front, Assam	Ulubari, Guwahati-781007 (Assam).
2665	United Naga Democratic Party, Nagaland	Ward No. 7, Near Agape School, Chumukedima – 797 103, Dimapur – 797 112 (Nagaland).
2666	United National Loktantrik Party	D-786, Jaidpur Extn., Part – II, Badarpur, Delhi - 110044.
2667	United National Party	Village Shantinagar, Mauja - Sannpura, Post – Gonsili, Tehsil – Baah, District - Agra, Uttar Pradesh – 283104
2668	United People's Front	City Regency Building, R.K.B. Road, Dibrugarh, ASSAM-786001
2669	United People's Democratic Party (Socialist)	Tangkhul Avenue, Imphal, Manipur-795001.
2670	United Peoples Party of Assam	S.S. Road, Lakhtokia, Guwahati-781001, Assam.
2671	United Republic of Bharath Party	D. No. 6-9-1373A, Defence Colony, Near A.P.H.B. post Office, Besides, Kanchimatam Hospital, Chottoor, District, Tipupati, Andhra Pradesh- 517501
2672	United Republican Party of India	80/81, C.A.H. College-By-Pass Road, Melvisharam, Walaja Taluk, Distt.- Vellore Tamil Nadu- 632509
2673	United Reservation Movement Council of Assam	Post Box No. 2, P.O.Rehabari, Guwahati-781008 (Assam).
2674	United Secular Congress Party of India	2/104 B, Kurla Jai Hind Budhvikas, SRA Grihnirman Sanstha, Maryadit Nehru Nagar, Kurla (East), Mumbai-400024, Maharashtra.
2675	United Socialist Party	B 41-H/6, Bright Street, 2nd floor, P.O. Circus Avenue, P.S. Karaya, Kolkata, West Bengal- 700017

2676	United States of India Party	No. 10/116, Mathaganeri, South Street, Sembikulam(PO), (PO), Vadakankulam (Via), Taluk - Radhapuram, District - Tirunelveli, Tamil Nadu- 627116.
2677	United Tribal Nationalists Liberation Front	Deulguri, Harisingh Darrong-784510 (Assam).
2678	Universal Brotherhood Movement	57-D, Sattur Main Road, Kovilpatti, District - Thoothukkudi, Tamil Nadu- 628501.
2679	Universe Citizen Party	15-5-122, Vinay Nilaya, Opp. Karnataka Law & Pharmacy College, Dhyanmandir Road, Rapure Colony, Bidar, Karnataka-585401
2680	Upekshit Samaj Party	F-15, Bhagat Singh Market, Near Gole Market, New Delhi-110001.
2681	Urimai Meetppu Kazhagam	New No. 10A, Krishna Street, Irumbuliyur, West Tambaram, Chennai-600045, Kanchi Street, Tamil Nadu.
2682	Urs Samyuktha Paksha	No. 46, Palace Road, Bangalore – 560 001, Karnataka.
2683	Utkal Bharat	Plot No. 296/2624, At – Govinda Prasad, East Canal Road, In front of Twin Bridge, P.O. – G.G.P. Colony, Bhubaneswar-751010 Odisha.
2684	Utkal Samaj	Anandayan, Plot No.-567/2, Kanan Vihar, Phase – II, Bhubaneswar – 751 031 Orissa.
2685	Utkrisht Party	1st Floor, Rakesh Cloth House, Main Bazar, Village- Narot Mehra, Tehsil & District- Pathankot, Punjab.
2686	Uttama Prajaakeeya Party	7/A, 1st Cross, 3rd Stage, 3rd Phase, 6th Block BSK, BSK 3rd Stage, Kathiriguppe, Bengaluru, Karnataka - 560085.
2687	Uttar Pradesh Navnirman Sena	House No. 3, Sector- 15A, District- Gotambuddh Nagar, Noida, Uttar Pradesh- 201301
2688	Uttar Pradesh Republican Party	552/2, Rajendra Nagar, 2nd Street, Lucknow-226004 (U.P.).
2689	Uttar Pradesh United Democratic Front	38-Royal Hotel, Vidhan Sabha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
2690	Uttara Janashakti Sena	H. No. 66,67, Shivapura Colony (Anchatageri Layout), Near Rajadhani Colony, Gokul Road, Hubli, Karnataka-580028.
2691	Uttara Karnataka Party	No.25, 4th cross, MSR Nagar, Bengaluru, Karnataka-560054
2692	Uttarakhand Janata Party	Plot No.6, Prakash Enclave, Shimla Road, Sewla Kalan, District – Dehradun Uttarakhand- 248001
2693	Uttarakhand Janakta Party	18F-/Sector-3B Near C-Block, Type-II, New Tehri, Uttarakhand-249001
2694	Uttarakhand Janshakti Party	Sushila Berthwal Niwas, Near Doordarshan Prasar Bharti Office, Haridwar Bye-Pass Road, Dehradun, Uttarakhand- 248001.
2695	Uttarakhand Kranti Dal	Rochipura, P.O. Majra, Dehradun, Uttarakhand).
2696	Uttarakhand Kranti Dal (Democratic)	85/12 – B, Nash Villa Road, Dehradun-248001, (Uttaranchal).
2697	Uttarakhand Parivartan Party	Sah Bhavan, Veer Chandra Singh Garhwali Marg, Gairsain, Distt. – Chamoli, Uttarakhand.
2698	Uttarakhand Pragatisheel Party	13, Subhash Road, Opposite back gate of St. Joseph School, Dehradun-248001, Uttarakhand.
2699	Uttarakhand Raksha Morcha	H. No. 1, Village – Nouka (Dour Wala), Post - Mothronwala, Vikaskhand Raipur, District – Dehradun, Uttarakhand.
2700	Uttarakhand Sanskriti Parishad	D-355, Vinod Nagar (West), Delhi-110092.
2701	Uttarakhand Sena Party	Jai Matadi Apartment, 10/1, Near Shankar Mandir, Juna Kalwa, Bela Road, Kalwa, Thane (W), Maharashtra-400605.
2702	Uttarkhand Janwadi Party	53-K, Rajpur Road, Dehradun, Uttaranchal.
2703	Vaicharik Kranti Party	F- 11, 12, 13, Ishwari Dayal Complex-92, Gautam Buddha Marg, Lucknow, Uttar Pradesh.
2704	Valamaana Tamizhagam Katchi	H-982, 23rd Street, 13th Main Road, Annanagar, Chennai, Tamil Nadu- 600040.

2705	Valimai Valartchi Indians Party	411 D, Goundachi Palayam, Vadamugam Vellode, Erode District, Tamil Nadu - 638112.
2706	Vallarasu Party	H. No.-6(23),Mosque Steet,Mylapore,Myplapore,Chennai Tamil Nadu- 600004
2707	Vanchit Bahujan Aaghadi	Survey No. 858B/2, 'Akash' Bhigvan Road, Behind Ranade Petrol pump, Ashok Nagar, Baramati, District – Pune, Maharashtra - 413102
2708	Vanchit Samaj Party	Circle- Bankipur, R.Circle No.- 13, Ward- 36, Mohalla- Pump House Gali Talab Parr, Lalji Tola, Police Station- Gandhi Maidan- Patna, District- Patna, Bihar- 800003
2709	Vanchitsamaj Insaaf Party	39, Adarsh Nagar, c/o Dr. Sheikh Maholi Road, Mathura, Uttar Pradesh.
2710	Vastavik Bharat Party	726/2/K1, Gram Umaria Khas,Tehsil - Bhandhavgadh, District - Umaria, Madhya Pradesh – 484661
2711	Vasudhaiv Kutumbakam Party	Ward No. 07, Holding No.1050 New, Mohalla- Sahebdad Ganj, District- Darbhanga, Bihar.
2712	Vasundhara Jan Vikas Dal	Khata No. 39, 59, Plot No. 32, 35 and 36, Mauja and Thana No. 371, New Thana No. 27, NH-2, Shiv Sagar, District – Rohtas, Bihar – 821111
2713	Veerath Thiyagi Viswanathadoss Thozhilalarkal Katchi	Manickavasagar Arangam,No. 1/9,Chengam to Tiruvannamalai Main Road,Kariamangalam Village & Post,Chengam Taluk,Tiruvannamalai District,Tamil Nadu- 606709
2714	Venukabadinavargala Mahila Raithu Party	Door No.- 3-110A, Chakrayapalem Village, Kollipara Mandalam, Guntur District, Andhra Pradesh.
2715	Vichara Jagruthi Congress Paksha	Door No. 275 of Hebbalu Village and Post, Davangere Taluk and District, Karnataka.
2716	Vidarbha Maza Party	237, Post- Ubali, Tahsil- Kalmeshwar, District- Nagpur, Maharashtra.
2717	Vidarbha Rajya Aghadi	Block No. 4, Daftari Complex, Opposite Dadaji Dhuniwale Math, Nagpur Road, Grampanchayat Nalwadi, District- Wardha, Maharashtra
2718	Vidarbha Vikas Party	Block A, Second Floor, Poonam Chambers, Chhindwara Road,Nagpur-13 (Maharashtra).
2719	Vidharbha Rajya Party	Kamgar Bhawan, Near Baidyanath Chowk, Great Nag Road, Nagpur-3, Maharashtra.
2720	Vidhayak Dal	HIG-205, Sector-1, Vikas Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh.
2721	Vidhyardhula Mahilala Raithula Mahasena Party	Dr.No. 74-6/1-1A, VSR Road, Ayyappanagar, Patamata, Vijayawada, Andhra Pradesh.
2722	Vidhyarthula Rajakiya Party	H.No. 11-13-624/4, Flat No. 402, I.B. Nagar, Haripuri Colony, Road No. 3, Saroornagar (M), Rangareddy, Andhra Pradesh-501505
2723	Vidial Valarchi Perani	37-B, Keela theru, Ichikamalai Patti, K.Sathanur (Post), Thiruchirapalli, Tamil Nadu - 620021
2724	Vidiyalai Thedum Indhiyargal Party	#10/2032, South Thiruppachethi, Post - Thiruppachethi, Taluk - Thiruppuvanam, District – Sivagangai, Tamil Nadu 630610.
2725	Viduthalai Chiruthaigal Katchi	No. 16, Chinnaiah Street, T-Nagar,Chennai – 17, Tamil Nadu.
2726	Viduthalai Makkal Munnetra Kazhagam	No. 11, Kabilar Street, Devanampattinam,Cuddalore District, Tamil Nadu.
2727	Vijay Bharat Party	H.No. 402, 3rd Floor, Plot No. 2-3, Gali No. 3, Friends Encalve, Shahberi, Greater Noida Extension, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh- 201009
2728	Vijaya Bharatha Makkal (People) Party	70, 2nd Floor, Braod Bazzar Street, Ambur-635802, Vellore District, TAMIL NADU
2729	Vijaya Janata Party	No. 9,Om Sai Shankthi Nilaya,Bharathinagara,Hundasamaranahalli

		Post,Jala Hobali,Bangalore North Taluk,Bangalore Karnataka-560058
2730	Vikas India Party	T-192, Street No.2, Gautam Puri, Delhi-110053
2731	Vikas Insaf Party	House No. 23, Ward No.10, Mahmoodpur Pargana, Near P. C. F. Godown, Tehsil- Sadar, District – Fatehpur, Uttar Pradesh -212601
2732	Vikas Manch	Bhura Chowk, Post office & Tehsil- Nokha, District- Bikaner, Rajasthan- 334803
2733	Vikas Parishad	62A, Shastri Colony, Ambala Cantt. Haryana – 133001.
2734	Vikas Party	Satyagarh Marg, Darul Safa Compound, Lucknow (Uttar Pradesh).
2735	Vikassheel Insaan Party	Ghar Apna Apartment, Ward No. 38, Flat No. 604, Phase-03, Abhiyanta Nagar, Ranjan Path, P.O.-Danapur Cantt, P.S- Rupaspur, District Patna, Bihar-801503
2736	Vikassheel Samaj Party	305 A, Sahara Shopping Centre, Faizabad Road, Indira Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh – 226016
2737	Villagers India Party	Talpali Pada (Near Durgamandap Chowk),district-Bolangir,Odisha- 767001.
2738	Vishal Janta Party	No. 1/4649/183,Budh Bazar Gali,Sub Gali No.08,Mandoli Road,New Modern Shahadra,Delhi-110032
2739	Vishal Party of India	Village – Chaurha, P.O.-Degham, Tehsil – Garhshankar, District – Hoshiarpur, Punjab – 144527.
2740	Vishva Shakti Party	B-10/144, Pradeep Vihar, Nathupura More Delhi -110084.
2741	Vishwa Adarsh Bharat Party	House No. 251, Mega Pathology, Behind of Court , Sookh Vilas Colony, Badwani, Tehsil- Badwani, District- Badwani, Madhya Pradesh- 451551
2742	Vishwa Hindustani Sangathan	3/105, Anandnagar, 100 ft. Ring Road,Satelite Vejalpur, Ahmedabad, Gujarat.
2743	Vishwa Jagriti Party	74/16A,Paramhans Marg,Shipra Path,Mansarovar,Jaipur,Rajasthan-302020
2744	Vishwa Jana Party	Door No. 4-122, Padmavati Nagar, Thogatavari Street, Podalakur, District- SPSR Nellore, Andhra Pradesh
2745	Vishwa Jana Samrajyam Party	MIG-74,H.No. 15-13-vii-m-74,Phase VII,KPHB Colony,Kukatpally,Hyderabad,Telangana State- 500085
2746	Vishwa Manav Samaj Kalyan Parishad	Village & Post – Chandapur, Wazirganj, District – Gonda, Uttar Pradesh.
2747	Vishwa Vikas Sangh	F-53/F-1, Dilshad Colony,Delhi – 110 095.
2748	Vishwanath Pratap Janta Dal	Ward-2,Malviya Nagar Infront of State Bank of India,Main Raod Madhugarh,District Jalaun Uttar Pradesh- 285126
2749	Vivasayi Anbhu Katchi	No.14, Raghava Nattan Street, Uthiramerur-603 406, Tamil Nadu.
2750	Vivasayigal Makkal Munnetra Katchi	403, SRPK Complex, Udaiyarpalayam, Thalavaipatty- Post, Attur - Taluk, Salem- District, Tamil Nadu- 636102
2751	Voice of Labour Party (Jammu & Kashmir)	Khasra No. 539, Village- Atti, Post- Fathepur, Tehsil & District- Rajouri, Jammu & Kashmir- 185131
2752	Voters Independent Party	No. 903, 1st Floor, 6th Block, 80 Feet Road, Koramangala, Ejipura, Ward No. 148, Bangalore, Karnataka - 560095
2753	Voters Party	A, 1/75, Freedom Enclave, Neb Sarai, IGNOU Road, New Delhi – 110068
2754	Voters Party International	H. No. 385, Street No. 12/3, Wazirabad Village, Delhi- 110084.
2755	Vyabasayi Kisan Alpasankhyak Morcha	H. No.12, Maharajganj, Jamui, District – Jamui, Bihar – 811307.
2756	Vyavastha Parivartan Party	At Baudh Diamond, Taluka Panchayat Road, Opp. of Court, Post & Taluka-Ghogha, District- Bhavnagar, Gujarat.
2757	War Veterans Party	A/301-302, Pearl Aptt., I.C. Colony, Borivali (West), Mumbai-400 103, Maharashtra.
2758	Watan Janta Party	3/4/7 A, Mugalpura, Ayodhya, Faizabad, Uttar Pradesh

2759	Wazib Adhikar Party	Village & Post – Pohaddi Bela, Block – Ghanshyampur, District – Darbhanga, Bihar – 847427.
2760	Welfare Party of India	E - 57/1, Abul Fazal Enclave-1, Jamia Nagar, New Delhi - 110025
2761	West Bengal Pragatishil Indira Congress	68 – B, A.P.C. Road, Kolkata – 700 009, West Bengal.
2762	West Bengal Socialist Party	42-Ananda Palit Road, Kolkata-700014,(West Bengal).
2763	Yekikrutha Sankshema Rashtriya Praja Party	D No7-1-500, NGO Colony,YSR Street, Siddavatam Road,Badvel-516227, YSR District,Andhra Pradesh.
2764	Young India Party	Circle No. 28, Holding No. 128/113, Arya Kumar Road, Machhuatoli, P.S- Kadamkuan, District - Patna, Bihar -800004
2765	Young India Tangress Party	Yelam Galli, Tugav(H), Taluk – Bhalki, Distt. – Bidar, Karnataka.
2766	Young India United Party	House of Madan Mohan Mishra, Village- Mangalpurva, Post-Parsa, Gondari, Block- Haldharmau, Tehsil- Colonel Ganj, District-Gonda, Uttar Pradesh- 271126
2767	Youth and Students Party	R.P. Estates, 4/1, Poonamallee High Road, Koyambedu, Chennai-600107.
2768	Youth Brigade	Village Kakgachi, P.O-Bhanderhali, District Hooghly, West Bengal.
2769	Youth Democratic Front	H.No.1-10-63/5, Plot No.44,Chikoti Gardens,Begumpet, Hyderabad,Andhra Pradesh-500016.
2770	Youth For Equality	P-90A, IInd Floor, South Extension-II,New Delhi - 110034.
2771	Youth India Peace Party	Assessment No.- 18, Village- Katha No.- 215, Yeshwanthpur Hobli, BangaloreNorth Taluk, Bangalore, Karnataka- 560022
2772	Youth Socialist Party	H. No. 248, Sihora Govind (Govind Nagar), Post & Thana – Katghar, Tehsil & District – Moradabad, Uttar Pradesh - 244001.
2773	YSR Bahujana Party	28/434, Rameshwaram, Proddatur-516360, Kadapa District, Andhra Pradesh.
2774	Yug Kranti Dal	H. No.122,Gali No.1,Punjabi Colony (Dharmipur),Samastipur Town,Bihar-848101
2775	Yug Parivartan Party	H. N0. 2179,Motiram Colony,Near Mohit Public School,Noorwala, Panipat <i>Haryana- 132103</i>
2776	Yuva Aam Dal Aadami Vikas	Apra City,Phase-2,Sector-C,Village Mishrauliya State,Post-Mishrauli,Near-Jail Road,Dist.- Basti <i>Uttar Pradesh- 272001</i>
2777	Yuva Anubhav Party	House No. – 393 – I, Haritima, Rajiv Nagar, West Basharatpur, Gorakhpur, Uttar Pradesh.
2778	Yuva Bharat Atmanirbhal Dal	F/49/1A,Ayodhya Nagar,Near Shiv Mandir,N-7,CIDCO,Aurangabad,Maharashtra- 431003
2779	Yuva Bihar Sena	H. No. 17,Batukeshwar Dutta Lane,New Jakkanpur,Patna Bihar-800001
2780	Yuva Jagriti Dal	3-B, Prayosha Flats, Near Gymkhana, Sector-19Gandhinagar-382019,Gujarat.
2781	Yuva Jan Jagriti Party	315, Freeway Trade Centre, Opp. I.O.C Petrol Pump, Narol – Aslali Highway, Ahemdabad, Gujarat- 382427
2782	Yuva Jankalyan Party	Shop No. 06, Laxmi Ashirwad CHS Ltd., Plot No. 23, Sector- 25, Kamothe, District- Raigad, Maharashtra- 410209
2783	Yuva Jankranti Party	Kasba – Kerakat, Mohalla – Shekhzada 2nd , Post – Kerakat, Janpad – Jaunpur, Uttar Pradesh.
2784	Yuva Janta Party	Building No. 91/1, Grant Ganj, Main Market Mahoba, District – Mahoba, Uttar Pradesh - 210427.
2785	Yuva Karnataka Paksha	#66, Anepura Village, Nidharamangala Post, Malur Taluk, Kolar District, Karnataka- 563137
2786	Yuva Kranti Dal	B-667, Aman Vihar, Post Office-Sultanpuri, Distt.-North-West, New Delhi-110 086.
2787	Yuva Krantikari Party	Adarsh Nagar, Road No. 1E, Samastipur, Bihar-848101

2788	Yuva Party	1-8-1-83, Garage No.83, Ground Floor, Baghlingampally, Hyderabad, Andhra Pradesh.
2789	Yuva Party (Democratic)	Plot No. 63, Gurukrupa Society, Panch Faliya, Dabholigam, Katargam, Surat, Gujarat- 395004.
2790	Yuva Sarkar	161, Vanmali Park Society, Harikrishna Chowk, Dharmakul Ashrit Road, Puna-Simada, Surat-394211 GUJARAT.
2791	Yuva Shakti Sanghathana	Bhangdia Wada, Tilak Ward, Tah. Chimur, District – Chandrapur, Maharashtra
2792	Yuva Star Party	Vill.-Akha, P.O.-Jayantigram Isapur Sherpur, P.S.-Bhagvanpur, Distt.-Begusarai, Bihar-851112
2793	Yuva Taram Party	H.No.- 8-1-32/4, Near Hanuman Temple Back Side, Ward No. 8, Block-1, Gattaigudem Village, Palvancho-Mandal, Badradri Kothagudem-District, Telangana- 507115
2794	Yuva Telangana Party	Plot No. 143&144, Rock Town Colony, Alkapuri, Mansoorabad, LB Nagar, Hyderabad- 500068, Telangana
2795	Yuva Vikas Party	Serawan, Atrampur, Allahabad, Uttar Pradesh.
2796	Zoram People's Movement	Treassury Square, Aizawl, Mizoram-796001

TABLE-IV

(LIST OF FREE SYMBOLS)

198.	Air Conditioner
199.	Almirah
200.	Apple (In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Puducherry, Tamil Nadu, Kerala & Karnataka)
201.	Auto- Rickshaw (In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)
202.	Baby Walker
203.	Balloon
204.	Bangles
205.	Basket containing Fruits (In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)
206.	Bat
207.	Batsman
208.	Battery Torch
209.	Bead Necklace
210.	Belt
211.	Bench
212.	Bicycle Pump
213.	Binoculars
214.	Biscuit
215.	Black Board
216.	Boat with Man and Sail
217.	Box
218.	Bread

219.	Bread Toaster
220.	Bricks
221.	Brief Case
222.	Brush
223.	Bucket
224.	Cake
225.	Calculator
226.	Camera
227.	Can
228.	Capsicum
229.	Carpet
230.	Carrom Board
231.	Cauliflower
232.	CCTV Camera
233.	Chain
234.	Chakki
235.	Chapati Roller
236.	Chappals
237.	Chess Board
238.	Chimney
239.	Clip
240.	Coat
241.	Coconut Farm
242.	Colour Tray & Brush
243.	Computer
244.	Computer Mouse
245.	Cot <i>(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)</i>
246.	Crane
247.	Cube
248.	Cup & Saucer
249.	Cutting Pliers
250.	Diamond
251.	Diesel Pump
252.	Dish Antenna
253.	Dolli
254.	Door Bell
255.	Door Handle <i>(In all States and Union Territories except in the States of Uttar Pradesh and Uttarakhand)</i>
256.	Drill Machine
257.	Dumbbells
258.	Ear Rings <i>(In all States and Union Territories except in the States of Tamil Nadu, Puducherry, Kerala and Karnataka)</i>
259.	Electric Pole
260.	Envelope

261.	Extension Board
262.	Flute
263.	Football (In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura)''
264.	Football Player
265.	Fountain
266.	Frock
267.	Frying Pan
268.	Funnel
269.	Ganna Kisan
270.	Gas Cylinder
271.	Gas Stove
272.	Gift Pack
273.	Ginger
274.	Glass Tumbler
275.	Gramophone
276.	Grapes
277.	Green Chilli
278.	Hand Cart
279.	Harmonium
280.	Hat (In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)
281.	Head Phone
282.	Helicopter
283.	Helmet
284.	Hockey and Ball
285.	Hour Glass
286.	Ice Cream (In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)
287.	Immersion Rod
288.	Iron (In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh & Telangana)
289.	Jackfruit
290.	Kettle (In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)
291.	Kitchen Sink
292.	Lady Finger
293.	Lady Purse (In all States and Union Territories except in the States of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and West Bengal)''
294.	Laptop
295.	Latch
296.	Letter Box
297.	Lighter
298.	Ludo
299.	Lunch Box

300.	Man Blowing Turha
301.	Matchbox
302.	Mike
303.	Mixee
304.	Nail Cutter
305.	Neck Tie
306.	Noodles Bowl
307.	Pan
308.	Pants
309.	Peanuts
310.	Pears (<i>Except in Tamil Nadu and Pudducherry</i>)
311.	Peas
312.	Pen Drive
313.	Pen Nib with Seven Rays
314.	Pen Stand
315.	Pencil Box
316.	Pencil Sharpener
317.	Pendulum
318.	Pestle and Mortar
319.	Petrol Pump
320.	Phone Charger
321.	Pillow
322.	Pineapple
323.	Plastering Trowel
324.	Plate Containing Food
325.	Plate Stand
326.	Pot
327.	Pressure Cooker
328.	Punching Machine
329.	Razor
330.	Refrigerator
331.	Ring
332.	Road Roller
333.	Robot
334.	Room Cooler
335.	Room Heater
336.	Rubber Stamp
337.	Safety Pin
338.	Saw (<i>In all States and Union Territories except in the State of Kerala</i>)
339.	School Bag
340.	Scissors
341.	Sewing Machine
342.	Ship
343.	Shoe

344.	Shutter
345.	Sitar
346.	Skipping Rope
347.	Slate
348.	Soap Dish
349.	Socks
350.	Sofa
351.	Spanner (<i>In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand</i>)
352.	Stapler
353.	Stethoscope
354.	Stool
355.	Stumps
356.	Swing
357.	Switchboard
358.	Syringe
359.	T.V. Remote
360.	Table
361.	Tea Filter
362.	Telephone
363.	Television
364.	Tennis Racket & Ball
365.	Tent
366.	Throwing a Javelin
367.	Tiller
368.	Toffees
369.	Tongs (<i>In all States and Union Territories except in the States of Bihar and Jharkhand</i>)
370.	Tooth Brush
371.	Tooth Paste
372.	Tray
373.	Triangle
374.	Truck (<i>In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh & Telangana</i>)
375.	Trumpet
376.	Tube light
377.	Typewriter
378.	Tyres
379.	Vacuum Cleaner
380.	Violin
381.	Walking Stick
382.	Wall Hook
383.	Wallet
384.	Walnut
385.	Water Melon
386.	Water Tank
387.	Well

388.	Wheel Barrow
389.	Whistle
390.	Window
391.	Winnower
392.	Wool and Needle
393.	Nagrik
394.	Dustbin

By order,

DILIP k. VERMA,
Principal Secretary,
Election Commission of India.